



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2010 (वैशाख 4, 1932)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24—APRIL 30, 2010 (VAISAKHA 4, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 26 मार्च 2010

संदर्भ : बैंपवि. सं. आईबीडी. 16919/23.03.020/2009-2010-- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है :--

“यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड”

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 31 मार्च 2010

संदर्भ : बैंपवि. सं. आईबीडी. 16813/23.13.025/2009-2010-- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :--

“केल्योन बैंक” शब्दों के स्थान पर “क्रेडिट एग्रिकोल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक” शब्द होंगे।

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र सं. 51 दिनांक दिसम्बर 19--दिसम्बर 25, 2009 के भाग-III खण्ड-4 सूची "क" के अंतर्गत पृष्ठ सं. 11906 पर प्रकाशित 9% राहत बांड, 1999 के खोई हुई प्रतिभूति सं. के.एन.-000126 की राशि को रु. 2,00,2000/- के स्थान पर रु. 2,00,000/- पढ़ा जाए।

एस. एम. माने

प्रबंधक

भा.रि.बैं., सबैलेवि, मुंबई-400008

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2010

सं. राआबैंक. एचएफसी. आरईजी-3/सीएमडी/2010--राष्ट्रीय आवास बैंक, संतुष्ट होते हुए कि यह करना आवश्यक है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 35बी द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद्वारा घोषणा करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराएं 29ए, 29 बी एवं 29 सी के प्रावधान किसी आवास वित्त संस्थान, जोकि एक कम्पनी है, पर लागू नहीं होंगे और जो :

- (क) किसी गरीब व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को उन्नत करने में समर्थ बनने के लिए आवासीय इकाई का मूल्य चुकाने के लिए अधिकतम 1,50,000 रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये) का ऋण उपलब्ध कराती है;
- (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस धारक है; और
- (ग) आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुच्छेद 2(1) (डब्ल्यू) में उल्लेखानुसार सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार नहीं करती है।

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कोलकाता-91, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. कभनिस/अ.के.आ./((प.बं.झारखण्ड तथा उ.पू.क्षे.)/1(4) अधिसूचना 2010/468--सा. का. जैसाकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष यह तथ्य उजागर है कि निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में नियोक्ता तथा अधिसंख्यक कर्मचारियों ने अपनी सहमति जताई है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के प्रावधान उनकी निम्नलिखित स्थापनाओं पर प्रयोज्य होने चाहिए।

क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तारीख	सहमति की तारीख
1.	ए.एस./टी.आर./7752	मैसर्स त्रिपुरा ऑब्जर्वर	01.04.2008	01.04.2008
2.	ए.एस./टी.आर./7746	मैसर्स बर्तमान त्रिपुरा	01.04.2008	01.04.2008
3.	ए.एस./टी.आर./7785	मैसर्स जाना उन्नयन समिति	01.03.2009	01.03.2009
4.	जे.एच./31015	मैसर्स पाल ट्रेवल्स	01.04.2008	01.04.2008

अतः उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपरोक्त स्थापनाओं के संबंध में उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तिथियों से उक्त अधिनियम के प्रावधानों को एतद्वारा लागू करते हैं।

एम. एम. दास

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (कोल. जो.)

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 26th March 2010

DBOD.IBD. No. 16919/23.03.020/2009-10—In pursuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :—

"United Overseas Bank Ltd."

ANAND SINHA
Executive Director

The 31st March 2010

DBOD. IBD. No. 16813/23.13.025/2009-10— In pursuance of Clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely :—

For the words "Calyon Bank" the words "Credit Agricole Corporate and Investment Bank" shall be substituted.

ANAND SINHA
Executive Director

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 29th March 2010

N.H.B. HFC. REG-3/CMD/2010—The National Housing Bank, on being satisfied that it is necessary so to do, in exercise of its powers conferred under Section 35B of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) hereby declares that the provisions of Sections 29A, 29B and 29C of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) shall not apply to any housing finance institution which is a company and which is :

- (a) Providing credit not exceeding Rs. 1,50,000/- (Rupees one lac Fifty thousand) for meeting the cost of a dwelling unit to any poor person for enabling him to raise his/her standard of living;
- (b) Licensed under section 25 of the Companies Act, 1956; and
- (c) Not accepting public deposits as defined in paragraph 2(1)(w) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001, as amended from time to time.

S. SRIDHAR
Chairman and Managing Director

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Kolkata-700091, the 31st March 2010

No. EPFO/ACC/WB, JH&NER/1(4)Notification/2010/468-S.O—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), hereinafter referred to as the said Act, should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name of Establishment	Date of coverage	Dated of consent
1.	AS/TR/7752	M/s. Tripura Observer	01.04.2008	01.04.2008
2.	AS/TR/7746	M/s. Bartaman Tripura	01.04.2008	01.04.2008
3.	AS/TR/7785	M/s. Jana Unnayan Samity	01.03.2009	01.03.2009
4.	JH/31015	M/s. Pall Travels	01.04.2008	01.04.2008

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

M. M. DAS
Assistant P. F. Commissioner
(WB, JH & NER)

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्
नई दिल्ली

दिनांक

सं. 13-32/2010 - के० हो० प०/के० हो० र० - VIII - होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 की 59वां) की धारा 21 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 15 के प्रावाधानों के अनुरूप केन्द्रीय परिषद्, एक रजिस्टर का रखरखाव करती है। जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर कहा जाता है। उक्त रजिस्टर के भाग - I को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

क्रम सं. 1 से 20243, 20244 से 33097, 33098 से 37359, 37360 से 39961, 39962 से 45989 तक केन्द्रीय रजिस्टर भाग 1 में राजपत्र सं. 1, भाग - III, खण्ड 4 में जनवरी 2, 1993; अक्टूबर 9, 2004; मई 26, 2007; नवम्बर 15, 2008; एवं अगस्त 8, 2009 में क्रमशः प्रकाशित हो चुके हैं।

डा० ललित वर्मा
रजिस्ट्रार
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

क्रम सं०	नाम	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नाम	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	पिता / पति का नाम			पता : (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	अर्हाए (क) संचारण (ख) आयुर्विज्ञान संस्थी	अर्हाए प्राप्त करने की तारीख	उस संस्था का नाम जहाँ से राजस्तर किए जाने योग्य अर्हाए प्राप्त की गई थी	राज्य जिसमें राजस्तर है और राज्य राजस्तर में दिया गया राजस्तर संचालक	राज्य राजस्तर में दिया गया राजस्तर संचालक	अतिरिक्त आयुर्विज्ञान अर्हाए तथा उन्हें प्राप्त करने की तारीख और अर्हाए प्रदत्त करने वाले अधिकारी का नाम			
45990	आरती ललित	डी० के० ललित		46, सैक्टर-13, अरबन इस्टेट, मुरुखेत्र	बी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब युनिवर्सिटी चण्डीगढ़	हरियाणा	5.03.06	575-ए			
45991	अनिल चन्द	श्री जनक राज अरोट		मकान सं० 318, हरि निवास, किदवई नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	6.10.1995	1548			
45992	अब्दुल क़दरी			गोव दादरा, पो० ओ० दादरा, जिला कापूरथल, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	रोई ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	असम	10.05.85	153			
45993	अनिक	श्री कृष्णा प्रकाश		जवाहर नवोदय विद्यालय, मनदाफिया सिटी, जिला बिहारगढ़	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	डी० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4882			
45994	अनपनी गीतम			हेनिमन होम्यो डिस्टेंसरी, पो० ओ० सिलचर, जिला कचर, असम	डी० एच० एच० एच०	मई - 1991	रोई ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	राजस्थान	22.08.99	491			
45995	अनपनी निताई चन्द			गोव व पो० ओ० जय बोपुर, जिला कचर, असम	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	रोई ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	असम	09.11.84	94			
45996	अनिल देवारी			जे० एच० रोड, गोलपारा, पो० ओ० गोलपारा, जिला गोलपारा, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1991	रोई ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	असम	24.04.2001	792			
45997	अदिति	पुत्री श्री स्वप्न कुमार गर्ग		हन्डिया बाजार, बरगला, जिला सनाकर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	5.7.1999	2059			
45998	अनिल आर्य	श्री सुरेश चन्द अनिल		153, कटरा शमशेर खान, ईटाता, उत्तर प्रदेश - 208001	बी० एच० एच० एच०	2008	युनिवर्सिटी ऑफ बरदवान	वेस्ट बंगाल कोशिल कोलकाता	23.6.08	27149		सी० सी० एच० - 2802	
45999	अनिल सपना	श्री राम बाबू गुप्ता		4, राधदा कालोनी, 80 फीट एंड, महेरा नगर, जिला-जयपुर, सिटी - जयपुर	बी० एच० एच० एच०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी	राजस्थान	28.02.2008	4988			
46000	अनिल रितु राज	श्री मनोहर दास अनिल		श्री एम. अनिल कालोनी, पो० ओ० बनसार-828108, जिला-बनारस (आरखण्ड)	बी० एच० एच० एच०	2006	युनिवर्सिटी ऑफ बरदवान	वेस्ट बंगाल कोशिल कोलकाता	21.2.06	26082		सी० सी० एच० - 2882	
46001	अनिल शालु	श्री मनोहर दास अनिल		मकान नं० 1124, फेज 11, सास नगर, मोहाली, सेक्टर 14, जिला रोपर (पंजाब)	बी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	26.4.1998	1822			
46002	अनिल अनुप	श्री एच० के० अनिल		202, बर्मन नगर, जिला-जयपुर, सिटी-जयपुर	बी० एच० एच० एच०	विसम्बर - 2000	कनॉटिक युनिवर्सिटी	राजस्थान	18.03.2007	4823			
46003	अनिल अनुपम	श्री एच० ओ० अनिल		13, इन्वस्टिगल एरिया, बिलासपुर	बी० एच० एच० एच०	2003	राजा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	19.01.06	180-ए			

अप्रवाह दिनेश	अप्रवाह कुभार	खेत राम अपवाह	रंग होथो, विलिनिक, सिटी होस्पिटल के नजदीक, डबरा चौक, हिसार	डी० एम० एम० एम०	अप्रवाह - 1986	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	9.03.89	6477-ए
अप्रवाह नरेन्द्र कुभार	एम० अम० अपवाह	बस स्टैंड, अटली मन्डी, जिला - महेंद्रगढ़	डी० एम० एम० एम०	सितम्बर - 1984	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	हरियाणा	14.11.84	5608-ए
अप्रवाह अनिता	श्री को० श्री अपवाह	मं० नं०-271, न्यू दीप नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2004	पंजाब	पंजाब	पंजाब	8.4.1998	1831
अप्रवाह अंशुश	श्री जवाहर लाल अपवाह	गुरु नानक नगर, स्ट्रीट नं०4, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	2003	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	पंजाब	26.09.2006	3083
अप्रवाह अंजुजा	श्री ओ० पी० अपवाह	पी/3-2, चर्च रोड, फिरोजपुर कैंट (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	पंजाब	22.07.2005	2899
अप्रवाह गौरव कुभार	श्री अशवनी कुमार अपवाह	मकान नं०1765, फेज 7, मोहाली, वैदिक लखर, जिला एच० (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	पंजाब	13.8.1998	1907
अप्रवाह नेहा	श्री को० को० अपवाह	98-डी, किशतु नगर, लुधियाना	डी० एम० एम० एम०	2005	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	पंजाब	30.05.2007	3114
अप्रवाह निशा	श्री सुष्म कुभार	मं० नं०3172, न्यू टैमोर नगर, हैदराबाद, लुधियाना	डी० एम० एम० एम०	1986	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	पंजाब	23.04.2007	3091
अप्रवाह प्रकाश कुभार	पुत्र श्री गुला लाल अपवाह	37 सातव अन्तर कसी एस्टेट, कृष्णा नगर, दिल्ली - 110051	डी० एम० एम० एम०	2006	पंजाब	पंजाब	पंजाब	27.11.1987	1028
अप्रवाह प्रवेश	एम० पी० अपवाह	अप्रवाह होथो डिस्पेंसरी, आगरा चौक, जी०टी० रोड, पलवल	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1990	आगरा युनिवर्सिटी	हरियाणा	हरियाणा	28.04.93	5576-ए
अप्रवाह रिची	पुत्री श्री इन्दुपाल अपवाह	मं०नं० 77, स्ट्रीट नं०22, जालंधर कैंट (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	पंजाब	18.1.2000	2185
अप्रवाह रितेश	श्री रति अपवाह	राम नगर बी-1-1375, सिविल लार्डन्स, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	पंजाब	21.2.2000	2224
अप्रवाह शालु	श्री राम अपवाह	79, वीर कालोनी, मटिका (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	पंजाब	27.11.1998	1986
अप्रवाह शिखा	श्री हरी ओम अपवाह	मं०नं० 321, मोहल्ला अला पोस्ट आडिच रोड जिला - जलन्धर	डी० एम० एम० एम०	2003	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	पंजाब	24.10.2005	2938
अप्रवाह सुमित	श्री सतीश अपवाह	घौडा बाजार, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	पंजाब	16.11.1999	2171
अप्रवाह सुनिल	श्री सोम अपवाह	197-ए, आनर नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	पंजाब	26.11.1999	2174
अप्रवाह अलोक	बी० डी० अनिराणी	1894, सैक्टर-15, पंचकुला	डी० एम० एम० एम०	सितम्बर - 1978	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	हरियाणा	15.09.82	3457-ए
अप्रवाह निनामी	श्री० आर० सी० अनिराणी	11-ए, टेक्सटाईल कालोनी, इन्फेस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना	डी० एम० एम० एम०	2004	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	पंजाब	05.11.2005	2958
अप्रवाह नेहा	श्री रंजिता चंद गुला	113/83, कुम्मा मार्ग, प्रताप नगर, संगरौर, जिला जयपुर, सिटी - जयपुर	डी० एम० एम० एम०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	राजस्थान	26.11.2006	5145
अप्रवाह रिशी	श्री राम नारायण अपवाह	137, सुदी नगर, गोपाल पुरा, बाईपास, गणेश मार्ग, जिला-जयपुर, सिटी-जयपुर	डी० एम० एम० एम०	मार्च - अप्रैल 2006	डी० एम० यु० इन्दौर	राजस्थान	राजस्थान	22.07.2008	5050
अप्रवाह महेश	श्री सीकी लाल अपवाह	137, सुदी नगर, गोपाल पुरा, बाईपास, गणेश मार्ग, जिला-जयपुर, सिटी-जयपुर	डी० एम० एम० एम०	2006	राजस्थान युनिवर्सिटी	राजस्थान	राजस्थान	11.08.2008	5030

[illegible]

46058	अली मोहम्मद खुरेद	गो. जिला, पो.ओ. गंगरापारा, जिला कामरूप, असम	डी.ओ. एस. एस. एस.एस.	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.05.85	149	
46059	अली नूर हुरीन	रामेश्वर, पो.ओ. नगरदेवा, जिला - कामरूप, असम	डी.ओ. एस. एस.एस.	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.05.85	140	
46060	अली सैयुल	सी./ओ. मो. सुकुन अली चर्च रोड, पो.ओ. बुदरी, असम	डी.ओ. एस. एस.एस.	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.07.98	484	
46061	अली सुलेमान	एस.एस. रिसर्व - डायमंडस्टिक एण्ड कपूर सेक्टर, नयनपुर, गंगरपुरी, गुवाहाटी-6	डी.ओ. एस. एस.एस.	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.06.98	507	
46062	अलका	श्री अशोक कुमार नं. नं. 1828, फेज-5, मोहाली	बी.ओ. एस. एस.एस.	2001	पंजाब	पंजाब	21.03.2003	2813	
46063	अकोला	सी./ओ. श्री आर. के. शर्मा, नं. नं. 31, राम नगर, गो. ककई, पो.ओ. रिन्द दकोहिया, जिला - जलहर (पंजाब)	डी.ओ. एस. एस.एस.	1989	पंजाब	पंजाब	4/1/1991	1228	
46064	अकोला	सी./ओ. जिवन्दल होथो जिलानिक कोर्टस कालोनी, सिरसा	डी.ओ. एस. एस.एस.	1989	कोसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	22.07.91	5548-ए	
46065	अलाम सुहेल	सी./ओ. ए. अली मोहम्मद सुन्दरन नगर, नं. नं. 8, हटीमोद, गुवाहाटी-36	बी.ओ. एस. एस.एस.	अगस्त - 2005	विदुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	12.10.06	968	
46066	अलीम जुल्फीकार	गो. मोनोपुर, पो.ओ. बागडीवाडी - 783399, जिला - दुबरी, असम	डी.ओ. एस. एस.एस.	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	14.08.2001	811	
46067	अमन सगम	जनत विला, पी.पी.ओ. मऊपुर, सुन्दर नगर, जिला - मन्दी	बी.ओ. एस. एस.एस.	2008	राजस्थान विवाहित (डी.एच. युनिवर्सिटी), उदयपुर	हिमाचल प्रदेश	11.07.08	195-ए	
46068	अम्बिका देवी	अमवाल स्ट्रीट जिरा, जिला - फिरोजपुर	बी.ओ. एस. एस.एस.	2004	बी.एस. यु. एस.एस.	पंजाब	24.10.2005	2916	
46069	आशिम नुसल	गो. प्रबलोजपुर, पी.ओ. न्यू, बोनियागाँव - 783381, जिला बोनियागाँव, असम	बी.ओ. एस. एस.एस.	अगस्त - 2005	विदुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	23.11.06	990	
46070	अमित हान्डा	नं. नं. 1763, फेज 3-बी.2, मोहाली, जिला एस.एस. नगर, रोपड़ (पंजाब)	डी.ओ. एस. एस.एस.	1996	पंजाब	पंजाब	1.12.1997	1735	
46071	अमितेश्वर	10, अजीत नगर, सुलतानगढ़ रोड, अमृतसर (पंजाब)	डी.ओ. एस. एस.एस.	1998	पंजाब	पंजाब	13.9.2000	2361	
46072	अमोल चन्द	सखलर मुक्तसर रोड, जलालाबाद सेक्टर, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी.ओ. एस. एस.एस.	जनवरी - 1991	विहार युनिवर्सिटी	पंजाब	20.7.1988	1876	
46073	अमरि सिंह	नं. नं. 856, फेज-7, मोहाली (पंजाब)	डी.ओ. एस. एस.एस.	1999	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2411	
46074	अमरि पाल	नं. नं. यु. 2/3164, प्रीत विहार, छेलाबाद रोड, अमृतसर	बी.ओ. एस. एस.एस.	2004	बी.एस. यु. एस.एस.	पंजाब	24.10.2005	2920	
46075	अनल रूपन्द रोदनी	पटनाई एजुकेशन आफिस कालोनी, पो.ओ. जपोक बाजार, चन्देल मणीपुर	बी.ओ. एस. एस.एस.	अक्टूबर - 2008	विदुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	12.06.08	1081	

46076	अनामिका	श्री सतपाल शर्मा पटियाल (पंजाब)	ग्रु नं० 4562/2, चाटा नानुमल, जिला पटियाल (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1995	पंजाब	पंजाब	17.7.1997	1717		
46077	अनामिका	श्री मधुरा मोहन पवीपार	सी./ओ. श्री सी.बी. राणा, नं० 148, एकस्टेशन-2, गंगलीई, नई दिल्ली	डी० ए० ए० ए०	2008	डी० सी० ए० युनिवर्सिटी	हिसार बोर्ड	19.5.08	26624		सी० सी० ए० -2669
46078	आनन्द प्रार्थना	श्री अशोक आनन्द	नं० 3642, रूडि नं०-13, न्यू शिवजी नगर, लुधियाना	डी० ए० ए० ए०	2005	डी० ए० ए० यु० ए० ए०	पंजाब	04.01.2007	3078		
46079	आनन्द सन्ध्या	पुत्री श्री चर्चपाल आनन्द	आनन्द मेडिकल हॉल, रैन बाजा बासी पखाना जिला फतेहागढ़ साहिब (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1994	पंजाब	पंजाब	19/9/1995	1539		
46080	अनीस शारिया	श्री अनीसुर राहमन खान	सी./ओ. शर्मा रोडर्स, 14-15, डुगगांध, अम्बावरी, सिटी-जयपुर, जिला-जयपुर	डी० ए० ए० ए०	जुलाई - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी	राजस्थान	11.06.2008	5023		
46081	अंनरा मोनिका	पुत्री श्री आर० डी० अंनरा	हाल कोठी-10 सी. एम. सी. कैम्पस, बालन रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1998	पंजाब	पंजाब	20.4.2000	2247		
46082	अनिल कुमार	सत्यवीर सिंह	1) पी०पी०ओ० जन्देरी, जिला पिवानी 2) सोनी बवासीर होस्पिटल (होमियो), विपिन कामलेक्स, दुकान नं० 82, मईनगढ़	डी० ए० ए० ए०	1990	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	14.11.94	5609-ए		
46083	अनिल कुमार	श्री ओम प्रकाश सिंह	सी./ओ. श्री अजय सिंह, 108-क्यू नगर-2, मेहरा नगर, सिटी-जयपुर, जिला-जयपुर	डी० ए० ए० ए०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	28.1.2009	5185		
46084	अनिमेश दीप	श्री कमलीत सिंह	एच. आई. जी. 680, फेज-9, मोहाली	डी० ए० ए० ए०	1999	पंजाब	पंजाब	12.03.2001	2485		
46085	अनिता	पुत्री श्री मदन मोहन आनन्द	12, अजयिज बागा सवर नगर, रेलवे लाका रोड, अमृतसर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1998	पंजाब	पंजाब	23.10.1998	1984		
46086	अनिता	श्री अमर चंद	डी०-163, परिवहन नगर, खालीपुरा रोड, सिटी-जयपुर, जिला-जयपुर (राजस्थान)	डी० ए० ए० ए०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5111		
46087	अनिता गर्ग (मेकन नेम) श्रीमति अनिता सिन्हा (विवाहित नाम)	पत्नी श्री पवन सिन्हा	297-सी, गार्ड राकसी सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1988	पंजाब	पंजाब	19/01/1990	1186		
46088	अंजली	श्री अशोक मेहरा	कै० नं० 377, फेज-1, मोहाली	डी० ए० ए० ए०	2002	पंजाब	पंजाब	21.01.2004	2680		
46089	अंजना रानी	श्री सारपाल सिन्हा	पटेल नगर, रूडि नं० 8, मलौट, जिला मुक्तसर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1998	पंजाब	पंजाब	16.12.1997	1753		
46090	अंजना रानी	पत्नी संजीव कुमार	28/6, हकीमा नगर, रेलवे रोड, निहार आर्ब समाज मंदिर, बिन्द	डी० ए० ए० ए० (GDC)	जून - 2005	बारा फरीद युनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	3.08.07	5802-ए		
46091	अनूप ज्योती	श्री डी० के० वर्मा	अर्जुन नगर, तरण तारण रोड, अमृतसर	डी० ए० ए० ए०	2003	डी० ए० ए० यु० ए० ए०	पंजाब	18.05.2005	2887		
46092	अंशुली जायदे	गौरी टेन्ना बस्ती, पी०ओ० बकाला, जिला सोनीतपुर, असम		डी० ए० ए० ए०	अगस्त - 2005	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.06.98	620		

46113	अरोड़ा अजय	श्री कोशल कृष्ण	नं० नो 3519/1, प्रीति नगर, मोडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	श्री एम एम एम	1994	पंजाब	पंजाब	21/1996	1653	
46114	अरोड़ा अननदीप सिंह	पुत्री श्री सुरजीत सिंह	अयोधित कोट रोड, कोटकापुरा, जिला-मुक्तसर (पंजाब)	श्री एम एम एम	1997	पंजाब	पंजाब	27.11.1998	1996	
46115	अरोड़ा अंजली अरोड़ा	पुत्री श्री कोशल सिंह	19-फेब्रुवारी, संगरूर (पंजाब)	श्री एम एम एम	1998	पंजाब	पंजाब	21.1.2000	2193	
46116	अरोड़ा अनु शाला	श्री प्रेम कुमार	मिर्चट्रीयन मोहल्ला, नं० नो बी-बी, 325, फरीदकोट (पंजाब)	श्री एम एम एम	1998	पंजाब	पंजाब	19.02.1998	1802	
46117	अरोड़ा अनुश	श्री नरेश कुमार अरोड़ा	पुला स्ट्रीट, फोर्जे रोड, कोटकापुरा, जिला फरीदकोट (पंजाब)	श्री एम एम एम	2006	पंजाब	पंजाब	02.07.2008	3245	
46118	अरोड़ा विपिन	श्री अशोक अरोड़ा	35, अशोक विहार, ऋषि नगर, पीठकोट सिविल हार्बन्स, लुधियाना	श्री एम एम एम	2003	पंजाब	पंजाब	30.06.2006	3032	
46119	अरोड़ा हनी अरोड़ा	श्री रमेश कुमार	152, स्ट्रीट नं० 2, न्यू डीप नगर, लुधियाना	श्री एम एम एम	2003	पंजाब	पंजाब	05.04.2005	2857	
46120	अरोड़ा मधु	श्री वरसीम जाल	बी-34/2254, जोशी नगर, हैमवाल कनॉ, लुधियाना	श्री एम एम एम	1990	पंजाब	पंजाब	30.05.2003	2837	
46121	अरोड़ा मधु	श्री जगदीश सारन	लक्ष्मी निवास 3242, पुलीचर, गली नं० 1, अमृतसर (पंजाब)	श्री एम एम एम	नवम्बर - दिसम्बर 2004	पंजाब	पंजाब	09.07.2007	3139	
46122	अरोड़ा महेंद्र कौर अरोड़ा	श्री शरणजीत सिंह	नं० नो 128, फेज 1, अरसन इस्टेट पुनरी, लुधियाना	श्री एम एम एम	2004	पंजाब	पंजाब	24.10.2005	2930	
46123	अरोड़ा मधु	पुत्री श्री एम एम अरोड़ा	नं० नो 2875, फेज-7, मोहाली, रोहसील खरक, जिला रोहता (पंजाब)	श्री एम एम एम	1996	पंजाब	पंजाब	30.3.1999	2021	
46124	अरोड़ा भीम	श्री जगदीश चंद	ई-164, रणबीर सिंह नगर, लुधियाना	श्री एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	05.05.2001 3.07.2007	2456	श्री एम एम एम (श्रीविहारी सिंह) मई - जून 2006 श्री एम एम एम एम
46125	अरोड़ा भीम	श्री आनन्द कुमार अरोड़ा	श्रीमतीजी बाबा राय कली, रोहसील नकोर, जिला जालंधर (पंजाब)	श्री एम एम एम	मई - जून 2005	पंजाब	पंजाब	19.06.2007	3127	
46126	अरोड़ा मूल	श्री कृष्ण चंद	बी-34/6817, स्ट्रीट नं० 2, न्यू विजय नगर, लुधियाना	श्री एम एम एम	2003	पंजाब	पंजाब	25.07.2006	3034	
46127	अरोड़ा पाकल अरोड़ा	श्री एम पी अरोड़ा	एम. एन. -340, फेज-9, मोहाली	श्री एम एम एम	2001	पंजाब	पंजाब	06.05.2003	2833	
46128	अरोड़ा पूजा	पुत्री श्री जगदीश सारन अरोड़ा	नं० नो 2039, ईस्टर 71, मोहाली, रोहसील खरक, जिला रोहता (पंजाब)	श्री एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	5.10.1999	2143	
46129	अरोड़ा रानी	श्री निरंजन सिंह	लक्ष्मीनगर चौक, अमृतसर (पंजाब)	श्री एम एम एम	1994	पंजाब	पंजाब	30.3.1998	1619	
46130	अरोड़ा रेनु	श्री लखवीन कुमार	नं० नो 305, प्रीतिम अपार्टमेंट्स, पञ्जाब रोड, मुक्तसर नगर, लुधियाना	श्री एम एम एम	2006	पंजाब	पंजाब	19.05.2008	3225	
46131	अरोड़ा सिलीका अरोड़ा	श्री सुन्दर पाल	नं० नो 689, फेज - 3, बी. 1, मोहाली	श्री एम एम एम	2001	पंजाब	पंजाब	06.06.2004	2709	
46132	अरोड़ा रिंकी	पुत्री श्री अमृतार सिंह	नं० नो 14505 गली नं० 8, गगान नगर, होलेवाला चौक, लुधियाना (पंजाब)	श्री एम एम एम	1993	पंजाब	पंजाब	4/7/1995	1503	

46133	अरोड़ा संदीप	श्री जे0 एन0 अरोड़ा	म0 नं0 1822, फेज-5, मोहाली, तेहसील खरक, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी0 एच0 एस0 एस0	1999	पंजाब	3.7.2000	2298	
46134	अरोड़ा सुप्रिया	श्री विजय अरोड़ा	म0 नं0 2, गार्डन कालोनी, मिरिह टोह, चाकौर शिब, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी0 एच0 एस0 एस0	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी0 एच0 यु0 एच0 एस0 पंजाब	02.04.2008	3164	
46135	अरोड़ा टिमले	श्री अशोक अरोड़ा	म0 नं0 809/22, सेक., 5 शान नगर भारत नगर, लुधियाना	डी0 एच0 एस0 एस0	2004	डी0 एच0 यु0 एच0 एस0 पंजाब	24.10.2005	2939	
46136	आर्या प्रियंका	श्री ए0 एस0 आर्या	प्रमू जनरल स्टोर, लोवर बाजार, सोलन	डी0 एच0 एस0 एस0	2008	जे0 आर0 नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी-डू यूनिवर्सिटी), उदयपुर	6.08.08	205-ए	
46137	अरद रहमान	श्री अरदुल्लाह	म0 नं0 10-13, मेलरकाटला, जिला संगरूर (पंजाब)	डी0 एच0 एस0 एस0	1992	पंजाब	12/10/1993	1358	
46138	अरकाक मोहम्मद		22/4ए/1-के.टी. रोड, काशीपुर, कोलकाता-2, वेस्ट बंगाल	डी0 एच0 एस0 एस0	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.03.08	1025	
46139	आशिमा	श्री कवर मोहिन्द सिंह	ए.58, डी.एल.एफ. कालोनी, ओपेण्ट जिला परिषद्, त्रिपुरा, पटियाला	डी0 एच0 एस0 एस0	2002	पंजाब	19.11.2003	2647	
46140	आशिमा	श्री जे0 एच0 नन्दा	149, आलम नगर, पी.ओ. मीडल टाउन, लुधियाना	डी0 एच0 एस0 एस0	2004	डी0 एच0 यु0 एच0 एस0 पंजाब	05.11.2005	2952	
46141	अशोक कुमार	श्रीर सिंह वर्मा	नियर अग्रवाल कालेज, सतपाल महील्ला, झज्जर	डी0 एच0 एस0 एस0	सितम्बर - 1988	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	12.09.89	5622-ए	
46142	अशोक कुमार	रोशन बाल	1) 990, सैक्टर-11, पंचकुला 2) बुध नं0-85, शांतिन सेंटर, सैक्टर-15, पंचकुला	डी0 एच0 एस0 एस0	सितम्बर - 1978	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	28.11.94	5616-ए	
46143	अशोक कुमार	अनर नाथ अग्रवाल	742, सैक्टर-7, पंचकुला	डी0 एच0 एस0 एस0	दिसम्बर - 1982	डी0 एच0 एस0 एम0, पंजाब	23.12.97	5653-ए	
46144	अशोक कुमार	एस0 एस0 यादव	एम.आई.जी. 280, हावसिंग बोर्ड कालोनी, कालका	डी0 एच0 एस0 एस0	1987	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	8.11.01	5680-ए	
46145	अश्वानी कुमार	देव राज दास	पी.ओ., लाडवा जिला कुल्सेत्र	डी0 एच0 एस0 एस0	सितम्बर - 1979	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	28.12.82	3486-ए	
46146	अटल कपिला	पुत्री श्री मोहिन्द पाल कपिला	22, सिंह पीठ मार्ग, नियर न्यू डाब्डी स्वामी मंदीर, सिविल लाईन्स, लुधियाना (पंजाब)	डी0 एच0 एस0 एस0	1999	पंजाब	22.1.2001	2410	
46147	अतर पुरुषोत्तम	श्री मोहर सिंह	डी0 पी0ओ0 हरसीर तार, बरसात जिला हमीरपुर (एच.पी.)-174308	डी0 एच0 एस0 एस0	1985	पंजाब	30/09/1986	928	
46148	अत्री अश्विनी कुमार	श्री राम अत्रा अत्री	वास विला फुलवाला बाजार, रंग (एच.पी.)	डी0 एच0 एस0 एस0	1994	पंजाब	18/12/1995	1561	
46149	अवतार सिंह	श्री सरलन सिंह	मि0 पी0ओ0 सहलीन रोड, जिला नवनाराहर - 144421	डी0 एच0 एस0 एस0	1985	पंजाब	20/08/1986	1830	
46150	अवतार सिंह विलखु	श्री दर्शन सिंह	डी0 पी0ओ0 टिबा रोड, सुल्तानपुर लोभी जिला कपूरथला (पंजाब)	डी0 एच0 एस0 एस0	1993	पंजाब	13/05/1996	1592	

48151	अवधूती दिवसी	पुत्री श्री मुक्त राज गोविंद मालपुर, पी.ओ. किडी खुर्द, तह. पठानकोट, जिला गुरुदासपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1989	पंजाब	पंजाब	16.2.2000	2221	
48152	अवाटी मनीषा रमेश	पुंटी/पी.ओ. महेशाल रा-मिराच, जिला सांगली, महाराष्ट्र स्टेट - पिन - 416409	डी० एम० एम० एम०	2007	महाराष्ट्र युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नाशिक	महाराष्ट्र कॉपिल मुंबई	31.10.07	43858	डी० सी० एम० -2885
48153	आजाद अयुल कलाम	गोविंद नालीगा, मजेरपारा पी.ओ. दीपिला चौक, जिला - दशग, आंध्रप्रदेश	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	डी० ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.04.85	125	
48154	आजाद विशाल जेजिवाल	रुक्म्यु-285, बड़ा बाजार, हस्ती सिख, जलंधर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	26.07.2000 09.11.2005	2532	डी० एम० एम० (सिडिब डिबी) 2003 डी० एम० एम० यु० एम० एम०
48155	अजीतुर रहमान	होवली होमियो क्लिनिक अमरी होवली टाउन, पी.ओ. होवली 781316, जिला - बोरपेटा, आंध्रप्रदेश	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 1992	डी० ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.05.2001	591	
48156	बी. अमिका	सैन्ट्रल स्टेट फार्म लमोवाल, जिला कुश्मिका (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	10/11/1986	945	
48157	बेबर दिवसी	मार्फत / डी० कमल खंडेलवाल, 68/ए. किर्ती नगर, टोन्क रोड, सिटी-जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एम० एम० एम०	अक्टूबर - नवम्बर 2005	राजस्थान	राजस्थान	6.10.2008	5079	
48158	बगा अजय कुमार	मो नं० 2717, सैक्टर 40-सी, चंडीगढ़	डी० एम० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	4/11/1986	939	
48159	बगा रमन दीप	बगा कोस्टल गिल रोड, तह. एवं जिला कुश्मिका (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1984	पंजाब	पंजाब	14/08/1995	1624	
48160	बगा रेनु	पुत्री श्री आर० सी० डी.-30, एम.एफ.एल. कालोनी, मटिन्डा (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	4.8.1999	2105	
48161	बगा राजवीर	283/284, मोटा तेनरा केसरी रोड, पी. ओ. खडकपुर 721301 जिला पश्चिम बिरसापुर, वेस्ट बंगाल	डी० एम० एम० एम०	मई - 1991	डी० ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.12.04	910	
48162	बैदवान नवनीत कोर	मो नं० 1072, 3-बी.2, मोहाली तह. खार, जिला रोहता (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	4/11/1987	1017	
48163	बैदवान रानी	रोम नगर, गार्ड नं० -3, निवर एस्.बी. आई, पी.ओ. सिमाजी, असम	डी० एम० एम० एम०	अक्टूबर - 2006	बिहार युनिवर्सिटी	असम	26.03.08	1033	
48164	बैन्स विरेन्द्र सिंह	मो नं० 207, गडल टाउन, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	4/6/1990	1207	
48165	बैरा पुनीत	मार्फत श्री प्रकाश चन्द बैरा, पंचवटी रेस्टोरेण्ट, जलंधर रोड, सिटी-जयपुर - कोटा, जिला-कोटा (राजस्थान)	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 2007	राजस्थान	राजस्थान	10.10.2008	5123	
48166	बैरा दिव्याज्योती	केजूर आठ - पवन बैरा, गार्ड नं०-3, रसिया 781354, जिला कामरूप, असम	डी० एम० एम० एम०	अगस्त - 1999	डी० ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.10.2000	748	
48167	बैरा कनक चन्दा	हटीगड बागुनिमोहनपुर, गुवाहाटी-21	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	डी० ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.05.85	131	

क्र.सं.	वैय्या राजेरा कुमार	मार्फत—कुलवा वैय्या डब्ल्यू नं.02, लक्षित नगर, गोरपुर, जिला—बुधरी, असम	डी० एच० एच० एच०	आमदुर — 2002	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.11.03	885
46168	वैय्या राजेरा कुमार	मार्फत हरियाम वैय्या, गोंव जगारा, पो.ओ जगारा, जिला — तलबारी, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर — 1989	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.03.99	415
46169	वैय्या तर्कण चन्द्रा	पत्नी श्री सुरेश बजाज	डी० एच० एच० एच०	मई — 2003	ऑसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	22.12.2006	5782-ए
46170	बजाज एकता	181, सैक्टर-4, मंसा देवी काम्पलेक्स, पंचकुला	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	11.9.1998	1921
46171	बजाज पूजा	मं० नं० 812, फेस 7, मोहाली, तेह. खरक, जिला रोहतास (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	21.7.2000	2308
46172	बजाज अमरिन्दर सिंह बजाज	न्यू जामा मस्जिद गलेकोटला, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	27.7.1998	1902
46173	बाजवा इकबाल सिंह	गगनदीप कालोनी, जोधवाल बस्ती, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1973	दिल्ली होमोपैथी बोर्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	हिमाचल प्रदेश	18.12.01	123-ए
46174	बस्ती एस.पी.एस. दबशी	सैक्टर-8, परवान, सोलन	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल — 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.03.84	117
46175	बाल कनकन	तेलिया पानीगाँव, हैबरगोव-2, जिला — नागाँव, असम	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	22.10.1999	2148
46176	बाल शृणा	317, चाल मंडी, फिरोजपुर कैंट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	02.05.2001 24.03.2006	2602 डी० एच० एच० एच० एच०
46177	बाला आदर्श	मं० नं० 1184, स्ट्रीट नं० 6, चौक नं०-8, अमौर जिला, फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच०	2003	पंजाब	पंजाब	14.01.2005	2820
46178	बाला अन्नु	मं० नं० 1329, सैक्टर-23-बी, चंडीगढ़	डी० एच० एच० एच०	2003	पंजाब	पंजाब	25.01.2005	2821
46179	बाला अनु	बी-34, 2777 रोड नगर, हैबोल कला, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2001	पंजाब	पंजाब	04.08.2003 04.08.2006	2841 डी० एच० एच० एच० एच०
46180	बाला इंदु	स्ट्रीट नं० 1, गुरु मानक कालोनी, करीदकोट	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	12/06/1986	903
46181	बाला किरण	बस्ती मधियान वाली जिला जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	21.7.2000	2308
46182	बाला किरण	नियर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बेटा मंडी, जिला मंडा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2001	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2417
46183	बाला किरण	मं० नं० 1757/28, स्ट्रीट नं० 8, ए. — हीरा बाग जगारा, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	03.01.2002	2875
46184	बाला किरण	मार्फत डा० विजय कुमार बेरल, सैन बजाज राहकोट, जिला जालंधर	डी० एच० एच० एच०		पंजाब	पंजाब		

46185	बाला मन्जु लाल	पुत्री श्री मदन लाल	14-डी, धर्मल कालीनी, मटिन्डा (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1995	पंजाब	2.2.2000	2199	
46186	बाला मन्जु लाल	पुत्री श्री जुरेज मल गुप्ता	अन्ज मंडी, सुनाम, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1999	पंजाब	31.8.2000	2343	
46187	बाला नीना	श्री सुन्दर कुमार	इट मोहन नगर, मोल्हन टेम्पल, सुल्तानसिंह रोड, अमृतसर	डी० ए० ए० ए० ए०	1999	पंजाब	15.03.2002	2472	
46188	बाला नीरज	श्री जगदीश कृष्ण सहने	डी-1072, सक्कारिया विहार सिविल लाईन्स, लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1995	पंजाब	27/08/1998	1834	
46189	बाला नीरज	श्री सोम प्रकाश	न० न० 539/119/10, स्ट्रीट न० 5, प्रीति नगर, शिवपुरी, लुधियाना	डी० ए० ए० ए० ए०	2000	पंजाब	17.09.2001	2547	
46190	बाला प्रमोद चन्द	पुत्री श्री दयाल चन्द	न० न० एच.डी-65, फेस-1, मोहाली दी खरड़ जिला रोपड़	डी० ए० ए० ए० ए०	1997	पंजाब	28.9.1998	1989	
46191	बाला रेणू	श्री कृष्ण लाल	एम.आई.जी. 5139, पंचम कोर्पोरेट एच. / बी. सोसायटी, सैक्टर-68, मोहाली	डी० ए० ए० ए० ए०	2001	पंजाब	27.03.2003	2618	
46192	बाला सरिता	श्री हंस राज	वीपीओ परजियान कल्लो, तेरह राहकोट, जिला जालंधर	डी० ए० ए० ए० ए०	2002	पंजाब	18.03.2004	2667	
46193	बाला सरोज	पुत्री श्री हरी राम नर्	न० न० बी०-XII/139, कालेज रोड, बरनाला जिला संगरूर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1998	पंजाब	10/1/1990	1184	
46194	बाला सोनु	पुत्री श्री मोहन लाल	भाग शाली रोड, रत्न मंडी, तलवडी साबो, जिला मटिन्डा (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	9.8.1999	2039	
46195	बाला सुबन	श्री अरजान दास	न० न०-112, आदर्श कालोनी, निगर माइलन कुली, पटियाला (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1995	पंजाब	10.4.1997	1698	
46196	बालन्दी विरेन्द्र कुमार	श्री निखल राज	स्ट्रीट न० 4, कर्म नगरी, बबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1995	पंजाब	24/2/1987	971	
46197	बलदेव कृष्ण शर्मा	श्री अमर नाथ शर्मा	वीपीओ जयपाली 141421, रोड खन्ना जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1995	पंजाब	10/11/1986	944	
46198	बलदेव कृष्ण	श्री राम कृष्ण	स्ट्रीट न० 12, सेल्फेड चौक, अंबोहर, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	14.7.1998	1886	
46199	बाली सुषमा	श्री रात राल शर्मा	न० न० ई.एस.286, आबापुर, स्ट्रीट न० 1, पी.ओ. मार्ग नगर, जालंधर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	20.7.1998	1883	
46200	बलदेव विरेन्द्र	डॉ० परमल कुमार बलदेव	गॉव एवं पी.ओ. कमपुपुर, जिला हुसली, सेक्टर बंगाल - 712812	डी० ए० ए० ए० ए०	2003	सेक्टर बंगाल कासिल	12.10.04	25525	सी० सी० ए० - 2570
46201	बाल बोलकर	श्री हरबोम बाल	1) सिक विनेज पी.ओ./पी.एस. तिकावली, जिला सेक्टर सिवांग, अरुणाचल प्रदेश 2) मार्कट मिसेज पुनेम बाम आर.सी.एस. आफिस, डी. सेक्टर माहलामुन, अरुणाचल प्रदेश	डी० ए० ए० ए० ए०	28.01.2008	विदुषक युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	4.02.2008	79	
46202	बाला अर्चना	श्री मनमोहन बाला	55, दासजीपुरी अपार्टमेंट्स, गाल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1994	पंजाब	13/08/1996	1616	
46203	बालीन सनेनलंग		गॉव - सतगा - डी.पी.ओ. सतगा पी.ओ. कलहसिया जिला जयपिया हिस्स, मेचालय	डी० ए० ए० ए० ए०	अगस्त - 1995	गॉव ऑफ होम्प्रीसी सिस्टम ऑफ मैनेजिन, असम	31.12.92	568	

46204	बैजू बासुदेव	गोविंद हरि रामपुर, पो.ओ. गुलाबरीन जिला, गुवाली, वेस्ट बंगाल	डी० एच० एम० एम०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.03.85	234	
46205	बैजू बासुदेव	मार्कल - जे.एस. बैजू बासुदेव, डिब्रुगढ़ पी.ओ. जिला डिब्रुगढ़-1, असम	डी० एच० एम० एम०	1988	युनिवर्सिटी ऑफ कलकाता	असम	22.09.88	310	
46206	बैजू बासुदेव सिंह	मार्कल - जोरा सिंह बैजू, गुलु लेग बहादुर नगर, गली नं० 9, मटिन्हा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1991	एम० पी० सोपल	पंजाब	18.05.1997	1708	
46207	बैजू बासुदेव	गोविंद खलुपेटिया पी.ओ. खलुपेटिया घाट, जिला दरंग, असम	डी० एच० एम० एम०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.12.98	488	
46208	बैजू बासुदेव	गोविंद खलुपेटिया पी.ओ. खलुपेटिया घाट, जिला दरंग, असम	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.12.98	814	
46209	बैजू बासुदेव	मार्कल नं० 40, स्ट्रीट नं० 2, शास्त्री पार्क, चन्द्र नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110061	डी० एच० एम० एम०	2007	जी० पी० सिंह आर० पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	दिल्ली बोर्ड	22.5.07	23541	सी० सी० एच० -2871
46210	बैजू बासुदेव	134, कन्वेंट नं० 7, शिवाजी नगर, नारनाल, जिला महिन्द्रगढ़	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 1998	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	हरियाणा	19.06.08	5799-ए	
46211	बैजू बासुदेव	मार्कल बराला होस्पिटल एण्ड नर्सिंग होम बिका (कैथल)	डी० एच० एम० एम०	1982	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	28.04.94	5587-ए	
46212	बैजू बासुदेव	281/4, महादेव कालोनी, सिविल गेट, कैथल	डी० एच० एम० एम०	अप्रैल - 1994	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	हरियाणा	28.02.07	5790-ए	
46213	बैजू बासुदेव	मार्कल - एम./एस. मदन लाल प्रवीण कुमार, पोस्ट आफिस बजार, मटिन्हा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - सितम्बर 1987	राजस्थान बोर्ड, जयपुर	पंजाब	31/03/1989	1149	
46214	बैजू बासुदेव	नं० 116, बरिखो बाजार, जालंधर	डी० एच० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	03.04.2001	2494	
46215	बैजू बासुदेव	डुकान नं० 18, बार्ड नं० 5, ओल्ड पोस्ट आफिस चौक गलीट जिला मुक्तसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	2006	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	19.05.2008	3224	
46216	बैजू बासुदेव	नं० 5155, मालगोदम रोड, अहला शेर सिंह वाला, मटिन्हा (पंजाब) 15101	डी० एच० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	9/2/1983	1043	
46217	बैजू बासुदेव	नं० 1597, स्ट्रीट नं० 3, नयी बस्ती, मटिन्हा	डी० एच० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	22.03.2001	2482	
46218	बैजू बासुदेव	मैसर्स हरसुख माल रोमक राम, कुलादा मन्डी, तह मन्हा, जिला मटिन्हा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	29/11/1989	1176	
46219	बैजू बासुदेव	नं० 88, सैक्टर 15, चककुला (हरियाणा)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	13.5.1998	1847	
46220	बैजू बासुदेव	नियर के.एन. माडल स्कूल, रामपुरा फूल, जिला मटिन्हा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	11.6.1997	1710	

46221	बसीवाल सुरेन्द्र कुमार	श्री मदन लाल बसीवाल	लोट नं० 82, परिसर नगर पोस्ट कम सिटी जोधपुर, जिला जोधपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	जोधपुर नगर राजस्थान (डी० एच० एच० एच० एच०)	राजस्थान	25.07.2007	4877		
46222	बैरक कुममा	श्री कर्म दयाल बैरक	क्वार्टर नं० टी०-50बी, रेलवे कालोनी नं० 11, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2005	डी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	19.06.2007	3124		
46223	बरकला राजू		मार्फत- एन.जे. बारकला अकाउन्टेन्ट फाइनेंस पी.एच.डी. ओ.ओ.-कुल्लूरी पुष्पेश्वरी, जोधपुर - 8, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.09.97	238		
46224	बर्दान सुमित्रा		असीत नगर, डिब्रुगढ़ पी.ओ. जिला डिब्रुगढ़, असम - 786001	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 2003	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.06.04	901		
46225	बारगोड अनंता		गोब - पुरलीगुडी पी.ओ. पुरलीगुडी जिला शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.05.88	298		
46226	बारगोड दिगन्ता		हेल्थ क्लीनिक, पंजाबी बाजार सिक्समाईल, जालंधी रोड, गुवाहाटी-37	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.02.2001	787		
46227	बारगोड गायत्री		बी.आई.पी. रोड सिक्समाईल जन्म नगर, त्रिनेत्री पथ सेकण्ड हाई लेन, नं० 3, गुवाहाटी-22	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	डिब्रुगढ़ जिल्लासिटी	असम	10.10.06	954		
46228	बारम दुल कुमार		गोब विहानपुर (खालिया) पी.ओ. मालरकुली, जिला नालगोरी, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1993	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	30.03.98	667		
46229	बरमान अनिल चन्दा		गोब पुरीमरी पी.ओ. ओलादगुडी, जिला बोरपेटा, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.09.87	276		
46230	बरमान देवकुंठ		गोब केकनकुली पी.ओ. केकनकुली बासतोला 781139, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.03.98	623		
46231	बरमान विरजोत		मार्फत - रमाकान्त बर्मन, गोब बाड़ी 781139, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.01.04	886		
46232	बरमान जयन्त कुमार		मार्फत - श्री महेन्द्रनाथ बर्मन, गोब पोपकुली पी.ओ. सैला 781337, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	23.11.2001	822		
46233	बरमान ज्योतीमाला		मार्फत - श्री जितेन्द्रनाथ बर्मन, गोब पोपकुली, पी.ओ. सैला 781337, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.12.2001	833		
46234	बरमान मनोज कुमार		गोब बरतला, नलबाड़ी पी.ओ. बरतला 781138, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.10.2000	754		
46235	बरमान मनीष		गोब काजीपारा पी.ओ. काजीपारा 781341, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.04.98	693		
46236	बरमान मनीष		गोब बारवंग (लोहितपारा) पी.ओ. बारवंग 781326, जिला बोरपेटा, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.03.2002	845		

48237	ब्रजमान नीलकमल	बंगाल हनिमन लेवोट्री 9/12, डा० सुरेश सरकार रोड, कलकत्ता	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	01.12.2000	373	
48238	ब्रजमान शुभ्रनार	बर्मन पाला पी.ओ. बोरपेटा रोड, जिला बोरपेटा, असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	22.09.87	277	
48239	ब्रजमान सपन कुमार	बिदयापुर, नलबाड़ी पी.ओ. बिदयापुर जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	30.04.98	553	
48240	बसो प्रमाण चन्द	गोव कतलीगाँव नं. 1, पी.ओ. भुसालपुर याया गिहु जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	04.01.2000	374	
48241	बसो बीनापाणी	गोव जयकी नगर - 1, पी.ओ. सोनापुर 782402, जिला कामरूप, असम	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	19.12.2001	825	
48242	बाकह अमीरला	यामा प्रसाद पट्टी पी.ओ. जिला कुच ब्रह्म, रैस्ट बंगाल	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	11.01.2000	654	
48243	बाकह विष्णु	गोव पुरबील पी.ओ. बरबती जिला लक्ष्मीपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	28.05.88	302	
48244	बाकह दिलीप	रंजान हट्टीचुंगी गोव पी.ओ. रंजान याया टिटाबोर जिला जोरहट, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	18.05.87	245	
48245	बाकह विन्देश्वर	गोव राजबाड़ी पी.ओ. विदुपुरिया, जिला नाई लक्ष्मीपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	12.05.88	271	
48246	बाकह दुर्लोक चन्दा	पी.ओ. केन्दुगिरी, जिला जोरहट-10, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.06.87	248	
48247	बाकह धनरयाम	गोव कपला बारिया पी.ओ. जोरहट 785004, असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	10.05.85	144	
48248	बाकह हेमा	मार्जित - दुलेश्वर बाकह, जोरहट सिविल हॉस्पिटल पी.ओ. जिला जोरहट, असम	डी० एच० एम० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	24.09.84	78	
48249	बाकह जोग चन्दा हटी	गोव खामेन कोनार गोव पी.ओ. धनुकुआ, जिला लक्ष्मीपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	03.03.87	232	
48250	बाकह लीपी	गोव टारखन सोनारीगाँव नं० 2, पी.ओ. जोरहट जिला जोरहट, असम	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	13.12.2000	777	
48251	बाकह मनोज कुमार	गोव बालीजन पी.ओ. बालीजन 784172, जिला सोनितपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	अक्टूबर - 2004	विदुगढ़ युनिवर्सिटी	03.11.06	977	
48252	बाकह रणजीत	गोव धामपुरवरी पी.ओ. बराला पी.ओ. जिला जोरहट, असम	डी० एच० एम० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.09.87	198	
48253	बाकह रीटा	मार्जित - किराकड सीकिया एके इन्टरप्राइज, अदाबरी, गुवाहाटी - 14	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.12.2002	867	

48254	बाराक कमल कुमार	गौव - परिजट पी.ओ. हलीसरी याया विधान 785873, जिला सिमरगार, असम	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.05.98	731	
48255	बशीर अब्दुल	गौव - नारायण पी.ओ. बालासोटा घाट जिला दरंग, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.07.98	813	
48256	बासी स्वाती	सोहन होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कुमारहट्टी, सोनित	डी० एच० एच० एच०	2008	डी० आर० नगर सारथान विभागीय (डीन-युनिवर्सिटी), धरपुर	हिमाचल प्रदेश	5.11.08	216-ए	
48257	डी अशोक कुमार बासु	95/19, पी.सी. नित्रा लेन, टोलीनुगे, कोलकाता - 700033	डी० एच० एच० एच०	2008	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल कलकत्ता	12.9.05	26964	डी० सी० एच० -2827
48258	बासुमाजी बीजु	गौव-मालो अगुरी पी.ओ. बारपम सिंगली, जिला सोनितपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1991	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.06.98	483	
48259	बासुमाजी बिजोद कुमार	पश्चिम देहाबरी पी.ओ. देमाका बाजार, जिला बोरपेटा, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1986	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.05.88	281	
48260	बासुमाजी प्रवेश	गौव मेलापुरी पी.ओ. बोरपती सिंगली 784176, जिला सोनितपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2002	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	26.03.04	886	
48261	बडला पून	सुन्दर नगर, स्ट्रीट नं० 8, अबोहर, जिला कैरगपुर	डी० एच० एच० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	24.03.2006	3008	
48262	बटला छाया रानी लाल	मार्फत - आनन्द इम्पेरियल, सोसिटल रोड, मधुर नदी, जिला मटिवा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	7.9.2000	2352	
48263	बतरा अजय कुमार राज कुमार	1) न्यू कालोनी, रेलवे स्टेशन, बराका, अम्बाला 2) प्रीत नगर, बराका (अम्बाला)	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1989	युनिवर्सिटी ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर	हरियाणा	28.01.1998	5665-ए	
48264	बतरा अनुषिया श्री हरी कुण्ड	मु नं० 72, बार्ड नं० 20, मोहल्ला माता रानी, निज पी.एन. बैंक (पुराना) बन्गा, जिला सुबिधाना, पंजाब	डी० एच० एच० एच०	2006	बारा जरीद युनिवर्सिटी ऑफ इन्टर साइंस फरीदकोट (पंजाब)	पंजाब कौसिल	14.08.05	2910-ए	डी० सी० एच० -2867
48265	बतरा अंशु श्री ए० एल० बतरा	निकर बस स्टैंड, अजोकिट बार्ड जी.टी. रोड, बन्गा, जिला सुबिधाना	डी० एच० एच० एच०	1994	आगरा युनिवर्सिटी	पंजाब	28.03.2003	2836	
48266	बतरा बलदेव सिंह श्री अमरार सिंह	डी० एच० 10, राजिन्द हासिटल, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	बिहार युनिवर्सिटी	पंजाब	28.10.1998	1985	
48267	बतरा मिनी पुनी श्री श्री आर०	डी-23, 3758, स्ट्रीट नं० 9, सिवाजी नगर, सुबिधाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	26/05/1995	1487	
48268	बतरा सुनिता रानी पुनी श्री जेठा नन्द	मो नं० 1731, राजपुरा टाउन, जिला पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	4/21/993	1339	
48269	बाटा अशोक कुमार श्री सोम प्रकाश	16-ई टैगोर नगर, सुबिधाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	21/02/1988	1124	
48270	बाटा स्वेता श्री अनिल कुमार	1478, चौक सिम्रन, देसी रोड, सुबिधाना	डी० एच० एच० एच०	मार्च - जून 2004	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	30.05.2007	3115	
48271	बलान डिमनथु	बिद्या नगर, बापसबाकी पी.ओ. गुलाहाटी-37, जिला कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.07.2001	800	
48272	बलान सिमन्ता	बिद्यनगर पंजाबरी पी.ओ. गुलाहाटी-37, जिला कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1998	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	07.02.2001	785	

46273	बेहारा ज्योत्सना देवारा	पुत्री पीठ कठो देवारा	मो नं० 427, सैक्टर-15, पुष्पकुला	बी० एच० एम० एच० एच०	अप्रैल - 2005	पंजाब युनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	हरियाणा	5.02.2007	5787-ए	
46274	बेदी कामिनी	श्री देश राज	वार्ड नं० 2, बाबा सरूपगंज, सुजानपुर जिला, जिला हमीरपुर	बी० एच० एम० एच० एच०	2008	बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	6.08.08	208-ए	
46275	बेदी सरिता	पत्नी अरविन्द बेदी	मो नं० 538, सैक्टर-10, पंचकुला	डी० एच० एम० एच० एच०	1989	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	05.09.1991	5649-ए	
46276	बेदी अनीत कौर	श्री एच० एम० एच० एच० एच०	मो नं० 1936, फेज-X, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, तेह. खरड, जिला रोहतक (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	8.5.1998	1835	
46277	बेदी मिलाप सिंह बेदी	श्री जीवन सिंह	मिलाप मेडिकल हाउस, लाहौरी गेट, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	17/09/1986	819	
46278	बेदी नवनीत कौर	श्री हलदीर सिंह बेदी	मो नं० 21-आर, न्यू सबजी मंडी, होशियारपुर	डी० एच० एम० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	07.11.2001	2563	
46279	बेगम हुसनारा		नॉव रामगंज पी.ओ. सिमालुगुडी जिला शिवनगर, असम	डी० एच० एम० एच० एच०	अगस्त - 2005	डिगुगड युनिवर्सिटी	असम	30.10.06	976	
46280	बेगम जजरिना		राजबाड़ी मिरान कपातल पी.ओ. राजबाड़ी 785014, जिला जोरहट, असम	डी० एच० एम० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.06.98	649	
46281	बेगम मोफिदा सैयद		लखिनगर होमिया क्लिनिक, लखिनगर, गुवाहाटी-7	डी० एच० एम० एच० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.08.84	87	
46282	बेगम रजिया		मौव मिन्थोयना हट्टा पी.ओ. इम्फाल ईस्ट, मणिपुर	डी० एच० एम० एच० एच०	अक्टूबर - 2002	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	12.09.03	877	
46283	बेगम सैयद जुबेरा		लाचीनगर बाईलेन-3, गुवाहाटी-37	डी० एच० एम० एच० एच०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.04.99	481	
46284	बेगम सैयद सिद्दीका		लाचीनगर बाईलेन-3, गुवाहाटी-37	डी० एच० एम० एच० एच०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.04.99	339	
46285	बेहारा नारायण	श्री अलेख बेहारा	1) जे.के.सी. रंगली महल, ऐट, एच. पी. ओ. बरसाना, मथुरा (यूपी.) - 281405 2) ऐट एच. पी.ओ. बाघमाडी, जिला खुर्दा, छडीसा-752061	डी० एच० एम० एच० एच०	1976	उड़ीसा बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मुंबई	उड़ीसा	10.12.76	सी / 0288	सी० सी० एच० -2710
46286	बेहल विनय	श्री राज कृष्ण बेहल	मो नं० 233, गली नं० 5, जगतपुरा, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	26/05/1995	1494	
46287	बेला	श्री गुरनाम सिंह	मो नं० 148, स्ट्रीट नं० 5, तेह. सिलपुरा, अमृतसर (पंजाब)	बी० एच० एम० एच० एच०	1990	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान	पंजाब	20.7.1998	1884	
46288	मदा जोयश्री		खारा बाड़ी पी.ओ. खाराबाड़ी जिला कुल बेहर (केरल बंगाल)	डी० एच० एम० एच० एच०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.06.98	471	
46289	मगत विष्णु नवनीत	श्री देवेन्द्रा कालरा	मार्फत - श्री चार्ड एन मगत, एच. -43-बी, सैक्टर-22, नोचका 201301, (यूपी.)	बी० एच० एम० एच० एच०	2004	महाराष्ट्र युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नाशिक	महाराष्ट्र	16.2.2005	38619	सी० सी० एच० -2804

क्र.सं.	नगिया नेहा	श्री परमनन्द मणिग्या	4-डी.ए.-12, जवाहर नगर, सिटी जयपुर, जिला जयपुर	डी० एफ० एफ० एफ०	मई - 2007	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान	राजस्थान	3.10.2008	5078
48290	मणिग्या नेहा	श्री परमनन्द मणिग्या	4-डी.ए.-12, जवाहर नगर, सिटी जयपुर, जिला जयपुर	डी० एफ० एफ० एफ०	मई - 2007	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान	राजस्थान	3.10.2008	5078
48291	मणिग्या दास	श्री इकबाल चन्द	मो नं० 108, शिवलोक अर्जुन, बोटी अयाली, लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	2008	डी० एफ० यु० एफ० एफ०	पंजाब	09.05.2008	3218
48292	मणिग्या अरुण कुमार		मार्फत - मालक श्री. मणिग्या कल्याणी ओ. कल्याणी 781304, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एफ० एफ० एफ०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.10.2001	818
48293	मणिग्या मनोज		स्टेशन रोड, डेली बाजार पी.ओ. तुलीचन 78602, जिला डिब्रुगढ़, असम	डी० एफ० एफ० एफ०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.11.2002	865
48294	मणिग्या प्रमोद		मौज जवाहर पी.ओ. जगारा, जिला नलबाड़ी	डी० एफ० एफ० एफ०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.07.98	866
48295	मणिग्या पुटल बन्दा		मौज निज बसरीलाल पी.ओ. धाकामा, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एफ० एफ० एफ०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.05.98	844
48296	मणिग्या संजीवन कुमार	श्री हरद्वारी लाल भाण्डू	मकान नं० 70, वार्ड नं० 11, ग्रेन मार्केट अहमदाबाद, तेल. मल्लिकार्जुन, जिला सांगर (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1984	पंजाब	पंजाब	7/3/1986	875
48297	मणिग्या प्रीतपाल कौर	श्री हरमन सिंह मल्ला	स्ट्रीट नं० 2, बलवीर बस्ती, फरीदकोट (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1988	पंजाब	पंजाब	17.12.1987	1759
48298	मणिग्या नीलम	श्री अवतार सिंह	क्वार्टर नं० 34, पी.एस.ई.बी. कालोनी नं० 11, पटियाला	डी० एफ० एफ० एफ०	दिसम्बर - 1984	डी० एफ० एफ० एफ० एफ०	पंजाब	08.10.1985	844
48299	मणिग्या विविधा	श्री विष्णु मंडारी	908, सेक्टर नं० - 4, हिरण मारी, सिटी सदरपुर, जिला सदरपुर	डी० एफ० एफ० एफ०	जनवरी - 2007	डी० एफ० एफ० एफ० एफ०	राजस्थान	20.08.2008	5086
48300	मणिग्या अमय	श्री एफ० आर० मंडारी	वार्ड नं० 9, नियर राजमहल, मालगाड, सोलन	डी० एफ० एफ० एफ०	2008	बोर्ड फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	05.05.08	189-ए
48301	मणिग्या कंचन देव	श्री डी० पी० देव मंडारी	मो नं० 34/3998, हरीवाल कालोनी, दगापुरी, लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	2003	डी० एफ० यु० एफ० एफ०	पंजाब	20.11.2004	2799
48302	मणिग्या विपु	श्री आर० के० मंडारी	मो नं० 75, फेज-II, मोहली, तेल. खरक, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1996	पंजाब	पंजाब	14.7.1998	1865
48303	मणिग्या समृति	पुत्री श्री जी० के० मंडारी	8633/1, गली नं० 2 1/2, न्यू हरमोडि नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1999	पंजाब	पंजाब	7.2.2000	2208
48304	मणिग्या अरु	श्री प्रेम मनोहर	डी.पी.ओ. मुलापुर, तेल. खरक, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1995	पंजाब	पंजाब	16.10.1996	1866
48305	मणिग्या सुषमा चौधरी	श्री रोशन लाल चौधरी	डाल बाजार मुहम्मद, जिला फरीदकोट (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1985	पंजाब	पंजाब	10/2/1987	970
48306	मणिग्या सुषमा	श्री सुकुमार राय	मो नं० 2222, बसना नगर, नली नं०-5, लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1986	पंजाब	पंजाब	1/12/1988	1083
48307	मणिग्या	श्री अर्जुन कुमार	43-डी.एल. आई.जी. फ्लैट, प्रसाद नगर, करोल बाग, नई दिल्ली	डी० एफ० एफ० एफ०	2008	युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली	दिल्ली बोर्ड	15.4.08	वर्कशेड - 2590
48308	मणिग्या ईशा	पुत्री सुनील मणिग्या	1297, सेक्टर-9, अम्बाला सिटी	डी० एफ० एफ० एफ०	दिसम्बर - 2006	पंजाब युनिवर्सिटी कबीरगढ़	हरियाणा	2.05.08	5824-ए

46326	भाटिया अमृपाल	श्री मदन गोपाल भाटिया	वी.पी.ओ. हडियाबाद, मोह. नरंग शाहपुरा, रोह. कांगराबा (उधुखला)	डी० एम० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	13.9.1998	2130		
46327	भाटिया अनीता	श्री ओ० पी० भाटिया	102-एच.एच./ई.टी., नंगल टाउनशीप जिला रोहतास (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	27.02.1996	1578		
46328	भाटिया हरस लाल	श्री रेल राम भाटिया	डी.पी.ओ. नन्दपुर, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1987	विहार कुनिवर्सीटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	24.8.2000	2332		
46329	भाटिया ज्योती	श्री एम० के० भाटिया	डोगर बस्ती, न० 3-आर, फरीदकोट (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	4.9.1998	1939		
46330	भाटिया निशि	पुत्री श्री राज कुमार भाटिया	डी.-XI, 1440/1, राही मोहल्ला, नौवाला चौक, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	14.12.1999	2177		
46331	भाटिया निशा	श्री विमल सिंह भाटिया	न० 1439, सेक्टर-41-बी, बडीगढ (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	2005	डी० एम० एम० एम०	पंजाब	23.11.2006	3088		
46332	भाटिया रमन	श्री सुरेन्द्र भाटिया	न० 610/30, शान नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2003	पंजाब	पंजाब	23.07.2005	2900		
46333	भाटिया संदीप	श्री हरस लाल भाटिया	मोह एम पी.ओ. फतेहाबाद पंजपुर, जिला मोगा (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	पंजाब	02.04.2008	3188		
46334	भाटिया सरिता	श्री राजेंद्रपाल भाटिया	एच.आई.जी.-654, फेज XI, मोहाली (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	मई - जून 2003	पंजाब	पंजाब	03.01.2005	2816		
46335	भटनगर पूजा	श्री आई० एम० भटनगर	एच.आई.-16, फेज-1, मोहाल (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	2002	पंजाब	पंजाब	02.06.2004	2898		
46336	भट्ट कुनाल	श्री सुरेश चन्दा भट्ट	सताधिया बाजार, सिटी विन्डर, जिला-उदयपुर	डी० एम० एम० एम०	जुलाई - 2006	राजस्थान कुनिवर्सीटी, राजस्थान	राजस्थान	4.02.2008	4887		
46337	भट्ट गिया	डा० विनेश चन्दा शर्मा	1) डी-17, एच.आई.जी.-ए.पी.ए. कालोनी, कुन्ती, इलाहाबाद 2) मार्फत - सलामन कंवर, 202, एफ.एच.-एलपीएनई न० 1, जोहरी कोरम, जामिया नगर, नई दिल्ली - 25 3) चतुरयास, कठपुलही कालोनी, पंजाब नगर, अपो. शाहीपुर बिगो, नई दिल्ली	डी० एम० एम० एम०	2003	डा० पी० आर० एम० कुनिवर्सीटी, अगारा	यू० पी० बोर्ड लखनऊ	22.3.03	20011		डी० सी० एम० -2894
46338	भट्टाचार्यजी अमृत्वा चन्दा		मोह पारसीघाट पी.ओ. पारसीघाट, जिला दरभंगा, असम	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.12.86	216		
46339	भट्टाचार्यजी दिव्याज्योती		शान्तिपथ आर.जी. बाकस रोड, मुवाहाटी-24	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.04.85	127		
46340	भट्टाचार्यजी निशिमा		शान्तिपथ आर.जी. बाकस रोड, मुवाहाटी-24	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.04.85	128		
46341	भट्टाचार्यजी प्रण कृष्णा		मोह निल मुलेकिन पी.ओ. बरपागा, जिला नलबाड़ी, असम	डी० एम० एम० एम०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.07.98	815		
46342	भट्टाचार्यजी सतीश		यू. के.ए. होमियो. ड्रग एण्ड क्लिनिक, मारियाजी पी.ओ. मारियाजी - 795634, जिला जोरहट, असम	डी० एम० एम० एम०	मई - 1989	वेस्ट बंगाल कॉलेजिल	असम	28.09.2006	830		

46343	मट्टाचार्यजी संजीव	गौव ककया पी.ओ. ककया वाया बेलार 70:304, जिला लदाखी, असम	डी० एच० एच० एस०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.07.98	487	
46344	मट्टाचार्यजी संयुक्त	गौव पल्लवती विनोयानगर, गुवाहाटी, गुवाहाटी-18	डी० एच० एच० एस०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.01.88	282	
46345	मट्टाचार्यजी स्वयं कुमार	सिम होमिया फार्मसी नेतल सुभाष रोड, रेहाबडी, गुवाहाटी-8	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.05.85	135	
46346	मोगल हरजीत	मोगल आईस फेक्टर, पिचोर, जिला पंचकुला	डी० एच० एच० एस०	1993	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हरियाणा	हरियाणा	31.05.95	5830-ए	
46347	मोनीक सुसन्ता	गौव शिवांग पी.ओ. अलीपुरदुआर-21, जिला जलपाईगुडी, सेट बंगाल	डी० एच० एच० एस०	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.05.2000	379	
46348	मुगरा अर्चना	ब्लॉक नं० 8, नं० 120, गीता कालीनी, दिल्ली - 31	बी० एच० एच० एस०	2008	जी० जी० सिंह आई० पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	दिल्ली बोर्ड	25.4.08	व०३६७१	सी० सी० एच० -2835
46349	मुल्लर मयन्दर सिंह	नं० 814, स्ट्रीट नं० 15, ओल्ड विमान नगर, पटियाला (पंजाब)	बी० एच० एच० एस०	मई - जून 2008	बी० एच० एच० एच० एच० पंजाब	पंजाब	30.08.2007	3147	
46350	मुकुण भारत	स्ट. नं० 16, अजीत रोड, जिला मटिन्हा (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1995	पंजाब	पंजाब	6.8/1996	1807	
46351	मुधान मुने	पूर्वांचल नगर, निवर रेड क्रॉस होस्पिटल, बलमाडी, गुवाहाटी-3	डी० एच० एच० एस०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.07.98	510	
46352	मुधान प्रदीप कुमार	गौव - जोनोनी पानीगौव पी.ओ. नोनाई जिला नार्गांव पी.ओ. नार्गांव, असम	डी० एच० एच० एस०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.09.86	186	
46353	मुधान रंजन कुमार	गौव तोकोब्रिगांव पी.ओ. तिसिरगाँव 786110, जिला-बिमाजी, असम	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.10.2000	756	
46354	मुमुती कुमालेन्द्रा कुमार	श्री हरेचन्दन कुमार धीरज अपार्टमेंट, सी-9, ग्राउन्ड फ्लोर, नवसर रोड, मयान्दर (ई.) जिला, धामे	बी० एच० एच० एस०	1998	बी० पी० ए० बिहार युनिवर्सिटी	बिहार बोर्ड एच० सी० एच० मुंबई	31.1.2000	28248	सी० सी० एच० -2825
46355	बिदशलेडी लिंगदो सालिहा	भाउप्रम, शिलांग	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, गुवाहाटी	मेघालया	12.10.07	43751	
46356	बिदानी यमनीता	1) नं० 119, सैक्टर-13, हिसार 2) बिदानी होमियोपैथिक क्लिनिक, अयो. सेक्टर जेल, सी.एम.सी., दिल्ली रोड, हिसार	बी० एच० एच० एस०	अक्टूबर - 2000	युनिवर्सिटी ऑफ पुणे	हरियाणा	26.07.2006	5769-ए	
46357	बिन्सु राम	गौव रायलेका, तोह, रिजारा सिटी - अलवर, जिला अलवर	बी० एच० एच० एस०	जुलाई - 2008	राजस्थान युनिवर्सिटी	राजस्थान	5.12.2007	4982	
46358	बिन्दा ज्योती	1) 25/28 प्रभु प्रेम पुष्प, अम्बाला कैंट 2) कैप्टल होमियो, डिस्ट्रिक्ट रोड, बाग, अम्बाला कैंट	डी० एच० एच० एस०	1984	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	19.09.2001	5879-ए	

46359	बीर जसवीर सिंह	पुन श्री मोहिन्द सिंह बीर	डी.सी.ओ. लखनको पट्टहा रोड, बीहवान, जिला कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	29/01/1990	1188	
46360	बिरदी हरीत सिंह	श्री परजीत सिंह बिरदी	गो नं० 212, इन्डस्ट्रीयल एरिया-ए, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	21.10.1999	2147	
46361	बिरदी मनमोहन सिंह	श्री बंन सिंह बिरदी	गो नं० बी-21, 4511/3, स्ट्रीट नं० 10, शिमलापुरी, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	28/06/1988	1210	
46362	बिरदी मुखविन्दर सिंह	श्री बंन सिंह बिरदी	गो नं० 4511/3 गली नं० 10, अपो पोस्ट ऑफिस शिमलापुरी, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	24/1992	1274	
46363	बिरपाल गीतल	श्री बीज सुन्दर बिरपाल	मार्कस - श्री अमृतपाल बिल्ड, उपरपुरा, पी.ओ. नाथु भजरा, जिला संगरूर	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2006	पंजाब	09.04.2008	3202	
46364	बिरवास (श्रीमती) अनुसुईया	श्री अजीय कुमार बिरवास	प) सी./ओ. ए.के. बिरवास, गॉव एच० पी.ओ. मध्य खगरा बाकी, पी.एस. मायनागुडी, जिला जलपायगुडी, वेस्ट बंगाल बी) ए.के. बिरवास, गॉव एच० पी.ओ. मध्य खगरा बाकी, पी.एस. मायनागुडी, जिला जलपायगुडी, वेस्ट बंगाल	डी० एच० एच० एच०	3/7/2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	14.08.2008	89	
46365	बीर राज	श्री देस राज	गो नं० 738/1, न्यू टैंगोर नगर, हबीगंज कालो, जिला लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	17/07/1994	1391	
46366	बीरा भुजेंद्रा कुमार		गॉव - लोनी मती पी.ओ. रायमसारा, जिला नागौर, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.09.87	251	
46367	बीरा बिरवा सिंघा अनि		गॉव - रंगदोई (हाकमगॉव) पी.ओ. रंगदोई, जिला-जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	29.06.2000	742	
46368	बीरा दुरलोव		कुम्भापुर बसिष्ठ बी.एन.पाथ, मुवाहाटी-29	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	विश्वविद्यालय युनिवर्सिटी असम	23.10.06	983	
46369	बीरा हुशेवर		गॉव - चत्रासली, पी.ओ. महिमावती, बीरहीला, जोरहट	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	12.06.86	175	
46370	बीरा नवन चन्दा		गॉव-बसिमाखा पी.ओ. बसिमाखा जिला नलबाड़ी, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	30.04.88	293	
46371	बीरा प्रदीप कुमार		सी./ओ. - मिटरर रू-एम बोरा, गॉव बरुआ गॉव, जिला-गालाघाट, असम	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	08.01.99	717	
46372	बीरा प्रसन्ना कुमार		गॉव - विचारनगर पी.ओ. विचारनगर, जिला-जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	03.05.85	142	
46373	बीरा राबिन		गॉव-सिलामुडी, लेपुरा पी.ओ. सिलामुडी, जिला शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	01.07.87	195	
46374	बीराह अजित चन्दा		बलीचारी रोडगाँव पी.ओ. हटीरड बलीचारी, जिला-जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.02.99	723	

46375	बोराह बिरन चन्दा	गॉव-हटीपार पी.ओ. डेकरघाट, जिला-नार्गांव, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	17.02.89	337	
46376	बोराह एमोन मालंग	गॉव-विमुरांग जोगाई पी.ओ. जोगाई 791530, जयताई हिल्स मेघालय	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.02.2002	843	
46377	बोराह कवेरवर	नं० 1, ब्राह्मणगॉव, चेनोली गॉव, केन्हुडी पी.ओ. - जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	12.11.86	191	
46378	बोराह दिलीप चन्दा	गॉव-अन्तोरी पी.ओ. - अन्तोरी, जिला-नार्गांव, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2002	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	27.10.2003	882	
46379	बोराह दिपेन्द्र	सांख्य हैबरगॉव एस.आर. रोड पी.ओ. - हैबरगॉव-2, जिला-नार्गांव, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	13.12.2000	776	
46380	बोराह गणेश चन्दा	गॉव-गोजपुरिया पी.ओ. - जलुकान्दरी, जिला-जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	10.05.85	154	
46381	बोराह हिराम्बा प्रसाद	गॉव-चयुआगॉव पी.ओ. - नसबटोल बाबा मोहिना जिला-जोरहट-28, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	09.05.88	297	
46382	बोराह जयन्ता	गॉव-देवावियागॉव पी.ओ. - गोविन्दपुर 787065, जिला - लक्ष्मीनपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1980	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	14.07.88	477	
46383	बोराह किशोराम	खिरु ज्योति होमिया, क्लिनिक मोरिगॉव पी.ओ. एवं जिला मोरिगॉव, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	14.05.85	156	
46384	बोराह मेक्षितरा	2 नं०, बेबिया कवरी गॉव, पी.ओ. - पुराता तिताबोर 785632, जिला-बुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	04.12.2000	774	
46385	बोराह रूप चन्दा	सी./ओ. - नहीन सी. बोराह सिटी स्टुडियो, उजलबाजार, गुवाहाटी-3	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	11.04.85	122	
46386	बोराह नमो	ए) डमरो गॉव पी.ओ. गरियांग लप्पर सिध्यांग, जिला ए.पी. डी) डमरो गॉव पी.ओ. गरियांग अप्पर सिध्यांग, जिला ए.पी. फोन 9893467858 / 9436086539 (मो.)	डी० एच० एच० एच०	26.12.2007	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	21.01.2008	75	
46387	बोराह दीपक	पुराना अन्तोलापटी गोलाघाट टाउन पी.ओ. गोलाघाट, असम	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	4.02.87	211	
46388	बोराबोरह दीपका	गॉव नोतोई घानीगॉव पी.ओ. नोतोई 782101, जिला - नार्गांव, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2004	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी असम	16.03.07	1002	
46389	बोरादोलोई अनुपम	डी.बी.सी. रोड, टारजन पी.ओ. टारजन 785001, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	18.03.2000	387	
46390	बोरादोलोई मावेश चन्दा	गॉव-जोरहट टाउन सोनरीगॉव पी.ओ. जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	25.07.2005	915	

46381	बोरदोलोई दोस्त श्री	केयर/ऑफ - हरी देव बोरदोलोई, गाँव-अगदला पी.ओ. - बहाला बार्ड-अली 761361, जिला कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2004	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.02.04	888	
46382	बोरदोलोई लक्ष्मी	गाँव - गडाली गाँव पी.ओ. - बाबागुजिया जिला नागांव, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	31.10.2000	758	
46383	बोरदोलोई प्रदीप	गाँव - करुणामाई पी.ओ.-खुलुङ 764160, जिला लखीमपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.07.98	615	
46384	बोरदोलोई सरता	बार्डन नं० -VII एम-4/1, कैपिटल कामलेक्स बिल्डिंग, गुवाहाटी-6, जिला कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	विद्युत युनिवर्सिटी	असम	10.10.06	956	
46385	बोरदोलोई उत्तल	केयर/ऑफ - याबादे बोरदोलोई नवागिरी रोड, निजर रेड क्रॉस होस्पिटल, बक्सरी, गुवाहाटी - 03	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.03.98	673	
46386	बोरचोहई सुनील	गाँव - दिवोमानी पोहाई गाँव पी.ओ. - दिवोमानी बाया नामती जिला - शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.05.87	244	
46387	बोरचोहई पूरणा	लखुर दत्ता पथ नकाही, पी.ओ. - नाई लक्ष्मीपुर, असम - 767001	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.05.85	181	
46388	बोरचोहई विवाहज्योती	हबीराम बोपा रोड शिवसागर पी.ओ. - ओ.एन.जी.सी. सब पोस्ट 766040, जिला शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1996	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.10.2000	757	
46389	बोरचोहई पद्मा	केयर/ऑफ - टी.सी. बोरचोहई गाँव - जगुन बाजार पी.ओ. जगुन, जिला शिवसुखिया, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	06.11.2000	763	
46400	बोरो सुकु राम	गाँव - गुरगोच पी.ओ. - गुरगोच, जिला कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.02.2000	524	
46401	बोकाह मनोज कुमार	पु. केयर/ऑफ सिस्टर जोसेफ बाकाह, गाँव बालीजन पी.एस. मोहपुर, जिला सोनीमपुर, असम - 764172	डी० एच० एच० एच०	13.12.2005	विद्युत युनिवर्सिटी	अरुणाचल प्रदेश	5.02.2009	108	
46402	बोस अनिता	बी पीएसएस संघान, जिला कुल्लंग कुद्रे, ए.पी.	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.01.2000	654	
46403	ब्रह्म प्रकाश	1) यादव होमियो. सेंटर, 208 रतन कामलेक्स, एम. गड 2) यादव होमियो. सेंटर, मसानी रोड, एम. गड	डी० एच० एच० एच०	1992	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	27.08.98	5689-ए	
46404	ब्रह्म किशोर कुमार	किजनी - अगपुडी बार्ड नं०-3, पी.ओ. बजनी 763390, जिला बोरनार्गी, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.01.2002	841	

46405	बराबर राज प्रीत सिंह	रुपदीप सिंह बराबर	232/ वार्ड नं० 10, अयो. मनोरीवाला बियेटर, सिरसा रोड रायिया, जिला सिरसा	डी० एच० एम० एच०	दिसम्बर - 2003	बाबा फरीद युनिवर्सिटी फरीदकोट	हरियाणा	7.12.2006	5778-ए	
46406	बराबर राजप्रदीप कौर	प.नी अमरजीत सिंह बराबर	डी.पी.ओ. कलावली बन्की, जिला सिरसा	डी० एच० एम० एच०	1987	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	27.09.94	5600-ए	
46407	करार अमनीत	श्री गुरदीप सिंह	437-एल, मॉडल टाउन, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	डी० एच० यु० एच० एम० एम०	पंजाब	19.06.2007	3119	
46408	बराबर हरपीत कौर	पुत्री श्री बहादुर सिंह	म० नं० 2890 - ए, मोनेट इमलाई कालोनी, मॉडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	20.7.1999	2074	
46409	बराबर इकबाल सिंह	श्री गुरदीप सिंह	म० नं० 251, सैक्टर 11-ए, चंडीगढ़	डी० एच० एम० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	8/10/1988	935	
46410	बराबर रोहित दीप सिंह	श्री रविन्द सिंह	म० नं० 285/100, जे-ब्लाक, गार्ड रणवीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	2003	डी० एच० यु० एच० एम० एम०	पंजाब	16.03.2005	2839	
46411	बराबर सुरेन्द्र कौर	पुत्री गुरदीप सिंह	डी.पी.ओ. खोहवाली तैक, मुक्तसर, जिला फरीदाबाद	डी० एच० एम० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	7/3/1988	1054	
46412	बराबर विद्यादीप सिंह	श्री रविन्द सिंह	285/100, जे-ब्लाक, डी.आर.एस. नगर, लुधियाना	डी० एच० एम० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एम० एम०	पंजाब	30.06.2006	3031	
46413	विजय मुखण	श्री मदन लाल	म० नं० 1495, फेस-3, बी-2, मोहाली तैक, खरड़, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	16/08/1994	1983	
46414	विजय प्रभाकर बाला मोहन	मूल राज बरबी	1) 2304/15, सुभाष नगर पी.ओ. बलदेव नगर, अम्बाला सिटी 2) विजय लोभिये, क्लिनिक निवार सतिजा इस्टेट पटल रोड, ए/सिटी	एल० सी० ई० एच०	मार्च - 1988	कोर्ट ऑफ एक्सामिनर्ज इन होमोपैथी, बंगलोर	हरियाणा	28.04.93	5574-ए	
46415	त्रिवेण कृष्ण	श्री रामजी लाल	मार्फत - श्री शिव शक्ति क्लिनिक, वार्ड नं०-23, निवार खेतापल टैम्पल, पलतसा, सिटी हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	3.07.2007	4847	
46416	दुरार सोकरा कुमार	श्री राम प्रकाश कुमार	पोस्ट गूदा कटला वाया बादीकुई सिटी - बादीकुई, जिला दउसा	डी० एच० एम० एच०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.12.2007	4960	
46417	बटर जगजीत सिंह	श्री सुहृद सिंह	म० नं० 323, वार्ड नं० 1, स्ट्रीट नं० 2, निवार कोर्ट कायलेक्स, हुस्वर चौक, गिरेवाडा, जिला मुक्तसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एम० एम०	पंजाब	27.03.2008	3178	
46418	चबल मनमोहन सिंह	श्री रतन सिंह	110, मॉडल ग्राम, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1977	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	3/3/1987	973	
46419	बराक नीलु बराक	पुत्री श्री राम शरण बराक	म० नं० 184 अरु लेन, सेक्टर 10, (पु.पी.)	डी० एच० एम० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	22/02/1989	1127	
46420	चक्रवर्ती दलबाज्योती		केयर/ऑफ - प्रेस चक्रवर्ती, गौत बरबी पी.ओ. - बोरपक, जिला मोरीगांव, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	09.07.96	593	
46421	चक्रवर्ती चतन		केयर/ऑफ - पोनिहर चक्रवर्ती, गौत - हकमा पी.ओ. - हकमा वाया बिलाचपुर, जिला धुबरी, असम	डी० एच० एम० एच०	मार्च - 1990	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.07.98	450	

46422	चक्रवर्ती राजल कुमार	गो-होडियरपुर पी.ओ. - खलीला ककरासही 738101, जिला - कूच बहर (वेस्ट बंगाल)	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होमोपैथी असम	असम	20.06.98	473		
46423	चक्रवर्ती संकार	गोव-कुष्मा नगर पी.ओ. होजई, जिला - नागांव, असम	डी० एच० एच० एच०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.05.2000	543		
46424	चक्रवर्ती सुएजीत	गोव-पाटिलदाहा पी.ओ. - पाटिलदाहा 783371, जिला - बोकारो, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.11.2000	768		
46425	चक्रा रीलजा	मो नं० 102, न्यू आसम नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	23.07.1995	1427		
46426	चक्रा शालिनी	म. नं० 419, फेज-VII, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, तेह. खरक, जिला रोहक	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	23.02.1997	1687		
46427	चक्रा शिखा	मो नं० 88-जी, एच.टी.पी. कालोनी, लेहवा मोहाल बलियाना	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	14.06.2001	2515		
46428	चक्र रेखा	डी. निजामपुर पी.ओ. कन्दोली, जिला - पानीपत	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	हरियाणा	27.11.08	5848-ए		
46429	चक्र कमलजीत सिंह	डी.पी.ओ. खानपुर, तेह एवं जिला लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	23.04.2003	2631		
46430	चक्र सदीप	नं० 519, नाई रणबीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	5.9.2000	2247		
46431	चक्र सुखविन्दर सिंह	गोव बैरवाल अजाना पी.ओ. अजर नगर, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2003	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	18.06.2005	2873		
46432	चक्र सुखविन्दर सिंह	चान्द होस्टल, धानी पाठक, दिल्ली रोड, बरखी दादरी, जिला गिवाही	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2003	बाबा फरीद युनिवर्सिटी फरीदकोट	हरियाणा	7.12.2006	5780-ए		
46433	चक्रवर्ती मीमिता	2/86, महाजती नगर, पी.ओ. निरती, कोलकाता - 700061	डी० एच० एच० एच०	2006	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल कलकत्ता	11.1.07	26515		डी० एच० एच० - 2687
46434	चक्रवर्ती (श्रीमती) काबेरी	ए) मार्फत - दिलीप चक्रवर्ती, वेस्ट मास्करनगर, बाईलेन नं० 5, मो नं० 3, शान्तिपथ, गुवाहाटी - 781018, असम, फोन 0843508704 बी) मार्फत - दिलीप चक्रवर्ती, वेस्ट मास्करनगर, बाईलेन नं० 5, मो नं० 3, शान्तिपथ, गुवाहाटी - 781018, असम, फोन 0843508704	डी० एच० एच० एच०	7/8/2007	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	19.06.2008	99		
46435	चक्रवर्ती पंकज कुमार	ए) मार्फत - पी. चक्रवर्ती, मोसेस कामलेखा, निगर चक्रेसंग चर्च, अपर पी.डब्ल्यू.डी. कोहिमा, नागालैंड बी) मार्फत - पी. चक्रवर्ती, रोहोही रोहिथो, विल्लिक, 51, अपर पी.डब्ल्यू.डी. कोहिमा, नागालैंड	डी० एच० एच० एच०	16.08.2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	23.03.2009	116		
46436	चक्रवर्ती सोमा	77 बैंक कालोनी पिपलीवाल टाउन, महिमाएजा (पी.एच.डी.)	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2004	स्वराष्ट्र युनिवर्सिटी	हरियाणा	28.30.09	5986-ए		

क्र.सं.	चयनकर्ता	के.के. सिविल हास्पिटल पी.ओ. गोलाघाट 785621, जिला गोलामाट, असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बीड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.04.85	120
46437	यशवर्ती जयस							
46438	यशवर्ती चन्द	आरुणसिंह गढ़ारी रोड, बटाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	15.9.1998	1958
46439	यशवर्ती चन्द	गोहल्ला सिमल जी.टी. रोड, बटाला जिला पुरवासापुर	डी० एच० एम० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	7.7.2000	2289
46440	यशवर्ती सिंह	बी.पी.ओ. मोहन लेहरील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद	डी० एच० एम० एच०	सितंबर - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	08.05.1996	5932-ए
46441	यशवर्ती चन्द	म० नं० 221, सैक्टर-17, पंचकुला	डी० एच० एम० एच०	1989	कोसिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	31.10.2006	5772-ए
46442	यशवर्ती चन्द	म० नं० बी-16/386, क्लब रोड, मलेरकोटला, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1982	पंजाब	पंजाब	7/8/1994	1405
46443	यशवर्ती चन्द	लखेश निवास 3242, पुनलीवर, गली नं० 1, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	मई - जून 2004	बी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	09.07.2007	3138
46444	यशवर्ती चन्द	बी.- VII - 190, बेरी एन. मोहल्ला, गुरदासपुर - 143521 (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	1/11/1986	947
46445	यशवर्ती चन्द	म० नं० बी-8-640, संतोखपुर, जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1980	पंजाब	पंजाब	9/12/1992	1328
46446	यशवर्ती चन्द	बी.पी.ओ. लामोया जिला नवशहर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1981	पंजाब	पंजाब	21/1/1986	1666
46447	यशवर्ती चन्द	म० नं० 102, स्ट्रीट नं० 1, न्यू आराम नगर, जसियन रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	8.5.2000	2268
46448	यशवर्ती चन्द	अ. नेहरू नगर, मांडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	23.12.1998	2001
46449	यशवर्ती चन्द	22-पंजीत अवेन्यू, कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	07.08.2002	2600
46450	यशवर्ती चन्द	म० नं० 345, डब्ल्यू नं० 4, कुशा प्रताप, खाना, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	8.6.1998	1851
46451	यशवर्ती चन्द	म० नं० 173, फेस III -बी-2, मोहाली	डी० एच० एम० एच०	2002	पंजाब	पंजाब	12.01.2004	2656
46452	यशवर्ती चन्द	म० नं० 2036, फेस 7, मोहाली, तेह, हरद्व, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	28.1.2000	2195
46453	यशवर्ती चन्द	1) 3. फेसटी हाउसीज, राजकीय कालेज कैम्पस, सैक्टर-1, पी.के.एल. 2) डी.एस.एस.-191, सैक्टर-21, पंचकुला	डी० एच० एम० एच०	जून - 2005	बना फरीद युनिवर्सिटी ऑफ होम्योपैथी फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	16.04.07	6784-ए
46454	यशवर्ती चन्द	गोविंद मोरियन पी.ओ. भिजपुर, जिला फिरोजा	डी० एच० एम० एच०	फरवरी - 1981	कोसिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	28.12.84	5259-ए

[illegible]

48474	चावला सीमा	श्री एसओ एसओ	मो नं० 390/45-ए, चंडीगढ़	डी० एस० एस०	1995	पंजाब	पंजाब	8.10.1998	1861	
48475	चावला सीमा	श्री बी० पी०	ए-4, आर एस, कालोनी, डेरा बियास, अमृतसर (पंजाब)	डी० एस० एस०	1996	पंजाब	पंजाब	6.3.1998	1809	
48476	चावला शिल्प	श्री चविंद चावला	मो नं० 4576, सैक्टर-70, मोहाली	बी० एस० एस०	2004	बी० एस० यु० एस० एस०	पंजाब	24.03.2005	3010	
48477	चावला सेवा	श्री सोहन लाल	बी-1208, प्रेम गली, फाजिल्का, जिला-फिरोजपुर	बी० एस० एस०	2004	बी० एस० यु० एस० एस०	पंजाब	24.03.2006	3015	
48478	चेजारा पवन कुमार	श्री प्रियम सुन्दर	जुरी-अजीत गढ़, सिटी-कुल्लु, जिला-कुल्लु	बी० एस० एस०	मई - 2007	युनिवर्सिटी ऑफ राज० जयपुर	राजस्थान	15.12.2008	5163	
48479	छाबड़ा एकता	पुत्री दर्शन सिंह	ए-4, रानी पार्क, महेश नगर, अम्बाला कैंट	बी० एस० एस०	दिसम्बर - 2005	बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	10.08.07	5803-ए	
48480	छाबड़ा गणतंत्र	पुत्री श्री हरजीत सिंह	मो नं० 621, फेज-1, मोहाली, तेह झरक, जिला-रोपड़ (पंजाब)	डी० एस० एस०	1998	पंजाब	पंजाब	22.6.1999	2051	
48481	छाबड़ा सतीता	पुत्री श्री राम देव छाबड़ा	909/1ए, टैगोर नगर, सिविल लाईन्स, लुधियाना (पंजाब)	डी० एस० एस०	1997	पंजाब	पंजाब	30.3.1999	2024	
48482	छाबड़ा सुलम	श्री कोमल कृष्ण छाबड़ा	अयो, दशमेश पब्लिक स्कूल, दशमेश नगर जलालाबाद (डब्ल्यू), जिला-फिरोजपुर (पंजाब)	बी० एस० एस०	मई - जून 2006	बी० एस० यु० एस० एस०	पंजाब	18.01.2008	3161	
48483	छाबड़ा अनाकर	अनाकर छाबड़ा	अनाय भवन, भवर्माद, सिटी-माल्टा आबु, जिला-माल्टा आबु (राजस्थान)	डी० एस० एस०	अक्टूबर - 1992	एम० सी० ऑफ होमोपैथी, मुंबई	राजस्थान	5.03.2009	5198	
48484	छाया तोहर	पुत्री श्री इरवीर सिंह	मार्फत- डा० डी पी गोदरा सूज नगरी, अंबोहर, जिला-फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एस० एस०	1998	पंजाब	पंजाब	21.10.1999	2149	
48485	छया राकीर मोहम्मद छिया	श्री रामजन शरीक छिया	मुपलसागर, तेह कपसान, सिटी-चितीदगढ़, जिला-चितीद गढ़	बी० एस० एस०	जगदरी - 2006	ज० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (बी० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	28.07.2007	4883	
48486	छितारा अशोक कुमार	श्री मोहन लाल छितारा	गोप खरजाना, तेह, मावली, सिटी-उदयपुर, जिला उदयपुर	बी० एस० एस०	जुलाई - 2006	ज० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (बी० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	28.02.2008	5003	
48487	छितारा रुची	श्री पुष्पलता छितारा	5 डी. 32-ए, महावीर नगर, एम्स्टे, सिटी-कोटा, जिला-कोटा	बी० एस० एस०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी	राजस्थान	4.02.2008	4891	
48488	छोपरा सुषमा	पत्नी अशोक छोपड़ा	998, सैक्टर-11, पंचकुला	डी० एस० एस०	1984	कॉमिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	28.04.94	5584-ए	
48489	छोपरा अक्षरा	श्री एन० के० छोपड़ा	लैन नं० 01, मो. नीलम नगर, जना रोड, होशियारपुर	बी० एस० एस०	2005	बी० एस० यु० एस० एस०	पंजाब	23.04.2007	3086	
48490	छोपरा मोनिका	श्री मनमोहन छोपड़ा	मो नं० 1088, डुबरी रोड अर्बन इस्टेट, फेज-1, लुधियाना	डी० एस० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	17.09.2001 16.06.2005	2549 बी० एस० यु० एस० एस०	

46491	चौपरा मलिका	श्री सुरील चौपड़ा	गो नं० 1667, निगर गुहारा अकाली रक्षण, गुहारा रोड, खरक, जिला-रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1984	पंजाब	पंजाब	21/1986	1582	
46492	चौपरा नीरज	श्री चन्द मोहन चौपड़ा	गली नं० 6, सर्वोत्तर रोड, अबोहर, जिला-फिरोजपुर	डी० एच० एम० एस०	1997	पंजाब	पंजाब	09.05.2001	2605	
46493	चौपरा नीतिन	श्री सी० एम० चौपड़ा	गो नं० 41, गैस, इन्कलेव डकोली, रोड, -देरा बस्ती, जिला-पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	2002	पंजाब	सी० एम० एम० एम०, पंजाब	02.06.2004	2701	
46494	चौपरा रजनी	पुत्री श्री बलदेव रज चौपड़ा	गो नं० 18, शाहिद भगत कालोनी, रोड, राजपुरा, जिला-पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1983	पंजाब	पंजाब	24/07/1985	1522	
46495	चाटपरा मनम	श्री सुदेश कुमार	सुदेश होमियो. क्लिनिक, रात कुरतार मगर मार्केट, जालंधर	डी० एच० एम० एस०	अप्रैल - 2008	पंजाब	पंजाब युनिवर्सिटी, सचड़ीगढ़	08.10.2008	3281	
46496	चौबीसा विराम	श्री प्रेम शंकर चौबीसा	निगर एस.टी. बिरो, माधुगला रोड, सिटी-कुल्लू, जिला-कुल्लू	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2008	राजस्थान	राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	31.07.2007	4800	
46497	चौबरी योगना	श्री हीरा लाल चौबरी	158, नार्थ आर्यद निगर सरस्वती निकेतन स्कूल, सिटी-उदयपुर, जिला-उदयपुर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2008	राजस्थान	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	24.07.2007	4855	
46498	चौबरी जगदीश राम	श्री खेराज राम चौबरी	बी.पी.ओ. अलाह, सिटी-नागौर, जिला नागौर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एस०	मई - 2007	राजस्थान	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	28.1.2009	5186	
46499	चौबरी हरीश	श्री अमर बन्द चौबरी	1510/51, निगर फेड आफिस, रोड विहार कालोनी, सर्वोत्तर मगर, लोहाखान, सिटी-अजमेर, जिला-अजमेर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एस०	जून - 2007	राजस्थान	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	7.11.2008	5134	
46500	चौबरी बन्धना	पुत्री श्री वी० डी० चौबरी	नं० 540, फेज-10, मोहाली, जिला-रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	31.1.2001	2444	
46501	चौबरी अनीता देसा		मार्फत-श्री अनिल कुमार दत्ता चौबरी, गौड-बंशवाडी, जालंधर रोड-राजवाडी जालंधर-785014, जिला-जालंधर, असम	डी० एच० एम० एस०	नवम्बर - 2000	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	26.12.2001	831	
46502	चौबरी आरती		रंजगा रा रोड पी.ओ. तिनसुकिया 786125, जिला-तिनसुकिया, असम	डी० एच० एम० एस०	मई - 1984	असम	वेस्ट बंगाल कॉलेज असम	12.08.87	181	
46503	चौबरी बशीर अहमद		गौड-कनकपुर पी.ओ. कनकपुर पार्ट-1, जिला-कचर, असम	डी० एच० एम० एस०	अप्रैल - 1984	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.09.87	284	
46504	चौबरी मन्मथ		गौड-बरग मंडुपीपारा पी.ओ. बारसंग 781325, जिला-बोरसो, असम	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1999	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	23.10.2000	755	
46505	चौबरी विरलाजीत साहा		गौड-खारुपेटिया पी.ओ.-खारुपेटिया, जिला-दरंग, असम	डी० एच० एम० एस०	जून - 1984	असम	वेस्ट बंगाल कॉलेज असम	31.08.92	498	
46506	चौबरी जगजुहीन		राम चक्रपावकुटी पार्ट III पी.ओ. -अलोनग, जिला-कुली, असम	डी० एच० एम० एस०	दिसम्बर - 1980	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	08.07.98	485	
46507	चौबरी जनार्दन राय		गौड-नरकापुर पी.ओ.-काहिलीपारा, गुवाहाटी-19, जिला-कामरूप, असम	डी० एच० एम० एस०	मार्च - 1985	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	31.10.88	188	

46508	चौधरी जीनू	सेलवे स्टेशन रोड, नियर टाउन पी.ओ. - राजाबाड़ी 785002, जिला-जोरहट, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	12.06.86	176	
46509	चौधरी जोती प्रसाद राय	सरमोन टाउन पी.ओ.-सरमोन 781317, जिला-बोरसेटा, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	नवम्बर - 1995	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.07.98	704	
46510	चौधरी कुञ्जलाल	एन.एफ.आरएलवाई होमियो डिपेंडरी, गुवाहाटी-1	डी० एच० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.05.85	160	
46511	चौधरी मैतुल हक	गॉम-बलपथर पी.ओ.-बलपथर वाया बटादराबा	डी० एच० एम० एम० एम०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.06.99	536	
46512	चौधरी प्रसाद चन्दा	गॉम-अबारिया पी.ओ. अणुमी जिला-कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.12.86	221	
46513	चौधरी रहमान मोकीपुर	गॉम-पब मुकुन्दा अती पी.ओ.-तेतोरिया जिला-नार्गों, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	नवम्बर - 1995	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.04.98	890	
46514	चौधरी समीकुल इस्लाम	गॉम-सोनियाबरा पी.ओ. - बालागारी-782122, जिला-नार्गों, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1994	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.02.2001	766	
46515	चौधरी रंजु	बिदवापुर पी.ओ. - नलबाडी, जिला-नलबाडी, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	मार्च - 1993	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05-3.98	670	
46516	चौधरी सुनीषा	वरपला प्रेमिया हाल चकुबारी गुवाहाटी-7, जिला-कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.07.2001	806	
46517	चौधरी सुभाषा	डी.के. काकोरी रोड चकुबारी, गुवाहाटी-7	डी० एच० एम० एम० एम०	फरवरी - 2001	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	असम	26.03.2006	928	
46518	चौधरी तालाब अहमद	गॉम-कायीग्राम पी.ओ. - बंगालाज, जिला-काश्मिरग, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.05.85	147	
46519	चौधरी तीर्थ दयुति	डी.के. काकोरी रोड चकुबारी, गुवाहाटी-7	डी० एच० एम० एम० एम०	फरवरी - 2001	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	असम	16.09.2006	928	
46520	चौहान राम निरास	जोगीजन बस्ती पी.ओ. होजई जिला-नार्गों, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.11.84	96	
46521	चुग सुनी	683-ए. केच-XI, मोहली, तेह. खरह, जिला-रोपक (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	3.7.2000	2279	
46522	चुग पुमान	डी. XIII-1175, स्ट्रीट नं० 16, फोल्ड मज, सुधियाता (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	12.7.2000	2287	
46523	चुग सोनल	गो नं० 580, सैक्टर 20-ए, बंदीगड	डी० एच० एम० एम० एम०	1995	पंजाब	पंजाब	27/08/1996	1838	
46524	चुटिया घाना कोटा	गॉम-मोतिवालागॉम पी.ओ. मोरवाई, बेबीजवा कठगॉम, जिला-सबरीपुर, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.12.86	194	
46525	चुटिया नावा	गॉम-हकौल गॉम पी.ओ. - धाटपारा, जिला-सबरीपुर, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.02.87	214	

48526	पुटिया रणवीर	गोंद-मेहेली पी.ओ. - सिसिबोर्गोव 708110, जिला-मेधाजी, असम	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.12.2000	780	
48527	पुटिया रणजी	गोंद-बारदेकरवारी पी.ओ. - हईमोर्गोव, 708109, जिला-मेधितपुर, असम	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 2001	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.09.2008	927	
48528	डी. डेविड राज.	सी-11, पंथली इन्कलेव, जय. टिडो मार्ग, निचर शिरांग दिल्ली क्लॉसिफर, न्यू दिल्ली-17	डी० एच० एच० एस०	2006	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	कर्नाटक बोर्ड	15.11.05	56529 -ए	सी० सी० एच० -2892
48529	दक्षिण भारकर	1106, महावीर नगर सिन्धु सिटी-कोटा, जिला-कोटा	डी० एच० एच० एस०	2007	को आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डीनर युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	22.07.2008	5048	
48530	दक्षिण सुनीता	डी.डी.ओर-पुलीय न्यू सिविल लाइन्स, कोटा रोड सिटी-बन, जिला-बन	डी० एच० एच० एस०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	23.11.2008	5147	
48531	दक्षिण स्वेता	1/72, एल.आई.जी. कालोनी, इन्दौर, (नया प्रवेश)-452008	डी० एच० एच० एस०	1998	एच० पी० कॉमिल बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	एच० पी० कॉमिल एस० पी० कॉमिल	15.12.2000	13352	सी० सी० एच० -2870
48532	बाग दिनेश सिंह	गोंद - ब्रासेन्टली पी.ओ. बल्लभगढ़, जिला - फरीदाबाद	डी० एच० एच० एस०	सितम्बर - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	6.03.91	5640-ए	
48533	दक्षिण प्रेम पात	रेलवे स्टेशन कोराही, जिला - रेवाड़ी	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	16.01.92	5585-ए	
48534	दक्षिण रणवीर	1) 2068, सैक्टर-6, बहादुरगढ़ 2) दक्षिण होमिया, क्लिनिक दिल्ली रोडक रोड, बहादुरगढ़	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	6.02.95	5822-ए	
48535	दक्षिण सुनार	गाम- नं० 1, सक्कीर पी.ओ. - विरक मैरांग, जिला-बिरकगढ़, असम	डी० एच० एच० एस०	जनवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.03.87	233	
48536	दक्षिण शिवानी	बी-188, नेहरू नगर, पानी पंच, सिटी-सैबबान-30 (1), जिला-जयपुर	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 2005	पंचांग युनिवर्सिटी असम	राजस्थान	19.05.2007	4638	सी० सी० एच० -2787
48537	दक्षिण दीप	पत्नी गुरुदेव सिंह सिन्धु	डी० एच० एच० एस०	दिसम्बर - 2003	बाला फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	9.02.2008	5747-ए	
48538	दक्षिण हर्षा	सिन्धुनिगा, जोवाई	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1987	बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, गुवाहाटी	मेघालय	14.10.1988	178	
48539	दक्षिण मुजुन	असम कालोनी, सिमन रोड, सिटी-समगजकली, जिला - कोटा	डी० एच० एच० एस०	जनवरी - 2007	को आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डीनर युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	20.08.2008	5068	
48540	दक्षिण शोभित कुमार दालु राम उर्वर	81, महेरा नगर, अम्बाला कैन्ट	डी० एच० एच० एस०	1981	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	29.06.93	5584-ए	

48566	दास जितेश्वर मोहन	गौव-लंका पी.ओ. - लंका, जिला-नागौर, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	27.06.86	182		
48567	दास जयप्रियेश चन्द्र	गौव-चजुबारी पी.ओ. - चजुबारी 781367, जिला-नलबारी, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 2003	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	30.06.04	904		
48568	दास कार्तिक बन्द	केयर ऑफ - श्री आर.एन. पान काहिलीपारा, सुरजेश्वर	डी० एच० एच० एच०	जून - 1978	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.06.83	73		
48569	दास किशोर कुमार	गौव-बररी पी.ओ.-टिहु जिला-नलबारी, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	28.12.2001	836		
48570	दास मलय कुमार	मार्कस - सुनाथ चौ. दास कृष्ण नगर पी.ओ.-देव कान्त नगर, गुवाहाटी-33	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2002	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	17.10.2003	881		
48581	दास मनोज कुमार	गौव-दोशिला पी.ओ.-सोनपुली 783130, जिला-गोलपाड़ा, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	05.05.98	460		
48582	दास मनोरेजन	गौव-बारलकुली पी.ओ. - टिनीपुखुरी, जिला-काकरपु, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	01.02.99	354		
48583	दास मोनजीत	उजनबाजार एत.आर.एस. रोड, गुवाहाटी-1, जिला-काकरपु, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 2003	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	23.06.04	899		
48584	दास भरिनल	गौव-तेकीतोला पी.ओ. तेकीतोला 781368, जिला-नलबारी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	14.05.2001	793		
48585	दास सुनिन्दर	गौव-कालाकुली पी.ओ. - कालाकुली बाबा तामुलपुर 781367, जिला-नलबारी, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1993	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	17.03.98	863		
48586	दास निशिकान्त	एम.डी. स्कूल रोड पी.ओ.-कटलीचेरा, जिला-ककर, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	17.12.87	219		
48587	दास पूर्ण नन्दा	होमियो. स्वास्थालय साराजन, ए.टी. रोड पी.-जोरहट-1, जिला-जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	जून - 1987	विहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	18.03.98	455		
48588	दास राज कुमार	गौव-बोको (अकृपाका) पी.ओ. - बोको 781123, जिला-काकरपु, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	25.07.2001	807		
48589	दास रणजीत	किरणुर हेमचाली रोड दिसपुर गुवाहाटी-30	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1981	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	06.09.2001	521		
48570	दास रतनमाया	के.ओ. - डी.सी. दास रूपनगर, गुवाहाटी, गुवाहाटी-32	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	19.09.98	422		
48571	दास रमन चन्दा	गौव-दोमाखा पी.ओ. - तलियाडी, जिला-नलबारी, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	17.11.2005	917		
48572	दास श्रीधर	गौव-बारलकुली पी.ओ. - टिनीपुखुरी, जिला-काकरपु, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	09.07.98	387		

46573	दास सिद्धी राम	गौड-सैनगोला पी.ओ. - साकुडी गुवाहाटी-18, जिला-कामरूप, असम	डी० एच० एम० एच०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	24.08.88	304	
46574	दास सुरेश चन्द्र	गौड-अकाली बिल पथर पी.ओ.-बोरपेटा रोड 761315, जिला-बोरपेटा, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1982	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.06.98	589	
46575	दास सुशान्त चन्द्रा	गौड-बराल कुची पी.ओ.-पश्चिमीझाड़ गौड, जिला-नलबाड़ी, असम	डी० एच० एम० एच०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	26.06.98	360	
46576	दास सुवीर चन्द्रा	लेबर मिशन रोड पानीगौड, पी.ओ. - पानीगौड, जिला-नार्गोंद, असम	डी० एच० एम० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.11.84	97	
46577	दास स्वप्न कुमार	दरनग होमिया, क्लिनिक ठाड बी० बालू रोड, चतुर्बाकी, गुवाहाटी-7	डी० एच० एम० एच०	जून - 1977	कौंसिल ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, वेस्ट बंगाल	20.06.83	72	
46578	दास तपश	आनन्द नगर बाई लैन-3 पाण्डे, गुवाहाटी-12, जिला-कामरूप, असम	डी० एच० एम० एच०	मार्च - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	17.03.98	680	
46579	दास तपानी कुमार	कुमार होमिया, क्लिनिक बरिश चैराली गुवाहाटी, असम	डी० एच० एम० एच०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	24.08.88	305	
46580	दास तुलुल कुमार	गौड-बाभुनकुची पी.ओ.-रायपुर, पाठशाला 761326, जिला-बोरपेटा, असम	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	08.07.98	608	
46581	दास उत्तम कुमार	गौड-सिलीगुड़ी उत्तरी पी.ओ.-सिलीगुड़ी बस्ती दादा हाजई, जिला-नार्गोंद, असम	डी० एच० एम० एच०	सितम्बर - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	12.07.99	732	
46582	दास गुप्ता कृष्णा	हैनियन होमियो, क्लिनिक लखतकिया, गुवाहाटी-1	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	17.07.85	166	
46583	देसा मन्दा	गोलप सोमियो, हाल गौड-नवदेसा गौड पी.ओ. दिसाई नगर, जिला-जोरहट-1, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	08.05.88	284	
46584	दाता कुपेन	गौड-नामगुख पी.ओ.-धकुआबाजा, जिला-एन. लक्ष्मीपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	10.05.85	162	
46585	दाता कल्पना	गौड-सरिता बाड़ी अंगुलपानी, नार्गोंद जिला-नार्गोंद, असम	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	08.03.99	385	
46586	दाता कल्पना शर्मा	कैन्डी अली, जोरहट पी.ओ. जिला-जोरहट, असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	30.10.86	177	
46587	दाता मिलोन कुमार	आनन्द नगर दिसपुर पी.ओ. - गुवाहाटी-6	डी० एच० एम० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.12.86	212	
46588	दाता प्रीमल चौ.	संतोष मेडिकल सेंटर पी.ओ.-बिरानाथ चराईली, जिला-सोनितपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.07.87	237	
46589	दाता तिलोत्ता नाथ	गौड-नागमुख पी.ओ.-धकुआबाजा, जिला-एन. लक्ष्मीपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	25.05.85	160	

46590	देवे अपूर्वा	श्री मनदी कुमार दवे	7-कोशव नगर ग्रामिनिस्टी रोड, सिटी-उदयपुर, जिला-उदयपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जो आर० नगर राजस्थान विधानीय (सीन्ड ग्रामिनिस्टी), उदयपुर	राजस्थान	10.12.2008	5159	
46591	देवे बरगोक कुमार दवे	श्री विनेश कुमार दवे	आजाद बस्ती, वकील कालोनी, सिटी-बाली, जिला पाली (राजस्थान)	डी० एच० एच० एच०	जून - 2007	जो आर० नगर राजस्थान विधानीय (सीन्ड ग्रामिनिस्टी), उदयपुर	राजस्थान	7.11.2008	5133	
46592	दतरा पूजा	पुत्री श्री एस० के० दतरा	फा० नं० 1532, फेस 3-बी. मोहली, रोड, खण्ड, जिला-रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	17.9.2000	2321	
46593	दयाल रामपाल कोर	श्री ए० एस० दयाल	फा० नं० 1, निगर गुरुद्वारा सिंह समा, नेशनल अवेन्यू, रामा मन्दी, जालंधर	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - नवम्बर 2004	भारती विधानीय ग्रामिनिस्टी, पुणे	पंजाब	25.09.2008	3057	
46594	डे मोनदीप		के/ओ-बारवाली, गुवाहाटी-7 रोड, उलुबाड़ी, गुवाहाटी-7	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1994	ग्रामिनिस्टी ऑफ कलकत्ता	असम	24.04.98	694	
46595	देब असीत रंजन		पेन्टस मेमोरियल विरगुल्ली, होजई पी.ओ. होजई, जिला-नागांव, असम	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1993	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.11.84	102	
46596	देब कुमारी मंजुलारी		के/ओ-श्री बी.सी. देब शंकरपुर बाई लेन-2, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी-16	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.12.2001	834	
46597	देबनाथ नारायण		कुशल नगर पी.ओ.-हैदरगंज-782002 जिला-काजूर, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1992	ग्रामिनिस्टी ऑफ कलकत्ता	असम	10.03.98	687	
46598	देब प्रताप कान्ती		गॉव-पालीरवाका पी.ओ.-कैलाराहर जिला-मार्थ त्रिपुरा	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1995	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.03.87	236	
46599	देब रणधीर		सी/ओ-एच.बी. देब बा० काकोटी रोड, उलुबाड़ी-गुवाहाटी-7	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1994	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	23.04.85	137	
46600	देब रत्न कुमार		आना नगर, अमरताला पी.ओ.-माहलपारा, सेन्ट त्रिपुरा	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1994	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.09.85	168	
46601	देबनाथ प्रदीप		सी/ओ-जितेन्द्र देबनाथ, गॉव-जनुकबाड़ी पी.ओ. जनुकबाड़ी, जिला-दरंग, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.11.2000	762	
46602	देबनाथ सुभाष		गॉव-चक्रगोव पी.ओ.-पारोकोवा 782411, जिला-नागांव, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	06.09.2001	616	
46603	देबनाथ सुकुमार		एन. हरिया लखर पथ रोड, पी.ओ.-लंका 782446, जिला-नागांव, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.08.07	1009	
46604	दिपाली	श्री कृष्ण लाल	महल मुबारक कालोनी, संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	21.02.2002	2590	
46605	दिपानजली	पुत्री श्री मनजीत सिंह	287/डी, बी-34, च्यू बस्तर नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	6/7/1992	1305	
46606	दिपन बरूह		गॉव-ब्रह्मगोव पी.ओ.-हबीजुकिवा, जिला-गोलाघाट, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	30.07.2001	806	

क्र.सं.	विधिका	सं. सं. सं. सं. सं.	124-बी.जी.डी.डी. अवेन्यू, मंडल टाउन, जालंधर	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	06.07.2001 (22.02.2008)	2523	डी० एच० एच० एच० (गैडिड डि०) 2003 डी० एच० एच० एच०
46607	विधिका	सं. सं. सं. सं. सं.	124-बी.जी.डी.डी. अवेन्यू, मंडल टाउन, जालंधर	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	06.07.2001 (22.02.2008)	2523	डी० एच० एच० एच० (गैडिड डि०) 2003 डी० एच० एच० एच०
46608	विधिका	श्री राम लाल बंसल	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	2001	पंजाब	पंजाब	07.04.2005	2627	
46609	विधिका	श्री अशोक कुमार	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	पंजाब	11.01.2006	2973	
46610	विधिका	पत्नी विवेक ललित	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	14.06.05	5727-ए	
46611	विधिका	पुत्री श्री रघुवीर एम देहरा	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	1980	पंजाब	पंजाब	30.04.1992	1279	
46612	विधिका	देका अरुण चन्दा	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	मई - 1991	पंजाब	पंजाब	29.06.98	482	
46613	विधिका	देका बजेंद्र नाथ	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	पंजाब	पंजाब	03.12.84	113	
46614	विधिका	देका विमल चन्दा	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	पंजाब	पंजाब	20.01.2001	783	
46615	विधिका	देका बीना	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	पंजाब	पंजाब	23.08.98	587	
46616	विधिका	देका विवेक	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	पंजाब	पंजाब	24.03.98	534	
46617	विधिका	देका वीरज	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	पंजाब	पंजाब	03.07.2001	799	
46618	विधिका	देका विवेक	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	सितंबर - 1986	पंजाब	पंजाब	16.05.88	298	
46619	विधिका	देका हरिचन	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1996	पंजाब	पंजाब	04.04.98	681	
46620	विधिका	देका विवेक	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	पंजाब	पंजाब	06.01.2000	401	
46621	विधिका	देका विवेक	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1993	पंजाब	पंजाब	10.07.98	684	
46622	विधिका	देका जयदेव	सं. सं. सं. सं. सं.	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	पंजाब	पंजाब	05.09.2001	615	

46623	देका मनोज कुमार	गोंद-ललकटा पी.ओ.-बैरिया, युवाहाटी-29, जिला-कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2003	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	26.06.04	696		
46624	देका पंकज	गोंद-सोलन पी.ओ.-कैन्दुआ 761121, जिला-कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.12.2000	779		
46625	देका प्रभाज जोषी	गोंद-निज-दंडुवा पी.ओ.-निज दंडुआ 782104 जिला-मोरंगीव, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	12.07.99	733		
46626	देका सुनी	गोंद-बंगलबारा पी.ओ.-बंगलबारा जिला-मोरंगीव, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.07.98	445		
46627	देका सुरेन्द्रनाथ	गोंद-सैयबाडी पी.ओ.-सैयबाडी जिला-बोरपेटा, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	06.09.97	256		
46628	देका हरेन्द्र	देका होमिया, फार्मसी अम्बारी, फतासिल (नियर अम्बारी हाई स्कूल), युवाहाटी-25	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1996	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.03.98	676		
46629	डायोरा हिंसा	डेगा मदन, निजर आनन्द सिनेमा, आस्टराईड सोजती गेट, सिटी-जोखपुर, जिला-जोखपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	डी० एच० एच० एच० राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4699		
46630	डायोरा विनोद चन्द्र	गोंद-कालिकापुर पी.ओ.-तोगापाणी, जिला-शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.03.88	275		
46631	देराया प्रवीण परामल	1) मोहन, सरस्वती जैन, भस्तागढ़, जालपा 2) मार्फत- डी.के.एम.एम. होमिया, मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	डी० एच० एच० एच०	1999	डी० एच० एच० एच० युनिवर्सिटी, औरंगाबाद	असम	13.12.99	29662		डी० सी० एच० -2020
46632	डयूरी अगलेन्दु	नं०-2, मोहन गोंद पी.ओ.-सोदुलगा, जिला-तिरुचुडिकुवा, असम	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.01.99	715		
46633	डयूरी वरन	गोंद-गडगोंद पी.ओ.-बागमारा बाजार 761239, जिला-बोपेटा, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1994	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.07.85	162		
46634	डयूरी नमीता	मार्फत-दिलीप डेरी, गोंद-सिमोनी पी.ओ.-तोगापाणी, जिला-शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	17.01.07	994		
46635	डयूरी राम प्रसाद	अमन ओमलम गोंद, जौनई पी.ओ.-जौनई, जिला-डिमाजी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2005	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	23.10.06	985		
46636	देवी (देवनाथ) एल. मोनो	कुशल नगर पी.ओ.-डैबरगॉड-762002 जिला-कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1992	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	असम	10.03.88	668		
46637	देवी अहोयतांगबाम अमीता	एस.जे.एम. होमिया, कालेज, पंजाबाडी, युवाहाटी-37	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.08.98	662		
46638	देवी विजाया सीताथाम	एस.जे.एम. होमिया, कालेज, पंजाबाडी, युवाहाटी-37	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.05.2000	341		

46639	देवी इलंगशम तमकसाना	एस.जे.एन. होमिया, कालेज, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	01.06.98	628
46640	देवी रेखा चिंतरेवरी	जे.के.एस. होमिया, कालेज, जोरहट, क्लर रोड पी.ओ. जिला-जोरहट-8, असम	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.05.98	576
46641	देवी कल्याण करमिला	एस.जे.एन. होमिया, कालेज, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	02.03.98	635
46642	देवी खरकपुआम सुरनलता	गौत-लेखम पी.ओ.-पूलीहई रेसपोर्ट 795001, जिला-इम्फाल वेस्ट, मणिपुर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	07.09.07	1013
46643	देवी कुसुम मनोरमा	एस.जे.एन. होमिया, कालेज, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.06.98	639
46644	देवी लैरराम शान्ति बाला	गौत-लिलोन पी.ओ.-लिलोन 795130, जिला-इम्फाल, मणिपुर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	29.11.07	1016
46645	देवी मौर्याम प्रेमबती	कामाख्या होमिया, किर्लोस्कर, सिक्समाईल खन्नापारा, गुवाहाटी-22	डी० एच० एम० एस०	अक्टूबर - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	24.08.07	1012
46646	देवी मोनिजा	मार्कट - डा० प्रमोद वन्सा शर्मा, कन्वल सिस्कुखुरी, गुवाहाटी-3	डी० एच० एम० एस०	नवंबर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	26.11.2001	823
46647	देवी नरबान इंदुलानी	गौत-ता इलाख एन.सी. रोड, इम्फाल 795113, जिला-इम्फाल वेस्ट, मणिपुर	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	19.10.06	982
46648	देवी निधाउजम रोमनबती	जे.के.सीकिया होमिया, कालेज, क्लर रोड जोरहट-8	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.07.98	707
46649	देवी निधाउजम सुमीता	जे.के.सीकिया होमिया, कालेज, क्लर रोड जोरहट-8	डी० एच० एम० एस०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	02.05.98	686
46650	देवी पंगईजाम रूपबती	जे.के.एस. होमियो कालेज, जोरहट, क्लर रोड पी.ओ. जिला-जोरहट-8, असम	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.06.98	585
46651	देवी रश्मि रेखा	साउथ हैबरगॉव साथी राधिका रोड, पी. ओ. - हैबरगॉव-2, जिला-नागांव, असम	डी० एच० एम० एस०	फरवरी - 1996	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.03.99	726
46652	देवी रजिनी रेखा	गौत-गधिया पी.ओ. - गधिया, जिला, नलगाड़ी, असम	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	03.04.98	616
46653	देवी रुक्म धेयन्यापती	एस.जे.एन. होमिया, कालेज, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.06.98	589
46654	देवी शुबला	जे.के.एस. होमियो कालेज, जोरहट, क्लर रोड, पी.ओ. एवं जिला-जोरहट-8, असम	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.06.98	573
46655	देवी मन्थेजा	एस.जे.एन. होमिया, कालेज, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.05.98	627

46655	देवी शायम सुनीला	एस.जे.एन. होमिया, कोलकाता, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.05.2000	340	
46657	देवी उषा	कुमार निवास, शिवा पुष्प, पी.ओ. बरसतपुर, गोरखपुर (यु.पी.)	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	14.07.99	642	
46658	देवी युगमा सुनीला	एस.जे.एन. होमिया, कोलकाता, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी-37	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.02.2001	786	
46659	दिवान अभिनव	1104, सेक्टर-14, सोनीपत	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2005	बाबा ऊरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	16.04.07	5792-ए	
46660	दिवान सैयद मोहम्मद अली	मार्कट - सैयद अब्दुल करीम दिवान, गॉव-सरिकोट, पी.ओ.-शैला, जिला-काकरप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1996	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.02.98	871	
46661	दिवान सुसात बागची	हिमंग्रु होमिया, हाल सिलचुली पी.ओ.-गुवाहाटी-3, जिला-काकरप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.03.98	333	
46662	दिवान पूजा मोहन दिवान	70, नो 847, सेक्टर-70, मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	24.1.2001	2432	
46663	देवरी सगत कुमार	गॉव-कुनपुर देवरी गॉव पी.ओ. एन.-बालीजन 786168, जिला-तिनसुकिया, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.10.2000	746	
46664	डै बोरनाली	गॉव-यजुली आइसलैंड नया बाजार, जिला-जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.08.2000	478	
46665	डै दिलीप	काहिलीपाडा कालोनी (विल सार्ड) पी.ओ.-तिनोया नगर, गुवाहाटी-16	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.05.2002	849	
46666	डै दुसाल बन्दा	होमियो. क्लिनिक धोकियाजुली पी.ओ.-धोकियाजुली, जिला-सोनितपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	जून - 1972	कोरिल ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, वेस्ट बंगाल	असम	31.03.76	46	
46667	डै रवी	कामाख्या नगर अदाबरी तिनाली, गुवाहाटी-22	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1995	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.11.86	202	
46668	डै रवीन्द्रा कुमार	गॉव-ब्रह्मोटीपी पी.ओ.-नागाँव, असम	डी० एच० एच० एच०	मई - 1989	वेस्ट बंगाल कोरिल	असम	25.08.93	447	
46669	डै सगीर	सारदा होमिया, हाल, दिनसुकिया पी.ओ. एवं जिला-तिनसुकिया 786126, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1981	वेस्ट बंगाल कोरिल	असम	30.05.07	1008	
46670	डै सुशील बन्दा	गॉव-बादलीनगर पी.ओ.-गुज रंगाम, जिला-नागाँव, असम 782022	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.12.86	173	
46671	रघुवाल भगत	एस.पी.ओ. नो 45-46, नया मार्ग, सेक्टर-9-बी, बडीगढ़	डी० एच० एच० एच०	1998	नागपुर युनिवर्सिटी	पंजाब	30.06.2006	3033	
46672	शालीपाल सुब्रमणी चालीवाल	नो-280-बी, माई रणवीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	19.06.2007	3126	
46673	धामिजा हरेंद्र कर	एच.एम.-59, फेज-3-बी-1, गेहाली, रोह-बराक, जिला-पोंडिच (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	30.7.1999	2097	

46693	जीमन सिवालिका	श्री यु० एन० दीपन	गौतम जवाहर नगर, पी.ओ. एच.पी.डी.ओ. स्कूल एडुकेशन, बर्नहाला, कांगड़ा	डी० एच० एच० एच०	2008	को आर० नगर राजस्थान विधानसभा (सी० युनिवर्सिटी), जयपुर	हिमाचल प्रदेश	06.08.08	204-ए
46694	जीमन अमनदीप	श्री कशमीरी लाल दीपन	न० 390, वार्ड न० 18, शास्त्री नगर, मन्दी गोविन्दगढ़, रोह. अमलोह, जिला-फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	4.8.1999	2106
46695	जीमन हरप्रीत सिंह दीपन	श्री इन्दरपाल सिंह दीपन	न० 4695, फेज-11, अरुन इस्टेट, कुपारी, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	26.09.2006	3085
46696	विमरिया अरुण कुमार	गर्जित-दीपकधर रमियागौतम पी.ओ. -कुमारगौतम 766008, जिला-डिब्रुगढ़, असम	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	असम	08.01.99	714
46697	विमर हिन	उ० एच० सी० डिपन	31/480, हाऊसिंग बोर्ड, प्रताप नगर, सांगनैर सिटी-जयपुर, जिला-जयपुर	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	26.11.2008	5144
46698	विमर हरप्रीत सिंह	पुत्री श्री सतनाम सिंह डिपन	न० 459, माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	15/9/1995	1536
46699	विमर रीना	श्री आलम प्रकाश	न० 4, चौक-20-ए, चंडीगढ़	डी० एच० एच० एच०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	01.02.2007	3084
46700	विमर सुनीता	श्री सुरेश्वर दास डिपन	गोह. शोहजान गुरु-महल, रोह-फिरसपुर, जिला-जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2003	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	07.07.2005	2891
46701	वीर प्रदीप कुमार	श्री धर्म चन्द	न० 4699, राधा स्मार्टी स्ट्रीट, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	14/02/1989	1110
46702	वीर राजीव	श्री मदन मोहन धीर	मार्केट - होमन होमिया विलनिक, अपोजिट रैड क्रॉस भवन, कपूरथला - 144091 (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	राजस्थान बोर्ड, जयपुर	पंजाब	28/3/1989	1143
46703	वीर रजनीश कुमार	श्री नरेंद्र दास धीर	वार्ड न० 4, पिडरवाडा, जिला-मुक्तसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - सितम्बर 1993	डी० एच० एच० एच०, पंजाब	पंजाब	13.06.1985	799
46704	वीर वैशाली महादेव	श्री महादेव नाथ	वार्ड न० 494, बी.आर.के. पुल, सिटी-कोटा, जिला-कोटा	डी० एच० एच० एच०	1998	जयपुर युनिवर्सिटी	राजस्थान	28.11.2007	4955
46705	विमरिया पुष्पा		गौतम-जलवाली बहिनिया पी.ओ. -कोनगुली स्थान, जिला-जोधपुर, बसम प्रदेश	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.09.87	247
46706	विमरी कुल		मार्केट-कुल हसन, कवाटर न० 7, टाईम ट. नोब. पी.ओ.-ईटानगर - 791111, जिला-पुनगवा, अरुणाचल प्रदेश	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	19.01.07	996
46707	विमल लाल	उ० श्री हरबंस लाल	न० 458, न्यू माडल हाउस, जलंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	26.8.1999	2123
46708	विमेश कुमार	बंसी घर	134, वार्ड नं. - 7, शिवली नगर, नारनौली कीटो, महेंद्रगढ़	डी० एच० एच० एच०	1996	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	हरियाणा	19.06.08	6798-ए
46709	विमेश मोहन	उ० सुरेंद्र मोहन	मोहन होमिया, विलनिक, 1169/4, रेलवे रोड, बंगला सिटी	डी० एच० एच० एच०	1993	कौशल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	20.02.95	5623-ए
46710	विमेश	श्री स्थान दास	न. नं. 2 सी. 18, सलवंकी, सिटी-कोटा, जिला-कोटा	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2002	डी० एच० यु० एच० एच० फरीदकोट	राजस्थान	5.2.2009	5191
46711	विमेशी कर्मा	श्री टी० आर० सार्मा	सोहन होमियापैथिक मेडिकल कॉलेज, सोहन	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब होम्योपैथी कॉलेज	हिमाचल प्रदेश	06.11.03	136-ए

48730	दुर्गा ल सीमा	श्री कृष्ण कुमार दुर्गा ल	महियान गली, चावल बाजार, बी.-IV, 120, मुनियावा	बी0 एच0 एच0 एच0	1984	पंजाब	पंजाब	09.05.2002	2588	
48731	दत्ता महेरा	श्री मनमोहन लाल	मौज कुहापुर, पी.ओ. चानीर	बी0 एच0 एच0 एच0	1985	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	21.08.00	111-ए	
48732	दत्ता सुनील	श्री सिल्लु राज	मौज अलुना, पी.ओ. बसन्तपुर तेंद -राजपुरा, जिला-महिला (पंजाब)	बी0 एच0 एच0 एच0	1986	पंजाब	पंजाब	19.04.1989	1153	
48733	दत्ता अर्जुन		अडार् नं. VIII (एम.) 8/1, कोपिल कामलेख, तिरुपुर, गुवाहाटी-6	बी0 एच0 एच0 एच0	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.05.2001	794	
48734	दत्ता आशिस		मार्फत-अजय कुमार दत्ता पारा (रंगीटी पार्ट-1) पी.ओ.-बैकान, जिला-ईलाकन्डी, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	जनवरी - 1988	सेट्ट बंगाल कोसिल	असम	04.07.08	1088	
48735	दत्ता विरेन कन्ना		2 नं. बारीगाँव पी.ओ.-पुपनी गोई गौ, जिला-जोरहट, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.03.98	325	
48736	दत्ता गायत्री		गौ-कालकोया ज्योतिपुर नियर एम.जी. कालेज, जोरहट पी.ओ. एवं जिला-जोरहट 785001, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.07.2001	803	
48737	दत्ता जय प्रसाद		गौ-कालकोया पी.ओ.-मुलारकुडी, जिला-नलबाडी, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.03.98	519	
48738	दत्ता मनोज		गौ-मोक्टचेरनीगाँव पी.ओ.-करंग, जोरहट-6, जिला-जोरहट, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	31.10.2000	759	
48739	दत्ता सिन्धु प्रवीण		मार्फत-बकापानी दत्ता, गौ-बेरीगाँव (दत्तापारा), पी.ओ.-माना जिला-जोरहट, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	अक्टूबर - 2006	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.03.08	1018	
48740	दत्ता मिनाती		सुक होमियो, चेम्बर, हेन्गराडी रोड, गुवाहाटी-6	बी0 एच0 एच0 एच0	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.05.98	528	
48741	दत्ता प्रणव		मार्फत-आशुतोष दत्ता, सोलंग पी.ओ. -बोरुडी 782143, जिला-नार्गाव, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	अक्टूबर - 2004	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	23.10.06	989	
48742	दत्ता सविन्दा कुमार		रबी भवन, फतासिल मैन रोड, गुवाहाटी	बी0 एच0 एच0 एच0	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.07.2000	434	
48743	दत्ता राजेन		गौ-नोरलेन पी.ओ. नोरलेन 787001, जिला-लखीमपुर, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	मार्च - 1996	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.04.98	885	
48744	दत्ता रणजीत		बी.जी. कालोनी (कालीबाडी) पी.ओ.-यू. बोनियागाँव 783381, जिला-बोनियागाँव, असम	बी0 एच0 एच0 एच0	जून - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.12.06	991	
48745	दत्ता साधना	श्री पुष्पा कन्दा दत्ता	1) ए.एल.-21, सैक्टर- , सल्ट लेक, कोलकाता, 700061 2) टोल्मोलेक इन्कलेव, महिस गोटे, कालीपाडा-बी.-6, मार्च 24, परगनास, कोलकाता-700102	बी0 एच0 एच0 एच0	1994	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मुजिफपुर	वेस्ट बंगाल कलकत्ता	18.8.1994	19128	बी0 सी0 एच0 -3598

48746	दत्ता आनंद	मार्फत- मिस्टर रमेश देवदासिया, 1 बाईपास गिर अजयरा हाथ, पी.ओ. -ताराजान 786001, जिला-जोहरा, असम	डी० एच० एच० एस०	अक्टूबर 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	23.02.2000	404	
48747	दत्ता आनंद	श्री सुदर्शन दत्ता सुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1987	पंजाब	पंजाब	28/02/1995	1429	
48748	दत्ता आनंद	श्री सुभाष दत्ता श्री पी.ओ. अन्ना प्रसि स्टेन, दिना नगर, गैह एवं जिला-गुवापुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1986	पंजाब	पंजाब	6.3.1988	1811	
48749	दुर्गाह तोरोवर	गौतम-बुधवार, पी.ओ.-सुविद्यापथर, जिला-लखीपुर, असम	डी० एच० एच० एस०	1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.04.88	285	
48750	द्विजदी रवि शिवम	185, डी./1, हिमात गंज, इलाहाबाद, यूपी-211016	डी० एच० एच० एस०	2007	डी० बी० आर० एच० युनिवर्सिटी, आगरा	यूपी पी० रोड लखनऊ	20.3.07	27821	सी० सी० एच० -2817
48751	ओरलिन रसवई के	ए. सिंगर मोलई, नानकपुर पी.ओ. -शिलोम-793008, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.03.85	118	
48752	कजलुर रहमान	रिलेक्स रैडस ओल्ड सॉफ्ट हाउस रोड पी.ओ. एवं जिला-जोहरा-1, असम	डी० एच० एच० एस०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.09.84	82	
48753	फेकलिन मेरी	कालापट्टी, शिलोम पी.ओ. -शिलोम-2, मेघालय, जिला-ईस्ट खासी हिल्स	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.04.85	123	
48754	फेकलिन मेरी	कालापट्टी, शिलोम-2	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	मेघालय	15.10.84	42	
48755	जी यन्त्रिजन	1) रंकरन इल्लम, बरथीदासन, स्ट्री. अट्टायाम पट्टन (पी.ओ.) सेलम जिला - 637501 (पेरियार बंगाल) 2) जे.एल.एन. होमिया मेडिकल कालेज पी.ओ. लिम्बा, ताल वाघोडिया जिला वडोदास डिप-381760 (गुजरात)	डी० एच० एच० एस०	1993	माधुरी कामराज युनिवर्सिटी	तमिल नाडू एच० एम० कर्नाटक	29.6.93	507	सी० सी० एच० -2830
48756	गंगा मुखेश	3227, सैक्टर-44-डी., पंजीगद	डी० एच० एच० एस०	1986	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता हरियाणा		27.06.02	5693-ए	
48757	गंगा लक्ष्मी	म० नं० 1331, आया मोहला, जी.टी. रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	मई - जून 2005	डी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	19.06.2007	3128	
48758	गंगनवीप	म० नं० 1804, फेज VII, सास नगर, मोहाली, जिला-रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1986	पंजाब	पंजाब	5.12.1987	1746	
48759	गंगनवीप दीपक	म० नं० 5910, गली नं० 1, अलावर जिला- फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1987	राजस्थान बोर्ड, जयपुर	पंजाब	20/08/1991	1282	
48760	गंगनवीप	मार्फत - गंगान मन्वीर प्रोपर्टी, सिटी-बी.पी.ओ.-सुतेर पुर, जिला-पाली	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 1984	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	राजस्थान	3.12.2008	5151	
48761	गंगनवीप स्तेता	16 जी. ब्लाक, सिटी एवं जिला-मुरादाबाद	डी० एच० एच० एस०	मई - 2005	बाबा फरीद युनिवर्सिटी (पंजाब)	राजस्थान	22.0.2007	4839	
48762	गंगनवीप सिंह	म० नं० 650-एल., माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1991	पंजाब	पंजाब	6/9/1984	1404	

46763	गंभीर राय	श्री धर्मपाल गंभीर	376-डू. गगत सिंह नगर, पछोवाल रोड, कुशियावा	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	30.05.2007	3112	
46764	गंभीर राय	श्री अशोक कुमार	कैपटन एच.एस. सचु आरौ नगर, स्ट. 7, कोनियाना रोड, मटिवा	डी० एच० एच० एच०	नवंबर - 2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	30.05.2007	3110	
46765	गमलिन (श्रीमति) कुमारी	श्री तरदन गमलिन	ए) मार्फत - टी. गमलिन, निबर गेट होस्टल, गहरलागुन, जिला - चंपुन मेर, ए.सी. कोन - 9812182738 (सी.)	डी० एच० एच० एच०	31.01.2008	राज्य गंभीर युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश		9.03.2008	110	
46766	गंभीर ज्योती	पुत्री श्री देवा नन्द	807/1, अरबन इस्टेट, दुगरी रोड, कुशियावा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	11/5/1995	1477	
46767	गंगाहर राहुल	श्री ओम प्रकाश	गो नं० 5138, अरोरियन फ्रीट, मटियाला	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब युनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	पंजाब	24.03.2006	2997	
46768	गणपत गिनानी सोलंकी	श्री गणपति श्रीपति सोलंकी	मार्फत - प्रशांत पवार, रूप नगर, दबोक दी. भावली, सिटी-दबोक दी. जिला - चण्डीगढ़	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2003	पुणे युनिवर्सिटी	राजस्थान	13.03.2008	5006	
46769	गर्ग सिंघा	श्री एच० पी० गर्ग	103, राम पथ खान नगर, सिटी-चण्डीगढ़, जिला-चण्डीगढ़	डी० एच० एच० एच०	1996	दिल्ली युनिवर्सिटी, दिल्ली	राजस्थान	5.12.2007	4969	
46770	गर्ग कुशिल कुमार	श्री लाल चन्द गर्ग	डी-43, मुक्ति कला कालोनी, गोपाल पुरा, बार्डपार, सिटी-चण्डीगढ़, जिला-चण्डीगढ़	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी	राजस्थान	10.12.2007	4979	
46771	गर्ग अनुराधा	स्वर्गीय श्री मोहन कुमार गर्ग	गो नं० 3445, सेक्टर 71, मोहाली, तेह. खरब, जिला-रोहता (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	20.7.1998	1678	
46772	गर्ग विमल	श्री मनसा राम गर्ग	3088, गारर हाऊस, गली नं० 2, मटिवा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	10.2.1998	1791	
46773	गर्ग प्रदीप	श्री रतन लाल गर्ग	आजाद नगर, पी.जी. टापा, तेह. हरियाणा, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	29.1.1998	1784	
46774	गर्ग गीतांजली	पुत्री श्री देविन्द गर्ग	गो नं० 1435, सेक्टर 81, मोहाली, तेह. खरब, जिला-रोहता (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	3.8.1999	2101	
46775	गर्ग नरेश	श्री सी० आर० गर्ग	सर्कुलर रोड, निबर जैन टोन छेदरी, गिंदरवा, जिला - मुक्तसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	13/03/1996	1596	
46776	गर्ग नील	श्री केशव गर्ग	मार्फत - जीत मेडिकल होल, सैन बाजार रोड, अमरगढ़, मलेरकोटला जिला, संगरूर	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	26.06.2001 27.12.2005	2520	डी० एच० एच० एच० (गिंडरवा) मई - जून 2004 डी० एच० यु० एच० एच०
46777	गर्ग रेखा	श्री तरसिम लाल गर्ग	सी-34-7424, यू. दुर्गा पुरी, हर्षोवाल कला, कुशियावा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवंबर - दिसम्बर 2008	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	06.04.2008	3196	
46778	गर्ग निकिता	श्री अजय कुमार गर्ग	तरेला भाई साहिब, नामा, जिला - मटियाला	डी० एच० एच० एच०	नवंबर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	25.08.2008	3254	
46779	गर्ग राशिका	श्री बलराज गर्ग	गो नं० 5198, रतन फ्रीट, नकोदर, जिला - जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवंबर - दिसम्बर 2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	20.02.2008	3185	
46780	गर्ग राजेश	श्री वी० के० गर्ग	एच.एम.-59, फेज-3-बी-1, मोहाली, तेह-खरब, जिला-रोहता (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	18.8.1998	1909	
46781	गर्ग संजय	श्री आर० डी० गर्ग	-ए/209, नेहरू नगर, गाजियाबाद	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	25/06/1996	1699	

[illegible]

46801	रमान चन्दा माली		गोवि-बहाला पी.ओ. - बहाला, जिला-कानूरा, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.07.03	672	
46802	रमान नोनी गोपाल		बोरपेटा रोड, वार्ड नं०-3, पी.ओ. - बोरपेटा रोड, जिला-बोरपेटा, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1996	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.12.86	312	
46803	रमान त्रिदिप कुमार		गोवि जलपानी, ईश्वरीगोवि पी.ओ. हैबरगोवि 782002, जिला - नार्गांव, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1999	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	23.08.2006	926	
46804	रायश्री दुर्गे		मार्कट - 380 ठेकी, दुर्गे, सहागांव पी.ओ. - गुवाहाटी-27, जिला-कानूरा, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1999	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.08.98	421	
46805	गोदम रानी रूपदास	सिस्टर रूपदेरा गोदम	1) सरोही जालारी घाट, निजर करेम वीर स्कूल, वरोडा, जिला-बनारस (एच. एच.) पिन - 442907 2) बी-84, एच.एच.पी.सी. सेजिडेनसिल कालोनी, बसेरा पारर स्टेशन, स्टेशन- करियाण, बन्ना (हिमाचल प्रदेश) - 176310	डी० एच० एच० एच०	2004	महात्मा ज्योतिर्बाबा रोड, सहागांव, नार्गांव	महात्मा ज्योतिर्बाबा रोड, सहागांव, नार्गांव	20.10.04	36096	पी० सी० एच० -2566
46806	गीता	श्री अरविन्द सिंह	खैरा राम स्ट्रीट, 2934, मुकेशपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	4.2.1998	1768	
46807	गीता	श्री जय सिंह	मार्कट - 370 एच.सी. घटोली, मगनी किल्लिक, अमोहर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	18.6.1998	1658	
46808	गीता	श्री जय सिंह	मोहन कालोनी, सोलन	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	24.08.98	102-ए	
46809	गीता अमृत	पुत्री श्री हरी राम मार्ग	नं० बी.11 / 139, कालेज रोड, बनारस, जिला - बनारस (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	8.9.2000	2359	
46810	गीता रानी	श्री मगत राम	पी.पी.ओ. अमिताला एच.एच. रोड, फाजिल्का, जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	21/03/1996	1596	
46811	गीतांजली	पुत्री श्री सोहन लाल शर्मा	गोवि मेहतोला, पी.ओ. बेशरामपुर रोड, रोड, चमकीर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	28.9.1996	1970	
46812	गीतीका	श्री रविन्द कुमार	नं० 73-बी, सेवक कालोनी, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2003	पी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	09.10.2004	2791	
46813	चर्च राम कुमार	श्री जगन नाथ चर्च	गोवि मटोयान पी.ओ. खाना रोड, समराला, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	28/01/1996	874	
46814	चर्च सपनान्दन कोर	श्री निर्मलवीर सिंह	नं० 232, नानक मारी, निजर एच.सी. सी. ब्रह्मिच, मोता (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2002	पंजाब	पंजाब	17.06.2004	2729	
46815	चर्च विनोद कुमार	पुत्र श्री मनोहर लाल चर्च	नं० 181, फेज III-ए, मोहाली रोड, खरक, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	8/12/1999	1177	
46816	चालीरिया विरमनाथ सिंह	श्री सोहन लाल चालीरिया	सी-86, बाल नगर, करतारपुरा, सिटी-जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	28.1.2009	5182	
46817	घटोतर मनोरंजन		गोवि - भागपुर पी.ओ. - विरमनाथ सिटी, जिला - सोनितपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1993	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	30.03.98	858	

46818	श्रीम विनीत कुमार	एम.जी. रोड, एजान बालाग, रियर साईड पुलाहाटी-1, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.11.99	338	
46819	पोष सिमरानी पद्मामोष	2/1, बनजी गारा रोड, कलकता - 700081, हरिद्वार बंगाल	डी० एच० एम० एम०	2006	युनिवर्सिटी ऑफ कलकता	देस्ट बंगाल कलकता	2.1.07	26455	सी० सी० एच० - 2669
46820	घोष अमलेन्दु	मार्फत - डिप्लेस नारायण घोष पी.ओ. - डिब्रुगढ़ - 786001, जिला - डिब्रुगढ़, असम	डी० एच० एम० एम०	सितम्बर - 2003	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.06.04	902	
46821	घोष योगीन कुमार	राजामोईनम जोरहट पी.ओ. - जोरहट-1, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एम० एम०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	26.02.86	183	
46822	घोष उत्पल चन्दा	सरला होमियो फार्मसी पी.ओ. - मोरियादी 785634, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एम० एम०	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.07.98	408	
46823	गिल गुरदीप सिंह गिल	डी.पी.ओ. बोहरा, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1987	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	17.8.2000	2323	
46824	गिल हरचिन्म कौर	म० नं० 546, फेज -3-बी.1, मोहाली, तेह. खरक, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	9.2.2000	2218	
46825	गिल जसवीर कौर	अगवाह मिल्मान, धर्मकोट, तेह. जिरा, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	29.3.2000	2242	
46826	गिल जसवीर कौर सिंह बत्रा	250-सी. आई एमपीए सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	10.11.2000	2392	
46827	गिल कुलवीर सिंह श्री गुरद्वारा सिंह	डी.पी.ओ. कोटला मार, तेह. समरला, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1987	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	17.8.2000	2322	
46828	गिल मनजीत कौर	म० नं० 162 (सिंरी) माडल टाउन, पटोवाल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	23/06/1989	1166	
46829	गिल नवजीत कौर	483, आर. माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	21/12/1990	1224	
46830	गिल प्रीतपाल सिंह गिल	डी.पी.ओ. पंज ग्राम कर्मा, तेह. एवं जिला - फरिदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2000	राजस्थान बोर्ड	पंजाब	29.06.2007	3136	
46831	गोयल अशोक कुमार	आसुर्दीक औषधालय, रियर सेन्ट हाउस, बल्लमगढ़	डी० एच० एम० एम०	मई - 1988	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	7.10.88	5379-ए	
46832	गोयल दिपा	1) 1022 बी-11, विलाप नगर, मानव चौक, अम्बाला सिटी 2) दुकान नं०-7, जी.एस.एस. सोन्दा जलवेरा रोड, अम्बाला सिटी	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2005	बामा फरीद युनिवर्सिटी फरीदकोट	हरियाणा	12.06.08	5833-ए	सी० सी० एच० - 2738
46833	गोयल शालिनी	पत्नी संजय गोयल 540, सेक्टर-7, पंचकुला	डी० एच० एम० एम०	1992	कौशिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	18.11.07	5814-ए	
46834	गोयल अनु	म० नं० 4227/5, लेहल कालोनी, पटियाला	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	21/10/1988	1085	

46835	गोपाल शिपीका	पुत्री श्री देवा राज गोपाल	मो नो 42, सैक्टर-16, पंचकुला (हरियाणा)	डी० एम० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	21.4.1999	2028	
46836	गोपाल गतििका	श्री विजय कुमार गोपाल	मो नो 49/14, ओ-1, सदीप नगर, होटल मुलसर् के पीछे, मुझियाणा (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	2006	पंजाब	पंजाब	20.06.2008	3243	
46837	गोपाल मोहिल	श्री दर्शन कुमार	मो नो 268-ए, शास्त्री नगर, मुझियाणा	डी० एम० एम० एम०	2006	पंजाब	पंजाब	19.05.2008	3222	
46838	गोपाल सीमा	श्री कृष्ण लाल गोपाल	अगर नगर, मुझियाणा (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1995	पंजाब	पंजाब	13.08.1996	1618	
46839	गोपाल कुपना	पत्नी विक्रम गोपाल	मो नो 229, सैक्टर-10, पंचकुला	डी० एम० एम० एम० (G.D.C.)	2000	पंजाब	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	10.05.2006	5760-ए	
46840	गोपिया हिमोन	गोप गनधिया पी.ओ. - लेनावाई (हिनावाट)	गोप गनधिया पी.ओ. - लेनावाई	डी० एम० एम० एम०	अक्टूबर - 2004	असम	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	30.10.06	974	
46841	गोपिया कुशेश्वर	गोप जयशक्ति गोप पी.ओ. रा-पाथर बाया बरपाथर 785802, जिला - जोरहट, असम	गोप जयशक्ति गोप पी.ओ. रा-पाथर बाया बरपाथर 785802, जिला - जोरहट, असम	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	28.05.85	143	
46842	गोपिया जोगा श्री	मार्केट - सोनमार बागई गौस-दिनु माछट गोप पी.ओ. - दिक्कु, जिला - शिवसागर, असम	मार्केट - सोनमार बागई गौस-दिनु माछट गोप पी.ओ. - दिक्कु, जिला - शिवसागर, असम	डी० एम० एम० एम०	अक्टूबर - 2006	असम	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	05.03.08	1019	
46843	गोपिया किशोर कुमार	गोप डेकागोव, जोरहट पुलीबोर (आर. आर.एल.) 780006, जिला - जोरहट, असम	गोप डेकागोव, जोरहट पुलीबोर (आर. आर.एल.) 780006, जिला - जोरहट, असम	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 2004	असम	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	23.10.06	968	
46844	गोपिया मोहित रंजन	जलनदीगोप पी.ओ. - चिलनरा, जिला - लखीमपुर, असम	जलनदीगोप पी.ओ. - चिलनरा, जिला - लखीमपुर, असम	डी० एम० एम० एम०	मई - 1991	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	25.03.98	504	
46845	गोपिया मनमोहन	गोप हिलाईदरी पी.ओ. बिजाला हिलाईदरी बाया बाकुआबागा, जिला - नार्थ लखीमपुर, असम	गोप हिलाईदरी पी.ओ. बिजाला हिलाईदरी बाया बाकुआबागा, जिला - नार्थ लखीमपुर, असम	डी० एम० एम० एम०	दिसम्बर - 1990	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	17.07.96	458	
46846	गोपिया नारा हरी	ईल्य किलिबि सोनारी टाउन पी.ओ. - सोनारी टाउन, जिला - शिवसागर, असम	ईल्य किलिबि सोनारी टाउन पी.ओ. - सोनारी टाउन, जिला - शिवसागर, असम	डी० एम० एम० एम०	सितम्बर - 1996	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	22.08.88	307	
46847	गोपिया प्रदीप चन्दा	गोप खानीकर गोप पी.ओ. - बडगोव 785825, जिला - शिवसागर, असम	गोप खानीकर गोप पी.ओ. - बडगोव 785825, जिला - शिवसागर, असम	डी० एम० एम० एम०	दिसम्बर - 1990	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	14.07.98	487	
46848	गोपिया प्रणव कुमार	गोप मेकी पी.ओ. सालटिया, जिला - सोनितपुर, असम	गोप मेकी पी.ओ. सालटिया, जिला - सोनितपुर, असम	डी० एम० एम० एम०	फरवरी - 1996	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	08.01.99	716	
46849	गोपिया पुरनन्दा	गोप बकाली पी.ओ. मोहरनवी, जिला - नार्थ लखीमपुर, असम	गोप बकाली पी.ओ. मोहरनवी, जिला - नार्थ लखीमपुर, असम	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 1996	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.02.87	215	
46850	गोपिया पूर्णा कलिता	गोप हलीकुन्ती पी.ओ. - न-अरी, डेकिवापुली, जिला - जोरहट, असम	गोप हलीकुन्ती पी.ओ. - न-अरी, डेकिवापुली, जिला - जोरहट, असम	डी० एम० एम० एम०	मार्च - 1995	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.09.87	249	
46851	गोपिया शकुल	गोप डुलकाबास गोप पी.ओ. रंगबास बाया तिलापेर 785830, जिला - जोरहट, असम	गोप डुलकाबास गोप पी.ओ. रंगबास बाया तिलापेर 785830, जिला - जोरहट, असम	डी० एम० एम० एम०	जुलाई - 1985	असम	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	06.11.88	280	

48852	गोमिया सैनेन्द्र कुमार	गॉव मार्टन पोली विलनिक पी.ओ. - ए. टी. रोड, अपोजिट आर.आर.एल. गेट-1, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एम० एम०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	06.06.85	157	
48853	गोमिया शिखा रानी	गॉव डेबार्गोव, पुलीबोर (आर.आर.एल.) पी.ओ. एवं जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एम० एम०	अक्टूबर - 2006	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	06.06.08	1087	
48854	गोमिया रतू	गॉव नो 2, राजापुरखुरी पी.ओ. - चरियामघाट 795601, जिला - गोलाघाट, असम	डी० एच० एम० एम०	अक्टूबर - 2002	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.11.03	884	
48855	गोमिया (श्रीमति) जयश्री	ए.) दिक्पु मारुट गॉव, पी.ओ. दिक्पु, बाया नानती चरियाली, जिला - सिबसागर	डी० एच० एम० एम०	14.12.2007	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	अरुणाचल प्रदेश	4.02.2008	80	
48856	गाहई बारपात्रा राणा	गॉव हचारा रेलोन गॉव पी.ओ. - हचारा 786641, जिला - शिवसागर, असम	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 1982	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.05.98	556	
48857	गाहई प्रभाष चन्दा	गॉव कनहा पखेर पी.ओ. कनहा पखेर, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एम० एम०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.05.88	272	
48858	गौर सोनल	88-पत्रकार कालोनी, सिटी-कुलपुर, जिला - डुंगपुर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (बीच युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5127	
48859	गोजोट सिंह वरिष्ठ सिंह	बी.पी.ओ. विरकपुर, रोह. खरड, जिला - रोहतास (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	12.11.1997	1728	
48860	गोसैन विमल राय	के० नो - 429, हैक्टर - 14, दिल्ली रोड, मुडगांव	डी० एच० एम० एम०	दिसम्बर - 1984	सी० एम० एम० एम०, पंजाब	पंजाब	08.08.1985	813	
48861	गोस्वामी अशोक कुमार	मार्फत नमो लाल गोस्वामी, गॉव नवाब बस्ती, सिटी - रायच, जिला - बोलपुर	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 2008	राजस्थान युनिवर्सिटी	राजस्थान	28.02.2008	4997	
48862	गोस्वामी लक्ष्मी प्रसाद	ब्रिज होमिया, हॉल, गजुर, बाजार, ए.टी. रोड, पी.ओ. एवं जिला - नागांव, असम	डी० एच० एम० एम०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	07.10.86	174	
48863	गोस्वामी मरिदुल चन्दा	काठ बापु, कतरा कटरा, जोरहट पी.ओ. - जोरहट-8, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एम० एम०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.01.87	189	
48864	गोस्वामी पंकज	आन्नम रोड के पीछे, शानिपुर पी.ओ. गुवाहाटी-9, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.08.2001	813	
48865	गोस्वामी पानी मुखर्जी	कमला होमियो, किलनिक केशवकुटी पी.ओ. केशवकुटी, जिला - नलगाड़ी, असम	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.12.84	109	
48866	गोस्वामी प्रवीण	गॉव राजपुर, पी.ओ. राजपुर, पाठशाळा, जिला - बांग्ला, असम	डी० एच० एम० एम०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.03.98	682	

46867	गोस्वामी दिपक कुमार	गौतम राजधानी मेडिकल (होमियो) नवनपुर रोड, गणेशपुरी, गुवाहाटी-6	डी० एच० एम० एच०	अक्टूबर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	06.05.88	423	
46868	गोस्वामी नवजीत	मार्केट- विक्टर एम.डी. गोस्वामी एस.बी. आई. आफिस कालोनी, हाउस नं० 34, इटोनाब बैंगली, गीतानोदीप, गुवाहाटी-34	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 2006	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	12.10.06	969	
46869	गोयल अनिल कुमार	गयाल होमिया, सिस्किन ओरेंज रोड, उकसाना मन्दी, हिसार	डी० एच० एम० एच०	1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली	हरियाणा	8.03.94	5568-ए	
46870	गोयल राजेश दीप	गोयल डास्पिटल डाक्टर मार्केट नई मन्दी, कलावती सिस्किन	डी० एच० एम० एच०	1986	कॉन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	18.03.04	5709-ए	
46871	गोयल रुचिका	डी-642, सरस्वती विहार, नई दिल्ली - 110034	डी० एच० एम० एच०	2008	जी० जी० सिंह आई० पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	दिल्ली बोर्ड	30.4.08	3720	डी० सी० एच० -2031
46872	गोयल सोम नाथ	मार्फत होमियो. होस्पिटल टोहना रोड सतिया, जिला - फतेहाबाद	डी० एच० एम० एच०	मार्च - 1988	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	19.07.89	6601-ए	
46873	गोयल उमेश	88-शिवराज कालोनी, जगतपुरा, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5108	
46874	गोयल यश	डी-83, ज्योती मार्ग, बागु नगर, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5097	
46875	गोयल अभिनव	मनु होस्पिटल मीन मन्दी रोड, तलवर्दी सानो, मटिन्डा	डी० एच० एम० एच०	2003	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	09.08.2005	2609	
46876	गोयल अनीता	गो नं० 81, एम./213, पोटियाला रोड, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	12/7/1985	1511	
46877	गोयल अंजली	पद्मकान वाला रोडहल्वा, गुनाग, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	6.4.1988	1830	
46878	गोयल अंजु	गो नं० 22803, गली नं० 16, भागु रोड, मटिन्डा	डी० एच० एम० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	17.09.2001	2646	
46879	गोयल अशोक कुमार	डब्ल्यू-2/32, निगर डी.ए.बी. हाई स्कूल, निडरवाला, जिला - मुकतागर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1981	डी० एच० एम० एम० एम०	पंजाब	28.06.2008	3262	
46880	गोयल भूषण लाल	डी.पी.ओ. मोडा रोड, एवं जिला मन्सा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1988	राजस्थान बोर्ड	पंजाब	10/1/1991	1231	
46881	गोयल भंजु	बी-12, सरकारी फ्लैट्स, आफिसर कालोनी, सिविल स्टेशन, मटिन्डा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	6.4.1988	1827	
46882	गोयल मोनिका	36, दादा नगर, माडल टाउन, रोड, एवं जिला जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	6.4.1986	1824	
46883	गोयल नरेश कुमार	म नं० 707, कृष्ण कालोनी, मलेकोटला, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1982	पंजाब	पंजाब	25/10/1984	1416	
46884	गोयल प्रिया	283, दीर कालोनी, अमरिह सिंह रोड, मटिन्डा	डी० एच० एम० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	24.10.2005	2949	
46885	गोयल राज रानी	सुरेश मार्केट, निगर बस स्टैंड, गुनाग, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	6.3.1988	1610	
46886	गोयल सलोनी	332, डा० श्याम सिंह रोड, सिविल लाईन्स, लुडियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	4.9.1988	1944	

क्र.सं.	नाम	पद	विवरण	दिनांक	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब
46887	गोपाल सदीप	श्री मदन लाल	सुबानी बिल्डिंग, सी. XII-138, शाहपुर रोड, लुधियाना (पंजाब)	1993	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1485
46888	प्रदाल अनु	श्री राजेश सिंह	मो नं 376, सी. अरबन इस्टेट, फेज-1, लुधियाना	अप्रैल - 2002	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	3035
46889	प्रदाल हरजिन्दर	श्री अमरजीत सिंह	12-13/ए., माडल ग्राम एक्स्पटेन्शन, लुधियाना	1998	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	2468
46890	प्रदाल किरण	श्री श्री होशियार	डी.पी.ओ. किल्ला रायपुर, तेह. एवं जिला लुधियाना (पंजाब)	1997	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1981
46891	प्रदाल मनदीप	श्री श्री मेख सिंह	मो नं 590, फेज-3-बी-1, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, तेह. खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	1991	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1319
46892	प्रदाल सदीप	श्री हर्बंस सिंह	मो नं 279, फेज -IV, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, जिला रोपड़ (पंजाब)	1996	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1767
46893	प्रोवर दिप्ती	श्री रामेन्द्र पाल	40-एच., हाहिंद भगत सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	नवम्बर - दिसम्बर 2003	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	2882
46894	प्रोवर मिनमी	श्री आल प्रकाश	मो नं. 1971, राजपुरा टाउन, जिला पटियाला	2002	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	2690
46895	प्रोवर रेखा	श्री जयन नथ	मो नं 9/282, आदर्श नगर, बंगा, जिला मदनगढ़ (पंजाब)	1996	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1812
46896	प्रोवर सुनीता	श्री श्री दर्शन लाल प्रोवर	मो नं 72, रीटिड नं 9, गुरु भगत नगर, पटियाला (पंजाब)	1999	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	2383
46897	गुला बिगनु प्रसाद	गुलाटी अमिता	क्वार्टर नं 08/VTX-II, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, जे. नरेशी रोड, जलपरिजाम, गुण्डाही-24	मार्च - 1998	असम	असम	असम	असम	486
46898	गुलाटी अमिता	श्री श्री राज कुमार गुलाटी	मो नं 72, रीटिड नं 9, गुरु भगत नगर, पटियाला (पंजाब)	1984	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1541
46899	गुलाटी अमिता	श्री गुरबस सिंह	583-आर, माडल टाउन, लुधियाना	दिसम्बर - 1984	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	822
46900	गुलाटी अमिता	श्री देखा मित्र	मोहल्ला बस्तीरंग फिलीर, जिला जलंधर (पंजाब)	1980	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1321
46901	गुलाटी हरकिशत	श्री अतार सिंह	मो नं 212, ब्लाक 13, कुवा नं 10, फिल्ड गंज, लुधियाना (पंजाब)	1984	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	892
46902	गुलाटी ज्योतिन्दर	श्री अतार सिंह	मो नं 212, ब्लाक 13, कुवा नं 10, फिल्ड गंज, लुधियाना (पंजाब)	1984	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	891
46903	गुलाटी प्रदीप	श्री देवरा राम	गुलान नं 10, पुराना गुल्लदारा नाल टाउन शिप, तेह. आनन्दपुर, जिला रूपनगर (पंजाब)	1981	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1250
46904	गुलाटी अमिता	श्री एम.एस. गुलाटी	मो नं 212, ब्लाक 13, कुवा नं 10, फिल्ड गंज, लुधियाना (पंजाब)	2008	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	207-ए
46905	गुलाटी अमिता	श्री सुरेन्द्र गुलाटी	मो नं 212, ब्लाक 13, कुवा नं 10, फिल्ड गंज, लुधियाना (पंजाब)	2008	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	202-ए

48906	गुलशिरा शाहिनी	श्री एम एम गुलशिरा	नॉ नो 292/1, हरीपुर, पी.ओ. सुन्दर नगर, मन्दी	2005	राजस्थान युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	05.12.06	189-ए	
48907	गुलजीत कौर	सर्गीय श्री कुलदेव सिंह चौपड़ा	नॉ नो 290, फेज-2, सास नगर, मोहाली, जिला रोहट (पंजाब)	1996	पंजाब	पंजाब	5.12.1997	1740	
48908	गुला आरती	श्री विपिन मोहन गुला	1-डीए-23, दादा बाटी, सिटी - कोटा, जिला - कोटा	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5101	सी० सी० एम० -2742
48909	गुला दीपिका	मिस्टर रवि गुला	4, राम भवन, गली नं० 3, श्री नगर, शकुल बस्ती, दिल्ली-34	2008	जी० जी० सिंह आई० पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	दिल्ली बोर्ड	30.4.08	25717	सी० सी० एम० -2649
48910	गुला दिनेश	श्री भगवान दास गुला	90-बी, ब्लाक, वार्ड नं० 6, सिटी - श्री करणपुर, जिला - श्री गंगानगर	जनवरी - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	11.07.2007	4852	
48911	गुला निधि	डा० निर्मल कुमार	1) निधि नर्सिंग होम, बदौली रोड, बकला, जिला-भागलपुर, यू.पी. - 200811 2) नॉ नं० 388, एक.एक. सैक्टर-6, गुडगांव, हरियाणा	2008	भारती विद्यापीठ युनिवर्सिटी, पुणे	महाराष्ट्र कॉसिल मुम्बई	17.2.07	42432	सी० सी० एम० -2704
48912	गुला निशिन	श्री विपिन गुला	एन.55, एम.एस.एस. कालोनी, भादही नगर, सिटी- जयपुर, जिला - जयपुर	मई - 2007	युनिवर्सिटी ऑफ राज०, जयपुर	राजस्थान	15.12.2008	5165	
48913	गुला देवगा प्रभात	श्री प्रभात गुला	1) के-38-ए, साकेत, दिल्ली - 110017 2) पी-35, 36, पांडव नगर, मधुर विहार - दिल्ली - 91	2008	भारती विद्यापीठ युनिवर्सिटी, पुणे	महाराष्ट्र कॉसिल मुम्बई ऑफ होमोपैथी मुम्बई	9.4.08	44873	सी० सी० एम० -2707
48914	गुला राजेश कुमार	श्री जॉन प्रकाश	एटी, म्हातल, आईटीआई के सामने, दमोड रोड, जयलपुर (मध्य प्रदेश)	2007	पी० पी० एम० बिहार युनिवर्सिटी	बिहार बोर्ड	20.8.07	28407	सी० सी० एम० -2706
48915	गुला सुवीका	मिस्टर पी० के० गुला	ई-82, अमर कालोनी, लाजपत नगर -IV, नई दिल्ली - 110024	2008	जी० जी० सिंह आई० पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	दिल्ली बोर्ड	28.04.08	3890	सी० सी० एम० -2716
48916	गुला सिद्धान्त	श्री आदर्श कुमार गुला	नॉ नो 116, सैक्टर-9/एल, गोंदी नगर, सिटी - हनुमान गढ़, जिला - कुनवान गढ़	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	25.11.2008	5142	
48917	गुला विनय	श्री जय प्रकाश गुला	एस.एच. - 10, सिवार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली - 110024	2008	महापद्म युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नाशिक	दिल्ली बोर्ड	14.7.08	3758	सी० सी० एम० -2593
48918	गुला विशाल	श्री धनवीका प्रसाद गुला	सी-2911, मिनी एल.आई.जी, जलपस विकास कालोनी, राजा जी पुरम, लखनऊ - 226017	2003	डा० पी० आर० एम० युनिवर्सिटी, आगरा	यूपी बोर्ड	5.4.03	26130	सी० सी० एम० -2678
48919	गुला विनय	डा० रवि प्रकाश गुला	205/3, सरस्वती कुज आईआईटी, कडकी (पुणे)	2003	डा० पी० आर० एम० युनिवर्सिटी, आगरा	राजस्थान बोर्ड जयपुर	19.4.04	4419	सी० सी० एम० -2659
48920	गुला गरिमा	श्री विमलेश कुमार गुला	डी-9 - 10, प्रताप मदन, केसर नगर, बजौरिया, सिटी - स्वाईमनोपुर, जिला - स्वाईमनोपुर (राजस्थान)	जून - 2007	जी० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (जी० युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	7.11.2008	5132	

46921	गुप्ता हिरक	सतगर्व बाजार पी.ओ. - सतगर्व, गुराहाटी - 27	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 1995	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	26.03.98	665	
46922	गुप्ता कल्याण रत्न	बिर्नामा नगर, गुवाहाटी पी.ओ. गुवाहाटी - 18, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1994	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	23.12.88	309	
46923	गुप्ता पंकज	राम कुमार गुप्ता	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1998	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	29.09.03	5704-ए	
46924	गुप्ता पूर्णिमा	51, काली बाड़ी अपार्टमेंट्स, उदयाह मार्ग, सेक्टर-2, डीआईजी एरिया, नई दिल्ली-110001	डी० एच० एच० एच०	2008	जी० जी० सिंह आई० पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	दिल्ली बोर्ड	25.4.08	58877	सी० सी० एच० -2846
46925	गुप्ता राम कुमार	पी.पी.ओ. लालक मन्डी, तेह. राजपुरा, जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	21/03/1996	879	
46926	गुप्ता रामानन्द	रामोबारी ए.टी. रोड, गुवाहाटी-1, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1998	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.08.98	710	
46927	गुप्ता कवी	नो नो 317, गुरु रामदास नगर, गली नो 4, लक्ष्मी नगर, सिटी - नई दिल्ली, जिला - नई दिल्ली	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2008	जी० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीनर युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	25.07.2007	4871	
46928	गुप्ता संगीता	आशियाना, नार्ड नो 4, पालमपुर, जिला कॉम्बडा	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब होमोपैथी कौन्सिल	हिमाचल प्रदेश	11.08.02	130-ए	
46929	गुप्ता संतोष कुमार	गार्गंज, तुलसीपुर, सिटी - मिर्कोन सिटी, जिला करीली (राजस्थान)	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5092	
46930	गुप्ता सुनील कुमार	राचना होमिओ क्लिनिक, मधुरा रोड, शाहनी गेट, सिटी - अलीगढ़, जिला - अलीगढ़	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1998	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	22.11.2007	4952	
46931	गुप्ता सुरेश प्रसाद	केयर आफ - शिवा प्रसाद, ग्री० एच० पी. ओ. बडुलिया 782482, जिला - करबीयांगलींग, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.12.2000	781	
46932	गुप्ता विनोद कुमार,	1) मार्केट - गुप्ता मेडिकोज, राजाज कालोनी, धरौन्दा (करनाल) 2) 173/6 हुडा गैंग मार्केट, करनाल	डी० एच० एच० एच०	1995	सी० एच० एच० एच० पंजाब	हरियाणा	6.03.97	5644-ए	
46933	गुप्ता विवेक	2-सी. राम नगर, अम्बाला कैन्ट	डी० एच० एच० एच०	1993	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	14.03.95	5824-ए	
46934	गुप्ता आरती	ग्री० एच० प्रेम कुमार सुबियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	4/7/1995	1505	
46935	गुप्ता अमन	एच० एच०-329, पी.एच०.जी. जमालपुर कालोनी, सुबियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	20.7.1998	1890	
46936	गुप्ता अनुराधा	945- , माई रामेश्वर सिंह नगर, सुबियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	23.12.1997	1784	
46937	गुप्ता भारती	स्ट. नो 18, अजीत रोड, जिला गडिन्डा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	8/8/1996	1806	

46938	गुप्ता बिन्दु	श्री राज कुमार गुप्ता	सू नं 147, स्ट. नं 3, टाया नदी, रोह. बरनाला, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	4.9.1998	1943	
46939	गुप्ता दीपक	श्री एल० सी० गुप्ता	सू नं 1481, रेलगा रोड, खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	22.1.1999	2013	
46940	गुप्ता नीना	पत्नी विरेन्द्र गुप्ता	1) आनन्द कोशियार, 41 नेहरू रोड, करनाल 2) गुप्ता होमियो क्लिनिक, 1361/11, अयो. मिला फेरेस, माडल टाउन, आम्बाला रोड, कैथल	डी० एच० एच० एच०	2001	पंजाब	होरियाणा	10.7.2006	5785-ए	
46941	गुप्ता नीक	श्री सतीश कुमार	सू नं 788-सी, अंगार नगर, महेंद्रकोट, जिला - संगरूर	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	15.03.2003	2473	
46942	गुप्ता पंकज	श्री राम कुमार गुप्ता	सू नं 0 एच० एच०, फेज III, एच० एच० नगर, मोहाली, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	5.12.1997	1744	
46943	गुप्ता प्रवीन कुमार	श्री रम्या लाल	सू नं 188, सैक्टर - 7, बलीगढ़	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1984	पंजाब	पंजाब	16.09.1985	836	
46944	गुप्ता प्रवी	श्री विजय कुमार	सू नं 437, अरबन इस्टेट फेज 1, जालंधर	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	पंजाब	24.10.2005	2915	
46945	गुप्ता रवनी	पुत्री श्री खूबा लाल	डी० एच० लोडियाल खास, तैह. नाकोदर, जिला जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	15/9/1995	1537	
46946	गुप्ता रमन	श्री रमन लाल	729, सैक्टर 30-39, न्यू अरबन इस्टेट, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	25.8.1998	1919	
46947	गुप्ता रवनीक	श्री रमनजीत गुप्ता	डी-34-2221/3, दुर्गापुरी, हंभोवाल, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	13/08/1996	1621	
46948	गुप्ता रम्या	श्री प्रेम बन्ध गुप्ता	मार्केट सुनील कुमार गुप्ता, लागी गली, खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	7/2/1984	1374	
46949	गुप्ता रिशू	श्री सतीश कुमार गुप्ता	डी-9, विकास नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	9.8.1998	1853	
46950	गुप्ता रोहतास कुमार	कर्म बन्ध अम्बाल	1) सू नं 854, इन्दर पुरी, पलवल (फरिदाबाद) 2) मनोज होमिया, किल्लिक, बलदेव नंज, पलवल	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	होरियाणा	28.04.93	5679-ए	
46951	गुप्ता रोशी	पुत्री श्री सुदर्शन कुमार गुप्ता	222-डी, माई रमधीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	8.8.2000	2313	
46952	गुप्ता सीमा	एच० एच० गुप्ता	सू नं 178, फेज IV, मोहाली, तैह. खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	25.8.1998	1917	
46953	गुप्ता शैल्या	पुत्री श्री प्रेम बन्ध गुप्ता	17-डी, उषम सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	21.2.2000	2226	
46954	गुप्ता शालिनी	श्री राज कुमार गुप्ता	एच० ई-239, फेज V, मोहाली, तैह. खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	28.3.1998	1816	
46955	गुप्ता शैली	पुत्री श्री तीर्थ राम	गिरार मोनी नदिर, सुजानपुर, तैह. पठानकोट, जिला गुल्शनपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	28.7.1998	2093	
46956	गुप्ता शावू	पुत्री श्री अशोक गुप्ता	सू नं 1828, फेज VII, मोहाली, तैह. खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	16.7.1999	2077	

46957	गुला शैली	पुत्री श्री वी० के० गुला गुला	म० नं० बी-498, शास्त्री नगर, मलेरकोटला, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1999	पंजाब	10.5.2000	2266	
46958	गुला शैली	श्री वी० के० गुला गुला	म० नं० 3/390, गली नं०-1, बाग, कालोनी, के.के. रोड, मुक्तसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	पंजाब	29.08.2008	3285	
46959	गुला शोमना	श्री सती पाल गुला	181-आर, माडल टालन, लुधियाना	डी० एच० एम० एच०	2003	पंजाब	25.10.2004	2794	
46960	गुला शुरुली	श्री विमल गुला	437, अरबन ईस्टेट, फेज-1, जालंधर	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	08.10.2008	3280	
46961	गुला सिन्धु	श्री अशोक कुमार गुला	म० नं० 167-168, मीरपुर कालोनी, पठानकोट, जिला गुरदासपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	6.4.1998	1828	
46962	गुला तरुणा	श्री रति कुमार गुला	म० नं० 509, जे.पी. नगर, जालंधर सिटी	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	24.04.2008	3208	
46963	गुला वन्दना	श्री एस० पी० गुला	म० नं० 132 ए, अगार नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	26.8.1998	1923	
46964	गुला वेनी	पुत्री श्री तरसेम लाल गुला	एच० जे० 710, माई एन्हीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1999	पंजाब	7.7.2000	2284	
46965	गुला विरेन्द्र कुमार	पुत्र श्री ए० एम० गुला	एच. सी.एफ. नं० 16, सैक्टर 27-सी, चंडीगढ़	डी० एच० एम० एच०	1985	पंजाब	26/08/1986	921	
46966	गुला विकास	श्री विरेन्द्र कुमार गुला	म० नं० बी-498, शास्त्री नगर, मलेरकोटला, जिला-संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	10.5.2000	2266	
46967	गुला विपिन कुमार	श्री सुनाब चन्द गुला	म० नं० 167, आतम नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1993	पंजाब	28/1/1995	1482	
46968	गुला हंसराज	श्री नन्द लाल गुला	गौव पाली, पोस्ट मानपुरा कली, बाया अमर, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एच०	मई - 2007	राजस्थान गुजिवसिंटी, जयपुर	10.10.2008	5102	
46969	गुला शैली	श्री द्वारिका सिंह	पुत्र श्री दवारिका सिंह, मोह, पटेल नगर, पी.ओ. आर.पी.एस. - बालबिचा, जिला - शेखपुरा, बिहार - 811101 2) मार्फत - श्रीमति निर्मला सिन्हा, मोह, कुशापुरी, पी.ओ.आर.पी.एस. बिहार शक्ति, जिला-नालन्दा, बिहार - 803104	डी० एच० एम० एच०	2002	डी० एच० एम० एच० बिहार गुजिवसिंटी	05.05.03	27247	डी० एच० एम० -2586
46970	गुला शैली	पुत्री श्री तरसेम लाल गुला	चर्च रोड, सिलिल लाईन्स, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	23.12.1999	2180	
46971	एच. जन्मन मेटल	स्वर्गीय एच० जन्मन मेटल	ए. बांगलई लोकपाम लेकई, इम्फाल ईस्ट, मणिपुर डी) मार्फत - प्रचार्य, एन.ई.एम.सी. एच० इन्स्टिट्यूट, विवेक विहार, ईटानगर, ए.पी. फोन 985600295 (मो.) 9858112842 (मो.)	डी० एच० एम० एच०	10/2/2009	राज्यीय गांधी गुजिवसिंटी अरुणाचल प्रदेश	9.03.2009	111	
46972	हरीश शोच अचल	श्री शोक अचल अजित	म० नं० बी-8/327, इन्साइड रोवाली रोड, मलेरकोटला 148 023, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1989	पंजाब	20/11/1990	1219	

क्र.सं.	हण्डे विनोद सिताराम	श्री सीताराम हरिबाबू, हण्डे	भयोभी निवास, एफ-86, नियर गोखले स्कूल, सैक्टर-12, खारसर, नदी मुम्बई	डी० एच० एच० एस०	2008	महाराष्ट्र ग्रुनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नाशिक	महाराष्ट्र ऑसिल मुम्बई	18.12.08	47007	सी० सी० एच० -2703
48973	हण्डिक दुर्गेश्वर		गौव सोलावरा पी.ओ. सिलासाकु, जिला - शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एस०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.01.87	203	
48974	हण्डिक मेधा		गौव पालाहागुडी पी.ओ. सिलासाकु, जिला - शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एस०	1978	बिहार ग्रुनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	असम	10.08.81	62	
48975	हण्डिक राणा		गौव डेका गौव पी.ओ. पुलीबोर, जोखेट-6, असम	डी० एच० एच० एस०	जून - 1987	बिहार ग्रुनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	असम	18.03.98	884	
48976	हंस संतोष कुमारी	पत्नी रात पाल हंस	151/24, जगदीश कालोनी, रोहतक	डी० एच० एच० एस०	जून - 1985	कोसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	28.04.83	5582-ए	
48977	हंस सत्यापाल	रतन लाल हंस	1012/23, डी.एस.एफ. कालोनी, अणो दयाल नर्सिंग होम, रोहतक	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1981	बिहार ग्रुनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	हरियाणा	14.08.07	5804-ए	
48978	हंस इनामुल		गौव अलीधामनुरी, पी.ओ. अलीधामनुरी राया जुरिया 782124, जिला - बोमोली, असम	डी० एच० एच० एस०	फरवरी - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.03.98	727	
48979	हंस जैरल		गौव - सपारा (बिजोय नगर) पी.ओ. - सपराडा 781122, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एस०	मई - 1981	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.05.99	489	
48980	हंस युजमिल		गौव - बालीबोना पी.ओ. गुवागौव, जिला - मोरीगौव, असम	डी० एच० एच० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.03.98	540	
48981	हरचन्द शिवानी	पुत्री श्री कुलपार शिव हरचन्द	गौव मेरा, पी.ओ. तलवाडा टाउनशिप, तेह. मुकीरिया, जिला - रोडियापुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	2.11.2000	2388	
48982	हरि ओम	अनन्त राम	1) 1730-ए, सैक्टर - 6, यु.ई. कपाल 2) 61/8, एम नगर, कपनाल	डी० एच० एच० एस०	1982	कोसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	6.04.95	5827-ए	डी० एच० एच० एस० दिसम्बर - 2003 राजा करीव ग्रुनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करीवकोट
48983	हरजीत पाल	श्री मोल राम	डी.पी.ओ. चन्नु, तेह. मुलसरा, जिला - करीवकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1991	पंजाब	पंजाब	6/12/1993	1367	
48984	हरजीत पाल	पत्नी डी० सी० नोखवाल	आदर्य स्पीकिंग इन्टीट्यूट, बैंक साइड उत्तम चन्द धर्मगाला नियर जहाडमुल, हिसार	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1992	कोसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	4.10.04	5716-ए	
48985	हरजीत पाल		एकरानी पी.ओ. एकरानी बागा बोरडोला, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एच० एस०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.09-84	75	
48986	हरजीत पाल		गौव - फकीरनिरिहार पार्क - 2, पी.ओ. बरकवा - 783348, जिला - धुबरी, असम	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 2005	बिहारग्रुनिवर्सिटी असम	असम	23.10.06	984	

विशेषी स्थिति कुमार	श्री दिलक राज हिरणी	सो नं 9805, जोशी नगर, बांदी होवाला, बुधियावा	श्री एम एम एम	सई - जून 2004	श्री एम यु एम एम एम	पंजाब	04.12.2008	3289		
47003										
47004	होग बोल लानेग	श्री केंद्र टोनापर	श्री एम एम एम	जनवरी - 2007	सिद्धार्थ युनिवर्सिटी	मेवाला	5.2.2007	267		
47005	होसाई सतवांग	सिद्धार्थ होसाई	श्री एम एम एम	15.07.2008	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता अरुणाचल प्रदेश		19.08.2008	100		
47006	हुरैन मोहम्मद शहावात	श्री जेनुल अवेदिन हुरैन	श्री एम एम एम	1999	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	सेक्टर बंगाल कॉलेज कलकत्ता	5.08.99	22526		श्री एम एम -2833
47007	हुरैन जाकिर	गोव - महलपुर, श्री.ओ. बालीकुबी 781126, जिला - नलबाड़ी, असम	श्री एम एम एम	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन,	असम	23.11.2001	821		
47008	हुरैन महापात्र	अनापुरीषाट पी.ओ. मेलावटी बागा तिलाबा, जिला - जोरहट, असम	श्री एम एम एम	अप्रैल - 1994	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन,	असम	21.09.85	169		
47009	हुकुम चन्द	मार्कट- श्री गिल्ली राम गुलजमान (कमीशन एजेंट), सिद्धदेवाडा, रोह मुलसरा, फरीदकोट (पंजाब)	श्री एम एम एम	1986	पंजाब	पंजाब	18/12/1987	1034		
47010	हुन्जल सुखदेव सिंह	श्री.पी.ओ. जगमोहा, जिला - सिरसा	श्री एम एम एम	सितम्बर - 1982	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन,	हरियाणा	27.09.94	5594-ए		
47011	हुन्जल सुखदेव सिंह	एच.आई.जी. 890/फेज-9, एच.ए.ए.ए. नगर, मोहाली, रोह. खरक, जिला रोह (पंजाब)	श्री एम एम एम	1982	पंजाब	पंजाब	13/05/1992	1267		
47012	हुरैन अहमद	अदापारी पी.ओ. अदापारी 781126, जिला - नलबाड़ी, असम	श्री एम एम एम	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन,	असम	30.04.2002	848		
47013	हुरैन इमरान	गोव - बालीगोव पी.ओ. बालीगोव 782044, जिला - नागांव, असम	श्री एम एम एम	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन,	असम	19.10.2000	753		
47014	हुरैन इमरान	मार्कट - न.खुटी, गोंक-न.खुटी बाजार 782446, जिला - नागांव, असम	श्री एम एम एम	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन,	असम	27.05.99	539		
47015	हुरैन जहांगीर	गोव - कराईडी पी.ओ. पाथीपारी, जिला- बोरेटा, असम	श्री एम एम एम	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन,	असम	16.11.2001	819		
47016	हुरैन जाकिर	गोव विहापुर (बालीगोव) पी.ओ. मुलरकुबी, जिला - नलबाड़ी, असम	श्री एम एम एम	सितम्बर - 1998	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन,	असम	31.12.99	741		

47029	इस्लाम मुनिल	मार्कट- अक्ताऊज, जलन, गांव - सातौर, पी.ओ. रेकागा 763348 राया विलासपुर, जिला - दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.04.99	419		
47030	इस्लाम अदर	मार्कट - मो. अली, गाँव - कुचनीमारा पी.ओ. - नंकावार 763131, जिला - दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	5.12.2000	775		
47031	इस्लाम हरी सुमन	कालीफुर्दीन रोड, सोनितपुर, गुवाहाटी - 9	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1981	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	असम	01.04.81	67		
47032	इस्लाम कैफल	गाँव अमचाला पी.ओ. बरकालिया, सरसो 763330, जिला - दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2005	बिहुगुण युनिवर्सिटी	असम	23.11.06	989		
47033	इस्लाम मोहिदुल	गाँव - बेनारमिता पी.ओ. कालापानी, जिला - दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2008	बिहुगुण युनिवर्सिटी	असम	03.04.08	1054		
47034	इस्लाम रफिकुल	मार्कट - कुकमान अली रूपनगर, नियर सिलिल होस्पिटल, पी.ओ. झोरापार, जिला - दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2001	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.08.03	875		
47035	इस्लाम रेगजुल	मार्कट - स्व. हैदर अली, गाँव सलीकुबी, पी.ओ. नलबाडी 761335, जिला - नलबाडी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2001	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.10.2002	861		
47036	इस्लाम सफिकुल	गाँव अदाबाडी पार्ट-1, पी.ओ. सगालपारा, जिला - दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसंबर - 2004	बिहुगुण युनिवर्सिटी	असम	10.06.08	1076		
47037	इस्लाम सहिदुल	गाँव - बटामरी, पी.ओ. बालिकटिया, जिला - नागाँव, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.08.07	1010		
47038	इस्लाम समसुल	बराकापरी पी.ओ. मोईराबाडी, जिला - भोरियाँव, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.09.2002	856		डी० सी० एच० - 2008
47039	इस्लाम अहमद	1/79/4, जे.के. चौब रोड, बेल्गाविया, कोलकाता - 700037 (सेन्ट बंगाल)	डी० एच० एच० एच०	2007	युनिवर्सिटी ऑफ बरवाना सेन्ट बंगाल कोलकाता	सेन्ट बंगाल कोलकाता	13.12.07	26864		
47040	जे.एच.एच. कुरबाह सयनदोह	अप्पर नान्धाईनई, शिलांग	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, गुवाहाटी असम	नेपालया	8.3.1985	171		
47041	जादो मोनु सिंह	4- का-11, हाससिन्ग बोर्ड, शास्त्री नगर, सिटी- जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राज्य युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5100		
47042	जयना प्रतिभा	1) नो नं० 478, सेक्टर 7, अरबन इस्टेट, गुडगांव 2) राजकीय होमियोपैथिक डिस्पेंसरी, सेक्टर-4, यूई, गुडगांव	डी० एच० एच० एच०	दिसंबर - 1974	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली	हरियाणा	28.04.93	5575-ए		
47043	जगजीत अमनगीत कौर	नो नं० 221, प्रोफेसर कालोरी, गोविन्दपुरी रोड, यमुना नगर	डी० एच० एच० एच०	1999	कोलकाता ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	2.08.2006	5761-ए		
47044	जगजीत सिंह सिन्ध	नो नं० 2219/1 (न्यू 9027), दुर्गापुरी, हैदराबाद कला, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	6.3.1988	1808		

47045	जाहिरुल इस्लाम	मॉय - पोटा पीओ राजमॉय 781313 वाया सिमुलुडी, जिला - बोरोवोट, असम	डी0 एको एको एको	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होमोफेडी सिस्टम ऑफ मेडेसिन, असम	29.08.2001	814	
47046	जय प्रकाश	बी.पी.ओ. बान्दनी, जिला - शिवगंी	डी0 एको एको एको	अगस्त - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडेसिन, जयपुर	16.06.88	5447-ए	
47047	जैन दीप्ती	30- महावीर नगर, हिरणु मगरी, सेक्टर नं० 4, सिटी - उदयपुर, जिला - उदयपुर	बी0 एको एको एको	जनवरी - 2007	राजस्थान विद्यार्थी (डीम्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	3.12.2008	5152	
47048	जैन निशान्त	370 बजरंग नगर, पुलिस लाईन रोड, सिटी - कोटा, जिला - कोटा	बी0 एको एको एको	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यार्थी (डीम्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	20.08.2008	5061	
47049	जैन शिखा	कोलारिया की पोल, अप्पो नर्सरी, कुदुसबाबा, सिटी - संगवार, जिला - कुर्गपुर (राजस्थान)	बी0 एको एको एको	जनवरी - 2007	राजस्थान विद्यार्थी (डीम्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	10.10.2008	5125	
47050	जैन स्नेहा	302/12, जवाहर नगर, जैकब पुरा, मुकुण्डगढ़ - 122001	बी0 एको एको एको	2008	युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली	11.4.08	22815	सी० सी० एच० -2706
47051	जैन मनीषा	नियर अखिलेश टेम्पल, कनिजा बाजार, सिटी - झलपपरन, जिला - शालासर (राजस्थान)	बी0 एको एको एको	मई - 2007	राज० युनिवर्सिटी, जयपुर	8.10.2008	5083	
47052	जैन मेधा	7 - शिव कालोनी, बिहाइन्ड सिरो हॉन्का रोड, सिटी - बसवाडा, जिला - बसवाडा	बी0 एको एको एको	मई - 2007	राज० युनिवर्सिटी, जयपुर	10.10.2008	5086	
47053	जैन शिपिका	ए-20, किर्ती नगर, टोन्क रोड, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर (राजस्थान)	बी0 एको एको एको	मई - 2007	राज० युनिवर्सिटी, जयपुर	10.10.2008	5119	
47054	जैन प्रियका	430, पंचरतन कामलेख, सिटी फातेहपुर, जिला - उदयपुर (राजस्थान)	बी0 एको एको एको	अक्टूबर - नवम्बर 2003	बी०आर०सी० युनिवर्सिटी, भोपाल	28.1.2009	5187	
47055	जैन रैन	888, शास्त्री नगर, अप्पो पुलिस क्वार्टर-3, दादाबाड़ी, सिटी - कोटा, जिला - कोटा	बी0 एको एको एको	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	5.12.2007	4956	
47056	जैन राज कुमार	27 - इकलिंग कालोनी, एच.एन. सेक्टर-3, सिटी - उदयपुर, जिला - उदयपुर	बी0 एको एको एको	2002	विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन	15.01.2009	5181	
47057	जैन रुबल	245, कुराडी मोह, कालका, जिला - पंचकुला	डी० एको एको एको	1995	कॉमिल ऑफ होमोफेडी सिस्टम ऑफ मेडेसिन, पंजाब	19.05.04	5710-ए	
47058	जैन सपना	3680 से 3682, निरार काली बाड़ी मंदिर, अनाला कीट	बी० एको एको एको	दिसम्बर - 2005	बारा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ होमोपैथी, फरीदकोट (पंजाब)	23.03.09	5855-ए	
47059	जैन समीता	7/1, कनाई धार लेन, कोलकता - 700012	बी० एको एको एको	2008	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकत्ता	28.12.06	28438	सी० सी० एच० -2823
47060	जैन विनिता	बी.183, वैशाली नगर, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	बी० एको एको एको	अक्टूबर - 2003	बकपुराह युनिवर्सिटी, भोपाल	19.03.2007	4824	

47061	जैन अल्ला	श्री दर्शन लाल जैन	नं० नं० 1284, स्ट. नं० 7, बापर स्ट्रीट, देवली रोड, लुधियाना	बी० एच० एच० एच० एच०	2005	बी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	18.09.2006	3055	
47062	जैन अरुण कुमार	श्री विरेन्द्र कुमार जैन	दुकान नं० 4, जी. एस्. मार्केट, नरनकोपुरी, इन्कव्यूरीयल परिया, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	2.1.1997	1682	
47063	जैन कोरी	श्री राकेश कुमार जैन	मैसर्स एल.सी.के.एन., जैन गेन मार्केट बंग, जिला - नरनकोपुर (पंजाब)	बी० एच० एच० एच० एच०	2006	बी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	30.05.2008	3241	
47064	जैन गौरव	श्री सुरेन्द्र पाल जैन	1437, अरबन विहार, फेज-1, पी.ओ. माडल टाउन, लुधियाना	बी० एच० एच० एच० एच०	2003	बी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	18.05.2005	2672	
47065	जैन विनेश	श्री सत पाल जैन	जैनसन सेल कोरपोरेशन, 821, इन्कव्यूरीयल परिया-बी, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	अगस्त - सितम्बर 1983	डी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	07.05.1985	796	
47066	जैन लोक आशिष	श्री स्वण कुमार जैन	माडल टाउन बंग, जिला - जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	27/11/1995	1557	
47067	जैन मिताही	पुत्री पी. दर्शन लाल जैन	जैन मार्केट, विरा, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	3.7.2000	2270	
47068	जैन मोनिका	श्री युग कुमार जैन फली श्री आशिष जैन	गामी नगर, बंग, जिला - नरनकोपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	11.9.1998	1946	
47069	जैन नरेश	पुत्र श्री वसंत लाल जैन	2042, ऋषि मोहला नरन शहर कोलाब - 144514, जिला जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	4/11/1996	938	
47070	जैन निताशा	श्री विनेन्द्र कुमार जैन	मार्केट जनता सोसिटी, कुलाना, जिला - मंडा	बी० एच० एच० एच० एच०	मई - जून 2007	बी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	08.10.2008	3279	
47071	जैन नितिन	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह जैन	मुलाब मेडिकल हॉल, बाजार सरफन, पी.ओ. चौका बाजार, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	3.5.2000	2246	
47072	जैन पारुल	श्री मोहिन्द कुमार जैन	नं० नं० 1932/38, स्ट. नं० 2, सुरेन्द्र नगर, फिरोजपुर, लुधियाना (पंजाब)	बी० एच० एच० एच० एच०	2003	बी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	14.01.2006	2619	
47073	जैन पूजा	पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	बी-12, नं० 1642, मोती बाजार, मलेकोटला, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	31.8.1999	2129	
47074	जैन राजीव	श्री सतीश कुमार जैन	एल.आई.जी. 28, सैक्टर 32, रामपाल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	9.12.1999	2176	
47075	जैन रश्मि	पुत्री श्री ओम प्रकाश जैन	बी-3, 1062, कुनाब नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	02.03.1998	1799	
47076	जैन रिनु	श्री जगदीश प्रसाद जैन	154, गार्ड नं०, चम्पपुर मोहला बेरा बारी, जिला - पटियाला (पंजाब)	बी० एच० एच० एच० एच०	2001	बी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	18.05.2004	2695	
47077	जैन रुबल	श्री ओम प्रकाश पुता फली श्री संजय जैन	बी-1/3748, मेन्द गंज रावपुरा, जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	16.10.1996	1967	
47078	जैन सुनील	श्री हितेश कुमार जैन	17, सनसिया कालोनी, पटियाला	डी० एच० एच० एच० एच०	2001	पंजाब	पंजाब	01.08.2003	2643	
47079	जैन विक्रम	श्री कौशल कुमार जैन	नं० नं० 18699, अग्रवाल कालोनी, मटिका (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	4.8.1999	2104	
47080	जैनिका जहान	श्री मनसुर अलि जैन	821, रा. गान्धारी, रावली नगर, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	बी० एच० एच० एच० एच०	मई - 2007	पंजाब	पंजाब	10.10.2008	5099	

क्र.सं.	जनता विधेयक	श्री जोगिन्द्र पाल जलोटा	सिविल हॉस्पिटल कालोनी, गुरदासपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	30.6.1997	1712	
47081	जनीन मोलूनाट सुभा		मार्केट - एन. अन्सुम जमीर होम इलाहियत, सांगरूकेस पी.ओ. बेजिस्ट चर्च, मकोक चॉंग 798601, नगालैंड	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2005	रिड्गुगड युनिवर्सिटी	असम	22.11.06	984	
47083	जयक राज	श्री बाबू राम	नियर माडल स्कूल, पटियाला रोड बस्ती, गोपाल नगर, सुनाम, जिला - संभल (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1989	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	20.7.1998	1975	
47084	जयेश मेर	पानी श्री मगत राम	डी.पी.ओ. महीलपुर, तेह. गडशकर, जिला - होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	5/2/1986	871	
47086	जसिम नामर सिंह	श्री सुप्रेम पाल	नं० नं० 3059, सेक्टर - 27-डी, चंडीगढ़	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	21.04.2008	3205	
47088	जयमीन पराहर	श्री बलबीर सिंह	डी.पी.ओ. कालरा, जिला - जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	4.9.1998	1937	
47087	जसप्रीत	श्री सुपुल सिंह	नं० नं० 1094/1, सेक्टर - 39-बी, चंडीगढ़	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	28.04.2008	3212	
47088	जसवीर सिंह लाल	श्री अजीत सिंह	डी.पी.ओ. काहना, तेह. नवन शहर, जिला - जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	14/2/1991	1237	
47089	जसवाल गुरमीर सिंह	श्री मोहिन्द सिंह	नं० नं० 517, रूप नगर, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	16/05/1990	1201	
47090	जट महु लता	श्री अमर सिंह जट	मार्केट - श्री बीम सिंह, खारगी पक्का, सिटी- बवाना, जिला - मुरापुर	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.12.2007	4976	
47091	जया	श्री ओ० पी० शर्मा पत्नी श्री सुनील लारिया	नं० नं० 400/3 ए. मोहली, तेह. खरब, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	3.11.1997	1724	
47092	जयन्त बोध		गौड बानर्जी पी.ओ. रामगोला वाला देहिवाल 798621, जिला - गलाघाट, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2006	बिहृगर्ह युनिवर्सिटी	असम	04.02.08	1017	
47093	जयन्त चक्रवर्ती		पाण्डु, गुवाहाटी, गुवाहाटी-12	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984,	बोर्ड ऑफ होमोफेडी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	30.04.85	139	
47094	जीवन जोट	श्री जय कृष्ण	ज्योति माडल सिनियर सैकन्डरी स्कूल कविकापुरा, जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2007	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	18.09.2008	3277	
47095	डा. अमर नाथ डा.	श्री सुनी नरायण डा.	1) दीप विलनिक, सी.277, नियर ए. -114, एस्.आई.एस्. नगर, वजीरपुर इन्स्टीट्यूट एरिया, दिल्ली - 110052 2) न्यू होमियो. सदन चटखी रोड, राज नगर, जिला - मधुबनी	डी० एच० एच० एच०	1979	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार बोर्ड	02.12.80	18903	सी० सी० एच० -2579
47096	डा. अशिश कुमार	श्री शिवा नाथ डा.	1) 110-बी. एस्.-पाकेट, सरिता विहार, नई दिल्ली - 110076 2) गौड बानर्जी सिनियर (बिस्वाहड थाना) पी.ओ. एम्ब पी.एस्. बलुआ बाजार, जिला - सुपौल, बिहार - 854339	डी० एच० एच० एच०	2007	जे० शाक नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), जयपुर	बिहार बोर्ड	15.5.07	20282	सी० सी० एच० -2700

47097	डा. विजय कुमार		गॉव - रीनिया पी.ओ. रीनिया, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1993	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.06.04	903	
47098	डा. रुद्रा नन्द	सरय नारन झा	सतीस होमियो. क्लिनिक निबर बी.एम. आर पब्लिक स्कूल, नेहरुपार न्यू खारी रोड, भारत कालोनी, ओल्ड करियाबाद	डी० एच० एच० एच०	मई - 1973	होमियो स्टेट बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, पटना	हरियाणा	28.01.1998	6659-ए	
47099	आजी अंगद	श्री डी० एच० आन्वी	28-ए, आरिषि नगर, केन रोड, सुप्रियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998		पंजाब	08.06.1998	1852	
47100	सुजला मनीष कुमार जैन	श्री चन्द पाल जैन सुजावत	निचला बाजार, पलवालो की गली, चरियावाड सिटी - धरियावाड, जिला - प्रतापगढ़	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जो आरओ नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी०एच युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	15.07.2008	5037	
47101	जोमो अदीका पो		मार्केट-निबटो पी., कुशी गौड - सेरिया पी.ओ. सेरिया 787002, जिला - धीमापुर, नागालैंड	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	विश्वगर्ह युनिवर्सिटी	असम	19.01.07	997	
47102	चिन्दल अण्डु राय	पत्नी श्री सुखदेव राय	मो नो 3231, स्ट. नो 4, कोर्ट रोड, मेहना चौक, मटिका (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999		पंजाब	15.3.2000	2239	
47103	चिन्दल अण्डु	पुत्री श्री जो एच० चिन्दल	एच.आई.जी. 203, सैक्टर 71, मोहली, रोड, खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999		पंजाब	9.8.2000	2317	
47104	चिन्दल दीपिका	श्री विजय कुमार चिन्दल	585-बी, अगर नगर, सुप्रियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990		पंजाब	11/2/1993	1342	
47105	चिन्दल मोनिका	पुत्री श्री जो एच० चिन्दल	मो नो 27, सैक्टर 22-ए, बंहीगढ़ - 160022	डी० एच० एच० एच०	1996		पंजाब	22/09/1987	1001	
47106	चिन्दल राजीव कुमार	श्री कमल कुमा चिन्दल	चिन्दिया निवास, चिन्द रोड, संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994		पंजाब	8/8/1996	1812	
47107	चिन्दल रजनी	पुत्री श्री राम सरूप चिन्दल	सिबिल हॉस्पिटल, नीर मन्डी, रोड, रतनगढ़ी साहु, जिला मटिका (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998		पंजाब	19.8.1999	2118	
47108	चिन्दल रोखर	श्री नरेन्द्र कुमार चिन्दल	नरेन्द्र पौलटरी कार्म, खानपुर रोड, खरड, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993		पंजाब	20/03/1995	1451	
47109	चिन्दल यशपाल सिंह	श्री बचन लाल चिन्दल	मो नो 2975, नानदेव नगर, मटिका (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1995		पंजाब	5/8/1996	1605	
47110	चिन्दल कमलदीप	श्री मनात चिन्दल	मो नो 13349, स्ट. नो 7, नानदेव मार्ग, मटिका (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	30.05.2007	3117	
47111	चिन्दिया अण्डु	पुत्री श्री के० चिन्दिया	आला राम कालोनी, निगर पी.एम.डी. रैस्टहाउस, नाभा, जिला - मटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992		पंजाब	18/08/1994	1387	
47112	जीता बिक्रम		गॉव - ताराजन नजीरा रोड, पी.ओ. - जयसद-1, जिला - जयसद, असम	डी० एच० एच० एच०	सितंबर - 1996	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	09.05.88	279	
47113	जोहल नरेन्द्र कौर श्री हरदीप सिंह		1116, टीकर कालोनी, बिरा रोड, मोगा	डी० एच० एच० एच०	1999		पंजाब	20.03.2001 मई - जून 2003 डी० एच० यु० एच० एच०	2477	
47114	जोन जी. जावसी	श्री जी० जैन	पी.ओ. टमकोर, सिटी - मुगहटु, जिला - मुगहटु (राजस्थान)	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.2.2009	5192	

47130	जुनेजा सुनीश कुमार	सोहन कुमार जुनेजा	1) डुकान नं 2-बी, जट धरमाला अण्डा ओल्ड पावर हाउस, हिसार 2) कोठी न. टी-15 (ए), रेलवे कालोनी, मटिन्दा	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	18.03.86	5358-ए		
47131	जुनेजा सखी	री अयावनी कुमार जुनेजा	38, पी-ब्लाक श्री गंगानगर, (राजस्थान) - 335001	डी० एच० एच० एच०	2007	शाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	राजस्थान बोर्ड जयपुर	6.10.07	4937		सी० सी० एच० -2881
47132	जुनेजा राखी	श्री चरण दास जुनेजा	माहल टाउन स्ट. 8, सीता रोड, अंबोहर	डी० एच० एच० एच०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	23.05.2007	3102		
47133	ज्योती	श्री सुमान वन्द	नं 6535/2बी-34, हैबीवाल कला, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	23.04.2007	3084		
47134	ज्योत्सना	श्री देव राज	नं 286, वार्ड नं 7, रंता सिंह कालोनी, दधुवा, जिला - हरियाणा	डी० एच० एच० एच०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	23.04.2007	3089		
47135	डॉ. राजमणीकम	श्री एम० कान्दसाजी	22/एल-2, सी.पी. कनिवाल स्ट्रीट, राशिपुरम, नमकल, जिला - 637408	डी० एच० एच० एच०	1986	डाक्टर ऑफ गर्बामैन्ड तमिलनाडु एच० एच० कौन्सिल		13.11.87	345		सी० सी० एच० -2819
47136	कचरी गान्दिना चन्दा		गोव - नार्थ बेजमती पी.ओ. - डलोना घाट, जिला - दरंग, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम		18.05.87	246		
47137	कदाबा राव ज्योती	पुत्री श्री ड० जगननाथ राव	32, केनरेला पी.ओ. रोड, युलुन्द डेट बान्ने - 400080 (माहाराष्ट्र स्टेट)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	4/9/1989	1187		
47138	कदापिया रोज अहमद अली		गोव बाबु अलगा पी.ओ. पनवाडी - 783349, जिला - डुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.07.04	805		
47139	कादिर अन्दुल		गोव साजय बागरीगुडी पी.ओ. चुरिया, जिला - नार्णोव, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.02.87	205		
47140	कैरनजीत	पुत्री श्री लखबीर सिंह किल्लोन	मनवान पुष्पा, सुगरमिल, धुरी, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	18.5.2000	2264		
47141	काकाटी अनिरुध		गाव निज बराला पी.ओ. अमदाह, जिला - बीरोटा, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.05.99	611		
47142	ककड़ पल्लवी	श्री डी० के० ककर	नं 20, शास्त्री कालोनी, सिटी - रायसिंग नगर, जिला - श्री गंगा नगर	डी० एच० एच० एच०	मई - 2005	शाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	राजस्थान	2.07.2007	4841		
47143	काकाटी विपुल चन्दा		गाव चुरिचिन्तलगांव पी.ओ. हजोपकीर्ण, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.01.86	170		
47144	कालासी गिन्की	पुत्री श्री इन्दजीत सिंह कालासी	नं 691, 3बी-1, सैक्टर 60, सोहाली, रोड, खरक, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	13.1.2000	2188		

47145	कालीया अन्जु	श्री हरमजीत कालीया	1) मो नं० 2702/36-सी. चंडीगढ़ - 160036	डी० एच० एम० एम०	1995	पंजाब युनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	पंजाब कांसिल	23.8.95	1526-ए	डी० एच० एम० एम० (मंडिड हिंदी) 2000	पंजाब कांसिल चण्डीगढ़	डी० सी० एम० -2843
47146	कालीया अरविन्द कुमार	श्री जनदेव मित्र कालीया	बी-5/878, गोबिन्दगढ़ रोड, तारन तारन, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	14.7.1998	1888			
47147	कालीया राम कुमार	श्री विजय सिंह	गाँव कंसल, तह. खरक, जिला - मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	जून - 1981	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	15.04.2002	2592			
47148	कालीया विरय देवन	श्री कुल्लु कुमार कालीया	वी.पी.ओ. सुल्तानपुर लोधी, जिला - कपूरथला	डी० एच० एम० एम०	2005	डी० एच० यु० एम० एम०	पंजाब	13.10.2006	3067			
47149	कलितला अशवनी		गाँव - रूपकिगा पी.ओ. हेलना, जिला - बोरपेटा, असम	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.11.99	828			
47150	कलितला मधेश्वर		गाँव मुनेरिया पी.ओ. पालशाला, जिला - बोरपेटा, असम	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.05.98	607			
47151	कलितला विपिन चन्द्रा		गाँव - माहारानी पी.ओ. बाघमारा बाजार, जिला - बोरपेटा, असम	डी० एच० एम० एम०	अप्रैल - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.07.87	180			
47152	कलितला गीतावली		गाँव - डेकायरा पी.ओ. अजारा, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम०	मार्च - 2002	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.09.03	878			
47153	कलितला हकान्ता		गाँव - सिस्वी पी.ओ. बोको, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम०	मई - 1981	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.04.03	886			
47154	कलितला हिमेन		गाँव - नवापुर पी.ओ. बाको 781123, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम०	अप्रैल - 1994	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	09.03.98	878			
47155	कलितला जितेन्द्र		गाँव - खासवेरिया पी.ओ. विपिलाचोक, जिला - दरंग, असम	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.12.84	115			
47156	कलितला लक्ष्मण कुमार		गाँव लखीमपुर ए-ब्लाक पी.ओ. निकाशी 781372, जिला नलबारी, असम	डी० एच० एम० एम०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.11.2001	820			
47157	कलितला मनोरमा		मार्जल - उपेन्द्र पो. कलितला मुलपेखुरी, मुदाकाटी-03	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.04.98	817			
47158	कलितला नवीन चन्द्रा		मोदापुरी कलितला गौ पी.ओ. जमुपुरी पीच अली, जिला - धुमाजी, असम	डी० एच० एम० एम०	फरवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.01.99	716			
47159	कलितला नयानमोनी		रसिया गार्ड नं०-3, पॉ.अ. रसिया 781354, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम०	फरवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.07.2001	801			
47160	कलितला प्रहलाद		गाँव - दकुनी पी.ओ. नवरबेरा, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.03.2001	790			
47161	कलितला सनातन		गाँव - धकुनिया पी.ओ. धकुनिया, जिला - नलबारी, असम	डी० एच० एम० एम०	मार्च - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.09.2001	659			

47162	कलिया शंकरदेव		गोंय हेडक्वा, बोको पी.ओ. हेडक्वा, जिला - कार्णार, असम	1984	अप्रैल - 1984	सर्वे ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.05.85	148	
47163	कलिया सोनेश्वर		गोंय चिनाकी पाठ नरिहेल बस्ती, मुवाहाटी-24	1985	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	30.10.87	200	
47164	काले सीमा	पुत्री श्री शादी लाल काले	मो नं 293, गुरु नानकपुर, कपूरथला (पंजाब)	1989	1989	पंजाब यूनिवर्सिटी, कपूरथला	पंजाब	5.9.2000	2346	
47165	कालाधिया राजी	श्री आरु सीधू कालाधिया	पुरेरा हॉमियो. क्लिनिक सत कठार नगर मोहटे, जालंधर	2008	2008	पंजाब यूनिवर्सिटी, कपूरथला	पंजाब	08.10.2008	3278	
47166	कालरा हिरेखा	श्री जगदीश चन्द कालरा	21-ए. मोहिन्द कालोनी, रापुर, जिला - पटियाला (पंजाब)	1986	1986	पंजाब	पंजाब	28.9.1988	1986	
47167	कालरा गुरविन्दर सिंह	श्री गुरवरण सिंह	मो नं 20346, सेक्टर 71, मोहाली, तेह. खरड, जिला - रोपड़ (पंजाब)	1988	1988	पंजाब	पंजाब	19.8.1989	2117	
47168	कालरा गिनाही	पुत्री श्री राज कुमार कालरा	मो नं 301, किवर्द नगर, लुधियाना (पंजाब)	1984	1984	पंजाब	पंजाब	11/5/1995	1475	
47169	कालरा रक्षा कृष्ण	श्री जयरा लाल कालरा	सर्कट - कालरा गिन्टि रोड 14-पंचवटी बस्ती, श्री रंगा नगर (राजस्थान)	1984	1984	पंजाब	पंजाब	9/1/1988	854	
47170	कालरा रवीन्द्र	श्री एस एस कालरा	री.XX 2322, कृष्णा नगर, लुधियाना (पंजाब)	1986	1986	पंजाब	पंजाब	27/08/1996	1635	
47171	कालरा सतीश कुमार	श्री कस्तूर चन्द कालरा	राधा बाजार जलालाबाद तेह. फाजिल्का, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	1988	1988	राजस्थान बोर्ड, जयपुर	पंजाब	9/2/1989	1138	
47172	कालसी गुरभीत कौर	पत्नी श्री जगदीश कालसी	मो नं 1734-बी.XX, न्यू ग्रैन नगर, लुधियाना (पंजाब)	1984	1984	पंजाब	पंजाब	7/8/1996	1588	
47173	कालसी संदीप सिंह कालसी	पुत्री श्री नन्द सिंह कालसी	93, न्यू आफिसरस कॉलोनी, पटियाला (पंजाब)	1986	1986	पंजाब	पंजाब	13.10.1988	1978	
47174	कमल कान्ती	एस एस बिन्दल	मनोज कुटीर कोर्टस कॉलोनी, सिरसा	1989	1989	कैपिटल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	22.07.91	5547-ए	
47175	कमल कान्ती	पुत्र श्री एस एस आर बिन्दल	मार्फत - आर. के. शर्मा, मो नं 31, काली गिन्टि राम नगर पी.ओ. डकाहिया, जिला - जालंधर (पंजाब)	1989	1989	पंजाब	पंजाब	4/1/1991	1229	
47176	कमल प्रीत	श्री प्रमिन्द सिंह	46-ग्रीन एवेन्यू, भोगा	1988	1988	पंजाब	पंजाब	20.03.2001	2481	
47177	कमल राज	श्री रामा चन्द	गोंय बटरी पी.ओ. अरहल, तेह. रेहड़, जिला - जालंधर (पंजाब)	1986	1986	पंजाब यूनिवर्सिटी, कपूरथला	पंजाब	4.02.89	87-ए	
47178	कमल प्रीत	श्री जगिन्द सिंह	न्यू लाजपत नगर, गाऊन टाउन, लुधियाना (पंजाब)	1986	1986	पंजाब	पंजाब	1.1.1997	1680	
47179	कमलजीत कौर	श्री चमन लाल जल	मो. रूप नगर, गली नं. 8, होशियारपुर	2004	2004	श्री एस एस एस एस एस	पंजाब	17.04.2006	3023	
47180	कमलज अमन	श्री बलदेव कृष्ण	पुल्लपुर कॉलोनी, स्ट. नं 3, फाजिल्का (पंजाब)	नवम्बर - दिसम्बर 2006	2006	श्री एस एस एस एस एस	पंजाब	26.08.2008	3286	
47181	कमलजीत सतनजीत कौर	श्री गुरविका सिंह	एम.सी. रोड, रापुर, जिला - पटियाला	2004	2004	श्री एस एस एस एस एस	पंजाब	24.05.2006	3027	

47182	कामकी पेनीन	श्री कल्पे कामकी	ए) गाँव देगा कामकी पी.ओ./पी.एस. /कमरा, जिला सेक्ट सिवांग आलो, ए. पी. 4019 9656102907 (मो.) 03783261285 बी.) मार्कत - प्राचार्य एन.ई.एस.सी. एण्ड एच. विवेक विहार, ईटानगर	डी० एच० एम० एम० एम०	27.06.2018	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	13.08.2008	81	
47183	कन्दर सुमती	पत्नी आर० के० गुप्ता	1) 551, सैक्टर - 8, पंचकुला 2) एस.सी.एफ. 281, सैक्टर - 16, पंचकुला	डी० एच० एम० एम०	1986	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी (सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब)	हरियाणा	27.03.94	5595-ए	
47184	कन्य राजीव सिंह	श्री सुरिन्दरीत सिंह कन्य	मो 700 181/8, मोहल्ला कांग, सडिगड रोड समराला, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	मई - जून 2006	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	01.01.2008	3167	
47185	कन्सल संगीता	पुत्री श्री मोहन लाल कन्सल	मो नं० 797, पंजाब माता नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1990	पंजाब	पंजाब	13/05/1992	1285	
47186	कान्त शशि	श्री नन्द लाल	मो नं० 3108, नीम वाला चौक, तेह. खरड, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1983	पंजाब	पंजाब	21/06/1995	1495	
47187	कान्त विरेश	श्री सुखदेवा लाल	214/1, सिविल हास्पिटल रोड, जलालाबाद (सेक्ट) फिरोजपुर	डी० एच० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	09.08.2001	2535	
47188	कवर शिखा	पुत्री श्री रमेश कवर	318-सी, माई एल्फीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	5.9.2000	2349	
47189	कपाही रेखा	श्री ए० बी० कपासी	मो नं० 843, हौमाल कला, दुर्गापुरी, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	16.10.1996	1685	
47190	कपिला गनु	श्री पान कपिला	कौन्सिल कलर नैब, अपो इन्दा आलो सेल नियर बस स्टैंड, पटियाला	डी० एच० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	05.03.2001	2459	
47191	कपूर अदिती	श्री प्रदीप कपूर	मार्कट- हेमन्त जोशी, एफ/15, हस्तीनपुर, ककरोली सिटी - ककरोली, जिला - राजस्थान	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2008	डी० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	25.07.2007	4875	सी० सी० एच० -2894
47192	कपूर जसकरण	पत्नी डा० सुनील कपूर	17, कैलाश नगर माडल टाउन, अम्बाला सिटी	डी० एच० एम० एम०	1991	कौन्सिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	28.11.94	5815-ए	
47193	कपूर आशु	श्री सुभाष चन्द्र कपूर	बी-1, 1244, पिपली मोहल्ला, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	27/08/1996	1637	
47194	कपूर गीता	पुत्री श्री ब्रह्म दत्त कपूर	18, ऑनरस कोर्ट, निवर स्टैंड सिनेमा कोलाबा, भाबे - 400005 (एम.एस.)	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	28/05/1989	1183	
47195	कपटे प्राची	श्री अरुण एम० कोसकर	एच.7/4, शांकर विहार, निवर महिपालपुर, दिल्ली केंद्र, दिल्ली	डी० एच० एम० एम०	1997	नागपुर युनिवर्सिटी	महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमोपैथी मुम्बई	12.7.99	28981	सी० सी० एच० -2842
47196	कपूर अनीत	श्री प्रिय कुमार कपूर	मो नं० 491, पास्सी नगर, पडोवाल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	02.04.2008	3186	
47197	कपूर निधी	पुत्री श्री अरुण कुमार कपूर	निर्मल कुटीर, 19-ए, गुरुद्वार रोड, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	21.10.1999	2150	

47198	कार राजीव	कालीमोहन रोह, तारपुर, शिवहर-3	डी० एच० एम० एच०	जून- 1985	वेस्ट बंगाल कौन्सिल	असम	14.07.06	1089	
47199	कार समाली (बकरी)	मार्जित - 370 डी.सी. कार, पी.ओ. गोंव दत्ता पट्टर, जिला - 24 परगा वेस्ट बंगाल	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.05.85	159	
47200	कलिन को सान्जी	मार्जित - वाटपों सिंह काजी, मनेस कुल रोड, माखर, शिलांग	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, गुवाहाटी	मेघालया	27.04.2005	255	
47201	करमल्ल मुनेन्द्रा	मार्जित - कुलेरी पी.ओ. कुलेरी, जिला - लखीपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.05.87	231	
47202	कास देव	मार्जित - 72/14, माला राजी कान्ना, जिला - दुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	6/4/1988	1059	
47203	कासना अभिषेक	मार्जित - 321, सैक्टर - 31, फरीदाबाद	डी० एच० एम० एच०	जून- 2005	राजा फरीद मुनिवर्षिटी फरीदकोट	हरियाणा	7.12.2006	5777-ए	
47204	कासत सुनिता	मार्जित - 321, सैक्टर - 31, फरीदाबाद	डी० एच० एम० एच०	अक्टूबर - 1983	एम० सी० एम०, मुई	राजस्थान	2.03.2007	4919	
47205	कशीर मिन्दर	मार्जित - एच.एस. रीसले, एच.आई.जी - 1841, फेज - 9, मोहाली, तेह. खरद, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	30.7.1999	2086	
47206	कुसुम तला	मार्जित - 108, साक सी, सिरसा, हरियाणा	डी० एच० एम० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	9/6/1994	1379	
47207	कटारिया अंकुर	मार्जित - 108, साक सी, सिरसा, हरियाणा	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 2007	डॉ० आर० नगर राजस्थान सिवाजी (डी० मुनिवर्षिटी), सवाईपुर	हरियाणा	27.11.08	5944-ए	
47208	कटवाल निधि	मार्जित - 4759, विमान जगपुर, जिला - दुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	9/1/1996	1572	
47209	कोर अननदीप	मार्जित - 22/बी-2, शिव नगर, बानी पार्क सिटी- जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 2005	पंजाब मुनिवर्षिटी, सन्कीगढ़	राजस्थान	19.05.2007	4835	
47210	कोर राजविवर	मार्जित - अनधिक सिह बी. सोहन गाली पी.ओ. कुलवाली, सिटी दि. सतुल गाहा, जिला - श्री गंगा नगर	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 1997	सी० एम० एम० एम०, पंजाब	राजस्थान	28.06.2008	5031	
47211	कोर अननदीप	मार्जित - 4759, विमान जगपुर, जिला - दुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	जून- 2004	राजा फरीद मुनिवर्षिटी आर० हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	14.10.05	5736-ए	
47212	कोर गुरपीत	मार्जित - 4759, विमान जगपुर, जिला - दुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 2006	पंजाब मुनिवर्षिटी, सन्कीगढ़	हरियाणा	23.05.08	5631-ए	
47213	कोर जगदीप	मार्जित - 4759, विमान जगपुर, जिला - दुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	मई - 2005	राजा फरीद मुनिवर्षिटी (पंजाब)	राजस्थान	22.0.2007	4837	
47214	कोर मनदीप	मार्जित - 4759, विमान जगपुर, जिला - दुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 2000	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	2.11.04	5720-ए	
47215	कोर मनदीप	मार्जित - 4759, विमान जगपुर, जिला - दुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	28.9.1998	1972	

47216	कोर अमनदीप	श्री बलदेव सिंह डिल्लोन	बी.पी.ओ. मिश्र, तेह. बाबा बालक, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1996	पंजाब	पंजाब	18.5.1998	1637
47217	कोर अमनदीप	श्री म. सिद्ध पाल सिंह	म० न० 155-ए, माडल टाउन एक्सट., लुधियाना	डी० एच० एच० एस०	2000	पंजाब	पंजाब	34.10.2001	2550
47218	कोर अमनदीप	श्री रामजीत सिंह	600-ई. माई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1996	पंजाब	पंजाब	16.12.1997	1755
47219	कोर अमनदीप	श्री गिरया सिंह	बी.पी.ओ. नवन सिन्ध, तेह. एण्ड जिला अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1997	पंजाब	पंजाब	22.10.1998	1981
47220	कोर अमनदीप	पुत्री श्री हरबल सिंह	म० न० 1118, स्ट. न० 11, गुरुबक्स कालोनी, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1996	पंजाब	पंजाब	25.10.1999	2163
47221	कोर अमनदीप	पुत्री श्री जंग सिंह	गोव कोला गुरु, पी.ओ. मारा, तेह. फूल जिला - मटिया (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	20.4.2000	2249
47222	कोर अमनदीप	पुत्री श्री गुरुकाश सिंह	गोव थाला, पी.ओ. दयालपुर, तेह. फिरोज, जिला - जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	9.8.2000	2316
47223	कोर अमनदीप	पुत्री श्री भाग सिंह	ई.जे. 288, फागवाडा गेट, जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	24.8.2000	2331
47224	कोर अमनदीप	श्री जसबिन्द सिंह डिल्लोन	बी.पी.ओ. फरूर, तेह. खमानो, जिला - फरीदगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	2000	पंजाब	पंजाब	03.12.2001	2568
47225	कोर अमनदीप	श्री करतार सिंह	कोठी न० 248, फेज-1, अरवन इस्टेट, डुगा रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1995	पंजाब	पंजाब	20/08/1996	1823
47226	कोर अमनदीप	पुत्री श्री कुलदीप सिंह	बी.पी.ओ. जिरोबाला, तेह. सन रासन, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1997	पंजाब	पंजाब	18.6.1999	2043
47227	कोर अमनदीप	पुत्री श्री तेजपाल सिंह	5-ए, गुधारा सहिबियान, माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	8.9.2000	2356
47228	कोर अमनदीप	श्री रणजीत सिंह	मोहल्ला मरिखाना स्टीट न० 2, फरीदकोट	डी० एच० एच० एस०	2004	पंजाब	पंजाब	31.01.2006	2978
47229	कोर अमनदीप	श्री इकतार सिंह	मार्फत - सुरेन्द्रजी सिंह काग, न० 181/8, मोह. काग, चंडीगढ़ रोड समरला, जिला - लुधियाना	डी० एच० एच० एस०	2005	पंजाब	पंजाब	23.04.2007	3100
47230	कोर अमनदीप	श्री जसपाल सिंह	मार्फत- डा० रणधीर सिंह बी.पी.ओ. फरीदपुर राजपुर, जिला अमृतसर साहिब (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	पंजाब	पंजाब	29.06.2007	3137
47231	कोर अमनदीप	श्री भावत सिंह	बी.एक्स-516, स्टेट बैंक कालोनी, बटाला, जिला - गुरदासपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	जनवरी - 1995	पंजाब	पंजाब	09.10.2004	2778
47232	कोर अमनदीप	श्री हीरा सिंह	77-ए, माडल टाउन एक्सट., लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	2003	पंजाब	पंजाब	14.01.2005	2818
47233	कोर अमनदीप	पुत्री श्री सरजीत सिंह	44-सी, डा. एस.एच. किशोरु नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1985	पंजाब	पंजाब	23/07/1987	981
47234	कोर अमनदीप	पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह	कृष्ण बाग कालोनी, गली न० 8, संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1984	पंजाब	पंजाब	10/5/1996	1593
47235	कोर अमनदीप	पुत्री श्री जसविन्द सिंह	म० न० 202, पासी नगर, पड़ोताल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1998	पंजाब	पंजाब	4.1.2001	2404
47236	कोर अमनदीप	श्री तेहर सिंह	म० न० 6583, बी.आर.एस. नगर, लुधियाना	डी० एच० एच० एस०	2004	पंजाब	पंजाब	28.09.2006	3058
47237	कोर अमनदीप	पुत्री श्री कुलवंत सिंह	बी.पी.ओ. हर्ष डिंग, तेह. अजनाला, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एस०	1997	पंजाब	पंजाब	21.10.1999	2152

47238	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री अजीब सिंह	मो नं० 0775/XXVIII, स्ट. नं० 3, पुजाब माल नगर, माकल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	1978	
47239	कोर अमृतपाल	श्री गुरदरशन सिंह	मो नं० 7390, सिन्ध राजेन्द्रा राजकीय कालेज, मटिन्डा	डी० एच० एच० एच०	2002	पंजाब	पंजाब	2888	
47240	कोर अमृतपाल	श्री मोहिन्द सिंह	गुरप्रसाद एवाइन्ट फलोवाल रोड, निपर कैपल बीच, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2003	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	2894	
47241	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री कलदीप सिंह	मो नं० 281/2, टाकिया रहीम शाह, मटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	2298	
47242	कोर अमृतपाल	श्री बलविन्द सिंह	एल्डू रोड, राजकोट, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	1576	
47243	कोर अमृतपाल	श्री बलवीर सिंह	मो नं० 875, अरबन इस्टेट फेज-2, जगजलपुर, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2005	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	3040	
47244	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री गमपुर सिंह	बी.पी.ओ. कोठी अंबलु, रोड, गुरप्रसाद, जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	1478	
47245	कोर अमृतपाल	श्री सुजयंत सिंह	मो नं० 243, बसन्ती एवेन्यू, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2003	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	2851	
47246	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री हरमजन सिंह	स्ट. नं० 3, एस.एस. नगर, निपर चू बस स्टैंड, हरनाला, जिला सतलुज (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	2128	
47247	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री सोनी सिंह	मो नं० 552, मोटा सिंह नगर, जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	1369	
47248	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री मन सिंह	मो नं० 1230, फेज-6, एस.एस. नगर, मोहाली, रोड, खरब, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	1372	
47249	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री सुखदेव सिंह	530, ब्लाक 1, गाई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	2181	
47250	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री सुखरण सिंह	मो नं० 89, गार्ड नं० 25, माता रानी खाना, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	2304	
47251	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री अजमेर सिंह	डब्ल्यू-4/789, सिविल साइन्स, मोगा, जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	2384	
47252	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री गोपाल सिंह	मो नं० 12, किसान घाट कालोनी, बी.ओ. मोल्हन टेम्पल, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	2138	
47253	कोर अमृतपाल	श्री दीप सिंह	बी-XXXIV-463, चंवर नगर, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	2500	डी० एच० एच० एच० (शेडिड डिग्री) मई - जून 2004
47254	कोर अमृतपाल	श्री रूप सिंह	मो नं० 1757/29-ए, स्ट. नं० 8-ए, हीरा बाग चंवरनगर, जिला - लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2006	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	3233	डी० एच० एच० एच०
47255	कोर अमृतपाल	पुत्री श्री सुप्रीत सिंह	बी.पी.ओ. जनरलवाला गुरु, निपर रोड गेट, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	2091	डी० एच० एच० एच०

47275	कोर दलजीत	पुत्री श्री केमल सिंह	गॉल पंखवाला पी.ओ. भुवनेश्वर, तेह. राजपुरा, जिला - पटियाला	डी० ए० ए० ए० ए०	1985	पंजाब	पंजाब	20/09/1996	1832	
47276	कोर दलविन्दर	श्री हरजीत सिंह	1125/1, स्ट. 5, प्रताप नगर मुंडेर जी. -बीज, बुधियाणा	डी० ए० ए० ए० ए०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	पंजाब	डी० ए० ए० ए० ए०	23.05.2007	3105	
47277	कोर दलजीत	श्री नरेंद्र पाल सिंह	सो. नं० 2094/1, फतेह गंज सरावा रोड, बुधियाणा	डी० ए० ए० ए० ए०	1988	पंजाब	पंजाब	26.06.2001 13.08.2007	2519	डी० ए० ए० ए० ए० (मंडिह सिटी) नई - जुलू 2004 डी० ए० ए० ए० ए०
47278	कोर देविन्दर	पुत्री श्री इन्दरा सिंह	सो. नं० 438/XII, हनुमान चौक, गुरदासपुर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1986	पंजाब	पंजाब	8/9/1987	989	
47279	कोर देविन्दर	पुत्री श्री गुरबचन सिंह	2019/V-28, स्ट्रीट फौह अबादिया, निपर बाबा अटल, अमृतसर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1988	पंजाब	पंजाब	25.1.2000	2191	
47280	कोर दीपजीत	श्री गुरनाम सिंह	मार्कट प्रोसेसिंग प्लांट, कपूरथला (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1988	पंजाब	पंजाब	24.4.1988	1833	
47281	कोर दीपजीत	पुत्री श्री रणजीत सिंह	सो. नं० 851, फेज 1, तेह. खरद, जिला रोहता (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1988	पंजाब	पंजाब	21.5.1988	2032	
47282	कोर देविन्दर	श्री अरुण सिंह	गॉल तहिर खरन, इस्टेट फेज 1, पी.ओ. पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	डी० ए० ए० ए० ए०	2004	पंजाब	डी० ए० ए० ए० ए०	24.03.2006	3013	
47283	कोर दिलदीप	श्री बसन्त सिंह	सो. नं० 650, फेज 3बी, मोहाली	डी० ए० ए० ए० ए०	2004	पंजाब	डी० ए० ए० ए० ए०	24.10.2005	2837	
47284	कोर दिलदीप	पुत्री श्री मोहिन्द सिंह	सो. नं० 1792, गली नं० 5, नई बस्ती, मटिका (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1999	पंजाब	पंजाब	18.8.2000	2324	
47285	कोर सुपिन्दर	श्री सत्यनन्द सिंह	सो. नं० 780/ 8, गली मोहाल चौक लखनान रात अमृतसर	डी० ए० ए० ए० ए०	नई - जुलू 2004	पंजाब	डी० ए० ए० ए० ए०	24.10.2005	2832	
47286	कोर एकजीत	श्री गुरजीत सिंह	सो. नं० 1489, सैक्टर-42-बी, चंदीगढ़	डी० ए० ए० ए० ए०	2003	पंजाब	डी० ए० ए० ए० ए०	08.11.2005	2865	
47287	कोर गगनदीप	पुत्री श्री गुरजीत सिंह पत्नी श्री हरविन्द सिंह	सो. नं० 4376, कीर्ति नगर, लखनपुर, जिला - बुधियाणा (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1986	पंजाब	पंजाब	22/02/1990	1184	
47288	कोर गगनदीप	श्री प्रदीप सिंह	सो. नं० 1283/1, आदर नगर, नया गांव, पी.ओ. नाबा, तेह. खरद, जिला - मोहाली	डी० ए० ए० ए० ए०	2002	पंजाब	डी० ए० ए० ए० ए०	02.08.2004	2897	
47289	कोर गगनदीप	श्री तारा सिंह तार	मार्केट - श्री जोगिन्दर सिंह, गॉल बीमा, तेह. मुलेकोटला, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	2003	पंजाब	डी० ए० ए० ए० ए०	16.08.2004	2747	
47290	कोर गगनदीप	श्री दरबारा सिंह	डी. 7, यू. डी. रोड, जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	पंजाब	31.12.1997	1765	
47291	कोर गुरजीत	श्री दलजीत सिंह	सो. नं० 285, फेज 1, एस.एस. नगर, मोहाली, जिला - रोहता (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	पंजाब	7.1.1998	1772	
47292	कोर गुपिन्दर	स्वर्गीय श्री गुरदर्शन सिंह	181, कनहा नेहरू कालोनी, मटिका (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	पंजाब	23.12.1997	1782	
47293	कोर गुपिन्दर	पुत्री श्री स्वर्णजीत सिंह	सो. नं० 83, आदर कालोनी, बरवाल रोड, बुधियाणा (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	पंजाब	24.9.1998	1982	

47294	कोर गुरवीर सिंह	पुत्री श्री हरजीत सिंह	आई ओड्डर्यू, रेलवे स्टेशन फामवाडा, जिला क.पूथला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	30/11/1988	1101	
47295	कोर गुरदास	पुत्री श्री गुरदास सिंह	न० न० 631-बी (एच.आई.जी.) केज X, मोहाली रोड, खरड, जिला - रोपड़	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	29/09/1994	1412	
47296	कोर गुरिन्दर	पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह	न० न० 610, आर माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	17/07/1995	1515	
47297	कोर गुरिन्दर	श्री कानेल सिंह	न० न० 953, बाबा भज्जा जैन कालीनी, मोती नगर, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	09.08.2001	2536	
47298	कोर गुरजित-दर	पुत्री श्री मेहल सिंह पत्नी श्री निर्मल सिंह	गांव एवं पोस्ट ऑफिस मनकपुर, रोह. राजपुरा, जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	26/12/1986	984	
47299	कोर गुरजीत	पुत्री श्री रणजीत सिंह	डी.पी.ओ. सहनेवाल, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	12.2.2001	2450	
47300	कोर गुरजान प्रीत	पत्नी राजप्रीत सिंह	न० न० 232/2, गार्ड न० 10, अयो. गनरियाला थियेटर, सिरसा रोड, सानिया, जिला - सिरसा	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2003	हरियाणा	6.12.2006	5775-ए	
47301	कोर गुरजीत	पुत्री श्री राम लाल	न० न० 572, केज-4, मोहाली, रोह. खरड, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	14/09/1988	1078	
47302	कोर गुरजीत	पुत्री श्री गजेंद्र सिंह	572-ए, रणजीत एवेन्यू, अमृतार (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	6/3/1995	1435	
47303	कोर गुरजीत	श्री कानेल सिंह	807, रानी जेल सिंह नगर, रोपड़	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	07.06.2006	3028	
47304	कोर गुरविन्दर	श्री सहबी सिंह	निबर मैन गेट डी.ए.डी. गलस एड.आर. रोड, स्कूल रोड, सौर, जिला - मुक्तसर	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	02.02.2006	2982	
47305	कोर गुरजीत	पुत्री श्री मोहिन्द सिंह	न० न० 3211, निबर सिविल लाइन्स हास्पिटल भठिवाडा, रोह. समराला, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	4/2/1993	1337	
47306	कोर गुरजीत	पत्नी कुररजीत सिंह	न० न० 230/बी./6, नया मोहल्ला, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	13/08/1996	1617	
47307	कोर गुरजीत	श्री गुप्रीत सिंह	बैरामपुर जमिंदारी, गांव अरमानपुर, रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	10.1.1997	1695	
47308	कोर गुरजीत	श्री रविन्द सिंह	बी-1/981/4, भन्ना स्ट्रीट, अयो. पुलिस लाईन्स, सिविल लाईन्स, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	26.8.1998	1922	
47309	कोर गुरजीत	पुत्री श्री अवतार सिंह	न० न० 173, केज 3-ए, मोहाली, रोह. खरड, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	22.6.1999	2046	
47310	कोर गुरजीत	पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह	बहावर इन्जि. वर्कस जोड़ी रोड, मोरवा, जिला - जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	4.2.2000	2208	
47311	कोर गुरजीत	पुत्री श्री धरम सिंह	न० न० 2326, कृष्ण नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	10.3.2000	2237	
47312	कोर गुरजीत	पुत्री श्री रघुबीर सिंह	55-ए, माडल हाउस, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	5.8.2000	2344	
47313	कोर गुरजीत	पुत्री श्री पालविन्द सिंह	क० न० 1, प्रग. सिमरन केन्द्र, कोटली जवाहरी, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	25.9.2000	2368	

47314	कोर गुरजीत	श्री अजीत सिंह	श्री पी.ओ. जहो मोहल्ला अरनाहाली, जिला - नवलपरासी (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	मई - जून 2003	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	03.03.2005	2832	
47315	कोर गुरजीत	श्री बलजिन्द सिंह	3081, सैक्टर - 71, एस.एस. मोहाली	श्री 0 एम0 एम0 एम0	नवम्बर - दिसम्बर 2003	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	12.04.2005	2881	
47316	कोर गुरजीत	श्री जीत सिंह	न0 न0 1805, स्ट. 4, गुरु नानक कालोनी, ब्लाक-ए, गिल कैनल, लुधियाना	श्री 0 एम0 एम0 एम0	2005	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	18.09.2006	3054	
47317	कोर गुरजीत	श्री हरपक सिंह	न0 न0 687-एक, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पंजिबेन्स कामलेस, सैक्टर-88, मोहाली (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	नवम्बर - दिसम्बर 2006	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	09.04.2008	3199	
47318	कोर गुरजीत	श्री दिनेश सिंह	न0 न0 19819, अजीत रोड, स्ट. न0 20, पटियाला (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	2008	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	20.05.2008	3231	
47319	कोर गुरजीत	श्री बलजीत सिंह थापर	न0 न0 1742, सैक्टर 32-ए, सी.एच.डी. रोड, लुधियाना (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	2008	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	30.05.2008	3236	
47320	कोर गुरजीत	श्री बाबू राम	न0 न0 280, कमला नेहरू नगर, पटियाला	श्री 0 एम0 एम0 एम0	2005	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	18.09.2006	3053	
47321	कोर गुरपणजीत	पुत्री श्री हरजिन्द सिंह	बी.पी.ओ. हर्ष बिन्ना (सहजपुर), सेह. अजनाला, जिला - अमृतसर (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1981	पंजाब	पंजाब	22/11/1993	1364	
47322	कोर गुरसिंहपाल	श्री सुधी माल सिंह	बी.पी.ओ. खम्बा राज पुस्तन, बाया मेहला चौक, अमृतसर (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1986	पंजाब	पंजाब	16.10.1996	1683	
47323	कोर गुरवीन	पुत्री श्री सुरजीत सिंह	न0 न0 292-सी, खान नगर, किरपुरी, जिला पटियाला (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1983	पंजाब	पंजाब	12/7/1995	1614	
47324	कोर गुरविन्दर	श्री सुरजीत सिंह	बी.पी.ओ. पंजाब, बाया अजनाला, सेह. गहराकर, जिला होशियारपुर (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1986	पंजाब	पंजाब	17.5.1988	1657	
47325	कोर गुरविन्दर	श्री सुधीर सिंह	न0 न0 181, राजा गार्डन, पी.ओ. बस्ती बाबा, जालंधर	श्री 0 एम0 एम0 एम0	2005	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	03.01.2007	3083	
47326	कोर गुरविन्दर	श्री बन्ना सिंह	87 / लुधियाना निगर पी.एस.ई.डी. कोहरा रोड, सहनवाल, जिला - लुधियाना, (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	नवम्बर - दिसम्बर 2003	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	07.07.2005	2880	
47327	कोर शहदिश	पुत्री श्री सुबला सिंह	न0 न0 80, सिन्धु कालोनी, जालंधर (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1992	पंजाब	पंजाब	2/5/1995	1480	
47328	कोर हरिन्दर	पुत्री श्री गुरबला सिंह	न0 न0 19, टाउन लुधियाना (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1983	पंजाब	पंजाब	11/5/1995	1474	
47329	कोर हरिन्दर	श्री दिव्यांग सिंह	2882, न0 12, बारी टाउन हाल अहमदाबाद (संगरूर) पंजाब	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1994	पंजाब	पंजाब	24.10.1996	1689	
47330	कोर हरिन्दर	श्री दर्शन सिंह	न0 न0 257 / 3, बस्ती रोड, जालंधर (पंजाब)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1996	पंजाब	पंजाब	27.1.1998	1782	
47331	कोर हरजीत	पुत्री श्री सगपूरा सिंह	मार्केट श्रीमति सतबत नेगी, आई/डी. थापर रोड हाउस, पटियाला (पी.बी.)	श्री 0 एम0 एम0 एम0	1989	बिहार मुनिवर्षिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	17.12.1998	2016	
47332	कोर हरजीत	श्री गुरदेव सिंह	एच.एन.ई.डी.-202/8, फागवाडा रोड, जालंधर	श्री 0 एम0 एम0 एम0	2002	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	02.02.2006	2889	
47333	कोर हरजिन्दर	श्री अजीत सिंह	गोब खडाला, पी.ओ. सारिका, सेह. बाबा बालक, जिला - अमृतसर	श्री 0 एम0 एम0 एम0	मई - जून 2005	श्री 0 एम0 गुरु एम0 एम0	पंजाब	01.09.2008	3267	

47334	कोर हरमणीत	श्री अजीत सिंह	सो नो 270-ए, शास्त्री नगर, माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	1992	पंजाब	24/02/1987	1891	
47335	कोर हरमीन सिंह	पुत्री सुरेन्द्रपाल सिंह	280, ई-आई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	1996	पंजाब	15.3.2000	2238	
47336	कोर हरपीत	श्री हरजीत सिंह	6820, काउन्ट रोड, मुस्तासर	1999	पंजाब	22.03.2001 15.05.2005	2489	ई० एच० एम० एच० (रेडिड डिग्री) 2003 ई० एच० एम० एच० एम०
47337	कोर हरपीन्दर सिंह	स्वर्गीय श्री अजीत सिंह	मौन सिंगवाल, पी.ओ. दिना नगर, तैह. एवं जिला गुरदासपुर (पंजाब)	1996	पंजाब	7.1.1998	1769	
47338	कोर हरपीन्दर	श्री अजीत सिंह	पंज पीर नगर, स्ट. नो 5, अरोहर, जिला - फिरोजपुर	नवम्बर - दिसम्बर 2003	ई० एच० यु० एच० एम०	18.05.2005	2871	
47339	कोर हरपीत	पुत्री श्री दुला सिंह	सो नो 144, फेज -2, मोहाली तैह. खरड, जिला - रोपड़ (पंजाब)	1998	पंजाब	12/12/1988	1179	
47340	कोर हरपीत	श्री गुरवचन सिंह	मारवाहा निवास, 108, साउथ माडल ग्राम, नियर माडल ग्राम, रेलवे स्टेशन, लुधियाना (पंजाब)	1996	पंजाब	24.2.1998	1798	
47341	कोर हरपीत	पुत्री डी सुरेन्द्र सिंह	353-डी, बी.आर.एस. नगर, लुधियाना (पंजाब)	1997	पंजाब	28.9.1998	1871	
47342	कोर हरपीत	पुत्री श्री निर्मल सिंह	प्रीत मयन, कोहास रोड, स्नेहवाल, जिला - लुधियाना (पंजाब)	1999	पंजाब	19.1.2000	2194	
47343	कोर हरपीत	पुत्री श्री नेह सिंह	पी.पी.ओ. सोहागा, तैह. मोहाली, जिला - रोपड़ (पंजाब)	2000	पंजाब	22.1.2001	2413	
47344	कोर हरपीत	पुत्री श्री दर्शन सिंह	पी.पी.ओ. धुलाल, तैह. सपरवा, जिला - लुधियाना (पंजाब)	1999	पंजाब	22.1.2001	2414	
47345	कोर हरपीत	पुत्री श्री रंजुबीर सिंह	31-बी, सरगाहा कालोनी, लुधियाना (पंजाब)	1999	पंजाब	24.1.2001	2434	
47346	कोर हरपीत	श्री कपनीर सिंह	ए-2432, मोह. नानकसर, तदन तारन	1999	पंजाब	26.07.2001	2630	
47347	कोर हरपीत	श्री नवदर सिंह	पी.पी.ओ. घखन तैह.- खरड, जिला - रोपड़	2004	ई० एच० यु० एच० एम०	24.03.2006	3000	
47348	कोर हरपीत	श्री दत्तजीत सिंह	ई-355, माई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	1998	पंजाब	27.7.1998	1905	
47349	कोर हरपीत	पुत्री श्री जसपाल सिंह	एच.आई.जी. 208, सैक्टर 71, मोहाली, तैह. खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	1999	पंजाब	22.8.2000	2928	
47350	कोर हरपीत	श्री रणधीर बडल	सी-34, 11342, पबित्र नगर, मोरी मार्केट, हरियाणा	2004	ई० एच० यु० एच० एम०	24.10.2005	2943	
47351	कोर हरपीत	पुत्री श्री हरवर्ण सिंह	सो नो 209, सैक्टर 16-ए, चंडीगढ़	1998	पंजाब	12/12/1989	1178	
47352	कोर हरपीत	श्री कुलदीप सिंह	स. नो एच०एम. 317, जवाहरपुर कालोनी, लुधियाना (पंजाब)	1994	पंजाब	27/11/1995	1658	
47353	कोर हरपीत	पुत्री श्री अजीत सिंह	1005/2, पंजाब माता नगर, पबोवाल रोड, लुधियाना (पंजाब)	1999	पंजाब	22.5.2000	2244	
47354	कोर हरपीत	श्री रमन सिंह	पी.पी.ओ. विकरी, तैह. दधुवा, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	2001	ई० एच० एम० एच० एम०	28.08.2008	3264	

47365	कोर इन्धनाल	स्वर्गीय श्री जयजीत सिंह	मो नं 80, जयजीत नगर, सुल्तानगिन्च, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	वेस्ट बंगाल कोसिल	पंजाब	24.03.2006	3014	
47366	कोर इन्धनाल	श्री बलदेव सिंह	6712, एम.एस. कालोनी, ओल्ड कैन्ट, पटियाला	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	09.04.2008	3201	
47367	कोर जगदीप	श्री मोहिन्द सिंह	मो नं 860-सी, अखन इस्टेट फेज-2, फाकल थान्डा, मटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	16.09/1998	1683	
47368	कोर जगदीप	पुत्री श्री करतार सिंह सुधी	37-रघुवीर नगर, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	27.05/1992	1290	
47369	कोर जगदीप	पुत्री श्री बलदेव सिंह	119/4-ए, पंजाब भाता नगर, बी.36, पंजाब रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	26.05/1995	1486	
47370	कोर जगदीप	पुत्री श्री गुरदेव सिंह	मो नं 123, बन्सु नं 7, राम गीवारी स्ट्रीट, मंसा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	4/2/1993	1334	
47381	कोर जगदीप	पुत्री श्री जगदीप सिंह	23-सी, गुरदेव नगर, विहाच बलार पैसा, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	18.3.1999	2115	
47382	कोर जगदीप	पुत्री श्री अमरिण सिंह	105-1 ब्लाक, गार्ड रणधीर नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	दिल्ली बोर्ड	पंजाब	6/12/1993	1370	
47383	कोर जगदीप	पुत्री श्री दरबार सिंह	405/6, ककरवाल रोड, कुतरी, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	7.7.1999	2064	
47384	कोर जस	पुत्री श्री हर बन्ध सिंह	गांव मोकरा पी.ओ. मोनियाला मंडी रोड एवं, जिला मटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	27.06/1986	907	
47385	कोर जसमीत	पुत्री श्री सुजीत सिंह	373, न्यू आजार नगर, सुल्तानगिन्च रोड, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	26.8.1999	2122	
47386	कोर जसमीत	श्री स्वरण सिंह	सी.पी.ओ. ठाकरवालटन, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	06.07.2001	2524	
47387	कोर जसमिन्दर	पुत्री श्री वर्मा सिंह	गांव मैना, पी.ओ. जगानी, रोड, राजपुरा, जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	13.10.1998	1977	
47388	कोर जसमीत	श्री जोग सिंह	गार्ड एवं पी.ओ. बिलवन कला, जिला फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	02.04.2008	3187	
47389	कोर जसमीत	श्री बलदेव सिंह	मो नं 129, अमन नगर, निधर बस स्टैंड, मर्लाट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	03.04.2008	3191	
47370	कोर जसमिन्दर	श्री स्त्रीन्द सिंह आनन्द	1) सी-228, द्वितीय तल, विवेक विहार दिल्ली - 110085 2) ए-42, हिलमिल कालोनी, दिल्ली - 110085	एच० सी० ई० एच०	1985	कोर्ट ऑफ एक्सायिजिज, बोम्बे	दोन्ने बोर्ड	7.4.86	13940	सी० सी० एच० -2810
47371	कोर जसमिन्दर	श्री सुखमिन्द सिंह	मो नं 115, सैक्टर - 71, मोहली	डी० एच० एच० एच०	2002	पंजाब	पंजाब	26.02.2004	2684	
47372	कोर जसवीर	पुत्री श्री बलकर सिंह	मैडल नगरक कालोनी, घुरी रोड, संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	6.11.2000	2379	
47373	कोर जसमिन्दर	पुत्री श्री इकबाल सिंह	मो नं 69-सी, जलम सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	25.04/1995	1457	
47374	कोर जसमिन्दर	श्री चरणजीत सिंह	असबल निगर स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, मो नं 4-4/108, संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	10.2.1998	1793	
47375	कोर जसमिन्दर	श्री राजेन्द्र सिंह	3780/2, जगजीत नगर, पाखो बाल रोड, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	23.05.2007	3104	

47376	कौर जतिन्दर	पुत्री श्री महन सेव 345, माडल टाउन, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	23/11/1987	1027
47377	कौर जतिन्दर	पत्नी श्री जगदीत सिंह बही म० नं० 132-बी, माडल टाउन-1, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1994	पंजाब	16/07/1996	1609
47378	कौर जतिन्दरपाल सिंह	पुत्री श्री प्रीतम सिंह म० नं० 3364, सेक्टर 71, मोहाली, तेह. खरक, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	7.2.2000	2213
47379	कौर जतिन्दर	श्री कुलवंत सिंह दरमेश कालोनी, सिनेमा रोड, पी.ओ. सुनाम, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	3.2.1998	1785
47380	कौर जतिन्दरजीत	श्री ज्ञान सिंह म० नं० 181, झानी जेल सिंह नगर, रोपड़	डी० एच० एम० एम०	2004	डी० एच० यु० एच० एम०	22.09.2005	2811
47381	कौर जतिन्दर	पुत्री श्री हरमजन सिंह क० नं० 790, फेज 3 बी-1, मोहाली, तेह. खरक, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	5.7.1999	2060
47382	कौर कनकप्रतीत	पुत्री श्री कृपा सिंह 37/10, बैंक साइड गेट वार्ड 1, खन्ना, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1989	पंजाब	4/11/1992	1328
47383	कौर कनकजीत	श्री अनोल सिंह हरीज अम सिंह नगर, क० नं० 80, गली नं० 3, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	19.2.1998	1794
47384	कौर कनकजीत	पुत्री श्री मुलजार सिंह डी.पी.ओ. कटानी कला, तेह. खरक, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	6.1.2000	2183
47385	कौर कनकजीत	श्री स्वरण सिंह चम बिबर, शिवा मोहला, कुलानपुर, लोधी, जिला - कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1994	पंजाब	13/03/1996	1583
47386	कौर कनकप्रतीत	श्री स्वरण सिंह क० नं० 180, डी-ब्लॉक, एगजीट एवेन्यू, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	2003	डी० एच० यु० एच० एम०	05.04.2005	2859
47387	कौर कनकजीत	पुत्री श्री हरमिन्द सिंह 181, ए-शाली नगर, पी.ओ. माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	21.10.1999	2158
47388	कौर कनकदीप	श्री गुरबक्का सिंह जे-583/04, वार्ड रणवीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	दिसम्बर - 1982	पंजाब	28.06.2007	3132
47389	कौर कनकप्रतीत	पुत्री श्री महकेश सिंह श्री दशुब्बा सिंह वाला, पी.ओ. मान्की तेह. मलेरकोटला, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	15.9.1998	1959
47390	कौर कनकजीत	श्री विक्रम सिंह डी.पी.ओ. दस्कर तेह. जिला - मोगा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1993	पंजाब	16/07/1996	1810
47391	कौर कनकप्रतीत	पुत्री श्री मोहिन्द सिंह डी.पी.ओ. खोगवान, तेह. अजनाला, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	1.2.1999	2015
47392	कौर कनकप्रतीत	श्री अमरीत सिंह शिमल कालोनी, म० नं० 538/13, गली नं० 2, फटी, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	7.1.1998	1770
47393	कौर किरणदीप	पुत्री श्री तेज सिंह स्ट्रीट नं० 11, पावर हाउस रोड, मटिन्का (पंजाब) 161001	डी० एच० एम० एम०	1992	पंजाब	11/01/1995	1532
47394	कौर किरणदीप	पुत्री श्री तेज सिंह पावर हाउस रोड, स्ट. नं० 11, मटिन्का (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1992	पंजाब	18.5.2000	2287
47395	कौर किरणप्रतीत	श्री हरदेव सिंह म० नं० 147, फेज - 8, मोहाली	डी० एच० एम० एम०	2001	पंजाब	27.03.2003	2816
47396	कौर किरणप्रतीत	श्री सुखदेव सिंह नूरी बाजार, तल तापन	डी० एच० एम० एम०	2005	डी० एच० यु० एच० एम०	23.04.2007	3092
47397	कौर कुलदीप	पुत्री श्री अनेख सिंह गुरु तेग बहादुर नगर, गली नं० 4, मटिन्का (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1994	पंजाब	21/06/1995	1498

47398	कोर कुलदीप	श्री गुरुजत सिंह	मार्गद - श्री मलकीत सिंह, गीत कबुल साह खुरान, पी.ओ. कुसाई खेडा, रोह. फाथिल्ला, जिला - फिरोजपुर	श्री एम एम एम	2004	श्री एम यु एम एम	पंजाब	18.09.2006	3047	
47399	कोर कुलजीत	पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह	कजीत रोड, स्ट. नं 11, मटिन्डा (पंजाब)	श्री एम एम एम	1997	पंजाब	पंजाब	30.3.1999	2025	
47400	कोर लखविन्दर	श्री वर्दान सिंह	1834, फेज-5, मोहाली	श्री एम एम एम	2002	पंजाब	पंजाब	19.11.2003	2650	
47401	कोर मानवीर	पुत्री श्री गुरबत्ता सिंह	मो नं 12/524, संधु निवास, जंढियाला रोड अमृतसर (पंजाब)	श्री एम एम एम	1998	पंजाब	पंजाब	8.12.2000	2401	
47402	कोर मनदीप	पुत्री श्री देव सिंह	गुरु काशी नगर, तालवाडी बाग, जिला - मटिन्डा (पंजाब)	श्री एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	29.8.2000	2338	
47403	कोर मनदीप	पुत्री श्री उषाम सिंह	गोंव वालीपुर कला, पी.ओ. भाठा बुवा, तेह. जगदाय, जिला लुधियाना (पंजाब)	श्री एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	9.2.2001	2449	
47404	कोर मनदीप	पुत्री गुरचरण सिंह बेदी	पी.पी.ओ. जीर जिला नवन शहर (पंजाब)	श्री एम एम एम	1998	पंजाब	पंजाब	08.10.2001	2656	
47405	कोर मनदीप	श्री राजेन्द्र सिंह	म. नं. 2844, फेज - 2, चकन इस्टेट, मटिन्डा	श्री एम एम एम	2002	श्री एम एम एम , पंजाब	पंजाब	30.04.2004	2699	
47406	कोर मनदीप	श्री बलदेव सिंह टिन्द	न्यू शान नगर, पी.ओ. माई रणधीर सिंह नगर जे. ब्याक, लुधियाना (पंजाब)	श्री एम एम एम	2003	श्री एम यु एम एम	पंजाब	03.01.2005	2815	
47407	कोर मनदीप	श्री गुरदेव सिंह	नियर एका दरवाजा साहेवाल, जिला - लुधियाना	श्री एम एम एम	2002	श्री एम यु एम एम	पंजाब	07.07.2005	2882	
47408	कोर मनदीप	श्री गुरदेव सिंह	गोंव भस्ताब, पी.ओ. मुस्तापुर, तेह. खाबा, जिला - मोहाली	श्री एम एम एम	2005	श्री एम यु एम एम	पंजाब	04.01.2007	3076	
47409	कोर मनदीप	श्री कुलविन्द सिंह	पी.पी.ओ. बेलक गुजरन, तेह. जिला, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	श्री एम एम एम	नवम्बर - दिसम्बर 2006	श्री एम यु एम एम	पंजाब	28.03.2008	3173	
47410	कोर मनदीप	श्री कबुल सिंह	मो नं 15/5/85, प्रीत कालोनी, तरन टारन	श्री एम एम एम	नवम्बर - दिसम्बर 2006	श्री एम यु एम एम	पंजाब	28.03.2008	3176	
47411	कोर मनदीप	पुत्री श्री सुरार्न सिंह	इ. एम. 190, सिविल लाइन्स, जालंधर सिटी (पंजाब)	श्री एम एम एम	1993	पंजाब	पंजाब	8/5/1993	1470	
47412	कोर मनदीप	श्री लखमेल सिंह	181/2, जी-आरम नगर, लुधियाना	श्री एम एम एम	2003	श्री एम यु एम एम	पंजाब	20.11.2004	2803	
47413	कोर मनदीप	पुत्री श्री इशबाल सिंह पत्नी श्री चरण जीत सिंह कातरा	3-सी. सादल टाउन, मटिन्डा (पंजाब)	श्री एम एम एम	1998	पंजाब	पंजाब	26/01/1991	1234	
47414	कोर मनदीप	श्री गणजीत सिंह अहलुवालिया	एच-180, रोड एम्बे, कपूरवा (पंजाब)	श्री एम एम एम	1996	पंजाब	पंजाब	20.7.1998	1682	
47415	कोर मनदीप	पुत्री श्री हरबत्त सिंह	पी.पी.ओ. मुतेरहरी, तेह. एवं जिला मटिन्डा (पंजाब)	श्री एम एम एम	1997	पंजाब	पंजाब	30.7.1999	2096	
47416	कोर मनदीप	श्री गुरदेव सिंह	वार्ड नं 4, एटटी, जिला - अमृतसर	श्री एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	15.03.2004	2474	
47417	कोर मनदीप	श्री जगमेल सिंह	क.नं. 594, फेज-1, एस.ए.ए. नगर, मोहाली	श्री एम एम एम	नवम्बर - दिसम्बर 2003	श्री एम यु एम एम	पंजाब	18.05.2005	2870	
47418	कोर मनदीप	पुत्री श्री गण सिंह संधु	मो नं 4321-ए, गली नं 3, एणजीत पुरा, प्रतापनगर, अमृतसर (पंजाब)	श्री एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	6.3.2000	2233	

47419	कौर मजिदरापाल	श्री परमजीत सिंह	वी.पी.ओ. राहो मोहल्ला वेल्लन दी महली, नियर गुरुद्वारा सिंह शाही तेह. एवं जिला - नवलखहर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	मई - जून 2003	डी० एच० गुरु एच० एम० एम०	पंजाब	03.03.2005	2831	
47420	कौर मंजीत	स्वर्णध श्री हरमजन सिंह	043, ओल्ड जवाहर नगर, लडोताली रोड, जालंधार (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	31.12.1997	1766	
47421	कौर मजीत	पुत्री श्री हरमजन सिंह	स्ट्रीट ओल्ड पोस्ट अफिस, नियर निर्मल सिंह, सुजानपुर, तेह. पठाकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	12.9.2000	2357	
47422	कौर मनजीत	पुत्री श्री अमरजीत सिंह बग्गा	एच.एम. 561, फेज 7, मोहली, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	1.2.2001	2440	
47423	कौर मनजीत	श्री निर्मल सिंह भांवा	पट्टी अस्पृश, गड नं० 425, मोगा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	28.8.1998	1924	
47424	कौर मनजीत	पुत्री श्री पियरा सिंह	गौत लाल कला, पी.ओ. कुब्जा, तेह. समराला, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	11.9.1998	1951	
47425	कौर मनजीत	श्री प्रियपाल सिंह	गड नं० 84, किचलु नगर, लुधियाना	डी० एच० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	05.03.2001	2458	
47426	कौर मनजीत	श्री गुरदेव सिंह	स्ट्रीट नं० अबोहर, जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	22.03.2001 02.12.2008	2487	डी० एच० एम० एम० (पेंडिड डिप्टी) मई - जून 2003 डी० एच० गुरु एच० एम० एम०
47427	कौर मनजीत	श्री अमरजीत सिंह	पुझर नगर नियर ग्रेवाल चौक मल्लिकोटला, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	01.01.2003 02.02.2006	2573	डी० एच० एम० एम० (पेंडिड डिप्टी) 2004 डी० एच० गुरु एच० एम० एम०
47428	कौर मनजीत	श्री सुखदेव सिंह	गांव मुलियानवाल पी.ओ. बटाला, जिला - गुरदासपुर	डी० एच० एम० एम० एम०	नवंबर - दिसंबर 2003	पंजाब	पंजाब	07.07.2005	2888	
47429	कौर मनजीत	श्री सुखजीत सिंह	रामदेवली होमियोपैथी ओ. / एस. बस स्टैंड बटाला, जिला - गुरदासपुर	डी० एच० एम० एम०	मई - जून 2004	पंजाब	पंजाब	09.11.2005	2984	
47430	कौर मनजीत	पुत्री श्री मनोमन्दीत सिंह पुत्री श्री मुनिंद सिंह	महर्षि - हरमजन सिंह गंगोतर रोरी दरबार साहिब, सेरी अमृतसर साहिब (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	नवंबर - दिसंबर 2005	पंजाब	पंजाब	30.05.2007	3130	
47431	कौर मनजिन्दर	पुत्री श्री शीन्गारा सिंह	वी.पी.ओ. छपर, तेह. एवं जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	28.9.1998	1988	
47432	कौर मुखसिंह	श्री प्रकाश सिंह	गांव शेखपुरा, पी.ओ. बेला, तेह. चमकौर साहिब, जिला रोपड़	डी० एच० एम० एम०	2004	पंजाब	पंजाब	04.01.2007	3073	
47433	कौर नरेंद्र	पुत्री श्री दलवीर सिंह	वी.पी.ओ. ठोठिया, तेह. बहा बकाला, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	3.5.2000	2257	
47434	कौर नरिन्द	श्री अपर सिंह	गड नं० 18/88, तिल रोड, मोगा	डी० एच० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	25.08.2003	2844	
47435	कौर नवदीप	पुत्री श्री श्याम शे सिंह	गड नं० 8923, पंजाब गंगा नगर, एल्लोवाल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1993	पंजाब	पंजाब	8/8/1995	1492	

47436	कोर नवदीप	श्री विहार सिंह	मो नं 3662, सैक्टर-60, एम.एस. नगर, मोहाली	श्री एस. एस. एस.	2003	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	18.05.2005	2075	
47437	कोर नवदीप	श्री लाम सिंह	मो नं 14796, स्ट. नं 7/4, आदर्श नगर, भाटिन्डा (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	2006	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	20.05.2008	3222	
47438	कोर नवदीप	पुत्री श्री जगदीश सिंह	मार्केट - श्री अवतार सिंह, कं. नं. 822, फेज -3, बी-1, मोहाली (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1996	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	28.10.1998	1988	
47439	कोर नवदीप	पुत्री श्री सरजीत सिंह	बी.पी.ओ. सुलत, तह. समरला, जिला लुधियाना (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1996	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	26.9.1999	2132	
47440	कोर नवजीत	श्री सजजीत सिंह	दुख निवारण होमियो, क्लिनिक, प्रीत सिहार चौक सीरान कोर्ट खरौदा रोड, अमृतसर	श्री एस. एस. एस.	2005	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	04.01.2007	3072	
47441	कोर नवजीत	श्री सुखदेव सिंह	31, इन्दिया कालोनी, अपो. मिनी सेक्टर-10 होमियोपथ, नरवर - दिसंबर 2003	श्री एस. एस. एस.	नरवर - दिसंबर 2003	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	24.10.2005	2946	
47442	कोर नवकिरण	श्री निरंजन सिंह	मो नं 1605, स्ट. नं 1, आदर्श नगर, काउन्ट रोड, बरनाल (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	मई - जून 2006	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	12.09.2007	3151	
47443	कोर नवनीत	पुत्री श्री निर्मलक सिंह	मॉड ग्रैवाल, तह. एवं. जिला रोड (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1998	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	4.7.2000	2284	
47444	कोर नवनीत	पुत्री श्री बलदेव सिंह	मो नं बी-XX 3293, गुरदेव नगर, लुधियाना (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1999	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	22.1.2001	2419	
47445	कोर नवनीत	श्री नरेश सिंह	मो नं 2728/ए, गली नगर बंगा, जिला - नवमहल (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	2006	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	30.05.2008	3240	
47446	कोर नीरू प्रीत	श्री स्वीन सिंह	रवाट, नं 3 बी, अपो. एस.डी.एम. कोर्ट, गुरदासपुर (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1996	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	4.6.1998	1650	
47447	कोर निमरदीप	श्री कुलदीप सिंह	मोह. दिनोच एवेन्स, मलिका रोड, बी.ओ. खाना नगर, अमृतसर (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	2000	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	19.10.2001	2580	
47448	कोर मुनिन्दर	श्री हेम राज सिंह	म. नं. 321, गुरु तेग बहादुर सैक्टर 70, मोहाली (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1996	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	20.7.1998	1908	
47449	कोर परमदीप	श्री जसवंत सिंह	2369, फेज - 10, मोहाली	श्री एस. एस. एस.	1999	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	03.07.2007	2457	
47450	कोर परमदीप	श्री प्रीतपाल सिंह	मो नं 493, बी-XIX, पाल विहाल राज गुरु हट्टी सिविल लाइन्स, लुधियाना (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	मई - जून 2005	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	19.06.2007	3122	
47451	कोर परमजीत	श्री हरवंत सिंह	मो नं 6076, स्ट. नं. 2, आरा रोड, शिमला पुरी, लुधियाना (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1998	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	20.7.1998	1891	
47452	कोर परमजीत	प्रीत सिंह	मो नं 8392, हट्टी नं 6, हरगोविन्द नगर, लुधियाना	श्री एस. एस. एस.	2004	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	05.11.2005	2850	
47453	कोर परमजीत	श्री बलवंत सिंह	बी.पी.ओ. नवविद्याल नाकोदर, जिला - जालंधर	श्री एस. एस. एस.	जून - 1990	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	24.01.2001	2480	
47454	कोर प्रदीप	पुत्री श्री दर्रा सिंह	पट्टी आडु की, बी.पी.ओ. रवा. तह. एवं जिला - लुधियाना (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1997	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	23.9.1999	2139	
47455	कोर प्रदीप	पुत्री श्री नवल सिंह	गांव नवल खुर, बी.ओ. मेकल कला, तह. बरनाला, जिला संगरूर (पंजाब)	श्री एस. एस. एस.	1999	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	17.10.2000	2372	
47456	कोर प्रमिन्दर	श्री प्रिलोक सिंह	14-संतगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना	श्री एस. एस. एस.	1996	श्री एस. एस. एस.	पंजाब	20.7.1998	1913	

47457	कौर परमिन्दर	पुत्री श्री रतन सिंह	18, भवानी नगर, गली मुल्हारा मजीला रोड, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	20.7.1999	2073	
47458	कौर परमिन्दर	पुत्री श्री अमरजीत सिंह	डी०पी०ओ. फतेहगढ़ कोरेलांग, रोड एव जिला - मोगा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	2001	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2418	
47459	कौर परमिन्दर	श्री तारु सिंह	डी०पी०ओ. शेएपुर रोना, रोड, सुल्तानपुर लोभी, जिला कपूरथला	डी० एच० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	09.05.2001	2503	
47460	कौर परमिन्दर	श्री सुरेन्द्र सिंह	51-आर, गीपाल नगर, गुरुकुल रोड, मटिन्डा	डी० एच० एम० एम० एम०	2004	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	31.01.2006	2980	
47461	कौर परमिन्दर	श्री शरणजीत सिंह	म० नं० 2040/1, सेक्टर - 47-बी, बडीगढ़	डी० एच० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2004	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	17.04.2006	3017	
47462	कौर परमजीत	श्री मुरा सिंह	डी०पी०ओ. रोड, सुल्तानपुर लोभी, जिला कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	07.02.2002	2585	
47463	कौर प्रीति	श्री प्रदीप सिंह	गांधी नगर, विरोजपुर सिटी (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	3.9.1998	1941	
47464	कौर प्रमल	पुत्री श्री हनुजीत सिंह	बी-38, म० नं० 407, सुनेत रोड, पंजाब माता नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	30.9.1999	2141	
47465	कौर प्रविन्दर	श्री अमरित पाल सिंह	जी-91, ग्रीन पार्क कालोनी, सिरहिन्द रोड, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	30/01/1996	1577	
47466	कौर प्रविन्दर	श्री गजिन्द्र सिंह	म० नं० 572-ए, रंजीत एक्स्प्रेस, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1993	पंजाब	पंजाब	26/06/1996	1600	
47467	कौर प्रविन्दर	श्री कृपाल सिंह	म० नं० 870, स्ट. नं० चौक 8वा, अकोहर	डी० एच० एम० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	07.12.2005	2872	
47468	कौर प्रविन्दर	श्री प्रियपाल सिंह	म० नं० 539/138, गली नं० 7, मोहिन्द नगर, बस्ती जाधवाल, लुधियाना	डी० एच० एम० एम० एम०	2005	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	13.10.2006	3088	
47469	कौर प्रविन्दर	श्री गुणेंद्र सिंह	नं० 34-बी, सरपंचा, कालोनी निवार पक्कावाल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	2006	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	15.05.2008	3220	
47470	कौर प्रविन्दर पाल	श्री मनमोहन सिंह	मोह. बेहालेव वाला, सिरहिन्द, जिला पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	31/06/1990	1206	
47471	कौर पतनीत	श्री सतत सिंह	म० नं० 290, फेज - II, एस.ए.एल. नगर, मोहाली, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	2.12.1997	1747	
47472	कौर पूरम प्रीत	पुत्री श्री दलजीत सिंह	कोठी नं० 1, डायमन्ड आईर मजिडा रोड बाई पास, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	13.9.1999	2131	
47473	कौर प्रमजोत	पुत्री श्री अमरजीत सिंह	म० नं० 298, सेक्टर 15-ए, बडीगढ़ (पु. टी.)	डी० एच० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	5/4/1988	1058	
47474	कौर प्रीजोत	पुत्री श्री सख्जोत सिंह	ई.एस. 130, मखलूम पुरा, जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	17/07/1995	1516	
47475	कौर प्रमजोत	श्री बलवीर सिंह	96, हरन बाग, पटियाला	डी० एच० एम० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	11.05.2001	2506	
47476	कौर प्रमजोत	श्री हरजिन्द सिंह	स्ट. नं० 4, ओशो आशित्वाद ग्रीन एक्स्प्रेस, कृष्णा फार्मस, फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	मई - जून 2006	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	30.08.2007	3145	
47477	कौर प्रीतिन्दर	पुत्री श्री वरयाल सिंह	म० नं० 239, स्ट्रीट नं० 5, निर्मल नगर, दुर्गरी, पी.ओ. माबल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	27.4.1999	2029	
47478	कौर प्रविन्दजीत	श्री हनुजीत सिंह	19-बी, मोहिन्द कालोनी, राजपुरा टाउन, जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	27.5.1998	1849	

47479	कोर राजदीप	पुत्री श्री अक्तार सिंह	नं० 1/1229, स्ट्रीट नं० 4, कर्पूर नगर, गिहर बी.ए.बी. कॉलेज, जालंधर	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	20.10.2000	2377		
47480	कोर राजदीप	पुत्री श्री अजमेर सिंह	डी.पी.ओ. नंदी, तह. बरनाला, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	31.1.2001	2442		
47481	कोर राजिन्दर	पुत्री श्री हरदेव सिंह	गौव पुरा, पी.ओ. बगली कला, तह. समराला, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	14/3/1995	1444		
47482	कोर राजिन्दर	श्री जगिन्दर सिंह	डी.पी.ओ. राहोन, पी.ओ. छाटी रोडलान, तह. एवं जिला नवनगर	डी० एच० एच० एच०	2003	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	08.11.2005	2981		
47483	कोर राजिन्दर	श्री हरदेव सिंह	गांव कर्मली पी.ओ. राजपुर जिला - पटियाला	डी० एच० एच० एच०	2002	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	02.02.2006	2990		
47484	कोर राजिन्दर	श्री दर्शन सिंह	रंगल होमियो. फार्मसी, गिल रोड, दरमेश नगर, गिहर स्कुटर मार्केट, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	27.11.2008	3286		
47485	कोर राजिन्दर	पुत्री श्री कर्मीर सिंह	मार्केट - सतीस एच० इरा (पी) एल.टी. डी., सचना, पी.ओ. मलिकपुर, तह. पलानकोट, जिला गुरदासपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	25/10/1994	1414		
47486	कोर राजनीश	श्री शम्भार सिंह	2/52, अयो. पी.एस.डी. कैलपुर रोड, मुलानपुर, जिला - लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2003	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	08.09.2005	2908		
47487	कोर राजनीश	श्री सुरिन्द सिंह	नं० 14604, मगवान नगर मार्केट, मलानज, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2005	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	03.01.2007	3081		
47488	कोर राजिन्दर	श्री गुरदीप सिंह	डी.पी.ओ. चोखिया कला, तह. बाबा गुप्ता, जिला - मोहा	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	05.11.2005	2959		
47489	कोर राजिन्दर	श्री बलविन्द सिंह	गिहर डेरा बगरला, टाया जिला बरनाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	26.08.2008	3259		
47490	कोर राजिन्दर	पुत्री श्री कावलजीत सिंह	नं० 741, फेज - 4, मोहाली, तह. खरड, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	22.11.2000	2397		
47491	कोर रमनदीप	श्री हरपाल सिंह	एच. जे. 717, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बी.आर.एस. नगर, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	24.03.2006	3007		
47492	कोर रमनदीप	श्री जसदेव सिंह	नं० 92, न्यू राज गुरु नगर पी.ओ. टिकी, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2005	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	26.09.2006	3064		
47493	कोर रमनदीप	पुत्री श्री रतन सिंह	डी.पी.ओ. छपर, तह. दरुआ, जिला हरियाणपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	4.12.1998	1997		
47494	कोर रजनीत	पुत्री श्री जगिन्द सिंह	नं० 1891/3, हाउस रेड, फेज X, एस.एस. नगर, मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	4/7/1995	1506		
47495	कोर रतनदीप	श्री हरनदीप सिंह	नं० 181-ए, शास्त्री नगर, माबल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2006	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	30.05.2008	3237		
47496	कोर रविन्दर	पुत्री श्री गुरवरण सिंह	जनरल ड्रग हाउस, सिनमा रोड, सन्ना जिला मटिया (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	23/11/1997	1026		
47497	कोर रविन्दर	श्री जगिन्द सिंह	एच.एस. 321, जमालपुर कालोनी, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	27.7.1998	1904		
47498	कोर रविन्दपाल	श्री सुख सिंह	नं० 186, एच.सी. रोड, बटुर, जिला पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2006	पंजाब	डी० एच० यु० एच० एच०	18.08.2008	3249		

क्र.सं.	कॉर	रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	हिरा महल कालोनी, निगर कास्ट हलस नामा, जिला - पटियाला	डी० एच० एम० एम०	2001	पंजाब	पंजाब	04.34.2003	2621
47500	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	म० न० 971, फेज - XI, मोहाली	डी० एच० एम० एम०	2001	पंजाब	पंजाब	11.07.2003	2642
47501	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	सुखार, पी.ओ. से.पी., सुखार, रोह राज्यकोट, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	25.7.1998	1929
47502	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	46, श्री निवास कालोनी, फेसी रोड, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	4.5.2000	2255
47503	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	म० न० 1749/18, शक्ती नगर, गली न० 4, कया मलिक रोड जगदा, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	8/1/1996	1870
47504	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	22.8.1999	2049
47505	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	म० न० 58, स्ट्रीट न० 1ए/3, गुरु नानक नगर, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	27.7.1999	2090
47506	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	कोहली न० 441, फेज 1, मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2422
47507	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	गॉव फलीन्द कला, पी.ओ. श्रीगवाल, रोह, मल्लोकोटला, जिला समर्थ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	28.8.1998	1934
47508	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	पी.पी.ओ. बगमनीवाला, रोह, पट्टी, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	20.5.1999	2030
47509	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	म० न० 640, स्ट. न० 7, सुन्दर नगरी, अमृतसर, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1997	पंजाब	पंजाब	21.10.1999	2165
47510	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	म० न० 1489, हौवाल कला, राजिन्दा स्ट्रीट, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	1.10.1996	1866
47511	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	म० न० 1347-जी, गुरु तेग बहादुर कामपलेख, सेक्टर 70, मोहाली, रोह (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	17.2.2000	2223
47512	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	ई. 108, रज्जित एवेन्यू, सिविल लाइन्स, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	29.8.2000	2337
47513	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	शिल्प होस्टल, मोगा मार्ग, शाहकोट, जिला जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	8.12.2000	2398
47514	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	म० न० 1788, फेज - 7, मोहाली, रोह, जिला - रोह (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2424
47515	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	44, प्रोफेसर कालोनी अवर नगर-1, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1983	पंजाब	पंजाब	16/03/1995	1449
47516	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	सर्जित एवेन्यू सेंटर एवम् होमियोपैथिक सेंटर एवम् 135, फेज 7, मोहाली, रोह, जिला रोह (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	22/11/1995	1554
47517	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	353 आर, माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	21.10.1999	2164
47518	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	बी-213, माडल टाउन एवम् लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	5/4/1989	1160
47519	कॉर रजिस्ट्रार	श्री सुखल सिंह	श्री सुखल सिंह	गॉव निगमपुर, पी.ओ. निगमपुर, जिला रोह (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	28/02/1995	1433

47520	कोर सपरजीत	पुत्री श्री रोहू सिंह	74-नरीतम नगर, खन्ना जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	14/03/1995	1446	
47521	कोर सपरजीत	श्री बलजीत सिंह	मार्फत - स्कुडियो मुनी मलय, रेलवे रोड दोहाडा रोड पावल, जिला लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	28.08.2008	3283	
47522	कोर सपरजीत	पुत्री श्री शारंग सिंह	गोबि माधु, रोड, बिना, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	24.8.1999	2120	
47523	कोर सपरजीत	पुत्री श्री अमर सिंह	मो नो 2835, फेज -7, एसएचएस नगर, मोहाली, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	26/2/1993	1346	
47524	कोर सपरजीत	पुत्री श्री सुखदेव सिंह	मार्फत - टी.एस. कुलर (सी.सी.एस.) एस. डी.एम. मटिन्का (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	8.5/1995	1487	
47525	कोर सपरजीत	पुत्री श्री धर्मान सिंह	गोबि मुरो पोस्टेज चलीम टवरी-34, रोड, एवं जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	2/2/1993	1333	
47526	कोर सपरजीत	पुत्री श्री गुरबदन सिंह	मानकसर मली, मेजर सिंह लो के वाली, सत्य तारन, जिला अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	21.7.1999	2083	
47527	कोर सपरजीत	पुत्री श्री अमरजीत सिंह	मार्फत - हरजीत 308 डिग्री, मीन रोड, इगा, जिला नवलखड़ा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	11.4.2000	2245	
47528	कोर सपरजीत	श्री हरबस सिंह	सी.पी.ओ. कैरोन, पटटी, जिला अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	13.03.2001 14.09.2005	2469	डी० एच० एच० एच० (पंडित डिग्री) मई - जून 2004 डी० एच० 30 एच० एच०
47529	कोर सपरजीत	पुत्री श्री एम० एम० पानू	मो नो 1048, फेज 3बी. 11, एसएचएस नगर, मोहाली, रोड खरब, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	8/1/1996	1569	
47530	कोर सपरजीत	श्री कस्तूर सिंह	मुलत पुर मन्दी सत्य नरिग हॉम पी.ओ. लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2005	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	23.05.2007	3106	
47531	कोर सपरजीत	श्री बलजीत सिंह	सी.पी.ओ. जाफरवाल, जिला - गुरदासपुर	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	24.03.2006	3001	
47532	कोर सपरजीत	श्री गुरबेज सिंह	मो नो 188, हिरा सिंह नगर, कोटकपुरा, जिला फरीदकोट	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	17.04.2006	3022	
47533	कोर सपरजीत	श्री हरजिन्द सिंह	आदर नगर, स्ट. 7, गोमियाला रोड, मटिन्का	डी० एच० एच० एच०	2005	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	30.05.2007	3101	
47534	कोर सपरजीत	पुत्री श्री हरमन सिंह	गुर मेहर पोस्टरी कार्म सेलर, मटिन्का (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	25.7.2000	2311	
47535	कोर सपरजीत	श्री हर बन्ध सिंह	गोबि मोहर पी.ओ. गोमियाला मन्दी रोड, एवं जिला मटिन्का (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	27/1/1996	908	
47536	कोर सपरजीत	श्री सतनख सिंह	सी.पी.ओ. फतेहगढ़ खडेर साहिब जिला अमृतसर	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	30.05.2001	2812	
47537	कोर सपरजीत	श्री कुलवीर सिंह	मो नो 1914-ए/18, गोपाल नगर, गली नो 1, मजीला रोड, अमृतसर	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	22.03.2001	2486	

[illegible]

47574	कौशल राजेश	श्री रघु नन्द राय	क्यू. नं. 40, गेट नं. 3, पी.एच.पी. लाईन्स, जालकन कैन्ट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	2.2.2000	2201	
47575	कौशल रोहिणी	श्री सुभाष शर्मा	म० नं० 4349, बी-1, शाम नगर, राजपुरा, जिला पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	2006	पंजाब	पंजाब	20.05.2008	3244	
47576	कौशल विकास	श्री विजय कौशल	मार्फत नेरवा पुरा मोहल्ला, बरसी पठान, जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	13.1.2000	2189	
47577	कौशिक महेश चन्द	निताएण चन्द कौशिक	2217/14, जवाहर कालोनी रैयर फोर्स रोड एन.आई.टी., फरीदकोट	डी० एच० एम० एम० एम०	अगस्त - 1982	हरियाणा	हरियाणा	14.11.94	5607-ए	
47578	कौशिक संजय कुमार	कृष्ण चन्द शर्मा	मार्फत हाथिलल छकलाना मन्डी हिसार	डी० एच० एम० एम० एम०	अगस्त - 1987	हरियाणा	हरियाणा	25.06.90	5535-ए	
47579	कौशिक सत्येन्द्र	श्री डी० पी० शर्मा	425-कटेवा नगर, न्यू संगत रोड, खिला - जयपुर, जिला - जयपुर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एम० एम०	मई - 2007	राजस्थान	राजस्थान	10.10.2008	5117	
47580	कविता	श्री वेद प्रकाश दुदेजा	म० नं० 1312, सेक्टर 70, मोहाली	डी० एच० एम० एम० एम०	2002	पंजाब	पंजाब	02.06.2004	2899	
47581	कविता	श्री सोहन लाल जुनेजा	659, विनोबा बस्ती, सिटी - श्री गंगानगर, जिला - श्री गंगानगर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एम० एम०	1993	राजस्थान	राजस्थान	9.03.2012	5200	
47582	कावत्रा हरिषा	श्री प्रियम लाल कपारठा	म० नं० 2052, अम्बेडकर नगर, शारदा रोड, लुधियाना	डी० एच० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	22.05.2001	2510	
47583	के०विल प्रोकरण		रोचिया बैल्य क्लिनिक मेका तिनली, पी.ओ. जेरहट 765005, जिला - जेरहट, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	मार्च - 1988	असम	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	23.03.98	328	
47584	खाकसारी देवा नारायण		गोबि दुपानी गौव पी.ओ. निवाई पुडुरी, जिला शिवनगर, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	अक्टूबर - 1989	असम	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.08.98	407	
47585	खमरुई निखिल	श्री निमई चौधरी खमरुई	गौव एवं पी.ओ. मनसुका, जिला मिदनापुर (बङ्गाल)	डी० एच० एम० एम० एम०	2006	बेङ्गल कलकत्ता	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	9.3.07	28578	सी० सी० एच० -28580
47586	खान अबुल अल		मार्फत - अब्दुल कुदुस कथा, गाव नागापारा पी.ओ. फकीरगंज 783330, जिला - धुबरी, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	अप्रैल - 2000	असम	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	09.08.2001	810	
47587	खान आसमा	श्री शबीर अली खान	मार्फत सईब रागीसु अहमद हाउस नं० 64, मोहल्ला चरियन सिटी - उदयपुर, जिला - उदयपुर	डी० एच० एम० एम० एम०	मई - 2008	राजस्थान	राजस्थान	27.05.2008	5022	
47588	खान फारमन अली		गौव पुकपुर पी.ओ. पुकपुर 781137, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	अगस्त - 2001	असम	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.09.2002	859	
47589	खान गजीर अहमद		गौव कलमाटी पी.ओ. लकडा जिला- शिवसागर, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	1977	असम	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	28.03.80	50	
47590	खान शाबा	श्री अब्दुल सलीम खान	126, गजेरा नगर, (मईडी) युनिवर्स रोड, पीपल स्ट्रीट, अपो, गवावीर धौली, सिटी - उदयपुर, जिला - उदयपुर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एम० एम०	जनवरी - 2007	राजस्थान	राजस्थान	20.08.2008	5084	

47591	खान शाहजान अली	गांव - जहुराम गौ.ओ. जहुराम 781314, जिला - बरेल्ला, असम	डी० ए० ए० ए० ए०	नवंबर - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	26.02.2002	844	
47592	खान शाहजान अली	गांव - बरहमपुरी ब्लाक नं० 12, पी.ओ. नालीगांव 781352, जिला - बोरपेटा, असम	डी० ए० ए० ए० ए०	नवंबर - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.04.2002	847	
47593	खडेलवाल विपका	431-ए, तलवडी सिटी - कोटा, जिला - कोटा	डी० ए० ए० ए० ए०	जनवरी - 2006	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० ए० ए० ए० ए० सिटी), जयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4870	
47594	खडेलवाल योगेश	2 - के.एच. - 8, कमला नैहरू नगर, अजमेर रोड, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	डी० ए० ए० ए० ए०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	4.02.2008	4883	
47595	खडेलवाल अंजना	मार्केट - 20 काल खडेलवाल, 68/ए, फिर्ती नगर, टोक रोड, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	डी० ए० ए० ए० ए०	जनवरी - 2006	भारती विश्वविद्यालय युनिवर्सिटी, गुणे	राजस्थान	6.10.2008	5080	
47596	खडेलवाल प्रवीन	ए०-129, रस्ताज ए०, रामनगर ए०, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5112	
47597	खडेलवाल रामेश्वर दत्त	1) 339/20, कैलाश नगर, कालोनी समेपुर आर.डी. अपो. आई.डी.आई. सोनिपत 2) हरियाणा, विचारिक अपो. माडल टाउन, पी.ओ. - 8 गली, सोनिपत	डी० ए० ए० ए० ए०	अक्टूबर - 1974	विहार स्टेट बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, पटना	हरियाणा	28.01.1998	5559-ए	
47598	खडेलवाल नैसी	नं० नं० 3626, सेंटर 36-बी, सडीगढ़	डी० ए० ए० ए० ए०	1995	पंजाब	पंजाब	18.3.1997	1695	
47599	खन्ना उमेशचान्त	1) 1028/11, प्राकेश कालोनी, धान रोड, डी० 2) खन्ना होमियो. क्लिनिक डी.एच. रोड निरर ओल्ड सांची नं०-1, डी०	डी० ए० ए० ए० ए०	1973	विहार स्टेट बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, पटना	हरियाणा	28.04.93	5581-ए	
47600	खन्ना अनिता	नं० नं० 737, सुभाष नगर, दत्त रोड, नोवा	डी० ए० ए० ए० ए०	2004	डी० ए० ए० ए० ए०	पंजाब	24.10.2005	2819	
47601	खन्ना अमरा कुमार खन्ना	नं० नं० 39-सी, न्यू साल कोठी माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	पंजाब	7.8.2000	2312	
47602	खन्ना आर्यु	नं० नं० 187, सेंटर, पुष्पकुला	डी० ए० ए० ए० ए०	1989	कॉसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	27.05.1991	5543-ए	
47603	खन्ना ममता	गेटवेल होमियो. क्लिनिक, गली नं० 6, पटेल नगर, अंबाला (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	पंजाब	25.11.1998	1994	
47604	खन्ना विकास	न्यू सुभाष नगर, नं० नं० 11473, डी. नं० 10, बस्ती जोसेलवाल, लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए० ए०	2000	पंजाब	पंजाब	26.02.2002	2591	
47605	खन्ना रानी सहमानी	नयनपुर, गणेशपुरी बिसपुर, गुवाहाटी - 8	डी० ए० ए० ए० ए०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.10.01	485	

47606	खरबन्दा हरदीप कुमार	श्री आरत स्वर्णर खरबन्दा	नं 40 एच ई 41, फेज 1, मोहाली, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	7/12/1990	1222	
47607	खातून खनीरा		डिजिटल एक्स ओल्ड सोफ्ट हाउस रोड, पी.ओ. एवं जिला-जोसट-1, असम	डी० एच० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	असम	डॉ. ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	30.10.86	201	
47608	खत्री जगदेव	श्री राम चन्द झागानि	3% / 338, राजत पहा, मानसरोवर सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर (राजस्थान)	डी० एच० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	5.03.2009	5198	
47609	खोसला अन्शु	पुत्री श्री वेद प्रकाश खोसला	नं 123 / 15, मोहला याता राजी, निगर जिला सिंह टुम्बोल, रोड, खाना, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	4/9/1992	1317	
47610	खोसला निशा	श्री अमरिता लाल खोसला	मार्केट श्री वाना सिंह, नं 143, सैक्टर 20-ए, चंडीगढ़	डी० एच० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० एच० एच० एच०	02.02.2006	2983	
47611	खोसल अजोय कुमार		गॉट डेरगॉव, खाजन्पुर पी.ओ. डेरगॉव 785614, जिला - गोलाघाट, असम	डी० एच० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	असम	डॉ. ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.03.2005	912	
47612	खुल्लर श्वेता	श्री अशीक खुल्लर	मोहला जट्टन वाला, किंग स्ट्रीट, जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० एच० एच० एच०	31.01.2006	2987	
47613	खुंगर अनजाना	श्री मदन लाल खुंगर	42 एक., ब्लाक सिटी / जिला श्री मंगलनगर	डी० एच० एच० एच० एच०	मई - 2005	राजस्थान	डॉ. फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	22.0.2007	4838	
47614	खुराना जतिन्दर	श्री प्रेम नाथ खुराना	नं 400, बी-XII, स्ट्री हरनाम दास जैल रोड फिन्स मंड, लुधियाना	डी० एच० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	16/04/1996	1690	
47615	खुराना प्रीति	श्री प्रिन्सल सिंह	नं 782, सैक्टर 7, पंचकुला (हरियाणा)	डी० एच० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	17.7.1998	1873	
47616	खुराशीत आजला	श्री रामेश्वर सिंह	नं 41, फेज 6, मोहाली, रोड, बरक, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	14.7.1998	1887	
47617	कीमती लाल संदल	श्री मनसा राम	डा. के. संजाल, संजाल होमियोपैथिक क्लिनिक, सिमेंट बाजार, कसरार पुर, जिला - जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	10/11/1994	1420	
47618	कीमती लाल संदल	श्री मनसा राम	पी.एच. पी.ओ. दिवापा, अम्ब, ऊना	डी० एच० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	11.09.02	128-ए	
47619	किरण बाला	पत्नी अनिल कुमार मण्डी	99/ए. न्यू कालोनी, पलवल	डी० एच० एच० एच० एच०	दिसम्बर 2003	हरियाणा	डॉ. फरीद युनिवर्सिटी फरीदकोट	16.04.08	5818-ए	
47620	कोचर विमल	पुत्री श्री दार्लेन्द सिंह	मन्की कोहरी संघरणा, रोड, करनपुरा, जिला मंगू नगर (राजस्थान)	डी० एच० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	4/9/1987	989	
47621	कोहली अर्चना	श्री मदन लाल	नं 40 बी-36-284, बिकास नगर माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	2006	पंजाब	डी० एच० एच० एच० एच०	30.05.2008	3242	
47622	कोहली हरशरण सिंह	श्री सतनाम सिंह	32-ए, बसन्त एवेन्यू, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	2/9/1996	1643	
47623	कोहली पुनित कुमार	पुत्री श्री रोशन लाल कोहली	पिन्की स्ट्रीट, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	9/11/1989	1105	
47624	कोहली सीमा	श्री इन्दजीत सिंह	नं 40 नं 11070, संतोष नगर, हरियाणा कला, लुधियाना	डी० एच० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० एच० एच० एच०	31.01.2006	2883	

47625	काकोटी गिरिजा		मालाबार इन्डुली पी.ओ. कण्ठाबाडी, जिला जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.01.87	204	
47626	काकोटी हिमांगु कुमार		गोंय खटपिया बटन पी.ओ. काला, जिला नलबाडी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2001	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.08.2002	852	
47627	कान्बर रुचिबी		बंगालपुराडी रेट न-जली-जोरहट पी.ओ. एवं जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.09.84	79	
47628	कान्बर संगीता		गोंय निवाई पुडुरी टीचर्स कालोनी, पी.ओ. निवाई पुडुरी 785071, जिला - शिवसागर, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	07.10.08	950	
47629	काफुवा बाबिन		गोंय राजबाडी गोंय पी.ओ. बारहोला, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	नवंबर - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.07.98	394	
47630	कोठारी मित्रेश कोठारी	श्री मंगलन	192, मोहन कालोनी, सिटी - बसवाडा, जिला - बसवाडा	डी० एच० एच० एच०	सितंबर - 2005	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4861	
47631	कोटी सोनिका	श्री हरी चन्द कोटी	न० नो एच.एल. - 188, फेज - II, मोहाली, रोह. खारख, जिला रोहड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	28.8.1998	1932	
47632	कुष्मा बलदेव	श्री चतन राम	मार्फत कमलोज नर्सिंग होम निगर ओल्ड सिविलीयर, जवाहराबाद (सेक्टर), जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	जून - 1987	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	20.12.2001	2572	
47633	कार्तिक	श्री अशोक कुमार शर्मा	74, हरिजोन नगर एक्सट., सिटी जोधपुर, जिला - जोधपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4897	
47634	कुसुम अमृता		मार्फत - मो. कृष्ण अली गाय - जलेश गाय पी.ओ. नली गाय जिला - बोरेट, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसंबर 2006	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	21.02.07	1000	
47635	कुकर दीपक कुमार	श्री विद्या नाथ कुकर	न० नो 2455, को-ऑपरेटिव बैंक फाजिल्का, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	1/12/1998	1089	
47636	कुकर प्रकल	श्री उमेश चन्द	न० नो 844, रविन्द मार्ग, फाजिल्का जिला फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच०	2004	डी० एच० कु० एच० एच०	पंजाब	24.10.2005	2922	
47637	कुकरेला लोकेश कुमार	श्री कृष्ण लाल कुकरेला	न० नो के. 189, शिवालयिक नगर, मेरा पी.ओ. रानीपुर, रोह. जिला हरद्वार	डी० एच० एच० एच०	1982	पंजाब	पंजाब	8/12/1998	1869	
47638	कुलदीप राज	श्री शिवराम राज	मोहल्ला सोनपुरा, कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1983	पंजाब	पंजाब	24/07/1995	1518	
47639	कुलजीत सिंह	श्री रविन्द सिंह	पी.पी.ओ. मुकुन्दपुर, रोह. बंगा, जिला - नवलगढ़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	17.11.1997	1731	
47640	कुलराजदीप	पुत्री श्री गुलजार सिंह	गोंय टिबा पी.ओ. टिबा कुलराजपुर लोभी, जिला कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	28.5.1999	2033	
47641	कुमार मुकेश	श्री मोहन लाल	गोंय एवं पी.ओ. नेतावाला सिटी - श्री नवानगर, जिला श्री गंगा नगर	डी० एच० एच० एच०	नवंबर - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	21.04.2008	5016	

47642	कुमार सोलेन्द्रा	श्री धर्मवीर शर्मा	सं. नं० 717, कृष्ण पुरी, मुजफ्फरपुर नगर - 251001 (बि.पी.)	बी० एच० एम० एम०	2005	बारा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	यू० पी० बोर्ड सार्वजनिक	12.7.07	28024	सी० सी० एच० -2539
47643	कुमार पूजा	श्री बी० एस० कुमार	1) एच.आई.जी. 200, सैक्टर 72, मोहाली - 160071 2) हाउस नं० सी. - 14, साउथ एस्टेट, पार्ट - 1, नई दिल्ली	बी० एच० एम० एम०	2007	पंजाब कॉसिल, फाजीनगढ़ फाजीनगढ़	पंजाब कॉसिल	11.9.07	3150-ए	सी० सी० एच० -2644
47644	कुमार राजीव	श्री मनोहर लाल	के. सी. रोड, बरनाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	08.02.2002	2588	
47645	कुमार अमरेंद्र		लोखोखा रोड पी.ओ. हैबरगोव, जिला नार्थव, असम	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 1989	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	असम	04.07.88	111	
47646	कुमार अनिल	श्री बलदेव सिंह	बी.पी.ओ. चडियार, बैजनाथ कांगडा	बी० एच० एम० एम०	1983	राजस्थान होम्योपैथी बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	01.03.96	88-ए	
47647	कुमार अवनिश	श्री रणजीत सिंह	डी.पी.ओ. बडेहर, तह. मोरंग, जिला - हमीरपुर	बी० एच० एम० एम०	2005	बारा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	01.11.06	167-ए	
47648	कुमार मुनेश्वर		गोव बालीसतरा पी.ओ. बालीसतरा, जिला - कानकपुर, असम	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	31.03.88	583	
47649	कुमार ब्रिज मुखर्जी	श्री एस० सी० कुमार	1-ए, उगर रोड, देहरादून	डी० एच० एम० एम०	दिसम्बर - 1984	सी० एच० एम० एम०, पंजाब	पंजाब	07.08.1985	808	
47650	कुमार देवेन्द्र	श्री सुदामा राम	मार्ग होमियो, क्लिनिक शान्ति वन, सुमेर हिल्स, गिमला - 5	बी० एच० एम० एम०	2005	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	हिमाचल प्रदेश	20.02.07	170-ए	
47651	कुमार ललित	शिव चरण गोयल	1) पिरवाली गली, गोयल इन्वर्स्ट्रीज, जी. टी. रोड, पलवल 2) दुकान नं० 26, सैक्टर 7, फरीदकोट	डी० एच० एम० एम०	मार्च - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	18.12.1989	5528-ए	
47652	कुमार प्रमोद	श्री गणेश मोदी	मार्फत डा० ए.के. निराला, नया गौव, बी. टी. रोड, जमालपुर, मुजफ्फर बी) मोदी लोला एट. पी.ओ. पी.एस. अमरपुर, जिला बांका, बिहार - 813101	बी० एच० एम० एम०	2008	बी० बी० एम० बिहार युनिवर्सिटी	बिहार बोर्ड	1.4.08	28517	सी० सी० एच० -2596
47653	कुमार प्रमोद	श्री जगदीश सिंह	एट. सुनी, पी.ओ. सम्रा, पी.एस. मदनपुर, जिला अरिगबाद - 824208	बी० एच० एम० एम०	2007	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल कॉसिल कलकत्ता बिहार बोर्ड	17.4.07 9.5.07	28608 28195	सी० सी० एच० -2640
47654	कुमार संजय	श्री एस० के० शर्मा	1) एक्स-3, 49-डी, शातादी विहार, सैक्टर-52, नौयका (गुपीग) 2) सुमित्रा होस्टल, सैक्टर-35, नौयका यु.पी.	बी० एच० एम० एम०	2007	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	कर्नाटक बोर्ड	4.12.07	-ए.9235	सी० सी० एच० -2680
47655	कुमार सुरील	श्री आर० के० शर्मा	147, गार्ड नं० 10, राम नगर, हरीपुर	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब होम्योपैथी कॉसिल	हिमाचल प्रदेश	7.11.01	122-ए	

47656	कुमार विष्णु	श्री अशोक कुमार	व्हाट नं० 72, जगन्नाथ पुरी, कटरर रोड, अजमेर, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एच० एच०	2005	अगरा युनिवर्सिटी	राजस्थान	23.05.2008	5019
47657	कुमार विवेकानन्द	श्री एच० एच० मन्बल	65, पूरुष विहार कालोनी, जयपुर, सिटी-जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1998	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	राजस्थान	28.08.2008	5071
47658	कुमार विजय	श्री अरा राम	नं० 188, गीत पार्क, निहार बस स्टैंड, जालवर सिटी (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	19/11/1993	1362
47659	कुमार अक्षर	श्री मनोहर लाल	नं० 43, लोपखाना, अर्धो, रवा रोड, निहार अगारदानी चौक, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1982	पंजाब	पंजाब	28/5/1995	1483
47660	कुमार अमित	श्री विनोद कुमार	38-ए, मोती नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	11.10.1999	2146
47661	कुमार अनिल	पुत्र श्री वेद प्रकाश	नं० 2638, मोहलिया अग्रियान निहार पुल चक्कर, रोहतक (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	21/12/1987	1036
47662	कुमार अनिल	पुत्री श्री राम पाल	मार्केट - मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स, अर्धो, सुनील रोड, आर्ये अर्धो, रोह, फाजिल्का, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	17/08/1988	1073
47663	कुमार अनिल	श्री गणेश लाल	निहार कुन्दन पैलेस, अर्धो, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	10.3.2000	2272
47664	कुमार अंकुज	श्री ब्रिज पाल सिंह	मार्केट श्री लखवीर बन्द बनन, गली नं० 2, श्री चन्दा कालोनी, निहार बाजारा बाई प्रेम, टेन तरन	डी० एच० एच० एच०	2005	डी० एच० एच० एच०	पंजाब	18.09.2006	3049
47665	कुमार अरविन्द	सरणीय श्री जौधो श्री दास बलहोत्रा	12-डी, निम्बु बाला, देहरादुन (उड़ीशी)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	19/04/1988	1162
47666	कुमार अरविन्द	श्री तरलेम लाल	पीओडो लम्बा, रोड एवं जिला जालवर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	16.3.2000	2240
47667	कुमार अशोक	पुत्र श्री मदन गोपाल	नं० 1309/8, सेवक पुर कलसियान रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	3/8/1987	986
47668	कुमार अशोक	श्री धर्म चन्द	निहार मन्दा देवी टेम्बल सतनापुर, जिला कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	14/02/1989	1111
47669	कुमार अशोक	श्री सतपाल	नं० 178, न्यु टाउन-3, जिला मोगा, जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	13/05/1992	1294
47670	कुमार अशोक	श्री बाल गुरुन्द	डी.पी.ओ. जलाल, रोड रायकोट, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	29.9.1988	1973
47671	कुमार आराजोष	श्री डी० सी० पाल शर्मा	22-बी, दसरोहा नगर, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	20/04/1993	1346
47672	कुमार अरिन्नी	श्री ओम प्रकाश	नं० 836, निहार सखी मन्डी, जालावर रोड, रोह, फाजिल्का, जिला फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1984	डी० एच० एच० एच०, पंजाब	पंजाब	14.11.1985	849
47673	कुमार अरिन्नी	पुत्र श्री मदन लाल	डी.पी.ओ. साहपुर, रोह, फिरोजपुर, जिला जालवर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	10/8/1987	983
47674	कुमार बलजीत	श्री राम चन्द	बाजार कुलान, मोह बहादुरपुर, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	28/10/1986	942
47675	कुमार बलविन्दर	श्री जय पाल पतन	बाई, गौत चम्बल धुआ पी.ओ. अमलोह, जिला पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	14/02/1989	1113

47676	कुमार बलविन्दर	श्री राज लाल	सो नो 2832/71, स्ट्रीट नो 12, ब्रह्मचर्य नगर, लुधियाना	डी० एच० एम० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	22.06.2001 20.04.2005	2521	डी० एच० एम० एम० (प्रीडिड डिप्टी) नमबर - दिसम्बर 2003 डी० एच० यू० एच० एम०
47677	कुमार विनट	श्री नरेश चन्द	सो नो 236, महानगा वाली गली, जवाहरका रोड, मन्सा जिला मॉड-खा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	29/08/1990	1213	
47678	कुमार विजयेश	श्री राम लाल नन्नीय	5196, अरबन इस्टेट, फेज-2, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1990	पंजाब	पंजाब	25/06/1992	1304	
47679	कुमार दीपक	श्री विरिन्द कुमार	प्राप्ति होमियो. मेडिकल सेंटर, कुम्भा, सैक्टर 68, मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	2006	पंजाब	पंजाब	01.09.2008	3286	
47680	कुमार गुलबहादुर	श्री कुलकर्णी राय	गौड निलियन कला पी.ओ. बुलाल रोड, समराला, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	10/2/1989	1109	
47681	कुमार हरिश	स्वर्गीय श्री केवल कृष्ण	सो नो 8142, स्ट. नो 21, नमन कोट, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	15/09/1988	1081	
47682	कुमार हरिश	श्री ओम प्रकाश	सो नो 90, फेज-7, मोहाली रोड, खरक, जिला रोपड़	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	21/02/1989	1125	
47683	कुमार हरनेश	पुत्र पारस राम	नियर मल्लोट गेट मन्डी मन्डी राम रोड, मुक्तसार, जिला फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1984	पंजाब	पंजाब	13/08/1987	984	
47684	कुमार हरवीह	श्री लक्ष्मी नरेश	म. नं. 1086, राजपुरा टाउन शिप, राजपुरा जिला पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	20/01/1989	1106	
47685	कुमार हरिश	श्री हंस राज	413-ए, मोपाल नगर, मजिठा रोड, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	20.7.1998	1885	
47686	कुमार जगदीश	श्री मनी राम	रेलवे स्ट्रीट, वी.पी.ओ. तामा, रोड, बरनाला, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	28.9.1998	1987	
47687	कुमार जतिन्दर	अमर लाल	संगरूर होमियो. होम. ठेकर बस्ती, फतेहाद (हरियाणा)	डी० एच० एम० एम०	जून - 1993	हरियाणा	हरियाणा	23.10.1996	5635-ए	
47688	कुमार कृष्ण	श्री सी० एल० शर्मा	वी.पी.ओ. दुबारापुर, रोड, डेरा बारासी, जिला पटियाला	डी० एच० एम० एम०	2001	पंजाब	पंजाब	20.03.2003	2810	
47689	कुमार कुलदीप	श्री सुरेन्द्र कुमार	नो 3811, पं. जय देवाल स्ट्रीट, मुक्तसर, फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1984	पंजाब	पंजाब	5/4/1989	1151	
47690	कुमार मनोज	श्री राम चन्द	85, हिपरी टाउन, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - सितम्बर 1983	पंजाब	पंजाब	31.05.1985	797	
47691	कुमार मनोज	श्री कुलदीप लाल	नो 1887, एल.टी. सैक्टर 3, टी./टी. शिप, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1984	पंजाब	पंजाब	3/1/1998	1671	
47692	कुमार मनोज	श्री ओम प्रकाश	मार्केट अमर नन्द भवन लाल कारवागा भवन्ट, निवार घेन मार्केट, खन्ना, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	13/03/1995	1686	
47693	कुमार मिनानी	श्री कुमार चन्द कुमार	मैसर्स श्री मनोहर इन्जि. कम्पनी रेलवे रोड फागवाडा, जिला कपूरथला	डी० एच० एम० एम०	2004	पंजाब	पंजाब	24.03.2006	3006	

47694	कुमार मुनेश	श्री कृष्ण कुमार	डी. IV एस. 1753, पुपना बाजार, लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1984	पंजाब	पंजाब	18/6/1986	905	
47695	कुमार नरेश	श्री कुलवंत साँव	योगराज फार्मसी, सरदार बाजार, कानीला, जिला बरनाला	डी० एफ० एफ० एफ०	अगस्त - सितम्बर 1983	पंजाब	पंजाब	10.07.1985	800	
47696	कुमार नरेश	श्री जयवंत राँव	शार शोकर रमेश माथ, पीओ, छनदरन, जिला लुधियाना	डी० एफ० एफ० एफ०	दिसम्बर - 1984	पंजाब	पंजाब	13.09.1985	834	
47697	कुमार नरेश	श्री हररस देव	मो नो एच. 115, विशनपुरा जालंदर सिटी (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1987	पंजाब	पंजाब	17/02/1988	1121	
47698	कुमार नरेश	श्री वेद प्रकाश	अनाब मन्दी रोड, गुरी, तेह, गुरी, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1994	पंजाब	पंजाब	24/07/1995	1821	
47699	कुमार मेरन्द	श्री प्रेम नाथ	नियर मीता मवन, टाया मन्दी जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1993	पंजाब	पंजाब	16/03/1995	1471	
47700	कुमार मनीन	श्री आर० एफ० नाग	डा० बरता पोस्टिब हैल्थ क्लिनिक एच.सी. ओ. 45-46, सैक्टर 8-सी, चंडीगढ़	डी० एफ० एफ० एफ०	2002	पंजाब	डी० आर० एफ० युनिवर्सिटी, आगरा	15.09.2008	3272	
47701	कुमार पंकज	श्री कान्त राम	दलत रोड, विहाबन्ड कालागीर मुखारा, मीरा (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1997	पंजाब	पंजाब	17.11.1999	2172	
47702	कुमार प्रदीप	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	मोहल्ला मुबर्गा, नियर इन्ड्री सत संत, नवन शहर	डी० एफ० एफ० एफ०	1995	पंजाब	पंजाब	1/10/1996	1854	
47703	कुमार प्रदीप	श्री आनू प्रकाश	सी.पी.ओ. जोधन, पुलिस स्टेशन बनकुन, तेह, एवं जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1998	पंजाब	पंजाब	7.5.1998	1848	
47704	कुमार प्रदीप	श्री नसीब शब्द	गांव एवं पी.ओ. देहलोन, तेह, एवं जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1989	पंजाब	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	13.9.2000	2362	
47705	कुमार प्रवीण	श्री श्याम सुन्दर	मो नो 125, वार्ड नो 2, रामपाला, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1985	पंजाब	पंजाब	26/03/1987	975	
47706	कुमार प्रवीण	श्री राम रान	गली नो 9, समन्ती रोड, छात्रा 147401, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1986/89	पंजाब	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	6/8/1991	1281	
47707	कुमार प्रवीण	पुत्र श्री अमर हन्द	मीरम मदन, पाई रोड, मुक्ली रोड, कैथल जिला कुल्लु (हरियाणा)	डी० एफ० एफ० एफ०	1986	पंजाब	पंजाब	4/11/1987	1016	
47708	कुमार प्रवीण	श्री कोम प्रकाश	करीमपुर बाजार, लुधियाना	डी० एफ० एफ० एफ०	2003	पंजाब	डी० एफ० यु० एफ० एफ०	18.05.2005	2869	
47709	कुमार प्रवीण	श्री मनमोहन कुमार	मो नो 801, नीम शास चौक, नियर सुमानी बिल्डिंग, लुधियाना	डी० एफ० एफ० एफ०	2004	पंजाब	डी० एफ० यु० एफ० एफ०	24.03.2006	3003	
47710	कुमार पवन	श्री तेलु राम	सिंगला इलेक्ट्रोनिक्स नियर रेलवे स्टेशन बुलो मन्दी, जिला मटिया (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1985	पंजाब	पंजाब	10/11/1986	948	
47711	कुमार प्रवेश	श्री मुख्तार राज	मो नो 2009/12, गली नरेश खान कटरा छात्रा, अमृतसर (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1991	पंजाब	पंजाब	15/09/1992	1322	
47712	कुमार प्रवीण	श्री धन पाल सिंह	मो नो 1585, नई कबादी, तेह, अकोहर, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1993	पंजाब	पंजाब	21/06/1995	1502	
47713	कुमार राजेश	पुत्र श्री हकीमत	मो नो डी/ए. 533, इन्दिरा कालोनी पठानकोट, जिला मुकदापुर (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1996	पंजाब	पंजाब	28/09/1987	1006	
47714	कुमार राजेश	पुत्र श्री रमन चन्द	सी.पी.ओ. डुरंगला, तेह, एवं जिला मुकदापुर (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1998	पंजाब	पंजाब	1/7/1988	1067	
47715	कुमार राजेश	श्री जे० पी० करण	मो नो 19, ईक कालोनी, ठोसियापुर (पंजाब)	डी० एफ० एफ० एफ०	1992	पंजाब	पंजाब	17/08/1994	1394	

47716	कुमार राजेश	श्री ज्ञान चन्द	गड नं० 3527/1, स्ट. नं० 9, वेत सिंह नगर, गिल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	12.8.1999	2113	
47717	कुमार राजेश	श्री राताश कुमार	गड नं० 1472, स्ट्रीट नं० 3, भागवान नगर, बालेवाल चौक, लुधियाना	डी० एच० एम० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० एम० एच० एच०	24.10.2005	2924	
47718	कुमार राजेश	श्री प्रेम नथ	गौतम सिंघान पी.ओ. नूर महल, तेह. फिलौर एण्ड जिला जालंधर	डी० एच० एम० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० एम० एच० एच०	17.04.2006	3020	
47719	कुमार राजेश	श्री कश्यप लाल सलुजा	रंजन विमानिक हस्ती दाशिरामन जालंधर सिटी (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	3/2/1989	1108	
47720	कुमार राजेश	श्री गिल्लो राम	स्ट. नं० 10, नई अवादी लास्ट चौक, अमोहर, जिला फिरोजपुर	डी० एच० एम० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	13/03/1996	1588	
47721	कुमार राजेश	श्री कसबुरी लाल	गड नं० 1, जी.टी.डी. नगर, नकोवर जिला जालंधर	डी० एच० एम० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	12.04.2001 27.08.08	2501	डी० एच० एम० एच० (मिडिल डिप्टी) माई - जून 2003 डी० एच० एम० एच० एच०
47722	कुमार राजेश	श्री कवल कृष्ण	पी.पी.ओ. बीर सिन्ध तेह. नाकोवर विस्स, जालंधर	डी० एच० एम० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० एम० एच० एच०	24.10.2005	2940	
47723	कुमार राजेश	श्री मोहन लाल	गड नं० 1611-ए, सैक्टर 36-बी, चंडीगढ़	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - सितंबर 1983	पंजाब	डी० एच० एम० एच० एच०	28.07.1985	802	
47724	कुमार राजेश	श्री प्रताप चन्द	गड नं० बी-6/69, सतपुर नगर, नवनगर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	6.11.1986	1672	
47725	कुमार राजेश	राज कुमार	418, हरियाण स्ट्रीट, मन्ना बाजार, सिरसा - 1250	डी० एच० एम० एच० एच०	जून - 2004	पंजाब	बाबा करीद युनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	30.03.2006	5755-ए	
47726	कुमार राजेश	पुत्र श्री विशेषाया चन्द उपाध्याय	गौतम मन्तरो पी.ओ. जगतवेला, तेह. सतपुर, जिला मोरचपुर (पु.पी.)	डी० एच० एम० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	3/12/1987	1033	
47727	कुमार राजेश	पुत्र श्री बेहरी लाल	वार्ड नं० 4, जपो दुर्गा मंदिर गिरार बागा, तेह. मुक्तसर, जिला फरीदकोट (पंजाब) - 152101	डी० एच० एम० एच०	जून - 1987	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	29/02/1990	1195	
47728	कुमार राजेश	श्री सुरेन्द्र पाल	गड नं० 558, कोट आलमगीर, जेल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	5.11.1996	1673	
47729	कुमार राजेश	श्री मदन लाल	14-डी, धर्मल कालोनी, मटिका (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	20.4.2000	2248	
47730	कुमार राजेश	श्री राज कुमार	मार्केट - परशोतम दास, ओल्ड सुल्ज नगर, स्ट. नं० 4, अमोहर जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	6.2.2001	2445	
47731	कुमार राजेश	श्री हंस राज हुस	1614, फेज -7, मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	04.01.2002	2574	
47732	कुमार राजेश	पुत्र श्री सलीम राम	गड नं० 5111, समीचीन मनीमालरा, चंडीगढ़	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	29/09/1987	1004	
47733	कुमार राजेश	पुत्र श्री योद्धा राम	सेक्टर 1 फुट स्टोर जपो न्यू बस स्टैंड कोटकापुरा, जिला फरीदकोट	डी० एच० एम० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	16/02/1989	1117	
47734	कुमार राजेश	श्री प्रेम प्रकाश	पी.पी.ओ. सोनवदी कला तेह. जराय, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	31/01/1998	885	

47735	कुमार रविन्द	पुत्र श्री देवी शरण	मोह. थारा बी.पी.ओ. टिबर जिला, मुद्रासपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	10/11/1986	948	
47736	कुमार रजनीश	श्री संतोष राज	कॉ. नं० 1541, फेज -V, मोहाली, रोह. खरड, जिला रोहट (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	4.9.1986	1938	
47737	कुमार रजनीश	श्री हर्बंस लाल	कॉ नं० 1028, नू. माबल हाउस, जालंधार सिटी (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	28.03.2008	3183	
47738	कुमार रोहताश	श्री कमली लाल चवुड़ा	कॉ नं० 952, बी.एल. प्रोड सफाला रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	1/12/1988	1092	
47739	कुमार संदीप	श्री जस पी	बी.पी.ओ. मुलियान वाली रोड खेडावाड रोड, अमृतसर	डी० एम० एम० एम०	2004	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	24.10.2005	2921	
47740	कुमार संदीप	श्री विजेन्द्र सिंह	गली नं० 2, श्री बन्दन कालोनी, निरार बाकवा आर्ट प्रैय, चम्बल रोड, तरन तारन	डी० एम० एम० एम०	2005	डी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	18.09.2006	3042	
47741	कुमार संदीप	श्री सुरेन्द्रपाल	कॉ नं० 1590, सिमला पुरी, स्ट्रीट नं० 6, गिल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1991	पंजाब	पंजाब	28/04/1995	1488	
47742	कुमार संजय	श्री ओम प्रकाश	कॉ नं० 502, वार्ड नं० 15, बैंक कालोनी, विशाख लेडी हास्पिटल, खन्ना, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	2.2.2000	2202	
47743	कुमार संजीव	श्री सुरील कुमार	बी.पी.ओ. रायपुर, रोह. एम जिला. कोरियापुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	24/04/1989	1166	
47744	कुमार संजीव	श्री लाल चन्द वर्मा	बी.पी.ओ. मुदाती कला, रोह. खन्ना, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	24/1992	1273	
47745	कुमार संजीव	श्री सतपाल बंसल	10, सकुल रोड, अरोहर, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	20.7.1988	1879	
47746	कुमार संजीव	श्री डुडी राम	अर्ब होमियोपैथिक क्लिनिक एवं मेटेरी हास्पिटल राम बाग रोड, बरनाला	डी० एम० एम० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	08.08.2002	2801	
47747	कुमार सतीश	श्री वीर बन्द	मार्फत रंजन सा मिल्स, अलकसर रोड नोगा जिला फरिदकोट (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	10/11/1986	949	
47748	कुमार सतीश	पुत्र श्री तिलोक नाथ	कॉ नं० 318, सैक्टर 35-ए, चंडीगढ़	डी० एम० एम० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	16/02/1989	1120	
47749	कुमार सतीश	श्री केशव आनन्द	कॉ नं० 120, मोल्ला बलोन्गरा, पी.ओ. बना रोड, नवन बाहर, जिला जालंधार (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	10/11/1994	1419	
47750	कुमार शाल्व	श्री जयन नाथ	कॉ नं० 88, तिलक नगर, गिंदेवाहा, रोह. मुक्तसर, जिला फरिदकोट (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1991	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	21.4.1997	1701	
47751	कुमार सुखदेव	श्री रोक चन्द शर्मा	पुलना बाजार, कोटापुरा, जिला फरिदकोट (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	10/11/1994	1421	
47752	कुमार सुनील	श्री डेन प्रकाश	539/7, लक्कड़ बाजार, मोह. गवाला, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1987	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	30.5.1997	1709	
47753	कुमार सुनील	श्री रोक प्रकाश वर्मा	3-कासिल रोड, कलारा चौक, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1986	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	2.4.1998	1819	
47754	कुमार सुनील	श्री इन्द कुमार	कॉ नं० 2017/1, रिलपुरी, कुलिया वाली गली, माल, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	30.4.1998	1832	
47755	कुमार सुरेश	श्री काशी नाथ	कॉ नं० 82, बिरकपुर, रोह. खरड, जिला रोहट (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	4.9.1998	1940	

क्र.सं.	श्री प्रबोधन दास जी	श्री.पी.ओ. निखी तेह. मंसा जिला मण्डिया (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1984	पंजाब	28/01/1986	862
47756	कुमार सुशील	1) 893, सैक्टर 23, सोनीपत	डी० एच० एम० एम० एम०	जनवरी - 1998	स्टेट हॉस्पिटल औरिआणा	3.01.2006	5743-ए
47757	कुमार राजेंद्र	2) 6, आदर्श नगर, निवर गांधी चौक, सोनीपत	डी० एच० एम० एम० एम०				
47758	कुमार ज्योति	मो नं० बी.बी.ओ. निखी तेह. मंसा जिला निवर गुरम मन्दी, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1985	पंजाब	28/11/1986	954
47759	कुमार विजय	नामक नगरी नं० 1, जवाहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	21/12/1987	1040
47760	कुमार विजय	बी.बी.ओ. पियाला तेह. पठानकोट, जिला गुरदासपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1985	पंजाब	22/12/1988	1099
47761	कुमार विजय	बी.-X/900, संताक पुरा, होशियारपुर रोड, जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1987	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	15/11/1995	1551
47762	कुमार विजय	जन्सेवा होमियो, डिपेंसरी बी.पी.ओ. कलंका, जिला बरनाला	डी० एच० एम० एम० एम०	2004	डी० एच० यु० एच० एम० एम०	24.10.2005	2925
47763	कुमार विजय	176, रेलवे रोड मेगपुर जिला जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1984	पंजाब	7/4/1986	884
47764	कुमार विनोद	मो नं० 11, वाई नं० 7, घुरी तेह. मलेरकोटला, जिला समरूर	डी० एच० एम० एम० एम०	दिसम्बर - 1984	डी० एच० एम० एम० एम०	13.08.1985	817
47765	कुमार विनोद	आनंद क्लिनिक, न्यू दीप नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	29/08/1988	1065
47766	कुमार विनोद	29-डी, माडल टाउन, निवर राया किरान मंदिर, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1991	पंजाब	22/11/1993	1366
47767	कुमार विनोद	जिन्कापुर, पी.ओ. सोहाना, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1987	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	10.2.1998	1792
47768	कुमार विनोद	मो नं० 722, केज-IV, मोहाली	डी० एच० एम० एम० एम०	2001	पंजाब	25.03.2003	2815
47769	कुमार विनोद	बी.पी.ओ. काकडा, तेह. एवं जिला समरूर	डी० एच० एम० एम० एम०	1981	डी० एच० एम० एम० एम०	04.12.2008	3290
47770	कुमार विवेक	निवर राणी आसी चौक, राजकोट रोड, तेह. जमराद, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	15.12.1987	1751
47771	कुमार यदुविंदर	स्ट्रीट नं० 3, निवर गंगा आवाल मिला, मंसा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	डी० एच० यु० एच० एम० एम०	26.03.2008	3177
47772	कुमार योगेश	741/9, गुरु बालक कालोनी, पटौटी, जिला अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	23.7.1999	2086
47773	कुमार यतेंद्र	संगु, माल्ट, दुकान नं० 28, अगो. पिन्डोरी हास्पिटल मुलनपुरा, तेह. दाबा, जिला - लुधियाना	डी० एच० एम० एम० एम०	2005	डी० एच० यु० एच० एम० एम०	04.01.2007	3079
47774	कुमारी सुदिता	सैक्टर -VI ए, काटार नं० 3412, बी. एस. सिटी, झारखंड - 827006	डी० एच० एम० एम० एम०	2007	युनिवर्सिटी ऑफ बरदान	10.9.07	20756
47775	कुमारी मंजू	मार्केट - एडी ई.ओ. कुरु कुज कैंप जिनो, बरनाला प्रदेश	डी० एच० एम० एम० एम०	जून-2004	विहार युनिवर्सिटी	12.10.08	957
47776	कुमारी आशा (सैडन नेम)	ई-एच-221, लंडावाली रोड, जालंधर सिटी 144001 (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1979	कानपुर युनिवर्सिटी	2/4/1992	1276

सी० सी० एच०
-2863

47777	कुमारी कल्पना	श्री जयसंत लाल	नॉ नं 54, अवतार नगर, चौक चौक, फिरोजपुर रोड, लुधियाना	बी० एम० एम० एम० एम०	2004	बी० एम० यु० एम० एम०	पंजाब	24.10.2005	2917		
47778	कुमारी किरण	पुत्री श्री जागिन्द पाल	नॉ नं 22, मोहल्ला नं 14, सदर बाजार, जालंधर जंक्शन (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1986		पंजाब	14/12/1990	1225		
47779	कुमारी मीना	श्री राज कुमार	मोहल्ला - जालंधरी वाला, 13/46, कपूरथला (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1986		पंजाब	1.1.1987	1676		
47780	कुमारी मीना	श्री मदन लाल मावडाल	नॉ नं 81.1/74, सिख रोड महिलपुर, तेह. बरसाकर, जिला होशियारपुर	बी० एम० एम० एम० एम०	2002		पंजाब	17.06.2004	2723		
47781	कुमारी प्रवीन	पुत्री श्री लेख राज	मार्कट कम्बोज नर्सिंग होम, शहीद खान सिंह मार्ग, जालंधर, फिरोजपुर (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1989		पंजाब	31.1.2000	2436		
47782	कुमारी राजेश	स्वर्गीय श्री दिवान चन्द	मार्कट - 810 एच.आर. कपुर, 163, माल टाउन, कपूरथला (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1986		पंजाब	19.02.1988	1603		
47783	कुमारी रिना	पुत्री श्री कंवर इकबाल सिंह	नॉ नं 102, चीन पार्क, जालंधर सिटी (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1990		पंजाब	15/09/1994	1410		
47784	कुमारी सरिता	पुत्री श्री मनोहर लाल	मार्कट चौक फार्मासिस्ट सिविल हॉस्पिटल जिला, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1984		पंजाब	15/05/1986	894		
47785	कुमारी सरिता	श्री अविनाश चन्द	मोहल्ला कुमरा काटेज, ओल्ड होस्पिटल, कुमा नगर, कपूरथला	बी० एम० एम० एम० एम०	1994		पंजाब	2.1.1987	1683		
47786	कुमारी सीमा	श्री पारस राम	मोह. पनासारिया, वार्ड नं 10, गडबंकर, जिला होशियारपुर (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1994		पंजाब	1/10/1996	1656		
47787	कुमावत कपिल कुमार	श्री लक्ष्मी नारायण कुमावत	40- मित्रा कालोनी, राम नगर, सोदाला, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	बी० एम० एम० एम० एम०	मई - 2007		राजस्थान	10.10.2008	5088		
47788	कुमावत अरविन्द कुमार	श्री राम घन्टा कुमावत	वी एड पी. हिन्दोमिया सिटी - जयपुर, जिला जयपुर	बी० एम० एम० एम० एम०	जुलाई - 2006		राजस्थान	10.12.2007	4972		
47789	कुमारा जगमोहन	श्री मदन किराोर कुमारा	कुमारा काटेज ओल्ड होस्पिटल तेह. एण्ड जिला कपूरथला (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1994		पंजाब	13/03/1996	1584		
47790	कुन्दा सोनिया	श्री सलफत रॉब कुन्दा	नॉ नं 1116, केज - 3, बी./एस.ए. एस. नगर मोहली तेह. खरक, जिला रोपड़ (पंजाब)	बी० एम० एम० एम० एम०	1986		पंजाब	20/08/1996	1625		
47791	कुन्डु अचिका	श्री अनुपमा रतन कुन्डु	430, पी.के. गुहा रोड, कुम डुम कैंट, कोलकता - 700028	बी० एम० एम० एम० एम०	2003		वेस्ट बंगाल	28.7.03	25061	सी० सी० एम० - 2832	
47792	कुन्डु विकास		एम. आजाद रोड पी.ओ. एवं जिला चण्डी, असम	बी० एम० एम० एम० एम०	जुलाई - 1983		असम	16.11.84	96		
47793	कुपुर मर्दिन मिखरा	श्री परमदेव सतने सखम	पु. अमर लानसोलेन जियाच, सुनीय स्ट. जोसेफ डिस्ट्रिक्टरी शिलांग - 793001 (बी.) मार्कट - प्रभास एन.एस.सी. एण्ड एच. विवेक विहार, इटानगर	बी० एम० एम० एम० एम०	8/7/2008		राज्य गंधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	13.08.2008	87		
47794	कुम्हार जेलिरस एच. ईस्टन		सुपदेन्धींग शिलांग पी.ओ. शिलांग 793021, मेघालय	बी० एम० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984		असम	17.04.85	130		

लंबाया नरेश कुमार दीपक कुमार	श्री लंबाया दीपक कुमार	मनिषा शिवलोक, तिरु होन्डा शोलूम के सामने सिटी - सज्जनगढ़, जिला - बसवाड़	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	अप्रैल - 2002	स्वतंत्र युनिवर्सिटी	राजस्थान	2.07.2007	4843
47795	कुमार दीपक कुमार	पत्नी राजेन्द्र लाल निरंजर शिवजी सांके, दिल्ली रोड, सहयपुर (गु.पी.)	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	दिसम्बर - 2004	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	हरियाणा	6.10.2006	5771-ए
47796	लम्बा अरुण	ई-28, बैंक कालोनी, मरलीपुर स्क्रीम, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	मई - 2007	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	राजस्थान	15.12.2008	5162
47797	लम्बा अरुण	गोव पीतमपुर हट बालाजी पी.ओ. पिताम्बर हट बालाजी (सिंगा) जिला - कानूरुप, असम	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	अगस्त - 1999	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.09.2001	817
47798	लहकर पुष्क	हटई मोहल्ला, पी.ओ. कुराज, सिटी-राजसमन्ध, जिला राजसमन्ध	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	जनवरी - 2007	जो आर 0 नागर राजस्थान विद्यापीठ (बी.एड युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	26.07.2008	5053
47799	लाहोटी विशाल	गुप्त हास्पिटल, मटकाडा रोड, सिटी - सिरोही, जिला - सिरोही	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	अगस्त - 2004	एच 0 एच 0 जी 0 यू 0 पटना	राजस्थान	18.12.2008	5167
47800	लखाजी देसाई वीरज	बी. एच 0 पी. अम्बोटा, लेह, अरु, जिला ऊना	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	2000	पंजाब होमोपैथी कॉसिल	हिमाचल प्रदेश	15.06.01	118-ए
47801	लखनाल राजीव राम	मार्केट - रामकुमार इबारा, निरार नु सावर टैक, सुरेन्द्रस मेल सिटी - सरदारसाहब, जिला - झुप (राजस्थान)	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5093
47802	लक्ष्मी दास	28/ए. महावलीपुर, निरार बनील रुख, तन्दलजा रोड, सिटी बरोडा, जिला बरोडा	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	जनवरी - 2006	जो आर 0 नागर राजस्थान विद्यापीठ (बी.एड युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	25.07.2007	4880
47803	लालवानी प्रसन्ना	ए. मार्केट थावल शिवजी लमकांग, पुष्प पता गौव, चन्दल जिला - भणिपुर - 785103	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	28.07.2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	19.08.2008	97
47804	लमकाज्य (मिस.) सुबिता सिलसी	बी. मार्केट प्राचाय, एन.ई.एच.एच.सी. एच 0 हास्पिटल, सिकेक विहार, इटानगर, ए.पी. जोन 9436094853, 9436745800 एच 0 9856108338	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	अगस्त - 2006	दिवरगढ़ युनिवर्सिटी असम	असम	16.03.07	1003
47805	लाधु माया	गौव पांथी पी.ओ. कन्देल 785127, मणीपुर	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	जुलाई - 1983	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.12.86	197
47806	लखर अहमदुल सरकार	गौव - नवीन सागपुर पी.ओ. कालीबाडी बाजार, जिला कचर, असम	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	अप्रैल - 1984	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.05.85	155
47807	लखर नजल इस्लाम	गौव कंचनपुर हैलाखन्डी, पी.ओ. नैमपुर, जिला - हिलकन्डी, असम	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	मार्च - 1996	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.03.98	728
47808	लखर पुलेन चन्दा	मार्केट - मजुसवार मेडिकल स्टोर दोकोका, पी.ओ. दोकोका, जिला नागाल, असम	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0	सितम्बर - 1988	रेस्ट बंगाल कॉसिल	असम	24.05.88	301
47809	लखर शम्भुल हक	गौव नवगु - 1, पी.ओ. बान्धु वेस्ट, जिला - कचर, असम	बी 0 एच 0 एच 0 एच 0					

47810	लटका दीपा	श्री सोम प्रकाश लटका	मार्फत - बाबा बलराज हाउस, मैन बाजार, संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	5.12.1987	1743	
47811	सावित्र देवाथ	श्री धर्म पाल शर्मा	बस्ती रोड डिफेंस बंगला, सिविलियन मन्डी, जिला पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	12/2/1988	1046	
47812	लक्ष्मी रानी	पुत्री श्री नानु अग्रवाल	मो नं० 921, वार्ड नं० 6, निवार पब्लिक क्लब मन्डी दबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	2/12/1987	1031	
47813	लीना चितकरा	श्री मनोहर लाल	सी०/346, बिहास रेन मार्केट, सेहनेवाल, जिला - लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2005	पंजाब	पंजाब	04.01.2007	3077	
47814	लेनो (मिस.) झुटी	श्री के० लेनो	ए) पुत्री श्री के. लेनो, सी.डी.डी.एस.ई. अपर सिविल, गोंड बसकोटा पी.ओ. पासीघाट, पिन - 791102, जिला इस्ट सिंगर, ए.पी. बी) सोना चूल्हारी, 67, न्यू केशव नगर, सिटी-उदयपुर, जिला - उदयपुर	डी० एच० एच० एच०	17.03.2008	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	18.12.08	102	
47815	लिबाचिया हिरन कुमार	श्री जगदीश चन्दा श्री लिबाचिया	मार्फत सोना चूल्हारी, 67, न्यू केशव नगर, सिटी-उदयपुर, जिला - उदयपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2008	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	24.07.2007	4882	
47816	लिवसन धार	स्वर्गीय के० शोलेट	जोनाई सिविलोपेरिक डिस्पेंसरी, जोनाई सिविल हास्पिटल	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	मेघालया	मेघालया	8.3.1985	170	
47817	लेवलोन धार सुलेगा	श्री पी० धार सुलेगा	मार्फत जी.एस. राय किला नौनाशिलियाप, नथीगमर्द, शिलांग	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2007	मेघालया	मेघालया	1.02.2008	271	
47818	लोचन कमल	श्री डी० डी० शर्मा	1) देवल, जे-66, सिविलिक नगर, भेल हट्टार, उत्तरा खण्ड 2) देव होमिया, सिविलिक 46/6 डी. स्ट नं० -18, इस्ट आजाद नगर, दिल्ली - 51	डी० एच० एच० एच०	1999	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	24.9.99	4092	सी० सी० एच० -2641
47819	लोहन मोही राम		गोंड लोहोवाल मजुली पी.ओ. रसनपुर, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	असम	असम	08.01.89	315	
47820	लोहारका संगीता	मिस्टर लाकरामन लाल लोहारका	मिल्लस डिस्ट्रीक्टर्स, एच.डी. मोर्च रोड, निवार मोर्च, मेसन, अन्सल, वेस्ट बंगाल	डी० एच० एच० एच०	2007	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	16.1.08 28.3.08	44361 27048	सी० सी० एच० -2702
47821	लोमी (मिस.) जम्मी श्री न्यापे लोमी		ए) स्वाट्टर नं० 58, टाईप-111, ए' रौबटर निवार राज मवन, इटानगर बी) श्रीमति सुलेन लोमी सेखन अफिसर, पु.डी. बाल्म ए.पी. सैन्ट्रियेट, इटानगर	डी० एच० एच० एच०	17.01.2008	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	13.08.2008	83	
47822	लुना मल्ला	पुत्री श्री राकेश कुमार लुना	मो नं० 385, फेज सी.डी. मोहाली, ते. खरख, जिला रोहतास (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	22.8.1999	2047	

लॉटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1983	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	16.05/1986	896	
47823 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1983	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	16.05/1986	896	
47824 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	4.8.1999	2103	
47825 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	09.11.2005	2967	
47826 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2004	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	24.01.2008	3182	
47827 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	30.7.1999	2096	
47828 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2002	पंजाब	पंजाब	19.11.2003	2862	
47829 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	03.04.2001 03.08.2005	2495 2004	डी० एच० एच० एच०
47830 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	16.7.1999	2082	
47831 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	डी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	16.11.2008	3285	
47832 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	17.07.2008	3247	
47833 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1982	कौशिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	14.11.94	5605-ए	
47834 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	22.10.1998	1983	
47835 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	24.8.2000	2330	
47836 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	9/7/1986	909	
47837 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	21.7.2000	2303	
47838 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	17.04.2006	3024	
47839 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	23/1994	1401	
47840 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1984	डी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	18.10.1985	847	
47841 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2006	बाबा कर्पूर युनिवर्सिटी फरीदकोट	हरियाणा	28.07.08	5634-ए	
47842 लोटे स्मॉल सिंग	श्री धर्म सिंह	गात जिरक पी.ओ. लैहल तेह. एवं जिला। हुरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	कौशिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	12.11.86	180	

[illegible]

47857	मल्लोत्रा डिगमल	पुत्री श्री सी० पी० मल्लोत्रा	70 नं० एच.एल. -517 फेज-9, मोहाली रोड, खरड, जिला रोहतास (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1998	पंजाब	2.2.2000	2204	
47858	मल्लोत्रा गीता	श्री पी० पी० मल्लोत्रा	769, माडल टाउन, गिर आर समज टेम्पल, मनीपद (हरियाणा)	डी० एच० एम० एस०	1995	पंजाब	1.1.1997	1677	
47859	मल्लोत्रा जसप्रीत सिंह	श्री गुरदेव सिंह मल्लोत्रा	648, फेज 6, मोहाली, तेह खरड, जिला रोहतास (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	5.7.2000	2274	
47860	मल्लोत्रा निधि	श्री विजय कुमार मल्लोत्रा	एस. 45, एम.आई.जी. फ्लैट्स, आई.टी. कालोनी, दशमेश नगर, लुधियाना	डी० एच० एम० एस०	2004	डी० एच० एम० एच० एस०	05.11.2005	2856	
47861	मल्लोत्रा सजीव	श्री आनुर दास मल्लोत्रा	सहटा बाजार, मलेकोटवा, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1998	पंजाब	25.8.1998	1918	
47862	मल्लोत्रा संदीप	श्री सुभाष कृष्ण मल्लोत्रा	70 नं० बी.एक्स.एल./80, ध्रुव नगर, छागवाडा, जिला कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1995	पंजाब	18.10.1996	1664	
47863	मल्लोत्रा योगेश	श्री राज मल्लोत्रा	बी-1, 1541, छावनी मोहल्ला, लुधियाना	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	16.08.2001	2541	
47864	माली आलोक		मार्फत - पुराना चन्दा माल रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया पंजाबी, गुवाहाटी-1	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1999	बीड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	07.11.2000	764	
47865	माली दिव्या		मार्फत - श्री मरीनाल दास गॉप-बहादुरीपुर पी.ओ. माननीपुर 781352, जिला - बोकारो, असम	डी० एच० एम० एस०	फरवरी - 1998	बीड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	10.02.04	891	
47866	मलिक आस्था	पुत्री बी० मलिक	944, सेक्टर - 21, पंचकुला	डी० एच० एम० एस०	दिसम्बर - 2008	पंजाब युनिवर्सिटी, कच्छीगढ़	20.05.08	5825-ए	
47867	मलिक मीक	श्री इरी कृष्ण मलिक	कोटलानला, सोलन	डी० एच० एम० एस०	1992	पंजाब होम्योपैथी कॉलेज	24.08.98	103-ए	
47868	मलिक अमिता	श्री एच० के० मलिक	हरिन्द नगर, फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1996	पंजाब	15.5.1998	1836	
47869	मलिक किर्ती	श्री विरेंद्र कुमार मलिक	मलिक होमियो, विलनिक गुरुशाला रोड फाजिल्का, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	डी० एच० एम० एच० एस०	10.03.2008	3187	
47870	मलिक मनीष	श्री एच० सी० मलिक	70 नं० 3, प्रो० कालोनी, अमलोह रोड खन्ना, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1996	पंजाब	27.7.1998	1897	
47871	मलिक मोहित	श्री एच० पी० मलिक	एच.-जे., 892, माई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	2006	डी० एच० एम० एच० एस०	22.05.2008	3235	
47872	मलिक प्रवीन सिंह	श्री देव प्रकाश मलिक	70 नं० 25, ओल्ड सूज नगरी, लास्ट चौक, अबोहर	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	15.03.2001	2471	
47873	मलिक विजोय शर्मा		मोलानाथ रोड लोवर कोदमानी पी.ओ. डिगुड-1, जिला - डिगुड, असम	डी० एच० एम० एस०	नवम्बर - 1983	बीड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	28.12.98	388	
47874	मलिक प्रीतीश राजन		मल्लिक विलनिक, बापुगारा पी.ओ. बोरोपेटा रोड, जिला - बोरोपेटा, असम	डी० एच० एम० एस०	अक्टूबर - 1983	बीड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	23.07.98	410	
47875	ममता रानी	पत्नी श्री राकेश सिंह	बी-XXIV, 2777, राजेश नगर, हैदोवाल कटौ, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1997	पंजाब	23.7.1999	2087	
47876	मम मोहन	श्री एम० सिंह	जपो. आईस फेक्टरी, उना रोड, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1991	पंजाब	2/6/1994	1378	

47877	मानव समता	पुनी श्री पी० सी० मानव	एच.आई.जी. 835, फेज -2, मोहली, रोहतास जिला रोहतास (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	10.8.1999	2041	
47878	मनकंदा करमीरहाल	हरी चन्द मनकंदा	बी-11-854, गज्जरन मोहला, रोहतास - 124001	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1979	कोशिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	28.04.93	6573-ए	
47879	मंडल संतोष कुमार श्री विपिन मंडल	जे./3, राजकीय हाथसिंग इस्टेट, 20, एच. के. साट रोड, कोलकाता 700050		बी० एच० एच० एच०	2008	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल	18.6.08	27121	सी० सी० एच० -2816
47880	मंडल बादल चन्दा	बिरापुर मेन रोड गुवाहाटी - 16		डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.05.85	134	
47881	मंडल काजल	गॉव दक्षिण मानोरानुडी पी.ओ. अम्बामन, जिला भागीरथ, असम		बी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	डिस्कवरी युनिवर्सिटी	असम	7.10.2006	944	
47882	मंडल संजीव कुमार	श्री कार्तिक चन्दा मंडल	गॉव बरागा पी.ओ. मजोरा जिला बर्दवान, वेस्ट बंगाल - 713512	बी० एच० एच० एच०	2008	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल	24.3.08	28159	सी० सी० एच० -2828
47883	मंगला रमेश	गणपत राम	मार्फत मंगला किल्लिक पी.ओ. विनांगवान, जिला - गुडगाव	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1988	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	28.04.83	5577-ए	
47884	मंगला सतपकारा	श्री विरमन मंगला	राम पुरा कुल निवर (के.एन. माडल स्कूल), जिला मडिन्डा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	वेस्ट बंगाल	8/5/1995	1468	
47885	मनिकपाला पुनचन्द	सोहन लाल मनिकपाला	डी.पी.ओ. बेहल रोहसिल, लावनी जिला सिवानी	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1977	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	हरियाणा	7.09.81	2920-ए	
47886	मनिन्दपाल सिंह	श्री निवान सिंह	338/13, हाथसिंग बोर्ड, सोहन	डी० एच० एच० एच०	1980	पंजाब होमोपैथी कोशिल	हिमाचल प्रदेश	21.03.05	150-ए	
47887	मनीषा	श्री कृष्ण लाल सेनी	न. नं. 17-ए, रंजीत लेगेन्यू अमृतसर (पंजाब)	बी० एच० एच० एच०	2004	बी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	13.08.2007	3144	
47888	मान अमरजोत कौर	श्री गुरदेव सिंह	न० नं० 1637 एल-टी-3, रैक्टर-3, तलवाडा, जिला होशियारपुर	बी० एच० एच० एच०	2004	बी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	02.02.2006	2986	
47889	मान हरदीप सिंह	श्री जे० एच० मान	88/62, गार्डन कालोनी, निवर सेखो फार्म, जालंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	स्टेट होमोपैथी कोशिल एच० पी० श्रीपाल	पंजाब	24.2.2000	2229	
47890	मान मन्दीप	श्री दिलिप सिंह मान	निवर आम खास बाग, शास्त्री रोड, गिरादिन्द, जिला फतेहगढ़ साहिब	बी० एच० एच० एच०	2001	पंजाब	पंजाब	03.04.2003	2819	
47891	मान नवजोत कौर मनोषा श्रु	श्री अजमेर सिंह मान	न० नं० 232, मन्दी कालोनी खन्ना जिला लुडियाना	बी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2003	बी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	07.07.2005	2885	
47892	मनोषा श्रु	पुनी जगदीश चन्द	313/20, प्रताप गेट, कैथल	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1981	कोशिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	23.02.98	5884-ए	
47893	मनोज कुमार	देश राज	परम्वी मेडिकल सेंटर बुडाखेडा गेट अलकाना मन्दी, बिहार	बी० एच० एच० एच०	जून - 2004	बहा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	14.10.05	5735-ए	

क्र.सं.	नाम	पद	संस्थापक	संस्थापक की सेवा	संस्थापक की सेवा का अन्त	संस्थापक की सेवा का प्रारम्भ	संस्थापक की सेवा का अन्त	संस्थापक की सेवा का प्रारम्भ	संस्थापक की सेवा का अन्त
47994	मनोहर कुमार	अगर सिंह	1) समन्वित पी.ओ. रायबस्, जिला मिर्जापुर 2) होमियो क्लिनिक दुकान नं. 22, सीक्टर - 29, फरीदाबाद (पंजाब)	पी.ओ. एस. एस. एस.	नवम्बर - 2006	हरियाणा	5822-ए		
47995	मनुषा	पुत्री श्री नरेश चन्द	पी.ओ. एस. एस. एस.	पी.ओ. एस. एस. एस.	1998	पंजाब	2056		
47996	मनन्द विनय	श्री एस. एस. एस.	गोव रान्दा पी.ओ. राजपुर, पालापुर, कांगडा	पी.ओ. एस. एस. एस.	2002	हिमाचल प्रदेश	145-ए		
47997	मनीष फरजिन्द	श्री करनल मसीह	सोलन एस.एस. कालेज, सन्नाघाट, सोलन	पी.ओ. एस. एस. एस.	1980	हिमाचल प्रदेश	147-ए		
47998	मनसु जसपाल सिंह	श्री लखन सिंह	38, सत करतार नगर, पी.ओ. माडल टाउन, जालंधर (पंजाब)	पी.ओ. एस. एस. एस.	1978	पंजाब	2075		
47999	माधु अमित	श्री कौशल किशोर मधुपुर	सिकल बी. टेक. आर. सिन्धु निगर सालावर बस स्टैंड, इटावा रोड, सिटी - सिकर, जिला सिकर	पी.ओ. एस. एस. एस.	जनवरी - 2006	राजस्थान	4848		
47999	मधु हरि चंदन सिंह	श्री चन्दा युवराज सिंह मधुपुर	मोहल्ला - कटरा, पोस्ट मोहन, जिला जलंधर, यु.पी.	पी.ओ. एस. एस. एस.	2003	यूपी बोर्ड लखनऊ	25904		सी.सी. एस. - 2072
47999	मधुपदार कल बिकास	श्री एस. एस. एस.	ए. निगर अरुणाचल संघ, पी.ओ. राजबारा, जिला त्रिपुरा (साउथ) त्रिपुरा - 799120 श्री. मार्कंडे हि. बाउलसिंह पोस्ट, टी.टी. मार्ग, बैंक सिनाली, इटावा - 791111, ए.पी. फोन - 9436093408 / 943625491	पी.ओ. एस. एस. एस.	31.07.2008	अरुणाचल प्रदेश	96		
47999	मधुपदार कल बिकास	श्री एस. एस. एस.	मार्कंडे - डा. जी. एम्बानी, ए.टी. पी.ओ. मोरवा बाजार, मोरवा, जिला - धनबाद, झारखण्ड-828302	पी.ओ. एस. एस. एस.	2001	बिहार बोर्ड	26846		सी.सी. एस. - 2588
47999	मधुपदार कल बिकास	श्री एस. एस. एस.	मोहन - चकमतली पी.ओ. हाजी जिला - कामरूप, असम	पी.ओ. एस. एस. एस.	दिसम्बर - 1990	असम	474		
47999	मधुपदार कल बिकास	श्री एस. एस. एस.	गोव - सेतियागोव पी.ओ. नार्थ लक्ष्मीपुर 787006, जिला - लक्ष्मीपुर, असम	पी.ओ. एस. एस. एस.	अप्रैल - 1999	असम	769		
47999	मधुपदार कल बिकास	श्री एस. एस. एस.	गोव - कुसाल नगर, पी.ओ. हैबोरगोव 782002, जिला - बांगोर, असम	पी.ओ. एस. एस. एस.	अप्रैल - 1992	असम	883		
47999	मधुपदार कल बिकास	श्री एस. एस. एस.	गोव बेर गोंव पी.ओ. सरनोग, जिला - बोरपेटा, असम	पी.ओ. एस. एस. एस.	मई - 1991	असम	492		
47999	मधुपदार कल बिकास	श्री गोपाल लाल मीन	34, सलाहार सौसावटी, प्रस्तानन्द मार्ग, बलावपी, सिटी एस जिला बलाव	पी.ओ. एस. एस. एस.	मार्च - 2008	राजस्थान	5028		

47908	मीना मनोरमा	श्री मारुवाल मीना	सी-212, महेबा नगर, टोक रोड, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5116	
47909	मीना मुकेश कुमार	श्री चन्दन लाल मीना	जी-45, सुपति नगर, जयपुरा सिटी-जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 2008	राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ब युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4901	
47910	मीना मुकेश कुमार	श्री उमा शंकर मीना	गोव रंगरिया सिटी - डी. सांगोड, जिला - कोटा	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 2007	राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ब युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	15.07.2008	5041	
47911	मीना ओमप्रकाश	श्री शंकर लाल मीना	सुभाष कालोनी, सिटी - टोकरासिंह, जिला - टोक	डी० एच० एम० एच०	सितम्बर - 2005	राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ब युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4854	
47912	मीना प्रवीन	श्री एम दयाल मीना	III - 158, ए.जी.-कालोनी, बजाज नगर, सिटी-जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एच०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.12.2007	4989	
47913	मीना रानी	श्री इन्द्र राज	मार्फत शर्मा इन्जि. वर्कस भन्सा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	20/08/1996	1633	
47914	सिन्धु	श्री सुनिल दास	बागसाई अलाय हाउस, चर्मपुर, सोलन	डी० एच० एम० एच०	2008	राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ब युनिवर्सिटी), जयपुर	हिमाचल प्रदेश	6.08.85	208-ए	
47915	मेघवाल पैरुका	श्री राम अवतार मेघवाल	7/128, पनोरा मार्ग, विद्यानगर, सिटी-जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5104	
47916	मेहिनदेरा शाहिजा	पुत्री श्री एच० के० मेहिनदेरा	गोव फुलावाल, पी.ओ. माडल टाउन, रोड एच० जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	8.7.1999	2088	
47917	महेन्दु मनोज	स्वर्णिम श्री मदन लाल महेन्दु	बी.ए.ए. - 47, रोड इन्डोव ई, सिविल लाईन, डि. नं० 6, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	09/1996	1489	
47918	मेहदीरला सुमिता	पुत्री श्री सुजल प्रकाश मेहदीरला	23-जवाहर नगर, दिल्ली - 6	डी० एच० एम० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	6/11/1987	1015	
47919	मेहरा निवेशा	पुत्री विक्रम मेहरा	144, सैक्टर - 21, पंजकुला	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 2008	पंजाब युनिवर्सिटी, कर्नाटक	हरियाणा	27.08.07	5509-ए	
47920	मेहरा निमय कुमार	श्री निमय प्रकाश मेहरा	44 जय भवानी नगर, खाटीपुर, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 2004	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	3.07.2007	4860	
47921	मेहरोता अरुण	श्री हेम नाथ मेहरोता	मार्फत नरेश खुराल, डी-149/2, निगर आदर्श पब्लिक स्कूल, संगम विहार, नई दिल्ली - 110062	डी० एच० एम० एच०	2007	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, बंगलूर	कर्नाटक रोड	12.10.07	-ए.9.131	डी० सी० एच० -2883
47922	मेहरा रुबी	श्री अना लाल मेहरा	16/124, पदमा, कुटीर इन्दिरा मार्केट, सिटी - कोटा, जिला - कोटा	डी० एच० एम० एच०	जुलाई - 2008	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	4.02.2008	4990	
47923	मेहरा चन्दर मुष्ण	के० डी० मेहरा	1) 434, अग्रवाल कालोनी, सिरसा 2) सल्लूर रोड, रोडी गेट, सिरसा	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1987	राजस्थान रोड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	20.12.94	5617-ए	

47924	मेहता हरिश	आता प्रकाश	13, मुलतानी कालोनी, बन्द गेट, सिरसा	डी० एच० एम० एम०	नवम्बर - 2003	बना करीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	6.07.05	5731-ए	
47925	मेहता अविबनी कुमार	श्री राम मूर्ति मेहता	गॉव मेहन, पी.ओ. देवीगढ़, तेह पटियाला, जिला पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1989	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	29/05/1995	1493	
47926	मेहता इन्द्रजीत मेहता	पुत्री श्री अंशु राम मेहता	नियार पुराना बास्तीपाना, अडला राजकोट, जिला लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1991	पंजाब	पंजाब	19/07/1994	1380	
47927	मेहता कमल	पुत्री श्री राजेन्द्र पाल मेहता	ए.एस. ब्याक, गार्ड नं० 14, बुरी, जिला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	3.8.1999	2099	
47928	मेहता मीनू मेहता	श्री कुमम लाल मेहता	सैन्ट्रल टाउन, सैक्टर-2, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1995	पंजाब	पंजाब	19.3.1997	1696	
47929	मेहता सजीव	श्री राजपाल मेहता	नं० 16, चीन पार्क, सिविल लाइन्स, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	9.8.2000	2319	
47930	मेहता सिन्धी	श्री राज कुमार मेहता	57-ए, टैगोर नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	28.6.1998	1861	
47931	मेनारिया प्रीतेश	श्री सोहन लाल मेनारिया	304, मा कृपा मलन, नियर पखवारी, पनरियो की मदर्शी सिटी-उदयपुर, जिला - उदयपुर	डी० एच० एम० एम०	जानवरी - 2007	जे० डारो नगर राजस्थान विद्यापीठ (जी० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	28.06.2008	5035	
47932	मिथा रविन्दर कुमार	धर्म चन्द मिथा	राजकीय होमियो डिस्पेन्सरी पी.ओ. धनकोट, जिला - गुडगाँव	डी० एच० एम० एम०	1981	कोसिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	12.08.88	5453-ए	
47933	मिथा पुनीत	श्री जी० एल० मिथा	66331, न्यू हरगोबिन्द नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	15.6.1998	1856	
47934	मिथानी रजनी	पुत्री श्री मनोहर लाल मिथानी	नं० नं० 1946/6, स्ट. नं० 2, सिल बुरी, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	29.8.2000	2338	
47935	मिन्हास हरपाल सिंह	पुत्र श्री जसवंत सिंह मिन्हास	नं० नं० 1106, पुरानी अबादी, गंगा नगर, (राजस्थान)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	21/4/1988	1081	
47936	मिनी	श्री इन्दपाल सिंह	नं० नं० 2193, सैक्टर 32-ए, अरबन इस्टेट चंडीगढ़ रोड, लुधियाना	डी० एच० एम० एम०	2004	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	17.04.2006	3018	
47937	मिन्हा मिना	श्री ओम प्रकाश मिन्हा	1) पटवा घाटी, गार्ड नं० 10, सरगपुर, राजगढ़ (मध्य प्रदेश)	डी० एच० एम० एम०	2005	देवी अहिल्या युनिवर्सिटी, ईंदौर	एम० पी० कोसिल भोपाल	31.12.05	14841	सी० सी० एम० -2875
47938	मिन्हा आलोक	श्री संतोष कुमार मिन्हा	2) 23-24, कृष्ण काटा एक्सट. लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	डी० एच० एम० एम०	2005	बरकपुरा युनिवर्सिटी, भोपाल	एम० पी० कोसिल भोपाल	16.06.05	14429	सी० सी० एम० -2578
47939	मिन्हा अमबरिश कुमार	श्री अमिका प्रसाद मिन्हा	50/6, इस्ट गेट नगर, मिर्जापुर, जिला - दरी, उत्तीसख	डी० एच० एम० एम०	2006	विष्णु युनिवर्सिटी, उत्तरांचल	एम० पी० कोसिल भोपाल	30.3.07	15039	सी० सी० एम० -2813
47940	मिन्हा चारु	श्री सतीश कुमार मिन्हा	न्यू कालोनी, जवालापुडी, उमरिया, जिला उमरिया (मध्य प्रदेश) - 484681	डी० एच० एम० एम०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	8.10.2008	5085	
47941	मिन्हा निशान्त रावेश्वर	श्री रावेश्वर प्रताप मिन्हा	ई-476, पिक हाउस, बैंक कालोनी, मुरलीपुरा स्कौम, सिटी - जयपुर, जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एम०	2007	महाराष्ट्र युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नाशिक	महाराष्ट्र कोसिल मुंबई	17.12.07	44102	सी० सी० एम० -2576

47942	मिश्रा राजेश्वराम	मिश्रा होमियो. क्लिनिक बोरपेटा रीन रोड पी.ओ. बोरपेटा रोड 781316, जिला - बोरपेटा, असम	डी० एच० एच० एच०	मई - 1983	सिंहार युनिवर्सिटी, गुजरातपुर	असम	19.05.2006	921	
47943	मिश्रा सतीश कुमार मिश्रा	गौड एंड पोस्ट - हस्तेरा, सिटी बाया गाविसद्वारी, जिला - जयपुर (राजस्थान)	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	20.08.2008	5058	
47944	मिश्रा सतीश	46, आसन नगर, माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	10.3.2000	2236	
47945	मिश्रा सुरेश	30 नं० 2815, फेज 7, मोहाली, तेह. खारक, जिला रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	16.7.1988	2080	
47946	मिस डब्लुलिन रसवर्ध	नागलंग माकीवांट	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	मेघालया	8.3.1985	142	
47947	मिस. मंजु हात्ता (सेवन नेम) मंजु अग्र (विवाहित नाम)	मुन्नी डी डी के० हात्ता पत्नी श्री अग्र (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	20/08/1992	1314	
47948	मिस. मंजु वर्मा (सेवन नेम) श्रीमति मंजु गुप्ता (विवाहित नाम)	मुन्नी डी डी वर्मा पत्नी श्री सिरेन्द्र गुप्ता	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	22/04/1991	1242	
47949	मिस. बालू मोदी (सेवन नेम) श्रीमति शशिल मोसल (विवाहित नाम)	मुन्नी डी एच० के० मोदी पत्नी श्री संजय गोवाल	डी० एच० एच० एच०	1982	पंजाब	पंजाब	15/08/1984	1408	
47950	मिस. सुरेन्द्र प्रोवर (सेवन नेम) श्रीमति सुरेन्द्र अरोड़ा (विवाहित नाम)	मुन्नी डी बलवंत सिंह प्रोवर पत्नी श्री सिरेन्द्रवीर सिंह	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	28/1989	1164	
47951	मिस. मधु शर्मा (सेवन नेम) श्रीमति मधु कौशिक (विवाहित नाम)	मुन्नी डी आर० पी० शर्मा पत्नी श्री सतीश कौशिक	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	5/5/1992	1281	
47952	मिस्त्री मोहन	डी० एच० एच० एच०	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	5/5/1992	1281	
47953	मिस्त्री मोनी	डी० एच० एच० एच०	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	5/5/1992	1281	
47954	मिस्त्राल प्रीती	डी० एच० एच० एच०	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	5/5/1992	1281	
47955	मिस्त्राल प्रणवा	डी० एच० एच० एच०	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	5/5/1992	1281	

47974	मोन्टल अड्डल खालोक	गोव गोराईगढी पी.ओ. गोराईगढी वाया विडनी, जिला - कोकराझार, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 84	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.05.85	141	
47975	मोन्टल अडेडुलीन	गोव - जी.कुदरिज चार पी.ओ. मोन्टलरिज चार, जिला दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 89	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.09.2000	744	
47976	मोन्टल अरुम कुमार	गोव नैखेला पी.ओ. - मोलकगंज, जिला - दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 92	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.09.98	533	
47977	मोन्टल बागुल	गोव दखीन मेमोर पी.ओ. नागोव - 782120, जिला - नागोव, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 03	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	26.02.04	894	
47978	मोन्टल बिन्दाबन	मंडल होमियो हॉल कालीबाडी, पी.ओ. चमारिया जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 85	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	07.04.2001	791	
47979	मोन्ता विनित	599, गली तलियानवाली, सिरसा	डी० एच० एच० एच०	1999	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	11.03.02	5686-ए	
47980	मोन्ता भारती	61/1, माडल ग्राम, कुशियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2412	
47981	मोन्ता दीपक	मो नं० 1428, फेज - 3 बी.11, मोहाली, रोड, खरड, जिला रायड (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	7.7.2000	2292	
47982	मोन्ता मोन्द कुमार	मो नं० 9, सैक्टर - 10, पंचकुला	डी० एच० एच० एच०	1988	होम्योपैथी बोर्ड, दिल्ली	हरियाणा	7.07.2005	5735-ए	
47983	मोन्ता प्रियंका	एच.ज. - 830, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बी.आर.एस. नगर, कुशियाना	डी० एच० एच० एच०	2004	बी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	24.10.2005	2941	
47984	मुस्ताफा मुलाम	गोव अमधला पी.ओ., बीरकालिया रोसा 783330, जिला - दुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 08	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	05.03.08	1020	
47985	मिसेज. अनोस दिवागुन लाह	नागशिलियाम नोथमईमई, शिलांग 7 14	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 05	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, बंगलोर	मेघालया	11.5.2005	259	
47986	मिसेज. ऐफलेना खरिया	रियातसमियाह बी. 1-8, शिलांग	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 06	कलकत्ता युनिवर्सिटी सेट्ट बंगाल	मेघालया	27.4.2006	281	
47987	मिसेज. मनजीत कौर (सिकन नेम)	एस. हरनाम सिंह मेमोरियल डिस्पेंसरी, मलौट, तेंह, मुल्लार, जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	4/9/1989	1168	
47988	मिसेज. तापु अन्ना श्री तालो हातिन्य	ए.) गोव हरी, पी.ओ./पी.एस. बिरो, लोवर सुमानवीपी (ए.पी) फोन - 9812320804 (मो.) बी.) ई-सैक्टर, नं० 285, नाहरलागुन, जिला पापुन धर (ए.पी.)	डी० एच० एच० एच०	10/2/2009	कलकत्ता युनिवर्सिटी सेट्ट बंगाल	अरुणाचल प्रदेश	13.03.2009	114	

क्र.सं.	नियुक्त व्यक्ति का नाम	पद	विवरण	तारीख	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब
47989	मि.स. जयदीप सिंह (विद्यार्थी)	पंजाब	मो. नं. 41-427, मोहल्ला मौलाना शकूर नगर बुक मार्केट, लुधियाना (पंजाब)	1994	पंजाब	पंजाब	पंजाब	1549
47990	मि.स. अमर सिंह (विद्यार्थी)	पंजाब	1) फातेह गढ़ा लेक, इमकाले वेस्ट - 1, मणिपुर 2) मार्केट सिविल एनो ई. एनो एनो सी. एनो एनो विवेक विहार इटानगर फोन - 9436237098	27.08.2008	पंजाब	पंजाब	पंजाब	85
47991	मि.स. विद्यावती सोहरावा	पंजाब	1) मयागलाजीग माया जेईकई पी. ओ. - लेसंग पिन नं. - 795146 2) मीला वस्तीनिक, गर्वन रोड इमकाल	31.07.2008	पंजाब	पंजाब	पंजाब	95
47992	मि.स. गीतिका धवन	पंजाब	गली नं. - 5 आनन्द नगर पास रेवे कोसिम फरीदकोट रोड, कोटकापुरा (पंजाब)	नवम्बर - दिसम्बर 2005	पंजाब	पंजाब	पंजाब	3141
47993	मि.स. गेम मेरी	पंजाब	1) कृष्ण गढ़ - पी. ओ. / पी. ओ. सिविल जिला - पम्प परे ए. पी. ओ. 2) मार्केट जिनपटरी काटेज सी - सैक्टर, नहरलागुन ए. पी. ओ. फोन - 9436092203	28.07.2008	पंजाब	पंजाब	पंजाब	93
47994	मि.स. हेम अंगिया	पंजाब	1) हरी गांव, पी. ओ. / पी. ओ. सिविल जिला लोवर सुबसिरी ए. पी. ओ. 2) मार्केट बग हरी टबो, पी. ओ. एनो एनो, पी. ओ. एनो एनो आक्सि नहरलागुन फोन - 9862708528	दिसम्बर - 2008	पंजाब	पंजाब	पंजाब	105
47995	मि.स. नुरंग हेनुग	पंजाब	1) सेनकी पार्क पी. ओ. - इटानगर ए. पी. ओ. 2) मार्केट इटान होमोपैथी मेडिकल कॉलेज एनो होस्पिटल विवेक विहार, इटानगर ए. पी. ओ.	10/11/2008	पंजाब	पंजाब	पंजाब	94
47996	मि.स. पुरीन	पंजाब	मो. नं. - 1785 फोन - 7, मोहल्ला (पंजाब)	अप्रैल - सितम्बर 1983	पंजाब	पंजाब	पंजाब	789
47997	मि.स. रेवका रानी (विद्यार्थी)	पंजाब	20 - एन. कनाल कालोनी, गिदरवाला ताल - मुकेशपुर जिला - फरीदकोट	अप्रैल - सितम्बर 1983	पंजाब	पंजाब	पंजाब	845

47998	मुकेश कुमार	राजेश सिंह	अरुणो नरिंदा होम हवीन जिला - फरीदाबाद	जी० ए० ए० ए०	1983	कांगपुर युनिवर्सिटी	हरियाणा	22.09.88	5482-ए	
47999	मुखर्जी अरुण	श्री हरभजन मुखर्जी	मार्केट एतन सिंह, आनन्द मील कामलेखा डी - 137, बैरात मार्ग बनी पार्क राह - जयपुर जिला - जयपुर	डी० ए० ए० ए०	2002	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	राजस्थान	30.01.2008	4984	
48000	मुखजा सुनीता	पुत्री श्री खेम राज मुखर्जी	11/एस, स्वयं विद्या विकास कालोनी इन्कलेव पटियाला (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1988	पंजाब	पंजाब	27.7.1999	2089	
48001	मुनीन्दर भादर	श्री सुरेन्द्र सिंह	70 नं० - 4811 - ए सैक्टर - 70 मोहाली	डी० ए० ए० ए०	2004	डी० ए० ए० ए० ए०	पंजाब	12.11.2005	2970	
48002	मुताजेवा ममता	पुत्री श्री कृष्ण लाल मुताजेवा	70 नं० - 238, प्रास पोस्ट ऑफिस जलालाबाद (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1988	पंजाब	पंजाब	21.2.2000	2227	
48003	मोथिली के. खेला	स्वर्गीय मिस्टर आर० ए० कनाराज	सी - 11, पंचशील इन्कलेव जयल टोडू मार्ग प्रास ग्राम हिल्ली फलाह ओवर नई हिल्ली - 17	डी० ए० ए० ए०	2004	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, बंगलोर	कर्नाटक बोर्ड	3.11.04	ए.8224	डी० सी० ए० - 2862
48004	नेनी दीप कमल	श्री रघुवीर सिंह नेनी	मार्केट जगदीप कौर नं० 70 - 389 सैक्टर - 16, बरभेरा नगर खार, मुनबान रोड जिला - मोहाली	डी० ए० ए० ए०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	डी० ए० ए० ए० ए०	पंजाब	03.04.2008	3192	
48005	नागपाल कविता	पुत्री श्री काकीर बन्द नागपाल	गली नं० - 1 बलबीर बस्ती फरीदकोट (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1998	पंजाब	पंजाब	3.5.2000	2258	
48006	नागपाल पंकज	श्री कस्तुरी लाल नागपाल	716, पौवर कालोनी, रोपर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1987	पंजाब	पंजाब	7.1.1999	2005	
48007	नागपाल विकास	पुत्र श्री श्री निवास नागपाल	नागपाल मार्केट फजिल्का जिला - फिरोजापुर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1985	पंजाब	पंजाब	28/09/1986	926	
48008	नाथर सुकुमार	श्री ए० वेलापन पिस्सये	70 नं० - 352, फेस - 3 - डी - 1 मोहाली जिला - रोपर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1980	पंजाब	पंजाब	20/07/1993	1355	
48009	नाजीब बररा		आफ के० चौबरी रोड पी० ओ० - रुपाही मकसुमन गवाहटी - 9	डी० ए० ए० ए०	अक्टूबर - 2002	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.02.04	890	
48010	नाजोत	श्री सुरेन्द्र सिंह	डी० पी० ओ० - काले सचियान जिला - कपुलवाला	डी० ए० ए० ए०	2004	डी० ए० ए० ए० ए०	पंजाब	24.10.2005	2826	
48011	नामा रमना	श्री सी० ए० नामा	70 नं० - 151 - ए, तलवडी राह - कोटा जिला - कोटा	डी० ए० ए० ए०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	6122	
48012	नमीता	श्री अशाठ कुमार आरोडा	70 नं० - 1845, नमक मंडी सुधियाना	डी० ए० ए० ए०	2005	डी० ए० ए० ए० ए०	पंजाब	23.04.2007	3097	
48013	नेन्ती	श्री जय विनेश प्रसाद मेहता	डी० डी० ए० ए० आर० जी० ए० ए० - 403, सैक्टर - 3, पार्कट - 16, हावला नई हिल्ली - 110045	डी० ए० ए० ए०	2008	भारती विद्यापीठ ऑफ युनिवर्सिटी, पुणे	महाराष्ट्र कॉमिल, पुणे	6.1.09	47248	डी० सी० ए० - 2709
48014	नन्दी विद्या रंजन		पुनवास फव कोकराहार पी० ओ० - कोकराहार जिला - कोकराहार असम	डी० ए० ए० ए०	सितम्बर - 86	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.01.89	303	
48015	नन्दिता	श्री सुरेश शर्मा	70 नं० - 1148 हरान नगर, मौकल टाउन सुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1988	पंजाब	पंजाब	1.1.1997	1881	

48033	नाथ कानिया	गांव - रामपुर पीओ - सरोनग 781317 जिला - बिहार असम	डीओ एचओ एचओ	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.02.2000	608	
48034	नाथ रणजीत कुमार	गांव - पुब भरनागिया पीओ - हरिबारी जिला - मेरीगांव - असम	डीओ एचओ एचओ	मार्च - 1998	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.04.98	608	
48035	नाथ राममलाल	गांव - गोसाईं पट्टी पीओ - बिग जिला - नागांव असम	डीओ एचओ एचओ	जनवरी - 1996	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.09.87	280	
48036	नाथन मेरयाजोती	सार्जेंट कथीराम नाथ गांव - पुब सोनागिया पीओ - चारिगाई जिला - मेरीगांव असम	डीओ एचओ एचओ	मार्च - 1996	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.03.96	672	
48037	नवजीत सिंह	आर्य नगर, पीछे कलका नंदिर फजिल्हा जिला - फिरोजपुर	डीओ एचओ एचओ	1999	पंजाब	पंजाब	15.03.2005	2476	
48038	नवीनत कुमार	मोडो - विशानपुर कथ शहर - मुहादाबाद जिला - मुहादाबाद	डीओ एचओ एचओ	जनवरी - 2007	जेओ आरओ नगर राजस्थान विद्यापीठ (डीप्ट युनिवर्सिटी), सदापुर	राजस्थान	28.07.2008	5054	
48039	नायक महेश प्रसाद नायक	65 - पून विहार कालोनी, जगतपुरा शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डीओ एचओ एचओ	मई - 2004	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	राजस्थान	28.08.2008	5072	
48040	नायर सीमा	नो नो - 80 - जेल सिंह कालोनी रोपर (पंजाब)	डीओ एचओ एचओ	1994	पंजाब	पंजाब	12/7/1995	1508	
48041	नायर अनीत	1101/5 - डी, टीओर नगर, सामने हुनकन टैक्स कालोनी सुधियाणा (पंजाब)	डीओ एचओ एचओ	1990	पंजाब	पंजाब	26.8.1998	1860	
48042	नायर दीपी	मोह - सैनागढ़ पीछे पोखर हाउस पठानकोट (पंजाब)	डीओ एचओ एचओ	नवम्बर - दिसम्बर 2005	डीओ एचओ युओ एचओ एचओ	पंजाब	20.02.2008	3104	
48043	नायर सजीव नायर	टीयर कालोनी कनी निधान शहर जिला - जलन्धर (पंजाब)	डीओ एचओ एचओ	1991	पंजाब	पंजाब	29/12/1994	1425	
48044	नीलम	सी - 562 फेस - 4 माहलिन, रोपर (पंजाब)	डीओ एचओ एचओ	1993	पंजाब	पंजाब	28.02/1995	1434	
48045	नीक पयासर	नो नो - 285, गली नो - 2 नवा जोगिन्द नगर पीओ - पीओ एचओ एचओ	डीओ एचओ एचओ	2004	डीओ एचओ युओ एचओ एचओ	पंजाब	05.11.2005	2851	
48046	नीतु	353/5 - 380 हीरा सिंह रोड युसर मंडी सुधियाणा (पंजाब)	डीओ एचओ एचओ	1997	पंजाब	पंजाब	27.5.1999	2036	
48047	नीतु	2/1 - गान्धी नगर शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डीओ एचओ एचओ	जनवरी - 2007	डीओ जीओ सिंह आरओ पीओ युनिवर्सिटी दिल्ली	राजस्थान	13.01.2009	5180	
48048	नीतु सुजीता	नो नो - 501, फेस - 4, मोहाली तहसील - कसर जिला - रोपर (पंजाब)	डीओ एचओ एचओ	1998	पंजाब	पंजाब	18.6.1999	2042	
48049	नेनी अजुज	पल्ला पीओ एचओ - जिनी तहसील - जलन्धर जिला - कुलु	डीओ एचओ एचओ	2008	बरकपुरा युनिवर्सिटी, नेपाल	हिमाचल प्रदेश	24.11.08	217-ए	
48050	नेनी विनायद कुमार	पीओ एचओ - किराला तहसील - सांगला जिला - किर्गोर	डीओ एचओ एचओ	2004	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	हिमाचल प्रदेश	18.08.08	183-ए	
48051	नेमा सेनी	7 नवा फैजल कालोनी पीछे सिकरेड हर्ट स्कूल जयपुर (पंजाब)	डीओ एचओ एचओ	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डीओ एचओ युओ एचओ एचओ	पंजाब	23.03.2008	3181	

नियोग विपुल कुमार	गांव - कशीकाटा पीठ ओठो - बिहारीगंगा जिला - गार्म लक्ष्मीपुर असम	डी० एच० एम० एस०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	12.05.88	270
48052							
48053	गांव - लेक जोगंदार सोनरीगाम पीठ ओठो - लेक जिला - जोरहट असम	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 2005	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	30.10.06	975
48054	गांव - मुलानी पीठ ओठो - बोरसुखार जिला - बिहगई असम	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.10.98	812
48055	रेमेडी होम्योपैथी क्लिनिक, माथुर, मोहानी तहसील - खापर (रोपर)	डी० एच० एम० एस०	1998	पंजाब	पंजाब	21.6.1999	2044
48056	गांव - यसकुल मोरंगखोम संजखलायाम कर्मनागाछड इमफाल - 795001 मणिपुर	डी० एच० एम० एस०	अक्टूबर - 2006	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	06.06.08	1068
48057	1) चांगलों टाउन पीठ ओठो / पीठ एस० चांगलों - 792120, ७७ पीठ 2) मार्फत सलमेन नमैयु, अन्वर सैकटरी (पाट अकेरिस) सिविल सेक्टोरिएट	डी० एच० एम० एस०	27.06.2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	13.08.2008	86
48058	न० ३० - 3929, दुमपुरिया, इचबोवाला कलाय लुधियाना	डी० एच० एम० एस०	2003	डी० एच० यु० एच० एस०	पंजाब	18.08.2006	3037
48059	नया बाजार, सरन शहर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	2004	डी० एच० यु० एच० एस०	पंजाब	24.03.2006	3004
48060	न० ३० - 61 - इमकम टैक्स कालोनी, राम नगरीया रोड, जगपुरा शहर / जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एस०	2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	11.06.2008	5029
48061	1 - परावनाथ कालोनी, वैशाली नगर शहर - अजमेर जिला - अजमेर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2006	डी० आर० नगर राजस्थान विभागीय (डी० एच० युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4860
48062	टाइप - 4, सैक्टर - 2, क्वार्टर न० - 1 सी पी डबल्यू डी कालोनी, निर्मल विहार - 1, शहर - सिहाबर तार जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2007	डी० जे० सिंह आर्यो पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	राजस्थान	15.01.2009	5178
48063	न० स-1-2-डी वालमिक गाँव, गुजराटस बटला जिला - गुजरात (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	मई - जून 2003	डी० एच० यु० एच० एस०	पंजाब	18.06.2007	3129
48064	पी० पी० ओठो - अनटाली खुदत शहर - ठकरील - देगना जिला - गंगौर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एस०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	एम० यु० ऑफ हेल्थ साइंस, नासिक	राजस्थान	2.12.2008	5149
48065	गांव - अरसुनगरी पीठ ओठो - अरसुनगरी 785640 जिला - सितसगर असम	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	07.12.2002	868
48066	केचस टरेस लेबन, शिलोंग - 4	डी० एच० एम० एस०	मार्च - 2006	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	मेघालय	27.4.2006	280
48067	न० ३० - 1746, फेस - 5, मोहली (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	18.9.2000	2363

नं.	नमि	पुत्री श्री अयाद अली खान	सोहला चौक अकान्त मल्लर कोटला जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	4.4.2000	2243		
48068											
48069	गुपारत प्रवीन	एच० डी० मोहिउद्दीन	मार्केट पन्थ मेडिकल हॉल, मोहो - अलाहपुरी पी० ओ० - डी० एच० सी० जिला - दरभंगा बिहार - 846003	डी० एच० एच० एच०	2008	डी० डी० एच० युनिवर्सिटी	बिहार बोर्ड	12.10.08	27833		सी० सी० एच० - 2014
48070	ओ.पी. सेरिया	डी० डी० सेरिया	सेरिया नर्सिंग होम, सरोज रोड पानीपत	एच० एच० एच० (HOM)	मार्च - 1988	दा फुकलटी ऑफ होमोपैथी जेदन	हरियाणा	19.10.05	5738-ए		
48071	अंबराय रावो	पुत्री श्री डी० एच० अंबराय	68 - एक एक, सैत इशार सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	5.11.1998	1989		
48072	ओम प्रकाश	श्री जोगिन्द कुमार	95, शाहपुर रोड, पठानकोट जिला - मुरदापुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1982	पंजाब	पंजाब	5/9/1994	1402		
48073	ओम प्रकाश	श्री पुरन राम	न० 70 - 16828 गली ल० - 5, बसंत विहार कालोनी चण० एच० जिला - मटीका (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	20/08/1996	1629		
48074	ओम प्रकाश	सुख देव	टिकरी ब्रह्मान्त ताहसील पतवाल जिला - जरीदाबाद	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1985	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	09.10.1985	5351-ए		
48075	ओमकार राय	पुत्र श्री सोहन लाल	न० 70 - 3381, मेहना चौक मटीका	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	17/12/1987	1036		
48076	परीन (सि.) यातेक	श्री तालोम परीन	1) गांव - बोपनी पी० ओ० / पी० एच० कल्याण जिला - देहू सिंग ए० पी० 2) मार्केट टलिंग परीन, देहूटी डेहूटर, हायर एच० टेकनिकल एजुकेशन इटानगर ए० पी०	डी० एच० एच० एच०	7/12/2007	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	5.02.2009	104		
48077	पदम जसवीर सिंह	श्री संत सिंह पदम	687, होम्यो हाउस दामोरा नगर मल्लरकोटला संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	4/2/1993	1335		
48078	पाहवा सविन	राम कृष्ण पाहवा	28 सरन इस्टेट - 2, हिसार	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2005	गंगा फरीद युनिवर्सिटी फरीदकोट	हरियाणा	7.02.08	5815-ए		
48079	पाहवा दीप्ती	पुत्री श्री आर० डी० पाहवा	53 - बी, प्रकाश नगर, मोडल टाउन, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	7.7.2000	2290		
48080	पाहवा गीता	पुत्री ओम प्रकाश पाहवा	बी - 108 मायापुरी फेस - 1 नई दिल्ली - 110084	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	14/03/1989	1142		
48081	पाहवा गुरमीत	श्री एच० एच० पाहवा	न० 70 - 1527, फेस - 10, मोहाली ता० - जलन्धर, जिला - रोहत (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	20.8.1998	1911		
48082	पाल अरिन्दम	श्री सविधानन्द पाल	1) खाटर न० - बी - 27, सेक्टर - 8, एच० एच० सी० कालोनी पी० ओ० हलदीय टाउन सिंग जिला - सिंदगापुर - 721807 2) मार्केट सविधानन्द पाल गांव - मजान पी० ओ० - मयपुर जिला - सिंदगापुर	डी० एच० एच० एच०	2004	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल कलकत्ता	26.7.04	26420		सी० सी० एच० - 2838

48083	पाल सुजीता	डॉ० मगबती पाल	मार्केट - स्टॉक क्लर, डी० को एम० एम० होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गुरु नगेश नगर, पीछे दीदी का मकान। ओरंगाबाद - 431004	डी० एम० एम० एम०	1998	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल कोसिल, कलकत्ता	17.3.98	21467	सी० सी० एच० -2654
48084	पाल संगीता	श्री सुदेव चन्द पाल	लक्ष्मी रोडल इस्ट गुरु जीर रोड, गांव - गरहा पी०ओ० - फिल्लोर जिला - जलन्धर	डी० एम० एम० एम०	2004	डी० एम० एम० एम०	पंजाब	24.10.2005	2943	
48085	पालक रमोन्दा		गांव - केकुरीयाकु खना पी० ओ० - केकुरी यावा - चकुखना जिला - एन लक्ष्मीपुर असम	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.06.85	151	
48086	पालिवाल लोकेश	श्री गजब साल पालिवाल	गांव - सेमटाल लक्ष्मी - गीगांवा शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	डी० एम० एम० एम०	जून - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एम० एम० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	7.11.2008	5131	
48087	पालता आशिस पाल		मजीका मार्केट वरीटन बस्ती जी० एम० रोड जिला - बरेली असम	डी० एम० एम० एम०	फरवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.02.99	721	
48088	पालता ज्योति	श्री श्रीन्द्र सिंह पालता	नं० 70 - 3850, नेता गती मकस चौक मटीका (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2004	डी० एम० एम० एम०	पंजाब	01.09.2008	3288	
48089	पाण्डे शैलेन्द्र	श्री एम० के० पाण्डे	पुन श्री एम० के० पाण्डे नं० 70 - 8/1908, आनन्द नगर, कटारा बस्ती - 272001	डी० एम० एम० एम०	2003	डॉ० बी० आर० ए० युनिवर्सिटी	पु० पी० बोर्ड लखनऊ	20.10.3	26516	सी० सी० एच० -2693
48090	पाण्डे अपरिन्द कुमार	श्री एम० एम० पाण्डे	1) 618 - टाक - 4, लक्ष्मी बाई नगर नई दिल्ली - 110023 2) जी - 37, वर्तमान मधुर मार्केट मधुरविहार, फैस - 3, दिल्ली - 110096	डी० एम० एम० एम०	2007	डी० एम० एम० एम०	दिल्ली बोर्ड युनिवर्सिटी दिल्ली	10.05.07	3511	सी० सी० एच० -2572
48091	पाण्डे मनोज कुमार		मार्केट - चन्दा सुषण पाण्डे गांव - गुनियापाट्टी डुबरी - 703301 जिला - डुबरी असम	डी० एम० एम० एम०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	09.11.2000	767	
48092	पाठी अनुपमा	पुत्री श्री सत पाल पाठी	नं० 70 - 3075 सेक्टर - 38 - डी, कन विगार्ड	डी० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	16/09/1987	997	
48093	पंडित मोनलिसा	आ० बी० पंडित	1) एट सविन्दा पालि पी० ओ० - इन्दा खरारगपुर डी टी भिदनापुरी 2) बिरसा नगर, जॉन नं० - 9, डालडिंग नं० - 7 कोस रोड - 3, जमशेदपुर - 831004	डी० एम० एम० एम०	2001	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल कोसिल, कलकत्ता	12.7.01	23602	सी० सी० एच० -2655
48094	पंडित काशिक कुमार		एम० एम० रोड पी० ओ० - नगांव जिला - नगांव असम	डी० एम० एम० एम०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.04.88	292	
48095	पंडित मदन मोहन		फिल्लोन नगर बाय लाइन - 4 लालगणेश गुवाहाटी - 34	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.08.87	240	
48096	पंडित राधा रमण		जमुना होम्योपैथी क्लिनिक पास काली मंदिर चबलाबकरा खालागोश, गुवाहाटी - 34	डी० एम० एम० एम०	मार्च - 1993	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	06.05.98	680	
48097	पंडेया आकक्षा	श्री दत्तात्री पांडेया	पी० पी० ओ० - कुशालगर्ह शहर - बंसवारा जिला - बंसवारा	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 2007	विश्व युनिवर्सिटी, उदयपिन	राजस्थान	7.11.2008	5136	

48098	पत्नी विकास	श्री राजेन्द्र कुमार पत्नी	जवाहर नगर, बस स्टैंड, पास आर कपिल देव स्पोर्ट्स क्लब शहर - चंदगढ़	श्री एम एम एम एम	जनवरी - 2007	जो आर नगर राजस्थान विधानीय (सीट युनिवर्सिटी), चंदगढ़	राजस्थान	18.12.2008	5188		
48099	पद्म शक्ति	श्री राजेन्द्र पद्म	1) सवाल एरिया पीओ ओ - पश्चिम जिला - बस स्टैंड रोड पीओ - 791102 2) मार्केट टीओ ट्यूब, जो ईओ (पीओ) पीओ जिला - पीओ कालोनी नहरलापुर पीओ कोन - 0302248786 / 8438044105	श्री एम एम एम एम	जुलाई - 2007	एम टी आर युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	31.7.2007	73		
48100	पतिरसा नवीन	श्री एम एम एम पतिरसा	नो नो - 189, बार्ड नो - 3, आदर्श नगर पीछे साइड स्ट्रीट	श्री एम एम एम एम	2008	जो आर नगर राजस्थान विधानीय (सीट युनिवर्सिटी), चंदगढ़	हिमाचल प्रदेश	2.09.08	210-ए		
48101	पत्नी सुरेश्वर सिंह	श्री बलवत्त सिंह पत्नी	श्री पीओ ओ - कुसुमपुर जिला - जलेश्वर (पंजाब)	श्री एम एम एम एम	1981	एम पीओ नोपाल	पंजाब	26.05/1985	801		
48102	पत्नी लदीप	श्री सुरेश्वर सिंह पत्नी	श्री पीओ ओ - टुंग सेन, बटला रोड, अमृतसर (पंजाब)	श्री एम एम एम एम	1996	पंजाब	पंजाब	22.1.1998	1778		
48103	पंजाब पूरन	श्री एम एम एम पंजाब	हरी मदन, रैव कोस रोड, सनी साइड सोलन	श्री एम एम एम एम	2008	जो आर नगर राजस्थान विधानीय (सीट युनिवर्सिटी), चंदगढ़	हिमाचल प्रदेश	5.11.08	214-ए		
48104	पंजाब प्रवाल कुमार	श्री एम एम कुमार पंजाब	पास गंगा नदी, गली नो - 4, हनुमान स्था, शहर - बीकानेर	श्री एम एम एम एम	नवंबर - दिसंबर 2005	बाबा फरीद युनिवर्सिटी (पंजाब)	राजस्थान	6.06.2007	4840		
48105	प्रभाकर नवीन	श्री विजय प्रभाकर	श्री पीओ ओ - बल्लिग नगर पीओ ओ - सिस्लीन जिला - फरीदाबाद साहिब (पंजाब)	श्री एम एम एम एम	नवंबर - दिसंबर 2005	श्री एम एम यु एम एम एम	पंजाब	22.08.2008	3252		
48106	परीक रवि	श्री देवेंद्र परीक	इन फास्ट ऑफ बौद्ध टैंक, दबोक शहर - दबोक जिला - चंदगढ़	श्री एम एम एम एम	जनवरी - 2007	जो आर नगर राजस्थान विधानीय (सीट युनिवर्सिटी), चंदगढ़	राजस्थान	28.08.2008	5078		
48107	परीक त्रिकुम	श्री रामपाल परीक	पुराना लाइन, मोहल्ला सुधारन शहर - गंगाशहर जिला - बीकानेर	श्री एम एम एम एम	जनवरी - 2008	जो आर नगर राजस्थान विधानीय (सीट युनिवर्सिटी), चंदगढ़	राजस्थान	26.07.2007	4886		
48108	परिहार नवीन	श्री सुभाष परिहार	मार्केट श्री आर जो परीहार नो नो - 237 - डी, पास पुराना पंच हाउस, कुश्न नगर शहर - अजमेर जिला - अजमेर	श्री एम एम एम एम	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5108		
48109	परमार भिमा	पत्नी विक्रम सिंह	4 - डी - 61 जी एच - 82, सैक्टर - 20 पंचकुला	श्री एम एम एम एम	2007	पंजाब युनिवर्सिटी, लखनौ	हरियाणा	8.08.09	5984-ए	सीट सीट एम - 2737	
48110	परमार विवेक	श्री आर एम परमार	गांव - जलोली पीओ ओ - जलोली नदी हनीपुर	श्री एम एम एम एम	2008	बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	01.11.06	188-ए		
48111	प्रशान्त लाल	श्री राज कुमार पतिरसा	मोहल्ला बार्ड का सुनाम जिला - संगरूर (पंजाब)	श्री एम एम एम एम	1985	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	22/04/1991	1241		

48126	पठानिया सत्याजीत	बलजीत सिंह पठानिया	मोहो - जटवारा पास चौपाल सोनीपत	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 88	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिकल, जयपुर	हरियाणा	23.01.97	5558-ए	
48127	पठानिया सुमन	श्री ओ० पी० पठानिया	मार्केट श्री रतन बन्द, मो० कालोनी गली न० - 2 सिविलिन्द, जिला - फरीदगढ़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996		पंजाब	5.12.1997	1738	
48128	पठरिया मोनिका	श्री आर० के० पठानिया	न० 30 - 15, फेस - 4, मोहाली तहसी - खारर जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996		पंजाब	25.8.1998	1927	
48129	पटौदार नरेश कुमार	श्री जीवन राम पटौदार	गांव - एकू पीस्ट ददेगा तहसी - बसवारा शहर - बसवारा जिला - बसवारा	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2008	जै० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4893	
48130	पटनायक जिवेन कुमार	श्री हाता किरोर पटनायक	गांव - बरसाही पी० ओ० - युववाही, जिला - बुधवा उबीसा - 762005	डी० एच० एच० एच०	1992	उत्कल युनिवर्सिटी	उड़ीसा बोर्ड	15.11.01	261600	डी० सी० एच० - 2711
48131	पटनायक निविरिता	श्री सत्या नारायण पटनायक	आर. डी. होमो० मेडिकल कॉलेज जिला - उदयपुर	डी० एच० एच० एच०	जून - 1998	उत्कल युनिवर्सिटी	राजस्थान	19.05.2007	4834	
48132	पटवारी हरी धरण		गांव - दारा - कहरा पी० ओ० - दोरा - कहरा - 781101 जिला - कामरूप असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2002	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिकल, असम	असम	11.10.2003	680	
48133	पटवारी करुणा काता		सरगांव, गुलाहटी - 27 जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिकल, असम	असम	17.08.98	486	
48134	पाल स्वप्न	श्री नमोना गाय पाल	गांव - डेटपाल (एन) पी० ओ० - नवलपार पी० एच० हरा जिला - मार्ग - 24 परगना पिन - 743229	डी० एच० एच० एच०	2000	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल क्रिस्टल, कलकत्ता	13.6.2000	23068	डी० सी० एच० - 2828
48135	पाल आनन्द		माकसा - सुरेवा बन्दा पाल गांव - सपटगम पी० ओ० - सपटगम - 783337 जिला - डुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिकल, असम	असम	22.01.2001	784	
48136	पाल विधान धरण		गांव - मोहिन पारा डेट पी० ओ० - मोहिन पारा बारा - कधीगाड़ जिला - कछर, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिकल, असम	असम	06.01.89	314	
48137	पाल विद्युत		गांव - धलाई बाजार पी० ओ० - धलाई बाजार जिला - कछर - 8, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिकल, असम	असम	16.07.98	587	
48138	पाल नारायण बन्दा		डी० सी० रीक (पंजाबी) पी० ओ० - डुबरी - 783301 जिला - डुबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1992	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	असम	04.05.98	700	
48139	पाल प्राण कुमार		मार्केट - बड निरेन साईकिगा मेमोरियल होमो० क्लीनिक बालबाट मार्ग न० - 1 - 785612 जिला - गोलाघाट असम	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1993	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिकल, असम	असम	18.11.84	100	
48140	पाल सुनन्दा		मार्केट - बुगाब सीएस पील गांव - सपटगम पी० ओ० - सपटगम 78337 जिला - डुबरी असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिकल, असम	असम	21.11.2000	772	

48141	पाल सुपर्णा	मार्फत - एक्स- पुलिस लाइन पीछे इनकम टैक्स ऑफिस पीओ - तेजपुर जिला - सोनितपुर, असम	डी० एच० एम० एच०	सितम्बर - 2003	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.05.04	996	
48142	पाल विनोदी	पुत्री श्री पुरुषोत्तम पाल	डी० एच० एम० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	11.7.2000	2300	
48143	पाल श्रैवा	श्री पुरुषोत्तम पाल	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	6.4.1988	1826	
48144	पालबाम संगमा	एच पी जोसेफ	डी० एच० एम० एच०	जानवरी - 2007	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	मेघालया	5.2.2007	268	
48145	पेगु बिराज्यामोति	गांव - अमोलापट्टी पीओ आर् - गुमुखा जिला - धेमाजी असम	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.10.2000	747	
48146	पेगु मामोनी	मार्फत - मिस्टर गोविन्द कुमार पुगु गांव - अकमली पीओ - उखमरी जिला - धेमाजी असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	12.07.2001	802	
48147	पेगु पुलिस कुमार	किराम देवधार ग्राम पीओ - मोदेईबिल (गजुली) जिला - जोरहट असम	डी० एच० एम० एच०	सितम्बर - 2003	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.08.04	900	
48148	फुकन अनन्ता	गांव - माहापुरा खाट पीओ - पुगुपुखरी - 786321 जिला - सिबसागर असम	डी० एच० एम० एच०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	06.09.2001	608	
48149	फुकन निरंजित	गांव - बेनरोना खोजा आरु का डी० रोड, गोलाघाट पीओ - जिला - गोलाघाट 785621 असम	डी० एच० एम० एच०	मार्च - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.07.07	1008	
48150	फुकन काकोटी	गांव - बरदेग पटशाला पीओ - बरनंग जिला - बोक्सा, असम	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	07.11.84	132	
48151	कुल पुनीत के.	नं० नं० - 39 शांति पार्क पास अगर नगर दुधियावा	डी० एच० एम० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	09.11.2005	2988	
48152	कुलीन्दर प्रीत सिंह चट्टा	नं० नं० - 186/8 मोहल्ला दोमरौन गली नं०- 4 पटियाला	डी० एच० एम० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	29.01.1986	886	
48153	कुल प्रवीण कुमार कुल	नया बाजार सुताम मंडी सुताम जिला - सांगरूर	डी० एच० एम० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	20.03.1986	880	
48154	पाइनीर रानी	पोहाखिव पौना धर्दनी शिलोंग	डी० एच० एम० एच०	अक्टूबर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	मेघालया	30.7.2004	254	
48155	पोलय सोनजीत	पुत्र - जीवनाथ पोलोंग गांव - धरिया प्यार पीओ - मेलागरी 785632 जिला - जोरहट असम	डी० एच० एम० एच०	दिसम्बर - 2005	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	21.02.07	999	
48156	पोमील प्रीत	गांव - दनेवाल (दबवाली रोड) मलौट जिला - मुक्तसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	27.03.2008	3179	
48157	पूजा रानी कुंगर	मिस पूराम चन्द खत चन्द क्वाथ भकट खत तख - हलसकी सड़ जिला - मर्हीडा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	3.3.2000	2232	
48158	पुनम	अदरुन बाजार, पठानकोट जिला - गुवांसपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	26.3.1998	1815	

48159	पूनाम	श्री हरी राम	173/2 लक्ष्मण नगर गिल्लर गंज लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2003	डी० एच० यु० एच० एच० एच०	पंजाब	20.11.2004	2804		
48160	पूनाम	श्री लक्ष्मण सिंह	10/97 सामने गली बागू गाल सिंह, सखपुर रोड तरन तारन	डी० एच० एच० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एच० एच०	पंजाब	04.01.2007	3080		
48161	पूनाम परसर	श्री मनोहर लाल	न० 30 - 246, एच० आर० जी०, फेस - 2, मोहाली तहसील - खरार जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	11.9.1998	1948		
48162	पूनाम धनी	श्री रमेश कुमार	न० 30 - 674 संजय गांधी कालोनी लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1996	डी० एच० एच० एच०, पंजाब	पंजाब	12.03.2001 27.11.2002	2463	डी० एच० एच० एच० (सेविड वि०) 2000 पंजाब	
48163	पुष्पाल करतार सिंह	अमर सिंह	गांव - कैलाश पी० ओ० - टिकरी जिला - करनाल	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1984	कॉमिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	21.06.89	5499-ए		
48164	पोरेल निलाकाश		गांव - कनेनी पी० ओ० - तेवरीवाल - 794/175 जिला - सोनिपुर असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.12.86	208		
48165	प्रधान अमालेन्दु	सर्वीश श्री निखुंज बेहरी प्रधान	1) 487, रविविदा सर्प, कोलकाता - 700005 2) गांव एच० पी० ओ० - सोरकल पी० एच० खजुरी जिला - पुरब मेदीनीपुर	डी० एच० एच० एच०	1980	सेट बंगाल कॉमिल, कलकत्ता एच० युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	सेट बंगाल कॉमिल कलकत्ता	3.2.81	7881	डी० एच० एच० एच०	डी० एच० एच० एच०
48166	प्रधान अशोक कुमार	सर्वीश श्री मुलिन विहारी प्रधान	487 रविन्द्रा सरानी, कोलकाता - 6	डी० एच० एच० एच०	1978 1986	सेट बंगाल कॉमिल, कलकत्ता	सेट बंगाल कॉमिल कलकत्ता	10.8.80	6787	डी० एच० एच० एच० 1986 युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	डी० एच० एच० एच०
48167	प्रजापति रविन्द्रा	श्री काजीद मौ कुमार	13 - राम नगर कालोनी रविविहारी पुरा टेक रोड शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5096		
48168	प्रजापति विमोद	श्री बाबुदेव प्रजापति	17/581 - सी - कुम्हली हाउसिंग बोर्ड शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.12.2007	4966		
48169	प्रकाश दिनोद	श्री विरगन्धी साल श्रीवासवा	पास गांधी स्कूल, नमक कटरा शहर - भरतपुर जिला - भरतपुर	डी० एच० एच० एच०	1982	आगरा युनिवर्सिटी पंजाब	राजस्थान	20.03.2008	5008		
48170	प्रकाश दिव्य	श्री ज्ञान प्रकाश	पी० पी० ओ० - शाहकोट या नकोदार जिला - जलन्धर	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1984	डी० एच० एच० एच०, पंजाब	पंजाब	07.08.1985	811		
48171	परमजोत सिंह		दरसन होमोपैथी फार्मसी १० टी० रोड हवेलीवाल पी० ओ० जिला - मगध असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2003	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.02.04	883		
48172	प्रसाद मनीष	डॉ० महावीर प्रसाद	बी - 1/1, प्रन्टीक अपार्टमेंट दुधौली पी० ओ० - सीनरी जमशेदपुर झारखंड - 831011	डी० एच० एच० एच०	2007	युनिवर्सिटी ऑफ इरद्वान एच० पी० मोपल	सेट बंगाल कॉमिल कलकत्ता	10.9.07	28787	डी० एच० एच० एच०	डी० एच० एच० एच०
48173	प्रसाद गया	राम मनोहर पाण्डे	सरकारी होमोपैथी डिस्पेंसरी छेरी कलान पी० ओ० - रावीवाल जिला - गुडगांव	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1975	सेट होमोपैथी कॉमिल एच० पी० मोपल	हरियाणा	28.04.93	6571-ए		

क्र.सं.	प्रस्ताव	नाम - मेरापानी पीठ ऑफ - मेरापानी सादा - फेकटींग जिला - गोलाघाट असम	डी० एच० एच० एच०	जून - 1979	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	असम	17.08.98	711	
48174	प्रसाद हरेकृष्ण	गोवि - मेरापानी पीठ ऑफ - मेरापानी सादा - फेकटींग जिला - गोलाघाट असम	डी० एच० एच० एच०	2001	डी० एच० एच० युनिवर्सिटी	बिहार बोर्ड	22.10.03	27427	सी० पी० एच० -2560
48175	प्रसाद रामानुज अर्चना	1) एट सोनपुर पीठ ऑफ - मेरहवा 822114 झारखंड 2) बाबू मार्केट मेरहवा झारखंड	डी० एच० एच० एच०						
48176	प्रसाद (सि.) अर्चना	1) सिधिया पीठ ऑफ सधमुरा जिला - मोपालगंज बिहार 2) मार्केट सिट्टर आरु पसाद खाटार नं० - 03, टाक्ष - 3 फोरेस्ट कालोनी पास साधमुरा ए-सेक्टर, नहरलागुन ए पी० फोन - 9436232817/9436233623	डी० एच० एच० एच०	28.07.2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	19.08.2008	96	
48177	प्रसाद निशा	1302 सेक्टर - 2, पंचकुला	डी० एच० एच० एच०	1988	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	7.03.07	5791-ए	
48178	प्रसाद राजेन्द्र	177- बी पी० एच० एच० सी० कालोनी नया नंगल तह० - आनन्दपुर साहिब जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1981	पंजाब	पंजाब	30/01/1989	1107	
48179	प्रसाद गुरु सिंह राजनी	मोहिन्द प्रताप सिंह, बार्ड नं० - 9 बरवाला जिला - हिसार	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1990	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	28.04.93	5672-ए	
48180	प्रतिभा शर्मा	3 - बी - 7, महावीर नगर, एक्सटेशन शहर - कोटा जिला - कोटा	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.03.2009	5199	
48181	प्रतिभा	पुत्री श्री एच० एच० नेपाल	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	15.9.1998	1957	
48182	प्रीत कंवल	डी० पी० ऑफ - चोलन तह० - जयराय जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	9.11.1998	2186	
48183	प्रीती	पत्नी विनित मोंगा 599 गली तलीनवाली सिरसा	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1999	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	25.01.02	5685-ए	
48184	प्रीति पाटिया	एच० एम - 172 रूप नगर पीठ ऑफ - कटरा कर्म सिंह अमृतसर	डी० एच० एच० एच०	2003	डी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	09.11.2005	2982	
48185	प्रिया	मार्केट श्री मोहिन्द प्रताप सरीन भुवरग मोहल्ला नवा शहर	डी० एच० एच० एच०	2002	पंजाब	पंजाब	19.11.2003	2861	
48186	प्रियंका	नं० नं० - 2612, फेस - 10, एच० एच० एच० मोहली	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	21.4.1996	1820	
48187	प्रमिला	नं० नं० - 2501, नार्थ रणधीर सिंह नगर लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	17/03/1997	1694	
48188	पुरुषोत्तम सिंह	966 सेक्टर - 9, पंचकुला	डी० एच० एच० एच०	1995	सी० एच० एच० एच०, पंजाब	हरियाणा	13.01.97	5640-ए	

48188	परकबी मामी	श्री चार्डो के० परकबी	मार्फत एडवोकेट गुरवराय राय कृषी, गली नं० - 8 अहोबिल (पंजाब)	डी० एच० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	30.7.1988	1899	
48190	पूनाम दास आदिवा	पत्नी डा० प्रताप दास/किरा	डी० पी० ओ० - कल्याण महसिल - सी० एच० दरही जिला - सिवाली	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2003	महाराष्ट्र, युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नासिक	हरियाणा	21.01.09	5861-ए	
48191	पुनीर कानल प्रताप सिंह	श्री कृष्ण बीर सिंह	135 - रणजीत नगर, खटीपुरा	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान, युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5088	
48192	पुंज भारत	श्री कर्म चन्द पुंज	नं० 70 - 834 फेस नं० - 2, जमालपुर	डी० एच० एच० एच०	2001	पंजाब	पंजाब	05.09.2002	2802	
48193	पन परमेश्वर	श्री हरजिन्द सिंह पन	268/सी राजपुरा नगर, फिरोजापुर	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	7.1.1998	1771	
48194	पुरी रिमा	श्री राजेन्द्र पाल पुरी	878/1 - चार्ड नं० - 13, महावीर कालोनी पुनी अबादी शहर - श्री गंगानगर जिला - श्री गंगानगर	डी० एच० एच० एच०	2005	बाबा कपील युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	राजस्थान	2.07.2007	4846	
48195	पुरी दीप्ती	पत्नी श्री एच० एच० पुरी	नं० - 308/2 मेजर राम सिंह रोड सिविल लाइन, बुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2418	
48196	पुरकावस्थ अरुण कुमार दास		सरदा लगज चतुबरी गुवाहाटी - 07	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.04.85	126	
48197	पुरकावस्थ विपाकर		धाना रोड मरगरीटा पी० ओ० - मरगरीटा जिला - त्रिचिकिया असम	डी० एच० एच० एच०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.09.2000	494	
48198	पुरकावस्थ मुजुला		मुलापाली धलेसर पी० ओ० - अमरावली - 798007 त्रिपुरा	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.12.84	105	
48199	पुरोहित पुनर	श्री राम प्रकाश पुरोहित	5/41 - पारसराज नगर धर का बालाजी	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 2006	राजस्थान, युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.12.2007	4976	डी० सी० एच० - 2756
48200	कुरेशी मोहम्मद मोहमुनिन	श्री अजिमुद्दीन कुरेशी	पोस्ट कश्मियान शहर - मिलावारा शहर - मिलावारा	डी० एच० एच०	1978	स्टेट होमोपैथी कॉलेज एच० पी० नेपाल	राजस्थान	11.06.2008	5027	
48201	रमा धनजोय		गांव - अमोखुली पी० ओ० - रानी जिला - कांनरूप असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.04.98	590	
48202	रमा मुनिन्दरा		मार्केस - कालेसर रमा गांव - पलसा पारा पी० ओ० - सिनगरा 781135 जिला - कांनरूप असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1993	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.07.2001	665	
48203	रबना राणा	श्री ओम प्रकाश	नं० 70 - 2017/9 - डे शिवपुरी बुधिया गली नं० - 2 बुधियाणा	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	13.06.2000	2514	
48204	राधेश्याम	श्री कैलश चन्द शर्मा	नं० 70 - 307 पहाल नगर बुधिया मंडी सिविल लाइन - 3 बुधियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	31/07/1986	664	
48205	राधव दीप्ती	पत्नी अंशुमन राधव	948 - ए सैक्टर - 29 फरीदाबाद	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2008	पंजाब, युनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	हरियाणा	23.05.08	5830-ए	
48206	रघुवंशी गौरव	श्री राजेन्द्रा प्रताप सिंह	182 - बुधिया नगर, शहर - भरतपुर जिला - भरतपुर	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2006	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	राजस्थान	7.11.2008	5137	

48207	रहमान आदिपुर	मार्फत अब्दुर रहमान गांव - बालागांव पीओ ओ - रंगिया 781354 जिला - कानकपुर असम	डीओ एचओ एसओ	मार्च - 1996	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.03.98	674	
48208	रहमान अजीपुर	गांव - तिलपुरखरी पीओ ओ - सिलपुरखरी 782123 जिला - मोरीगांव असम	डीओ एचओ एसओ	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.06.2001	796	
48209	रहमान जहीपुर	पुत्र - जनाब अली सरकार गांव - अनवाला पीओ ओ - सलकाटा बाजार जिला - बुदुरी असम	डीओ एचओ एसओ	अगस्त - 2005	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	16.01.07	993	
48210	रहमान महापुर	गांव - जयपुर, मोलापुरा पीओ ओ - जयपुर बाजार जिला - मोलापुरा असम	डीओ एचओ एसओ	अप्रैल - 1994	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	11.06.85	146	
48211	रहमान महापुर	गांव - पीओ ओ - बालागांव 781319 जिला - बोरेपेला असम	डीओ एचओ एसओ	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	06.06.08	1075	
48212	रहमान मोहिपुर एस.के.	गांव - ताराजन पीओ ओ - ताराजन बागा - खोवगोन जिला - दिब्रुगढ़ असम	डीओ एचओ एसओ	जनवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	31.12.86	222	
48213	रहमान लुतपुर	गांव - निज बरुआर पीओ ओ - कुरीपुरखरी जिला - दरंग असम	डीओ एचओ एसओ	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.04.2000	541	
48214	रहेजा देवेन्द्र	मो नो - 10466, गली नो - 5, भगवान चौक जतात नगर, लुधियाना (पंजाब)	डीओ एचओ एसओ	1999	पंजाब	पंजाब	17.10.2000	2375	
48215	रहेजा शबीना	पुत्री श्री आरु के 26 - बी, शास्त्री नगर, मॉडल टाउन लुधियाना (पंजाब)	डीओ एचओ एसओ	1998	पंजाब	पंजाब	26.8.1999	2126	
48216	शकुल रूपल	सदर बाजार बरनाला (पंजाब)	डीओ एचओ एसओ	2000	पंजाब	पंजाब	18.02.2002	2589	
48217	राय विपती	स्काटर नो - 169, पुलिस कालोनी, इंदगाह रोड सदर बाजार, नई दिल्ली - 110008	डीओ एचओ एसओ	2008	महाराष्ट्र युनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, हेल्थ साइंस, नारिक	महाराष्ट्र	6.10.07	43719	सीओ सीओ एचओ -2696
48218	राय अमबरिश कुमार	गांव एचड पोस्ट लहुगार पीओ एसओ जमिया जिला - गणियाबाव - 232328 (छत्तीसगढ़)	डीओ एचओ एसओ	2008	जो आरओ नगर राजस्थान विद्यापीठ (डीएच युनिवर्सिटी), चंदपुर	बिहार बोर्ड	27.06.08	28712	सीओ सीओ एचओ -2717
48219	राय आस्था	6 - पी - 8, महावीर नगर एचडगांव बसंत विहार शहर - कोटा जिला - कोटा	डीओ एचओ एसओ	नई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5105	
48220	राय चन्द	मोहो - कोहलीना नगर महला तहसील - कोहलीना जिला - जलन्धर (पंजाब)	डीओ एचओ एसओ	1998	पंजाब	पंजाब	10/11/1988	1087	
48221	राय अमृतपाल सिंह	मो नो - 337, तलवंडी गेट, राजकोट जिला - लुधियाना (पंजाब)	डीओ एचओ एसओ	1992	पंजाब	पंजाब	10/11/1994	1422	
48222	राय गुरपीत सिंह	रोमा जुरसिंह रोम एचड कम्पुटरसाईड कोम्प्युटर हास्पिटल नई लहुका तहसील - फिरोजपुर	डीओ एचओ एसओ	2006	डीओ एचओ एसओ एसओ	पंजाब	10.03.2008	3188	
48223	राय संदीप कौर	मो नो - 20473, गली नो - 28, अजीत रोड मर्टीया (पंजाब)	डीओ एचओ एसओ	नवंबर - दिसंबर 2006	डीओ एचओ एसओ एसओ	पंजाब	09.04.2008	3188	

48224	राय सातपाल	श्री सिधु राम	बीपी ओपी - धाक बुधो के तहसी - जलालाबाद जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	28.2.1998	1813	
48225	रेना विलेन्द कुमार रेना	श्री अशोक कुमार रेना	मार्केट श्री एच० एच० रेना न० 70 - 4/448, आई समाज न्याक, मुरी जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	15.9.1999	2133	
48226	रेना आनदीप कौर	पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह रेना	531 - ए, मॉडल टाउन, एल्टोन लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	4.7.2000	2283	
48227	राज कुमार	शिव करण	गाँव - नाल जोखान पी० ओ० - सिक्की जिला - फरीदाबाद	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1997	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	16.03.99	5490-ए	
48228	राज कुमार	श्री रामेश्वर दास	माकई राज अटावी हाउस, न० 70 - 10130/2 अजन्ता नगर लुधियाना	बी० एच० एच० एच०	मई - जून 2005	बी० एच० एच० एच०	पंजाब	21.06.2007	3133	
48229	राज त्रिलोक		गाँव - करनाल पी० ओ० - परौला जिला - कथुआ (बी० एच० के०)	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.02.2006	920	
48230	राजीव लखनपाल	श्री हरदात लाल शर्मा	न० 70 - 460/5, बेनी नगर पास रेलवे स्टेशन, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	17.11.1997	1732	
48231	राजीव कुमार		गाँव - फुकन गाँव पी० ओ० - सिवासागर जिला - सिवासागर असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1969	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.05.98	420	
48232	राजिन्द कुमार	हरी ओम गुला	1) न० 70 - 551 सैक्टर - 6, पंचकुला 2) एस सी एक - 261, सैक्टर - 16, पंचकुला	डी० एच० एच० एच०	1996	कौंसिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	14.11.94	5606-ए	
48233	राजिन्द कुमार	खुशीर सिंह	माफ्ट राजा कलीनिक वार्ड न० - 5, फरख नगर जिला - गुडगाँव	डी० एच० एच० एच०	जून - 1979	कौंसिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	23.02.98	5686-ए	
48234	राजिन्द महेन्दु	श्री गुरबचन सिंह	नईजा बाजार नूर महल जलकार (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	25/10/1995	1550	
48235	राजिन्द प्रसाद लोहण	राम सिंह	न० 70 - 2104 - बी, खु पास जाट बरशला जिल्हा	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1989	सिंहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	हरियाणा	19.09.1991	5550-ए	
48236	राजिता पम्मी	पत्नी मोहित बघन	1583/4 नदी मोहल्ला पास प्रेम मंदिर अम्बाला शहर	बी० एच० एच० एच० (G.D.C.)	जून - 2004	बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	25.07.06	6786-ए	
48237	राजकौर देवाजीत		आनन्दा नगर, सिमाइल खाना पारा गुवाहाटी - 22 जिला - कामरूप असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.04.98	682	
48238	राजकुमार अजोय		ना - अली जोरहट पी० ओ० - जोरहट जिला - जोरहट असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.05.87	241	
48239	राजकुमार देबीजीत		ना - अली सामने जोरहट कॉलेज पी० ओ० - जोरहट जिला - जोरहट असम	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	31.03.99	729	

48240	राहुमार प्रदीप	सरदामोनी लाइन कॉलेज रोड पीओ ओ - सिलचर जिला - काछर असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1985	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.03.87	228	
48241	रजनीत	अशोक कुमार गार्फत केयर देव बलराम सिडिस शीप नो - 4 सेक्टर - 11, नया नागल अलनपुर साहिब जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	04.01.2007	3075	
48242	रजनी	नो नो - 1296, वार्ड नो - 4 अदामपुर जिला - जलन्धर	डी० एच० एच० एच०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	23.04.2007	3085	
48243	राजपुरीरित सचिता	पास महेश्वरी मदन, स्यामियो का मोहल्ला शहर - रीकानेर जिला - बीकानेर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2008	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	25.07.2007	4872	
48244	राजपुत वन्दकला	1) डी - 42, जीवन पार्क उत्तम नगर नई दिल्ली - 110059 2) राव - धारब्रह्मनाथ पीओ ओ - मुमली तहसील - अरुकी जिला - सोलन हिमाचल प्रदेश - 173221	डी० एच० एच० एच०	2008	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	कॉमिल ऑफ एच० एच० ऑफ मेडिसिन एच० पी० शिमला	6.8.08	203-ए	डी० सी० एच० - 2837
48245	राजपुत रवि रामचन्द्रा	मार्फत सोना सूर्यवंशी, 67 नया केशव नगर शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2008	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4884	
48246	राजपुत कवी सिंह	सोलन होमोपैथी मेडिकल कॉलेज एच० एच० एच० एच०, सोलन	डी० एच० एच० एच०	2008	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	हिमाचल प्रदेश	5.11.08	215-ए	
48247	राजपुत कुलदीपक	नो नो - 37, फ्लैट - 6 सेक्टर - 56, मोहाली तहसील - जयपुर जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	7.2.2000	2212	
48248	राजेश किरण	डी० पी० ओ - प्रमुखला तहसील एच० एच० एच०, हिसार (हरियाणा)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	21/05/1986	900	
48249	राजेश कुमार	175 वार्ड नो - 2 तिलक कालोनी मेहोला (बुल्लोडा)	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	30.08.89	5519-ए	
48250	राली प्रदीप कुमार श्री वेद प्रकाश	डी - 23, नो नो - 5839, गली नो - 8, नया सिगाजी नगर, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1984	डी० एच० एच० एच०, पंजाब	पंजाब	26.08.1985	823	
48251	रामचन्द्र	डी० पी० ओ मांग चरि तहसील - मुख्तारन जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	10/04/1987	982	
48252	राम किशोर	मार्फत अर्जुन राम, सीनियर टीचर, पास विष्णु बाल निकेतन स्कूल, संजय शहर - नगीर जिला - नगीर	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2004	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	2.03.2007	4817	
48253	राम रघुपाल	डी० पी० ओ - जुलजान तहसील - जाला जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	31/01/1986	888	

शरी समता	श्री शक्ति सिंह	वी० पी० ओ० - जवाली, अमला	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब होम्योपैथी कॉलेज - हिमाचल प्रदेश	17.03.02	128-ए
48271	श्री शक्ति सिंह	मार्केट श्री आर० सी० मल्लोत्रा 34.38	डी० एच० एम० एम०	1991	पंजाब	4.8.1992	1312
48272	पुत्री श्री रमेश चन्द गौरी लोहरियन जगजित जिला - सुधियाना (पंजाब)	म० न० - 98 - डी राज गुरु नगर, लेखियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	11.1.2000	2192
48273	पुत्री श्री राज कुमार	म० न० - 8 प्रीत नगर, फिरोजापुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1993	पंजाब	29.05.1995	1491
48274	पुत्री श्री राम दास	पास तलवडी गेट सेन बाजार रॉयकोट तहसी - जगदीन जिला - सुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	25.01.1991	1236
48275	पुत्री प्रमजीत सिंह राहु	जय मुकुंद धर्मा काटा पास रेलवे स्टेशन शहर - किरा जिला - सुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2008	जो आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	24.07.2007	4869
48276	श्री सरदार सिंह	लाविलनगर पी० ओ० - हुज रंगगढ़ वाया - हवलोरगांव जिला - नगाव असम	डी० एच० एम० एम०	मार्च - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	27.07.98	443
48277	श्री चिहारी चक्रवर्ती	म० न० - 102 प्रताप कालोनी मंडल ग्राम सुधियाना	डी० एच० एम० एम०	2004	डी० एच० यु० एच० एम० एम०	24.10.2005	2923
48278	श्री सुरेश अट्टरी	1) सुनहरी मजिद, फरकाबाद 2) गायत्री होम्योपैथी क्लीनिक 1/44 अवारा विकास फरकाबाद 3) गायत्री होम्योपैथी क्लीनिक लोहई रोड फरकाबाद यु० पी० - 209625	डी० एच० एम० एम०	2007	महाराष्ट्र युनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, मुंबई	20.12.07	44141
48280	श्री राजेंद्र सिंह रसोनी	गाँव - पदनीपारा पी० ओ० - बोनगपारा जिला - कामरूप असम	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	26.03.98	624
48281	श्री राजेंद्र सिंह रसोनी	म० न० - 3025, रीक्टर - 22 - डी वरडीगढ़	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	24/04/1989	1158
48282	श्री राजेंद्र सिंह रसोनी	गाँव - कसवाना पी० ओ० - कसवाना जिला - मणिपुर	डी० एच० एम० एम०	अक्टूबर - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	30.10.98	450-ए
48283	श्री लक्ष्मण सिंह राठौर	192 - रणजीत नगर, खाटिपुल शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एम०	अप्रैल - 2008	जी० जी० सिंह आर्हो पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	26.08.2008	5074
48284	श्री शिव सिंह राठौर	93 - 94 - डी, एम० पी० नगर फट बाघ जी की बरी प्रताप नगर, शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2006	जो आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	24.07.2007	4859
48285	श्री सत सिंह राठौर	गाँव - नतागांव तहसी - नदा जिला - मोहाली	डी० एच० एम० एम०	दिसम्बर - 1984	डी० एच० एम० एम० एम०, पंजाब	30.08.1985	828
48286	श्री मारे लाल रान	92, गुरु अमरदास मार्केट खानवा जिला - सुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1987	पंजाब	29/03/1989	1145

सी० पी० एम०
-2082

f

48287	राधुरी पुराम	श्री राजेन्द्र प्रसाद राधुरी	प्लॉट नं० - 2 गोकुल अपार्टमेंट शक्ति नगर शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	बी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2008	जो आर० नगर राजस्थान विधानी (सी० यूनियन सिटी), उदयपुर	राजस्थान	26.07.2007	4879		
48288	रौत बारवी पुरुषोत्तम	मिस्टर पुरुषोत्तम रौत	1) मार्फत पुरुषोत्तम रोड, 15 रोड नं० - 10 बजरंग नगर, नागपुर - 27 2) मार्फत नन्द किशोर लखे, 123 पौलर सोटावटि वादी नाका - 10 अमरावती रोड नागपुर	बी० एच० एम० एम०	2000	नागपुर युनिवर्सिटी	महाराष्ट्रा कांसिल मुंबई	15.3.2001	31448		सी० सी० एच० - 2857
48289	रवि कान्त	श्री नन्द लाल	नं० नं० - 382, फेस - 1, एच० एच० एम० नगर, मोहाली तहसील जिला - रोहता (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1990	पंजाब	पंजाब	26/08/1992	1303		
48290	रविन्दर कुमार	तारा दन्द	876 प्रेम नगर यमुना नगर	डी० एच० एम० एम०	1981	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सोसियल, जयपुर	हरियाणा	18.03.89	5489-ए		
48291	रावत विरेन्द्र पाल सिंह	श्री पलन सिंह रावत	29, सत्यम मूल चन्द खरी कालोनी सेन्टा रोड, पौबिन्दपुरा शहर - बेवार जिला - अजमेर	बी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2008	जो आर० नगर राजस्थान विधानी (सी० यूनियन सिटी), उदयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4867		
48292	रीमा	श्री खेम राज तिवारी	रेलवे रोड, सुलतानपुर लोक जिला - कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	28.11.1997	1734		
48293	रेनू	श्री सुभाष चन्द	3, जवाहर नगर सोना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1995	पंजाब	पंजाब	5/11/1996	1671		
48294	रिपिका	श्री आर० के० मिश्रा	बी - 36/202 विकास नगर पकडवाल रोड लुधियाना (पंजाब)	बी० एच० एम० एम०	मई - जून 2008	बी० एच० एम० एम० एम०	पंजाब	13.08.2007	3121		
48295	रितु राज	श्री राजेन्द्र कुमार	1) नं० नं० - बी - 2/74 बाग कालोनी, टापा जिला - बरनाला 2) नं० नं० - 10547/6, पुराना अजमेरी, अम्बाला शहर - 134003 3) नैशनल होम्योपैथी रेलवे रोड, अम्बाला शहर - 134003	बी० एच० एम० एम०	2004	बाबी फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	पंजाब कांसिल लुधियाना	30.4.4	2883-ए		सी० सी० एच० - 2891
48296	रीमान रामानन्दा		गॉव - अदिकारिया पी० ओ० जयपुरी पुत्र अली 787057 जिला - चेन्नई जलम	बी० एच० एम० एम०	अक्टूबर - 2004	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	21.11.06	980		
48297	रेहन विकास	श्री सुभाष चन्द रेहान	बटला होम्योपैथी क्लीनिक, डिब्रुगढ़ रोड, सामने की रविन्द सिंह हॉस्पिटल बटला (पंजाब)	बी० एच० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2003	बी० एच० एम० एम० एम०	पंजाब	25.08.2008	3285		
48298	राजेश सोहट	श्री प्रेम चन्द	नं० नं० - बी - 1296, पंजाब बटाल नगर मॉडल टावर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	03.03.1998	1801		
48299	रेखा	श्री रविन्द सिंह	नं० नं० - 1236 फेस - 6, एच० एम० एम० नगर, मोहाली जिला - रोहता (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	7.1.1998	1774		

48315	राय विमलेश्वर	गांव - सोनितपुर पीठ ओठो - सोनितपुर - 784176 जिला - सोनितपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.12.86	218	
48316	राय ब्रन्धन कुमार शाह	चिना पट्टी, नगांव पीठ ओठो जिला - नगांव, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.09.86	179	
48317	राय कांईरी कृष्ण	गांव - देवकोटा पीठ ओठो - कउरी हट - 783394 जिला - डिब्रुगढ़	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.11.2002	882	
48318	राय मीरा	गांव - ऊईपालमारी पीठ ओठो - कथालमारी जिला - नलबारी असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.04.88	288	
48319	राय निर्मल शन्द्र	गांव - जरावरी पीठ ओठो - बोनइपागा जिला - कान्छप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.11.86	187	
48320	राय पंगसापादाम सुजीता	गांव - लाइका खुली पीठ ओठो - सेमलॉम 795010 जिला - इमफाल मणिपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.09.99	558	
48321	राय रत्नजीत	गांव - हरी हिरा गांव पीठ ओठो जिला - नारीगांव असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.04.98	889	
48322	राय सेव्यासांकी	लक्ष्मी बरुण रोड पीठ ओठो जिला - करीमगंज असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.11.86	192	
48323	श्री मनोरत्न रॉय	मार्कत डबो मन्दा दुलाल रॉय, देवेन्द्रा निलोय पीठ ओठो - विधानाद पीठ एच० रबिन्द्रा नगर कोलकाता - 700088 (वेस्ट बंगाल)	पी० एच० एच० एच०	2008	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल कोलकाता	22.7.08	27288	सी० सी० एच० -2854
48324	राय सुदीर रंजन	मार्कत सत्या रंजन रॉय सेन रोड होजइ पीठ ओठो - होजइ जिला - नगांव असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.08.85	164	
48325	राय सुजला	एच० सी० रोड विजयी पीठ ओठो - विजयी 783390 जिला - बोनइपागा असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.05.98	702	
48326	राय तनैया	मार्कत - पुरार कांति रॉय बरीपारा मातीगांव गुवाहाटी - 12	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.10.2000	746	
48327	रुबल	सरकारी सी० सी० स्कूल धापा तहो - बरनाला जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	28.8.2000	2334	
48328	रुचिका गौर	678, दयाल नगर पास युगार मंडी लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2003	पी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	18.03.2005	2841	
48329	रुद्रा शोखर	मार्कत - नरेन्द्र नाथ रुद्रा शोखर होम्योपैथी पोलिक्लीनिक मोरारंट पीठ ओठो - मोरारंट 786070 जिला - सिबसागर, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	10.09.87	242	
48330	रुविन्दर और सेवाल	पी० पी० ओठो - तलपंडी रॉय तहो - रॉयकोट जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	पंजाब	14.2.2000	2219	

48347	साह कृष्ण नन्दन साह	श्री मुलवी लाल साह	1) सतगुरु टेलीकाम, लक्ष्मी नरसिंह सिरि साह बाग, आजमपुर दिल्ली - 33. 2) हाउस नं० 353 बुधरी गांव, दिल्ली - 84 3) एन - 9 सी / 132, टी - हटस लाल बाग, दिल्ली	बी० एच० एच० एच०	1985	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार बोर्ड	28.5.88	22118	बी० सी० एच० -2051
48348	साहा दीपक कुमार		मार्फत बिज नोहन साहा गोद - मेलाधार पी० ओ० - मेलाधार जिला - त्रिपुरा केस्ट त्रिपुरा	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1980	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.11.99	404	
48349	साहा प्रदीप कुमार		कालीबरी रोड गोलोपरा पी० ओ० - गोलोपरा 783101 जिला - गोलापरा, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.07.98	638	
48350	साहा समीर बरन		गांव - जयगुप्तगुल पी० ओ० - जयगुप्तगुल 782423 जिला - नवांग, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.07.98	847	
48351	साहा सुसम्पा		मार्फत डा० पररा चन्द्रा सहा गोद - पन पाला जटिया भगवा पी० ओ० - सुरेगांव 781381 जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2001	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.09.2002	857	
48352	साहा स्वपन कुमार		सालने पोस्ट ऑफिस पी० ओ० - चारली - 784178 सोनितपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	जून - 1978	कॉसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, केस्ट बंगाल	असम	28.03.80	49	
48353	साहदेव कुंति	श्री गोपाल साहदेव	135, ईक कालोनी डगा रोड पास साधु आश्रम हरियाणापुर	बी० एच० एच० एच० एच०	2004	बी० एच० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	05.11.2005	2853	
48354	साहिन रीतद शर्मा		मार्फत - सत्येद सिमरकुल बुकरी बटुपट्टी पास बजाज शॉकन सिमरगर 785840 जिला - सिमरगर, असम	बी० एच० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	डिपार्ट्मन्ट युनिवर्सिटी	असम	10.10.06	963	
48355	साहनी दीपक साहनी	डा० रैल पाल साहनी	338 सेक्टर - 4, पंचकुला	बी० एच० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2008	पंजाब युनिवर्सिटी, पंचकुला	हरियाणा	9.05.08	5826-ए	
48356	साहनी गंगा साहनी	पत्नी दिपक साहनी	338 सेक्टर - 4, पंचकुला	बी० एच० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2008	पंजाब युनिवर्सिटी, पंचकुला	हरियाणा	16.05.08	5827-ए	
48357	साहनी किरी वर्मान	श्री मोहनच राम साहनी	128 - ए ब्लाक सी की रिसर्वा इन्कलेव प्रिन्सपुरा नई दिल्ली - 110034	डी० एच० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	18/10/1988	1088	
48358	साहू स्वपन कुमार		एच० ओ० एच० होमोपैथी कॉलेज पंजाबरी मुवाहाटी - 37	डी० एच० एच० एच० एच०	जून - 1978	कॉसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, केस्ट बंगाल	असम	04.09.83	74	
48359	साहा सुनील	श्री एच० ओ० साहा	बी० पी० ओ० - गवारू एच० - नदीन जिला - हनीपुर	बी० एच० एच० एच० एच०	2008	महाराष्ट्र युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नागिक	हिमाचल प्रदेश	29.12.08	220-ए	

48360	साहू उमर कुमार श्री जगहर लाल साहू	मार्फत जगहर लाल साहू गांव - पीओ ओओ गुमगा, भैमाल जिला - परियोग निम्नपुर वेस्ट बंगाल - 721517 (2) गांव - पतपुर पीओ ओओ - देरबुली पीओ एसओ बरसावे जिला - ईस्ट सिंगभूम - 832101	डीओ एसओ एसओ एसओ	2008	युनिवर्सिटी ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	4.8.05	28310	पीओ एसओ - 2639
48381	सैकिया अनुपम	मार्फत - श्री रतनेश्वर साइकिया गांव - खोलेग सोनोशाल गांव पीओ ओओ - खोदखाट जिला - बिगुर्हा 785676 असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	अक्टूबर - 2004	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी असम	03.11.07	1014	
48382	सैकिया बबीता	गांव - जलाहागांव पीओ ओओ - हवबोरागांव जिला - नगाव, असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	अगस्त - 2001	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	16.09.2002	855	
48383	सैकिया बसिष्ठ राम	सालथ सरानिया खुबुरी गुवाहाटी - 7	डीओ एसओ एसओ एसओ	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	25.05.85	129	
48384	सैकिया चन्द्रकाता	गांव - सकुचबिगांव पीओ ओओ - बोरहाला जिला - जोरहट, असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	24.09.84	77	
48385	सैकिया दीपक कुमार	गांव - भतेमारा गांव पीओ ओओ - परभोदिय जोरहट - 8 - 10 जिला - जोरहट, असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	मार्च - 1965	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	15.09.87	198	
48386	सैकिया दीपाकर	मार्फत पीट्टी मोलाघाट गांव 70 - 1 पीओ ओओ - मोलाघाट जिला - मोलाघाट, असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	21.12.2001	838	
48387	सैकिया दिव्यामोती	मार्फत - कोन्धार साइकिया गांव - कुतिभति गांव पीओ ओओ - जोरहट - 1 जिला - जोरहट असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	नवम्बर - 1995	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	15.07.96	708	
48388	सैकिया घना काता	गांव - बालाजन पीओ ओओ - रंजान दाया - दिताबोर जिला - जोरहट असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	सितम्बर - 1988	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	23.03.93	600	
48389	सैकिया जिवन चन्द्रा	गांव - तेलिया पडुकाटा पीओ ओओ - छरीगांव जिला - नगाव असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	07.07.2003	870	
48370	सैकिया मोनिषा	गांव - कमावरी नामर पीओ ओओ - दुलीपजन जिला - बिगुर्हा असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	अक्टूबर - 2004	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी असम	12.06.08	1083	
48371	सैकिया पानीकर	गांव - चारबदेनी पीओ ओओ - 794184 जिला - लखीपुर असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	5.02.2005	911	
48372	सैकिया प्रदीप	जौनकी नगर मोलाघाट 785621 जिला - मोलाघाट असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	सितम्बर - 1998	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	09.08.99	734	
48373	सैकिया प्रदीप कुमार	गांव - कथनगाव पीओ ओओ - ना अली मोकियाजुली जोरहट - 9 जिला - जोरहट असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन असम	24.09.87	278	

48374	संक्षिप्त संजीव लोचन	गुवाहाटी होम्योपैथी मेडिकल कालेज सुरज नगर खादीलियारा गुवाहाटी - 19	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 1983,	बीई ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.09.84	91	
48375	संक्षिप्त शिखा रानी	मार्कट - अरुण साहकिया गांव - जलौली दिब्रू देवर पी० ओ० - दुखियाजन जिला - डिब्रुगढ़ असम	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - 2005	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	23.10.06	971	
48376	संक्षिप्त अनुपम	1) मार्कट मिस्टर रातनेश्वर साहकिया, खोवांग सोनोवाल गांव पी० ओ० - खोवांग घाट जिला - डिब्रुगढ़ असम 2) पी० एच० सी० डिमोचोंग जिला - चांगलांग	डी० एच० एम० एम०	13.12.2005	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	अरुणाचल प्रदेश	5.02.2009	107	
48377	साइमा अनीस	मार्कट शर्मा बरोल, 14 - 15 - दुर्गा पर अबाबरी शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.12.2007	4980	
48378	सैनी चमनवीप	मोहल्ला, गुरुद्वारा रत्ना	डी० एच० एम० एम०	2006	महााराष्ट्र युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नाशिक	हिमाचल प्रदेश	2.09.08	209-ए	
48379	सैनी रावत्री	मार्कट मिस्टर अरुणा शर्मा, बी - 9, नई कालोनी पुष्प बट्टी शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	11.06.2008	6024	
48380	सैनी मुकेश	2147 - सामने यमनोरी गेट, राजनोरी बाजार शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	4.02.2008	4886	
48381	सैनी अल्का	मार्कट डा० हर्षद कोर रेलवे रोड नमान शहर जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	23/12/1986	981	
48382	सैनी अल्पना	गुरु तेग बहादुर नगर सामने जे० पी० टी० मिस्टर फगवारा, कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1983	पंजाब	पंजाब	5/3/1985	1436	
48383	सैनी मुरलीधर	म० न० - 2845, फेस - 7, मोहली तारु - खरार जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	17.7.1998	1672	
48384	सैनी इन्दजीत सिंह सैनी	म० न० - 1069, फेस - 10, एम० एम० एम० नगर, मोहली जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	31.1.2001	2439	
48385	सैनी मोनिका	म० न० - 2853/2 सैक्टर - 47 - सी सप्लीगढ़	डी० एच० एम० एम०	2004	डी० एच० यु० एम० एम०	पंजाब	12.11.2005	2971	
48386	सैनी परमजोत	गांव - फतेह गुर पी० ओ० - दुलोवाल जिला - होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	12/7/1994	1513	
48387	सैनी सोनिया	412, फेस - 2, मोहली	डी० एच० एम० एम०	2003	डी० एच० यु० एम० एम०	पंजाब	16.08.2004	2746	
48388	सालोदिया प्रवीण कुमार	सी - 324, मोहेश नगर, जयपुर शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	28.06.2008	5033	
48389	सामुदा रजनीत सिंह	म० न० - 28, फेस - 1, उबरन इस्टेट, कुहरी लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	अक्टूबर - 2005	डी० आर० एम० युनिवर्सिटी आगरा	पंजाब	03.09.2008	3289	

48390	रानी किरण लाल शाहनी	श्री ईकर लाल शाहनी	216 - ए - सी - कलास, प्रताप नगर शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	जो आर० नगर राजस्थान विधानीय (सी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	26.07.2007	4882	
48391	रानी विद्या	श्री उदय नरेश चौधरी	नया दीप नगर सिविल लाइन न० 70 - 19 गली न० - 4, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	27.1.1998	1751	
48392	सुलतान मनोज कुमार	श्री एस० ओ० सलवान	मोरीनाथ सुगर मिल्स लिमिटेड मोरीनाथ जिला - रोपर	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - सितम्बर 1993	सी० एच० एच० एच०, पंजाब	पंजाब	25.03.1985	791	
48393	साना बिकास		सर्मा होमियोपैथी क्लीनिक जो भी रोड पी० ओ० - जोरहट - 1 जिला - जोरहट असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1990	मोर्ड ऑफ होमियोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.09.98	451	
48394	समानता इन्दजीत	श्री एच० गति समानता	मार्फत पी० सानत रेलवे क्वार्टर - 462/1, साउथ साइड पी० ओ० खरागपुर सि० - 721301	डी० एच० एच० एच०	2006	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	सेंट्रल बंगाल केसिल कलकत्ता	11.1.07	26516	सी० सी० एच० - 2897
48395	समर लीना	श्री राजेन्द्र सिंह समर	केराव कुंज, 382 - टीवरस कालोनी अम्बामाला शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जो आर० नगर राजस्थान विधानीय (सी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	20.08.2008	5059	
48396	समर सैलेन		गांव - करोंता ब्रह्मिन गांव पी० ओ० - करोंता जोरहट - 8 जिला - जोरहट असम	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	मोर्ड ऑफ होमियोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.09.84	81	
48397	समेर	श्री जगज राज	गांव - होजी खास पी० ओ० - सिमाने ताला तहो - कलिका जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	12.04.2001	2498	
48398	समर नरराज सिंह	श्री धरमजीत सिंह समरा	गांव - सबीमपुर पी० ओ० - सिमवन बेट तहो - जगताल जिला - लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	28.08.2008	3281	
48399	समरा	पुत्री श्री दिव्यबाग चौध तनेजा	न० 70 - 37/5 पोस्ट ऑफिस गली सोरहा जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	21.7.2000	2305	
48400	संदीप	श्री मन सिंह	पी० एच० पी० - दोबरा वाया - पिलानी शहर - दा बिरावा जिला - झुजपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जो आर० नगर राजस्थान विधानीय (सी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	20.08.2008	5087	
48401	संजु अजमेर सिंह	श्री बलदेव सिंह	निका पास पी० पी० ओ० सरहाली कलान तहो तरन तारन जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	16.2.2000	2220	
48402	संजु बलजीत सिंह	श्री संतोख सिंह	डी० पी० ओ० - कोट सिल सिंह तहो एच० जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1975	सेंट्रल बंगाल	पंजाब	2.7.1998	1862	
48403	संजु गुनितर सिंह	श्री गुर अवतार सिंह संजु	गांव - दुग बाला पी० ओ० - छना नगर तह एच० जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	24/12/1986	982	
48404	संजु भूपरीत कौर	पुत्री श्री जगदेव सिंह	1387/1, जी० टी० पी० कैम सेंक्टर - 70, मोहाली तहो - खारा जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	10.11.2000	2390	
48405	संजु नुरिंद सिंह	श्री नुरिंद सिंह	सांजु होमियोपैथी स्टोर नया पुराना कोट रोड नवल शर	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	30.05.2007	3108	
48406	संजु कपिजजीत कौर	श्री सुखदेव सिंह संजु	एस० सी० ओ० - 37 - फंस - 8, मोहाली	डी० एच० एच० एच०	2003	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	02.09.2004	2780	

[illegible]

48425	सरिता युगलम	मार्कट डांड प्रणव समी हेमच यलीनिक होम्यो सामने - दिमापुर कालेज गणेशगरी मुगहाटी - 6	डी० एच० एच० एस०	फरवरी - 2001	कलकत्ता युनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल	असम	30.01.2006	819
48426	सरकार अरुण	मार्कट - आरु सरकार रेड तेरीनरफ श्रीनगर कालोनी स्टेशन रोड पी० ओ० जिला - करीमनगर असम	डी० एच० एच० एस०	मई - 1994	वेस्ट बंगाल कौशल	असम	26.06.2001	796
48427	सरकार हरिप्रिया	रामनगर मनजलि रोड पी० ओ० - रामनगर जिला - त्रिपुरा वेस्ट	डी० एच० एच० एस०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	22.12.98	386
48428	सरकार हरिनारायण	सरकार होम्यो पी० ओ० - हयबोरगांव जिला - नगांव, असम	डी० एच० एच० एस०	1989	कौशल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वेस्ट बंगाल	असम	06.07.71	33
48429	सरकार जयमती	गांव - गोलाघाट बस्ती पी० ओ० हाजई जिला - नगांव असम	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.05.99	641
48430	सरकार मदन मोहन	असम होम्योपैथी कलिक जगिरोड पी० ओ० - जगिरोड 782410 जिला - मेरीगांव असम	डी० एच० एच० एस०	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	09.03.98	675
48431	सरकार नजिनी कान्ता	एच० पी० होम्योपैथी कलिक कछरी रोड पी० ओ० जिला - मेरीगांव - 6 असम	डी० एच० एच० एस०	जून - 1986	वेस्ट बंगाल कौशल	असम	03.08.93	529
48432	सरकार निलिमा	मार्कट - सिस्टर नवाबराता सैन गांव - सेलमगरी पी० ओ० - खोराबरी 784592 जिला - दरंग असम	डी० एच० एच० एस०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.11.2002	884
48433	सरकार प्रमेश	गांव - शापट्टेगा पी० ओ० - मुलेकुडी 786133 जिला - कोच वेस्ट वेस्ट बंगाल	डी० एच० एच० एस०	दिसम्बर - 1980	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.01.2000	581
48434	सरकार साहिबुल इस्लाम	पुत्र स्वर्गीय श्री हलीजुल जददार सरकार गांव - धर्मशाला 783325 जिला - कुबरी असम	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 2005	विद्वत्संग युनिवर्सिटी असम	असम	21.11.06	978
48435	सरकार सुमन्दु	समाददापट्टी हयबोरगांव पी० ओ० - हयबोरगांव - 2, जिला - नगांव असम	डी० एच० एच० एस०	मई - 1994	वेस्ट बंगाल कौशल	असम	07.09.99	738
48436	सरकार सुमता दे	मार्कट - सुनील सरकार भास्कर नगर पी० ओ० - बिनोवा नगर मुगहाटी - 16	डी० एच० एच० एस०	अगस्त - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	31.10.2000	760
48437	सरकार सुबगा	लालगणेश ओदालबाकरा भास्कर डा० पी० ओ० सरकार मुगहाटी - 34	डी० एच० एच० एस०	जनवरी - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.12.86	217
48438	सरकार सुशील कुमार	गांव - नवेलारी पी० ओ० - कारासी 781307 जिला - बरपेता असम	डी० एच० एच० एस०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	25.07.2002	850
48439	शर्मा अलोकोश	सरणीय टाउन वाई - 4 पी० ओ० - सरणीय जिला - बरपेता असम	डी० एच० एच० एस०	मार्च - 1996	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.07.98	709
48440	शर्मा मुगाली	मार्कट श्री आरु सी० रमो रेलवे स्क्वायर - 10518 इस्ट गोला नगर भारतीय मुगहाटी - 11	डी० एच० एच० एस०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.12.2001	826

48441	शर्मा बीजू कुमार	तंगला टाउन गाँव नं० - 4 पीओ ओओ - तंगला 784521 जिला - दार्जिलिंग	डीओ एचओ एचओ	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.06.2001	795	
48442	शर्मा विकास कुमार	गाँव - कनीपरा पीओ ओओ - बागुली जिला - नलबारी असम	डीओ एचओ एचओ	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.11.2000	765	
48443	शर्मा विपुल	गाँव - पनवरी पीओ ओओ - बराजोई - 781369 जिला - बोरपेटा असम	डीओ एचओ एचओ	फरवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	15.02.98	722	
48444	शर्मा दुर्गेन्द्र मुखर्ज	गाँव - बसुग्रीकाना पीओ ओओ - बलीलेया जिला - नलबारी, असम	डीओ एचओ एचओ	मार्च - 1995	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.09.97	254	
48445	शर्मा दीरज	गाँव - गांधीया पीओ ओओ - गांधीया - 781304 जिला - नलबारी असम	डीओ एचओ एचओ	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.03.2002	846	
48446	शर्मा विद्याज्योति	मार्फत - मधु नाथ शर्मा गाँव - लाव - 781361 जिला - कामरूप, असम	डीओ एचओ एचओ	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.11.2000	770	
48447	शर्मा विप्राकर	अकणचल पथ, जू रोड तिनाली, बसुग्रीकाना गुवाहाटी - 22	डीओ एचओ एचओ	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	27.11.2001	824	
48448	शर्मा गुनेन	मार्फत - ड० कनक चन्द्रा सर्मा फेटाशिल जीओ एचओ कोलोनी गुवाहाटी - 9	डीओ एचओ एचओ	अक्टूबर - 2002	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.08.03	873	
48449	शर्मा इन्द्र मुखर्ज	असम होम्योपैथी रिसर्च एचओ एचओ पीओ ओओ - मंगलवार जिला - दारंग	डीओ एचओ एचओ	दिसम्बर - 1976	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	23.03.80	51	
48450	शर्मा जगेन्द्र नाथ	गाँव - मल्लीबहा पीओ ओओ - मल्लीबहा जिला - नलबारी, असम	डीओ एचओ एचओ	जनवरी - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.04.97	229	
48451	शर्मा जनुबदन	गाँव - छपाए मरिया पीओ ओओ - सीतागंज - 785101 जिला - जोरहट, असम	डीओ एचओ एचओ	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	08.11.2000	766	
48452	शर्मा जयन्त कुमार	गाँव - गुरेवर पीओ ओओ - गुरेवर - 781388 जिला - कामरूप, असम	डीओ एचओ एचओ	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.06.98	643	
48453	शर्मा जयन्त कुमार	गाँव - बरजलाह पीओ ओओ - तंगला - 784521 जिला - दार्जिलिंग, असम	डीओ एचओ एचओ	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.11.2000	771	
48454	शर्मा किशोर	दामोवर होम्योपैथी स्वीडिश राजगढ़ रोड, बंगाल गुवाहाटी - 7	डीओ एचओ एचओ	मई - 2004	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता असम	असम	13.08.07	1007	
48455	शर्मा लखी किनकर	गाँव - मधुपुर, तिहु पीओ ओओ - तिहु - 781371 जिला - नलबारी, असम	डीओ एचओ एचओ	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	26.12.2001	830	
48456	शर्मा लोहित	गाँव - मधुपुर पीओ ओओ - विषयनाथ चरिआली जिला - सोनितपुर, असम	डीओ एचओ एचओ	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.12.98	578	
48457	शर्मा मनोज कुमार	विष्णुपुर लाइन नं० - 3, नलबारी पीओ ओओ - नलबारी - 781335 जिला - नलबारी, असम	डीओ एचओ एचओ	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	18.10.2000	760	

48458	शर्मा मुकुट चन्द्रा	गांव - गिरिया पीठ ओठ - गुडिया - 781304 जिला - नलबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1998	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	29.11.2000	773	
48459	शर्मा नाभा कुमार	रोहिकुली (हिल साईड) पीठ ओठ - रोहिकुली गुवाहाटी, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.12.87	256	
48460	शर्मा ओमप्रकाश	नया जमोलपट्टी डा० डी० बरुआ रोड, पीठ ओठ नगांव - 1, जिला - नगांव, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	02.01.2001	837	
48461	शर्मा प्रदीप कुमार	गांव - गिरिया पीठ ओठ - गिरिया जिला - सोनितपुर, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	07.05.87	230	
48462	शर्मा प्रणव	मार्फत - तरुण सीएच शर्मा कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस खानपरा गुवाहाटी - 22	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1984	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	09.4.85	119	
48463	शर्मा पृथ्वीराज	गांव - मोहनपुरा पीठ ओठ - मोहनपुर जिला - इलाकडी, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 2003	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	28.01.04	887	
48464	शर्मा प्रमोद चन्द्रा	गांव - कनावल सिलपखरी गुवाहाटी - 3, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1990	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	10.08.98	508	
48465	शर्मा राहुल	मार्फत - जौनाली जखान ककोटी गांव पीठ ओठ - जोरहट - 1, जिला - जोरहट, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.01.99	397	
48466	शर्मा सैलेन	मार्फत - श्री तरुण शर्मा बघोबारी पंजाबरी गुवाहाटी - 37	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	16.03.99	724	
48467	शर्मा श्यामा प्रसाद	गांव - कनाल पीठ ओठ - पश्चिम कान्ता जिला - नलबरी, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	06.05.88	287	
48468	शर्मा सुरेन्द्र प्रसाद	पश्चिमा रॉय - का-देय पीठ ओठ - शियापुर देर - 277001 जिला - बलीया	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	05.01.99	403	
48469	शर्मा सुरेश चन्द्रा	गणेश नगर, बाएरसबिया पीठ ओठ - बेलगोला गुवाहाटी - 28	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	01.06.99	395	
48470	शर्मा उत्पल	गांव - बघजय पीठ ओठ - जगी बा कटगांव - 782411 जिला - मरिगांव, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1999	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	19.10.2000	752	
48471	शर्मा उत्पल	दामोदर नगर लोखरा पीठ ओठ - सुकुली जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	03.11.2000	761	
48472	सरमाह बिरनन्ध	रेनगिया तिनाली पीठ ओठ - रेनगिया - 781354 जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	03.12.84	112	
48473	सरमाह दुलाल देब	गांव - तेमापुरी पीठ ओठ - कबिराटि जिला - दरंग, असम	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1989	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	12.02.02	418	
48474	सरमाह मनु मार्ज	सर्मा होम्यो क्लीनिक बेलगोला गुवाहाटी - 28	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	08.11.84	93	

48475	सत्याज नर्मोन् कुमार	गाँव - रहार बिरकावा पीठ और - पहरावा जिला- बोरपेता, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 2000	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	19.07.2001	804	
48476	सत्याज राजेश्वर देव	गाँव - मयाम खांदा नार्थ गुवाहाटी - 30	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 1983	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	30.10.84	86	
48477	एली डा राकेस मोहन	मोहन होम्योपैथी क्लिनिक रोड ए शहर	डी० एच० एच० एच०	1989	डी० एच० एच० एच० पंजाब	हरियाणा	5.03.97	5847-ए	
48478	एली सी डी मिताल	होम्योपैथी - 82- रेड क्रॉस मार्केट रेलवे रोड हिसार	डी० एच० एच० एच०	1985	कॉमिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	19.05.04	5712-ए	
48479	सहा शीर	790/26 सेक्टर राम नगर, गली नं० - 2 सोनीपत	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1998	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	हरियाणा	15.04.02	5889-ए	
48480	श्री डिशादी लाल सतीजा	पीठ पीठ और खोहीबास, तहसी - शाहकोट जिला - जलंधर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	8.9.2000	2358	
48481	श्री हरनाम सिंह	607/3 जालसा मोहल्ला जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985.87	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	1/3/1994	1378	
48482	सत्यावामा कौसम	गाँव - बुगई कौसम लाएकड़े पीठ और - सेमलौब - 796001 जिला - इमफाल इस्ट, मणिपुर	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	05.05.07	1005	
48483	सत्याज पलव राजेम	1) राम जाली निवास ए एच पीठ विहास तखुला मालवा जिला - सिंधु दुर्गा, पिन - 416008 महाराष्ट्र 2) सचिनस होम्योपैथी क्लिनिक, कुलकर्णी गली, कोनर पास सेडिगो कॉम्प्लेक्स बेलगाम - 590001, कर्नाटक	पीठ एच० एच० एच०	2005	राजीव गांधी युनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, बंगलौर	कर्नाटक बोर्ड	14.7.05	ए-5383	सी० सी० एच० -2886
48484	सदीता	नं० नं० - 1517, सेक्टर - 32, पन्डीगढ़ रोड जमालपुर, छत्तीसगढ़	पीठ एच० एच० एच०	2004	पीठ एच० एच० एच० एच०	पंजाब	24.08.2006	3026	
48485	सदीता रानी	नर्मल एम/एस कोषाल बन्द मदन लाल करणना मेरवेस, बगवा बाजार, जलालाबाद (सेक्टर) जिला - फिरोजापुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	10.11.2000	2435	
48486	साहने नवनीत कौर साहने	नं० नं० - 162, बमन बाग पटियाला	पीठ एच० एच० एच०	2002	पंजाब	पंजाब	19.11.2003	2649	
48487	सत्यन दीप	नं० नं० - 6807 - ए/38, सेक्टर पन्डीगढ़	पीठ एच० एच० एच०	2005	पंजाब युनिवर्सिटी	कॉमिल ऑफ हेल्थ साइंस मेडिसिन यू पी एच पन्डीगढ़	29.9.05	86-ए	सी० सी० एच० -2856
48488	सत्यन मधुरी	657, महावीर नगर, शहर - कोटा जिला - कोटा	पीठ एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जो आरओ नगर राजस्थान विद्यापीठ (डीन युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	15.07.2008	5042	

48493	राकसीना राकसीना	डा. विनय राकसीना	1) ए/बी-24 -- बी, एलआइओ ऑफ पलेट, कृष्णा अपार्टमेंट, परियम विहार नई दिल्ली - 110063 2) डबल्यू जेट - 23, जगत हेरी मार्केट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110083	बी० एच० एम० एच०	2007	जीएजी एमिनिस्ट्री मालियर	दिल्ली बोर्ड	9.06.08	63747	सी० सी० एच० -2874
48490	राकसीना गारुल	पुत्री ए० के० राकसीना	न० 70 - 2033 सैक्टर - 8, फरीदाबाद	बी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 2008	पंजाब युनिवर्सिटी, लुडियाना	हरियाणा	27.08.07	5808-ए	
48491	राकसीना सोनल	डा. रा. कुमार राकसीना	1) ए - 181, कंदरीया विहार, सैक्टर - 56 गुडगांव, हरियाणा 2) 2 - 62, गल्ली नगर जयपुर	बी० एच० एम० एच०	2008	युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	राजस्थान बोर्ड जयपुर	10.10.08	5121	सी० सी० एच० -2888
48492	सायनिया जयपाल सिंह	श्री रणजीत सिंह सायनिया	एट पटेल फार्म पी० अजरी तहसील सिद्धावा राहर - पिडवावा जिला - सिरौली	बी० एच० एम० एच०	जनवरी - 2006	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीमू युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	26.07.2007	4888	
48493	सीधर ललित के.	एस० एस० सीधर	1) 806 सैक्टर - 16, पंचकुला 2) प्लेट न० - 4 - बी जीएच० - 16 मसा देवी कामलेश्वर सैक्टर - 5, पंचकुला	डी० एच० एम० एच०	1986	कौंसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	20.12.01	5682-ए	
48494	सीधर शिवा	पुत्री श्री के० एल० सीधर	न० 70 - 8, अमन पार्क, राज गुरु नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	25.10.1999	2185	
48495	सीमा	श्री बलबीर कन्द	कनाट न० - 2 सिविल हॉस्पिटल लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	2001	पंजाब	पंजाब	30.01.2002	2582	
48496	सीमा मन्जल	पुत्री श्री केवल कुष्ण	गली न० - 6, सिन्धु नगर, अलोहर - 152116 (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1983	पंजाब	पंजाब	8/5/1995	1464	
48497	सीमा रात्री	पुत्री श्री परसेम चन्द	गली न० - 2, सामने लाइन मुगत सिंह होम, केहर सिंह कालोनी, खन्ना, जिला - लुधियाना	डी० एच० एम० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	6.11.2000	2382	
48498	सीमा रात्री	श्री कप चन्द गुप्ता	बी - 7 - 885 लाकर बाजार लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	15.01.2002	2577	
48499	सहायल प्रीती	मिस्टर रवीण सहायल	1) मार्केट मिस्टर राजीव खन्ना लॉज, न० 70 सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, गली न० - 1 अलोहर जिला - फिरोजाबाद (पंजाब) 2) प्लेट न० - 14, लहना सिंह मार्केट, गल्का गंज, दिल्ली - 110007	बी० एच० एम० एच०	2004	बारा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	पंजाब कौंसिल चण्डीगढ़	3.01.05	2612-ए	सी० सी० एच० -2714
48500	सहायल आरती	पुत्री श्री आर० के० सहायल	113 -एफ, किराचकु नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1989	पंजाब	पंजाब	5.9.2000	2348	
48501	सहायल दिनेश	श्री महापाल कुष्ण सहायल	मेन बाजार (पानी सीक) पटनाकोट जिला - गुवागपुर	डी० एच० एम० एच०	दिसम्बर - 1984	सी० एच० एम० एम० पंजाब	पंजाब	29.08.1985	825	

	सहमल मिश्री	पत्नी विनेश साहगल	1) 2 - 3 . प्रीत नगर , अम्बाला , कैन्ट 2) संजीवनी होम्यो, स्कॉडिक , निवासीय आरु डी ए / सी	बी० एच० एम० एस० ,अण्डरग्रेड	जून - 2004	बाबा फरीद युनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	30.03.2006	5794-ए	
48502	सहमल मिश्री	पत्नी विनेश साहगल	1) 2 - 3 . प्रीत नगर , अम्बाला , कैन्ट 2) संजीवनी होम्यो, स्कॉडिक , निवासीय आरु डी ए / सी	बी० एच० एम० एस० ,अण्डरग्रेड	जून - 2004	बाबा फरीद युनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	30.03.2006	5794-ए	
48503	सहमल सहानी सिंह	श्री इन्द्रजीत सिंह साहगल	मो नो - 138 , वार्ड नो - 24, पास माता रानी पार्क , खन्ना , जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1998	पंजाब	पंजाब	2.2.2000	2200	
48504	सहनाज	श्री मोहम्मद शफीक	पास जगावल ब्लेयर , भलेखतोला रोड राजकोट जिला - लुधियाना (पंजाब)	बी० एच० एम० एस०	मई - जून 2007	डी० एच० ग्रेड एच० एस०	पंजाब	01.01.2008	3169	
48505	रोख गोह अरादुरजमान		मॉर्ग - सुदीपुर पी० ओ० - हस्तशीनभारी - 763135 जिला - झुबरी , असम	बी० एच० एम० एस०	अगस्त - 2005	डिब्रूगढ़ युनिवर्सिटी	असम	21.11.06	979	
48506	सेखोन सुरज प्रताप सिंह	श्री रघुवीर सिंह सेखोन	एस० जे० एस० एलीग्रि लाइन रोड मुगतल जिला - अरुणसर	डी० एच० एम० एस०	2000	पंजाब	पंजाब	11.09.2001 14.09.2005	2646	बी० एच० एम० एस० (मेडिक डिग्री) नवंबर - दिसंबर 2003 बी० एच० ग्रेड एच० एस०
48507	सेन अभिजीत	श्री हरशिकेश सेन	पी० - 11 कालोनी , पी० ओ० -बहावा, 24 परगनेस , (लोथी) वेस्ट बंगाल पिन - 700116	बी० एच० एम० एस०	1993	कलकत्ता युनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल	वेस्ट बंगाल काश्चित कलकत्ता	22.1.93	18070	
48508	सेन दीपिका कुमार		एस० एस० रोड केन्द्री बाजार गुवाहाटी - 1 , जिला - कामरूप , असम	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1992	रोड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन , असम	असम	26.03.98	544	
48509	सेनापती दीपेन षण्ढा		इंजीनियरिंग कॉलेज रोड जावरट पी० ओ० - जोरहत पिन - 785007	डी० एच० एम० एस०	अप्रैल - 1994	रोड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन , असम	असम	16.05.85	145	
48510	सरदेसा खरमाऊलय	सरदाय ए० ए० नोनासन	फलवलाई नौपल्ली , फिलौरांग	बी० एच० एम० एस०	दिसम्बर - 2004	कलकत्ता युनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल	मेघालया	5.10.2006	285	
48511	सेठी रविन्द	पुत्री आरु एस० सेठी	861 ईस्टर - 4 , पंचकुला	बी० एच० एम० एस०	दिसम्बर - 2006	पंजाब युनिवर्सिटी, पलडीगढ़	हरियाणा	1.05.08	5923-ए	
48512	सेठी चान्दनी	श्री किनोद सेठी	437 - ए, मॉडल टाउन , सदियाला (पंजाब)	बी० एच० एम० एस०	मई - जून 2005	बी० एच० ग्रेड एच० एस०	पंजाब	30.05.2007	3118	
48513	सेठी सपना	श्री ए० जे० सेठी	बी - 34 , 39998, पी० ओ० - गली दुर्गा पूरी लुधियाना (पंजाब)	बी० एच० एम० एस०	2003	बी० एच० ग्रेड एच० एस०	पंजाब	27.02.2005	2825	
48514	सेठिया मोनिका	श्री मणि राम सेठिया	109 - ए - ब्लॉक , शहर - श्री मंगलनगर जिला - श्री मंगलनगर	बी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2002	बाबा फरीद युनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	पंजाबस्थान	24.04.2007	4829	
48515	सेठिया मोनिका	श्री मणि राम सेठिया	मो नो - 229 , वीर कालोनी , भट्टीडा	बी० एच० एम० एस०	2002	पंजाब	पंजाब	16.03.2004	2868	
48516	सेठिया रिनु	पुत्री श्री ओ० पी० सेठिया	मार्केट गुजा नर्सिंग होम , राणा मंदिर एच० एच० जिला - सर्दीडा (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1998	पंजाब	पंजाब	1.7.1998	2054	
48517	शाहनम	पुत्री श्री हारमजन सिंह	मो नो - 3099 , फेस - 7 , मोलली जिला - शीर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1993	पंजाब	पंजाब	2/5/1995	1463	

48535	शर्मा अनु	श्री रमेश शर्मा	सी - 165, लक्ष्मी नगर, कोटा जिला - कोटा	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	जे० आर० नगर राजस्थान विधानीय (बी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4891	
48536	शर्मा अनुराधा	श्री सुरेश चन्दा शर्मा	6-सी-5, महावीर नगर बंद शहर - कोटा जिला - कोटा	बी० एच० एच० एच०	2007	जे० आर० नगर राजस्थान विधानीय (बी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	22.07.2008	5049	
48537	शर्मा अशोक	श्री किरणारी लाल शर्मा	वार्ड नं० - 17, सति नगर, देवीपुर इन्डस्ट्रियल एरिया शहर - सिकर जिला - सिकर	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	2.03.2007	4818	
48538	शर्मा गरी	श्री दामोदर प्रसाद शर्मा	मार्फत पुणेन्द्रा कुमार शर्मा शहर - मेवार आस जिला - अजमेर	बी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	28.11.2008	5143	
48539	शर्मा हितेश	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	75 - पाण्डेय मार्ग, श्री भवन बन्दवाव, शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विधानीय (बी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	20.08.2008	5082	
48540	शर्मा जयन्त	श्री सुरेश शर्मा	गणेश भवन, सामने एच० बी० कॉलेज शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विधानीय (बी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	20.08.2008	5070	
48541	शर्मा लवण्या	श्री हरीश शर्मा	3 - गुलाब रोड, सरस्वती कुटुम्ब ठेका पास बी० डबल ऑफिस, शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विधानीय (बी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	16.10.2008	5128	
48542	शर्मा मधुसूदन	श्री जय प्रकाश शर्मा	1) 169, गैरक नगर, रेलवे रोड रुकडी - 247067 (उदयपुर) 2) मार्फत श्री ईश्वर दत्त शर्मा, 70/8, प्लॉट नं० 1, रुकडी, साहरनपुर (गु० बी०)	जी० एच० एच० एच०	1984	कानपुर युनिवर्सिटी	गु० बी० बोर्ड लखनऊ	12.1.84	17275	सी० बी० एच० -2692
48543	शर्मा महावीर प्रसाद	श्री राम सुभाष शर्मा	अपना घर नं० 30 - 30, जय कृष्ण कॉलोनी, टैक फ्लाक, शहर - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एच० एच०	जून - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विधानीय (बी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	15.01.2009	5173	
48544	शर्मा निशा	श्री ज्ञान श्याम शर्मा	ब्लाक नं० - 14, लड्डू कॉलोनी पुलिस लाइन शहर - बंसवारा जिला - बंसवारा	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	जे० आर० नगर राजस्थान विधानीय (बी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4894	
48545	शर्मा प्रदीप कुमार महापुर सिंह	वार्ड नं० - 9 आजाद कॉलोनी पास आटा चक्की लोहर करारी कलाका जिला - पंचकुला	वार्ड नं० - 9 आजाद कॉलोनी पास आटा चक्की लोहर करारी कलाका जिला - पंचकुला	बी० एच० एच० एच०	1986	कॉमिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	25.06.90	5536-ए	
48546	शर्मा राजेश कुमार	श्री विभी चन्द शर्मा	पास जी० पी० ओ० पुरानी फूलौरा, शहर - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एच० एच०	2003	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	राजस्थान	30.01.2008	4983	
48547	शर्मा राजी	श्री रमेश चन्द शर्मा	इन्फैन्ट ऑफ दयानंद आश्रम, रोड नं० - 9, पाटी पलाई शहर - बंसवारा जिला - बंसवारा	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	जे० आर० नगर राजस्थान विधानीय (बी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4888	

शर्मा रुचिका	श्री आर० पी० शर्मा	पृ. - 321, त्रिकेणी नगर, गोपालपुरा बाए पास, जयपुर (राजस्थान)	डी० एच० एम० एस०	2008	मुनिवर्षिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	राजस्थान बोर्ड जयपुर	10.10.08	5090	सी० सी० एच० -2860
48548	शर्मा रानीश कुमार	डी० पी० ओ० - लक्ष्मी सुखलामबराम खिला - हिसार	डी० एच० एम० एस०	दिसम्बर - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	12.08.88	5454-ए	
48550	शर्मा सुनीता	21/228 एम० एच० ए० क्वार्टर, कोवैरी पथ मानसरोवर शहर - जयपुर	डी० एच० एम० एस०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	28.11.2008	5148	
48551	शर्मा अरुणीता	कै - 13, रामनगर मोहिर मार्ग जवाहर नगर - कोटा	डी० एच० एम० एस०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.03.2009	5195	
48552	शर्मा अनिल	94 एम० सी० कालोनी हिसार खिला - कोटा (राजस्थान)	डी० एच० एम० एस०	1999	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	25.09.03	5705-ए	
48553	शर्मा अनुराधा	पत्नी रीलेन्ड शर्मा 1013 सैक्टर - 2, पंचकुला	डी० एच० एम० एस०	1999	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	4.08.03	5702-ए	
48554	शर्मा अरुण	03, अशोक विहार, तिजारा रोड, सामने पेट्रोल पम्प शहर - जलवर	डी० एच० एम० एस०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.12.2007	4981	सी० सी० एच० -2788
48555	शर्मा आशिमा	डी० पी० ओ० - महेन्द्रा चक्र - बलजनाथ जिला - कांगड़ा	डी० एच० एम० एस०	2005	युनिवर्सिटी ऑफ कनकपुरा	हिमाचल प्रदेश	21.02.07	172-ए	
48556	शर्मा अरुनी	1182 - बारकट नगर, टैक फाटक शहर - जयपुर	डी० एच० एम० एस०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5091	
48557	शर्मा योगीरथ	2888 नया हाउसिंग बोर्ड सैक्टर - 13 मिथानी - 127021	डी० एच० एम० एस०	1981	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	6.01.09	5850-ए	
48558	शर्मा विद्याजीत	स्वाति होम्योपैथी क्लिनिक यांरस्थान बाजार पी० ओ० - चन्द्रपुर - 781150 कामरूप असम	डी० एच० एम० एस०	मार्च - 1985	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	16.12.86	213	
48559	शर्मा दीपिका	1385 सैक्टर - 21, पंचकुला असम	डी० एच० एम० एस०	अप्रैल 2006	पंजाब युनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	हरियाणा	27.08.07	5807-ए	
48560	शर्मा गगनदीप	संजय स्कुलियो, मोहन कालोनी, गंज बाजार, सोनान	डी० एच० एम० एस०	2000	डी० आर० ए० युनिवर्सिटी बिहार मुजफ्फरपुर	हिमाचल प्रदेश	18.07.05	151-ए	
48561	शर्मा गीतम	38/376 सेडा कुवा, लोहा खान शहर - अजमेर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	3.07.2007	4849	
48562	शर्मा जयदेव	2121/4 रघुनाथपुरी, तेजली रोड पास आई० एस० आई० होस्पिटल, यमुना नगर	डी० एच० एम० एस०	जुलाई - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली	हरियाणा	30.06.04	6713-ए	

48563	शर्मा जय कृष्ण	श्री बनवारी लाल शर्मा	गांव रामपुरा ककराली पोस्ट गोरखान पुरा तहसील राजावाड़ा शहर - अजमेर जिला - अजमेर	बी० एच० एम० एस्को	जनवरी - 2006	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (बीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4885	
48564	शर्मा जया	पत्नी जय देव शर्मा	2121/4 रघुनाथपुरी, तेजली रोड पास आई० एम० आई० डी० हॉस्पिटल, यमुना नगर	बी० एच० एम० एस्को	1993	बीई ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली	हरियाणा	30.06.04	5714-ए	
48565	शर्मा महक	कृष्ण गोपाल शर्मा	103 - बी - ब्लॉक, सैक्टर - 14, हिरन मार्ग शहर - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एम० एस्को	जनवरी - 2006	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (बीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4866	
48566	शर्मा मनता	श्री हरी प्रसाद परेलाल	मो 30 - 264, सैक्टर - 7-ए, शहर - फरीदाबाद जिला - फरीदाबाद	बी० एच० एम० एस्को	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	28.1.2009	5183	सी० सी० एच० -2732
48567	शर्मा मनीषा	पत्नी विनोद कुमार	935/21 ग्रेम नगर, रोडक	बी० एच० एम० एस्को	अगस्त - 1988	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	हरियाणा	29.09.03	5703-ए	
48568	शर्मा मोहित	श्री सुरेश कुमार शर्मा	मो 30 - 1 - जी - 40, महावीर नगर, विस्वर योजना शहर - कोटा जिला - कोटा	बी० एच० एम० एस्को	जनवरी - 2006	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (बीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4868	
48569	शर्मा मोनिका	पत्नी सुरील दत्त शर्मा	मार्केट क्र० एम० बी० शर्मा इनसाइड बस्ती गेट सामने पेक्कुला धर्मशाला हंसी जिला - हिसार	बी० एच० एम० एस्को	1999	कॉसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	4.10.04	5716-ए	
48570	शर्मा मोनिका	श्री सुरेश शर्मा	मार्केट श्री गोविन्द नारायण शर्मा 212 - ए, गायत्री नगर - बी महारानी कान शहर - दुर्गापुर जिला - जयपुर	बी० एच० एम० एस्को	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.12.2007	4984	
48571	शर्मा निहारिका	श्री एल सी० शर्मा	31 - 32, सुन्दर नगर, सिविल लाइन शहर - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एम० एस्को	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5107	
48572	शर्मा निवृज	पुत्री एम० एम० शर्मा	16 जगत कालोनी, सिवाजी	बी० एच० एम० एस्को	जनवरी - 2006	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (बीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	हरियाणा	27.08.07	5606-ए	
48573	शर्मा निवृज	श्री मनोहर लाल शर्मा	मार्केट क्र० एम० आर० कर्मा बी - ब्लॉक कोष पल्लो, 16 गायत्री नगर, शहर - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एम० एस्को	जनवरी - 2006	जे० आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (बीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4867	
48574	शर्मा पावल	श्री हंसराज शर्मा	ए - 202 विष्णु नगर, सुविन रोड अजमेर रोड शहर - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एम० एस्को	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	5.12.2007	4983	
48575	शर्मा पूजा	श्री आर० के० शर्मा	जे० आर० शर्मा हाउस, पास संग्राम भवन, पितृपाद रोड, जना	बी० एच० एम० एस्को (Direct Degree)	2002	श्री आर० के० युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदाबाद (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	18.03.04	142-ए	

48576	शर्मा पूरुष	श्री चन्द कर्त शर्मा	92 - ईक कालोनी, शहर - श्री गगननगर जिला - श्री गगननगर	बी० एच० एम० एस०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	श्री बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	राजस्थान	17.11.2008	5140	
48577	शर्मा प्रदीप कुमार	श्री बाबू सिंह	रोलान होम्सपैथी मेडिकल कॉलेज चनमगत, सोलन	बी० एच० एम० एस०	1987	पंजाब होम्सपैथी कॉलेज	हिमाचल प्रदेश	05.11.03	135-ए	
48578	शर्मा प्रिया	अरुण रवि शर्मा	सी - 4 / 161, रायपुर नगर, शहर - दिल्ली जिला - दिल्ली - 53	बी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2007	जी० जी० सिंह आई० पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	राजस्थान	7.11.2008	5135	
48579	शर्मा प्रमिता	पुनी पी० सी० शर्मा	टी - 263 केस - 2, नया पालन विहार गुडगांव	बी० एच० एम० एस०	जून - 1975	बोर्ड ऑफ होम्सपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एम० पी०	हरियाणा	28.12.82	3489-ए	
48580	शर्मा राजीव कुमार	श्री डी० शर्मा	रोलान होम्सपैथी मेडिकल कॉलेज चनमगत, सोलन	बी० एच० एम० एस०	1997	पंजाब होम्सपैथी कॉलेज	हिमाचल प्रदेश	06.11.03	138-ए	
48581	शर्मा राम कुमार	हेम चन्द शर्मा	गांव - जजूर पी० ओ० - बलामाढ़ जिला - फरीदाबाद	डी० एच० एम० एस०	जुलाई - 1985	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्सपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	2.09.86	5375-ए	
48582	शर्मा रमेश चन्द	श्री नाना राम शर्मा	4000 - ई पीछे गौत फौजरी, सुजयपौल बाजार, शहर - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	11.07.2007	4853	
48583	शर्मा रमया		गाँव - काकोथर पी० ओ० - काकोथर जिला - सिंगुनिया, जलम	डी० एच० एम० एस०	अप्रैल - 1980	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	असम	16.08.92	517	
48584	शर्मा रजना	श्री अशोक कुमार शर्मा	139 - एस० पी० एस० नगर, सामने - सैत पाल पब्लिक स्कूल, शहर - भारतपुर जिला - भारतपुर	बी० एच० एम० एस०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	3.12.2008	5155	
48585	शर्मा संजीव		पिन हरीताने सेप्टेबल होम्सपैथी डिस्पेंसरी आर० पी० रोड गणेशपुरी पास गणेश मंदिर गुवाहाटी - 6	डी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1989	बोर्ड ऑफ होम्सपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	09.02.04	889	
48586	शर्मा सतीश चन्द	चन्द शंकर शर्मा	1) 7/41 देवराज गली गेट - जिंद 2) नमन होम्सपैथी क्लीनिक सफलतोन गेट जिंद	बी० एच० एम० एस०	अगस्त - 1997	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	हरियाणा	6.02.06	5748-ए	
48587	शर्मा शैल	श्री एस० एल० शर्मा	विमान बाग, नगरोटा मानद, (कवारी लालेश्वर) कांगडा	बी० एच० एम० एस०	2004	श्री बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	21.03.05	149-ए	
48588	शर्मा शारदा	श्री अशोक कुमार शर्मा	प्लॉट न० - 7, विकास कालोनी गोदा फैर चर्कल पीछे राजपुर होटल शहर - अलवर जिला - अलवर	बी० एच० एम० एस०	जुलाई - 2008	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	4.02.2008	4982	
48589	शर्मा शंकर चन्द्र	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	गांव - पोस्ट मंदार गढ़ गड - कुवा गंज शहर - बरन जिला - बरन	बी० एच० एम० एस०	जुलाई - 2008	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	6.12.2007	4985	

[illegible]

48607	शर्मा अनिता	पुत्री श्री हनु शम्भू 3/92, बाल गली, पीओओ भोगा, जिला - फरीदकोट	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	13/3/1995	1439
48608	शर्मा अन्वु	पुत्री श्री देविन्द कुमार	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	3/8/1992	1311
48609	शर्मा अन्वु	श्री दीपत राम	डी० एच० एच० एच०	2002	पंजाब	19.11.2003	2646
48610	शर्मा अरुण	श्री रतन लाल	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	9/11/1996	1574
48611	शर्मा अरुण	श्री बनावरी लाल	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	2/8/1996	1646
48612	शर्मा अर्चना	पुत्री श्री अश्विनी	डी० एच० एच० एच०	1983	पंजाब	25/04/1995	1454
48613	शर्मा अरुण निरुकी राम	श्री निरु राम	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	23.07.2002	2599
48614	शर्मा आशा	श्री ईश्वर बन्ध	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	12.10.2001	2657
48615	शर्मा अशोक कुमार	श्री राम रामलाल	डी० एच० एच० एच०	1976	पंजाब	8/10/1991	1283
48616	शर्मा अरुणी कुमार	श्री हारका दास	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	7.1.1998	1775
48617	शर्मा बबिता	श्री सत बाल	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	28.03.2001	2491
48618	शर्मा दलजीत	श्री राम चन्द	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	2/1/1996	1564
48619	शर्मा दीपिका	श्री सुदर्शन कुमार	डी० एच० एच० एच०	2005	पंजाब	23.04.2007	3099
48620	शर्मा दुष्यन्त	श्री रमेश बन्ध	डी० एच० एच० एच०	2005	पंजाब	26.08.2006	3060
48621	शर्मा हर्ष	श्री सूर्य मित्र शर्मा	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	6.11.1997	1727
48622	शर्मा हीना	श्री के० के० शर्मा	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	27.7.1998	1896
48623	शर्मा जयदेव	श्री सुदेव नाथ	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	6.4.1988	1825
48624	शर्मा जगिन्दर नाथ	श्री दास मल	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	24.08.2002	5684-ए

48625	शर्मा कविता शर्मा अधियास पूजा	पुत्री श्री मोहन लाल शर्मा पत्नी श्री ओपी शर्मा	नं० 70 - 1328, शर्मा निवास, जगरांव जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1988	पंजाब	28/08/1980	1212	
48626	शर्मा कविता शर्मा अधियास पूजा	पुत्री श्री मोहन लाल शर्मा पत्नी श्री ओपी शर्मा	नं० 70 - 2328, शर्मा निवास सुग्री नं० 5, जगरांव जिला - लुधियाना	डी० एच० एम० एस०	1988	पंजाब	13.05.2003	2634	
48627	शर्मा कुसम	पत्नी श्री अजय शर्मा	गाँव एच० पी० ओ० राजाज खन्ना जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1984	पंजाब	22/12/1986	869	
48628	शर्मा लक्ष्मी	श्री टी० आर० शर्मा	नं० 70 - 2053, फेस - 7, मोहाली, रोज खरार	डी० एच० एम० एस०	1996	पंजाब	19.5.1998	1844	
48629	शर्मा मनीषा	श्री बाबू पी० शर्मा	नं० 70 - 871, फेस - 7, एस० ए० एस० नगर मोहाली	डी० एच० एम० एस०	1986	पंजाब	7.1.1998	1773	
48630	शर्मा मनोहर लाल	पुत्र श्री जगन नथ शर्मा	नं० 70 - जी - 5 सरथानगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1985	पंजाब	22/09/1987	1002	
48631	शर्मा मनु	पुत्री श्री पी० कै० शर्मा	3 - सी, ए० खरार, नागल, टाउनशिप जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	2.11.2000	2389	
48632	शर्मा निपानी	पुत्री श्री पी० डी० शर्मा	जी - 61, कितवु नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1994	पंजाब	11/9/1995	1635	
48633	शर्मा मोनिका	श्री पी० कै० शर्मा	मार्कट श्री मूल राव शर्मा, ककील राजार अर्थात् नगर, होशियारपुर	डी० एच० एम० एस०	2001	पंजाब	20.03.2003	2811	
48634	शर्मा मोनिका	पुत्री श्री हरपस लाल	नं० 70 - 3398/9 गली कासकटेन, कै० टी० सुधीर, लोहारी गेट, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1998	पंजाब	12.8.1999	2110	
48635	शर्मा मोनिका	पुत्री श्री खरार वन्द शर्मा	1284, फेस - 3-बी-2, मोहाली सह्य - खरार, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	7.7.2000	2293	
48636	शर्मा मोनिका	पुत्री श्री पराशराम सिंगला	सामने काली माता मंदिर, गिनोचा कालोनी बटौरा	डी० एच० एम० एस०	1998	पंजाब	25.7.2000	2309	
48637	शर्मा मोनिका	पुत्री श्री सुदेश कमल शर्मा	बोदन गली, फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	30.3.2000	2342	
48638	शर्मा नरेन्द्र कुमार श्री नन्द लाल	पुत्री श्री सुदेश कमल शर्मा	एकला नगर, छोटा हरी पुरा पी० ओ० जला पलाँचर हिल्स, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1986	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	2028	
48639	शर्मा नीरज	श्री रत प्रकाश कमल शर्मा	नं० 70 - 1577, रीक्टर - 23 - डी, जयदीगढ़	डी० एच० एम० एस०	दिसम्बर - 1984	पंजाब	सी० एच० एम० एस०, पंजाब	818	
48640	शर्मा नेलरा	श्री राज कुमार शर्मा	नं० 70 - 1208 फेस - 6, मोहाली, जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1990	पंजाब	11/5/1992	1282	
48641	शर्मा निधि	पुत्री श्री राकेश कुमार शर्मा	पी० पी० ओ० बरी गुलाम हुसैन होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	10.3.2000	2258	
48642	शर्मा निधि	श्री आर० पी० शर्मा	नं० 70 - 100, ज्योति नगर स्पोर्ट्स रोड, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	मई - जून 2006	पंजाब	डी० एच० एम० एम० एस०	3153	
48643	शर्मा पंकज	श्री मनोहर लाल शर्मा	नं० 70 - बी - 12/313, गली नं० - 4, पास जगत पुरा, होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1994	पंजाब	10.10.1996	1862	

48644	शर्मा पूजा	श्री यश मल शर्मा	मो नो - 2040/12-ए शिवपुरी रोड लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	03.04.2001	2496	
48645	शर्मा प्रमिता	पुत्री श्री बलदेव कुंभ शर्मा	प्रीतम नगर, सिटिल लाईन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	22.9.1999	2136	
48646	शर्मा राजीव	श्री डी० डी० शर्मा	मोहो नगर तलवासा जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	29.9.1998	1974	
48647	शर्मा सजिन्दर कुमार	श्री सुभा राम दत्त शर्मा	मो नो - 1104 बी - 3, सुभाष नगर लुधियाना - 141003(पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1983	पंजाब	18/1986	913	
48648	शर्मा रसिता	पुत्री श्री सतपाल शर्मा	बी - XX 2664, गुरदेव नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	21.7.2000	2302	
48649	शर्मा रमनी	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	मो नो - 1858, इन्दौरवाल कला, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	16.12.1997	1756	
48650	शर्मा रीना	पुत्री श्री सुदर्शन शर्मा	मो नो - 1828, सैक्टर - 18 - डी, कानपुरखाला	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	16/02/1989	1119	
48651	शर्मा रिचा	पुत्री श्री विरिन्द कुमार शर्मा	मो नो - 251, अजीत नगर, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	31.1.2001	2441	
48652	शर्मा रितु	श्री हरमलवान शर्मा	बी - 7/209, नई अबादी, फिलोर जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	21.04.2008	3204	
48653	शर्मा रोहित	श्री सतीश बन्ध	मो नो - 335, आदर्श कालोनी, प्रेम नगर, पटियाला	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	24.10.2005	2942	
48654	शर्मा संजय कुमार शर्मा	श्री जपाल किशोर शर्मा	मो नो - 848 युक्त हरमोबिन्द नगर, वी० ओ० एच० - फागवासा जिला - कानपुरखाला	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	20/08/1996	1631	
48655	शर्मा संजीव	श्री भीम राज शर्मा	159 - बी, गोपाल नगर, गाजीया रोड अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	31.12.1997	1754	
48656	शर्मा संजीव	श्री राधकरा नन्द शर्मा	मार्फत व्यास होस्पिटल गीता यमन रोड सुनाम जिला - संपरकर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	21/03/1986	878	
48657	शर्मा सरिता	पुत्री श्री कैलाश चन्द शर्मा	मो नो - 20, वी० एच० वी० कालोनी जमालपुर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	16.7.1999	2087	
48658	शर्मा सुक	श्री रोश कुमार	मो नो - 181/7 - बी, नया आलम नगर - लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	30.06.2006	3030	
48659	शर्मा सीमा	पत्नी श्री परमजीत सिंह	मो नो - 105, पास डैक फाटक, नामदेव नगर, मोपा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	3.7.1997	1713	
48660	शर्मा शैलेन्द कुमार	श्री तारसेन कुमार शर्मा	वी० वी० ओ० लालरू तहरो - राजपुरा जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	22.1.2001	2426	
48661	शर्मा शशि	श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	मार्फत रविन्द सिंह डिग्रा, मो नो - 1236, फेस - 6, मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	20.7.1998	1886	
48662	शर्मा शिवदत्त	पुत्र श्री सेद राम शर्मा	मो नो - 749, ब्रह्मपुरी, गिरिहट(पु) वी०	डी० एच० एच० एच०	1997	पंजाब	31/08/1988	1075	
48663	शर्मा सित्की	श्री वी० ओ० शर्मा	वी० वी० ओ० थालिह तहरो - आनन्दपुर साहिब जिला - रोप	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	24.03.2006	3009	
48664	शर्मा सोनिया	पुत्री श्री जी० सी० शर्मा	मो नो - 10124, गली नो - 32, जनता नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	12.8.1999	2111	

48665	शर्मा सोनिया	पुत्री श्री विनाय कुमार शर्मा	गो नो - 255, हासिंगा रोड कालोनी संगर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	20.12.2000	2402	
48666	शर्मा सुदि	श्री कर्ण लिक राम शर्मा	गो नो - 3433, सैक्टर - 71, मोहली	डी० एच० एच० एच०	2001	पंजाब	पंजाब	27.03.2003	2617	
48667	शर्मा सुगन	पुत्री श्री हरवंत लाल शर्मा	14 - सुगाव कालोनी तावा तहसील - बरनाला जिला - संगर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	24/11/1986	951	
48668	शर्मा सुगन	श्री डी० आर० शर्मा	गो नो - 1211, शही नो - 3, जगदाब कालोनी मजिठा रोड, अमृतसर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1998	पंजाब	पंजाब	18.08.2006	3038	
48669	शर्मा सुनील कुमार	श्री ओम प्रकाश शर्मा	मार्केट जे० डी० मेमोरियल होम्सोप्लेस लीजिग फेकन पीक कोतकापुर जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2003	पंजाब	पंजाब	07.07.2005	2888	
48670	शर्मा सुनीता	पुत्री श्री सतपाल शर्मा	बी - XX, गो नो - 2864, गुरदेव नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	18.8.1998	1980	
48671	शर्मा सुरेश कान्त	श्री बेहरी लाल शर्मा	कोटी नो - 800 क्षेत्र - 10, एच० एच० एच० नगर मोहली तहसील - खरार जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	30/09/1988	929	
48672	शर्मा सुनील कुमार	श्री राम कृष्ण शर्मा	पीत नगर, पी० ओ० देरा बसी, जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	14.11.2000	2384	
48673	शर्मा लता	पुत्री श्री सदा नन्द शर्मा	पी० पी० ओ० ब्रह्मपुर तहसील - आनन्दपुर साहिब जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	19.8.1999	2119	
48674	शर्मा विकास	श्री भारत भुषण शर्मा	गो नो - 557, गार्हस्ता काठट अलासगिर, जेल रोड फिस्ट गज लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2006	पंजाब	पंजाब	12.09.2007	3152	
48675	शर्मा विवेक कुमार	श्री सुखदेव कुमार शर्मा	सिरकी राजार जिला - मटांका (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	28/09/1988	1083	
48676	शर्मा विवेक	पुत्री श्री गुरारी लाल शर्मा	गो नो - 1731, राजपुर टाउनशिप - 1404701 जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	14/07/1993	1352	
48677	शर्मा विवेक कुमार	श्री नरेंद्र मोहन शर्मा	सोहना गांव पास देरा साहिब गुरुद्वारा तहसील - खरार (रोपर) पंजाब	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	28.6.1996	1883	
48678	शर्मा योगिता	श्री बाल कृष्ण शर्मा	गो नो - 102, सार्ड नो - 6, पास देरा सिन्हा संगर रोड, घुरी जिला - संगर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	5.12.1997	1737	
48679	शर्मा चेतन हरिचन्द्र	श्री हरीश चन्द शाहनी	182/बी सैक्टर - 3 हिरान मसरी शहर - चरगपुर जिला - चरगपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	पंजाब	पंजाब	25.07.2007	4874	
48680	शर्मा चन्द	सुखदेव शर्मा	पी० ओ० - समरावा तहसील - सरकावाल (एच० पी०) 2) 2864 सैक्टर - 40 - सी, मण्डीगढ़	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1979	पंजाब	हरियाणा	23.02.83	3498-ए	

क्र.सं.	शेयरहोल्डर का नाम	5 अंशिक पथ, सन्द नगर एक्सटेंशन गोविन्दपुरा, कलवार रोड शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एम० एम०	मई - 2004	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	28.03.2007	4528
48681	शेराज	35 - ए मॉडल हाउस, सुविमाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	11/04/1995	1534
48682	शेराज	मो नो - 3311, सैक्टर - 71, मोहाली	डी० एच० एम० एम० एम०	2001	पंजाब	पंजाब	07.04.2003	2824
48683	शेराज	मो नो - 281 उडी - 1 एम० एम० एम० एम०	डी० एच० एम० एम० एम०	1991	पंजाब	पंजाब	24/08/1992	1315
48684	शेराज	नगर, तहो - खरार जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	12.03.2001	2487
48685	शेराज	एम० पी० जिला - जेल, संगरूर	डी० एच० एम० एम० एम०	2003	पंजाब	पंजाब	05.04.2005	2853
48686	शेराज	मो नो - 1329, सैक्टर - 23 - बी चण्डीगढ़	डी० एच० एम० एम० एम०	किताब - 2006	पंजाब	पंजाब	1.9.2006	284
48687	शेराज	सुतनागा जैतवाई हिल्स	डी० एच० एम० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	15.07.2008	5038
48688	शेराज	गांव - श्रीमदियो की मदरी शहर - दा गोदिया जिला - चंदपुर	डी० एच० एम० एम० एम०	21.09.2006	पंजाब	पंजाब	05.08.92	24566
48689	शेराज	गांव - साल बाहु, श्रीवास्तवा, शाकुलाल निवासी, दहीवाल तोला, जयपुर - 841301, बिहार	डी० एच० एम० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	29.07.2008	77
48690	शेराज	1) मो नो - 8 सुन्दरबाग नगर लक्ष्मी रोडपुर्न पथ साउथ नोबोरो हथियाद गुवाहाटी - 38 असम 2) होमोपैथी हेल्थ क्लिनिक सामने सेवली पथ, हथीगा मेन रोड गप - 38, असम	डी० एच० एम० एम० एम०	21.09.2006	पंजाब	पंजाब	10.10.2008	5124
48691	शेराज	52 - वनस्पती मार्ग राम नगर कालोनी, सामने सिंधि कैम शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एम० एम०	जुलाई - 2005	पंजाब	पंजाब	20.03.2008	5009
48692	शेराज	आका भाटी रामसर, नरिसबाद शहर - अजमेर जिला - अजमेर	डी० एच० एम० एम० एम०	जुलाई - 2006	पंजाब	पंजाब	28.03.2007	4927
48693	शेराज	9/120, कुम्हा पुरी रेलवे रोड राया शहर - राया जिला - मधुरा	डी० एच० एम० एम० एम०	अगस्त - 2003	पंजाब	पंजाब	29/9/1986	925
48694	शेराज	मो नो - 1814 सैक्टर - 7 - सी, चण्डीगढ़	डी० एच० एम० एम० एम०	1995	पंजाब	पंजाब	21.01.2004	2857
48695	शेराज	मो नो - 938, फेस - 7, मोहाली	डी० एच० एम० एम० एम०	2002	पंजाब	पंजाब		

48698	सिद्धान्त कथला रानी	श्री स्वर्णा चन्द्र सिद्धान्त	नं० 70 - 20946 गली नं० - 13 अजीत नगर मर्हटा	श्री १५५० ए५० ए५०	मई - जून 2003	श्री १५५० यु० ए५० ए५०	पंजाब	22.07.2005	2902	
48697	सिद्धान्त अशुभाकर		गांव - सलापरी पीओ - शिरा आरु पीट सलापरी - 782123 जिला	श्री १५५० ए५० ए५०	फरवरी - 1981	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	24.06.08	1086	
48698	सिद्धान्त अशुभाकर	श्री आरु ९० सिद्धान्त	मार्केट डाटा सिरेन्दा बोलान ए- 26, समर नगर, एकस्टेंशन	श्री १५५० ए५० ए५०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	26.11.2008	5148	
48699	सिद्धान्त अशुभाकर	श्री जगदत्त सिंह सिन्धु	नं० 70 - 1200, गली नं० - 12 मुकुन्दनगर नगर, पटियाला (पंजाब)	श्री १५५० ए५० ए५०	1989	पंजाब	पंजाब	2.11.2000	2386	
48700	सिद्धान्त जतिन्द	श्री जागिरे सिंह	श्री १५० ओ० ए५० तह - खादोर साहिब	श्री १५५० ए५० ए५०	2003	पंजाब	पंजाब	16.03.2005	2833	
48701	सिन्धु कंचनदीप सिंह	श्री नाथ सिंह सिन्धु	बटवारी रोड वालाल जिला - तरन तारन (पंजाब)	श्री १५५० ए५० ए५०	2000	पंजाब	पंजाब	05.12.2001	2569	
48702	सिन्धु प्रीतपाल सिंह	श्री गुरुवरण सिंह	सामने शिव मंदिर, शिरे कालोनी बरनाला रोड, मर्हटा(पंजाब)	श्री १५५० ए५० ए५०	जून - 1987	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	31.05.2004	2704	
48703	सिमरी	श्री मुकेश चन्द	नं० 70 - 1828, केस - 5, मोहाली	श्री १५५० ए५० ए५०	2001	पंजाब	पंजाब	07.04.2004	2626	
48704	सिंह अनुज प्रताप सिंह	श्री मानु प्रताप सिंह	ई - 7, युनिवर्सिटी स्लाटर, सामने माया मिथान, अशोक नगर, शहर - चटपूर	श्री १५५० ए५० ए५०	जनवरी - 2007	जो आरु नाम राजस्थान विद्यापीठ (श्री १५० युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	20.06.2008	5089	
48705	सिंह बरन लाल सिंह	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह	किरवात भवन, रोनापर आजागराड, यु० पी० - 276122	श्री १५५० ए५० ए५०	2000	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता लखनऊ	यु० पी० बोर्ड लखनऊ	1.3.2001	25182	श्री १५० ए५० -2816
48706	सिंह गुरमीत	श्री हरपुल सिंह	गांव - तखस हवरा सिखान दा सदुलगाहर	श्री १५५० ए५० ए५०	2006	बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	राजस्थान	28.08.2008	5075	
48707	सिंह कबल	श्री कृष्ण सिंह	जिला- श्री गंगानगर	श्री १५५० ए५० ए५०	1982	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	3/4/1986	886	
48708	सिंह निरजन	श्री हर देश सिंह	श्री १५० ओ० कोटी खास राह - दधुवा	श्री १५५० ए५० ए५०	जून - 1983	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	राजस्थान	27.04.2007	4833	
48709	सिंह प्रशान्त कुमार डाटा प्राडन्स सिंह		गांव ए५० पीट कुन्ना जलन शहर - बुलन्दशहर	श्री १५५० ए५० ए५०	2007	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	यु० पी० बोर्ड लखनऊ	17.9.07	28228	श्री १५० ए५० -2818
48710	सिंह रवि कुमार	श्री १५० ए५० मदनदास	जिला - बुलन्दशहर	श्री १५५० ए५० ए५०	जनवरी - 2007	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	राजस्थान	23.09.2008	5077	
48711	सिंह अनिलक	श्री रणजीत सिंह	1) कल्याणपुर बरहालंग, गोरखपुर यु० पी० - 273402 2) होमोपैथी चिकित्सालय बरहालंग गोरखपुर (यु० पी०)	श्री १५५० ए५० ए५०	जुलाई - 2008	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	15.12.2008	5164	
48712	सिंह अर्धराजगाम		श्री / 88 - गांधी कालोनी, शहर - बलवा	श्री १५५० ए५० ए५०	अगस्त - 2005	बिहार युनिवर्सिटी	असम	16.03.07	1001	

48713	सिंह अमनदीप	सुखदेव सिंह	श्री पीठ ओंठ - सत नगर जिला - गिरसा	श्री एचओ एचओ एचओ	अप्रैल - 2006	पंजाब	हरियाणा	23.05.08	5828-ए	
48714	सिंह अमोल	श्री उदयदीर सिंह	एचओ आईओ जीओ, ए-20 - शहरीपुरम शहर - आगरा जिला - आगरा	श्री एचओ एचओ एचओ	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	15.04.2008	5015	
48715	सिंह अर्जुन	श्री जबर सिंह	नगर पालिका रोड, 17 - बापू साबरी मंडी शहर - समरपुर जिला - पाली	श्री एचओ एचओ एचओ	जनवरी - 2007	जो आरु नगर राजस्थान विद्यापीठ (श्रीक युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	15.07.2008	5040	
48716	सिंह अरविन्द	श्री दीप सिंह	पास एचओ सीओ आईओ मौलाउन, इन्डा कालोनी, शहर - बीकानेर जिला - बीकानेर	श्री एचओ एचओ एचओ	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5115	
48717	सिंह आशिम जय		मार्केट - एचओ एचओ कॉलेज पुजारी गुवाहाटी - 37	श्री एचओ एचओ एचओ	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	26.02.04	892	
48718	सिंह आनम अनानाडु		नगर चैकोन पीठ ओंठ जिला - इमकाल मणिपुर	श्री एचओ एचओ एचओ	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.11.07	1015	
48719	सिंह अमरार	श्री मेहर चन्द	गांव - जोरसर पीठ ओंठ - बन्धु टिपरी देहरा कागडा	श्री एचओ एचओ एचओ	2005	बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	04.09.06	105-ए	
48720	सिंह बालराज	श्री मुरार सिंह	गांव - सरौपुरा ठगुमान गढ़ झा, लखौ एचओ जिला - श्री गंगा नगर (राजस्थान)	श्री एचओ एचओ एचओ	1984	पंजाब	पंजाब	7.31.1986	878	
48721	सिंह बलकिन्दर	हरी सिंह	पास बहरा चौक माता दरगाजा रोड रोहताक - 124001	श्री एचओ एचओ एचओ	1980	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	7.09.08	5635-ए	
48722	सिंह बिरिन्द	बल राज	श्री पीठ ओंठ - कुलतान जिला - रोहताक	श्री एचओ एचओ एचओ	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	हरियाणा	23.05.08	5628-ए	
48723	सिंह ब्रह्मगुप्त धाम		श्रीमबाल कियाम सिपाह पीठ ओंठ - धीवाल जिला - इमकाल, मणिपुर	श्री एचओ एचओ एचओ	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	30.01.2002	495	
48724	सिंह छेत्रपाल	श्री हरी सिंह	गांव - कर्नात पीठ सोनिगढ़ शहर - कर्नात जिला - अलीगढ़	श्री एचओ एचओ एचओ	जनवरी - 2000	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	28.03.2007	4828	
48725	सिंह दलबीर	प्रियम सिंह	गांव - भगवानपुर पीठ ओंठ - बरगला जिला - पंचकुला	श्री एचओ एचओ एचओ	सितम्बर - 1982	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	23.02.83	3665-ए	
48726	सिंह धर्मवीर ई. सिंह	रमणीय इन्दवीन सिंह	सिंह गांव - 231/12 कुण कालोनी मुकाम	श्री एचओ एचओ एचओ	1974	विहार स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, पटना	हरियाणा	26.30.09	6857-ए	
48727	सिंह दीशा	बाग मणिप सिंह	बी - 479, पीठे दाना पानी रेस्टोरेन्ट मालविया नगर शहर - जयपुर जिला - जयपुर	श्री एचओ एचओ एचओ	जून - 2007	जो आरु नगर राजस्थान विद्यापीठ (श्रीक युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	7.11.2008	5130	
48728	सिंह दोयानन्दा		गांव - पीठ ओंठ - सिमुलपुरी जिला - सिवांगार असम	श्री एचओ एचओ एचओ	अक्टूबर - 2006	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	12.06.08	1082	

48729	सिंह इलामबाग प्रमोदगार	एसओ जेओ एसओ होम्यो कॉलेज खन्नापारा गुवाहाटी - 22	डीओ एसओ एसओ एसओ	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.06.98	703	
48730	सिंह गजराज	डीओ पीओ ओओ मोहनपुर जॉरिंग तस्लीम - नोह जिला - गुवाहाटी	डीओ एसओ एसओ एसओ	सितम्बर - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	14.11.94	5804-ए	
48731	सिंह निधान	1) 240 सैक्टर - 13, करनाल 2) 500 अक्ताप कालोनी, खुजपुरा रोड करनाल	डीओ एसओ एसओ एसओ	मार्च - 1995	कोरिया ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	23.08.85	5339-ए	
48732	सिंह प्रसन्नचन्द	सोलन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज धनसमता, सोलन	डीओ एसओ एसओ एसओ	2002	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	05.10.05	156-ए	
48733	सिंह हरजीत	गॉस - रामगढ़ पीओ ओओ - बटवाल जिला - अम्बाला	डीओ एसओ एसओ एसओ	जून - 1979	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	हरियाणा	23.02.98	5867-ए	
48734	सिंह इलामबाग इबराहिमरा	जेओ जेओ एसओ होम्योपैथी कॉलेज जोरहट, स्वाब रोड पीओ जिला - जोरहट - 8, असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.06.98	589	
48735	सिंह जगदीप	पीओ पीओ ओओ - नेवा तारु - चोपाल जिला - सिमला	डीओ एसओ एसओ एसओ	2008	जेओ आरओ नगर राजस्थान विद्यापीठ (डीस्क युनिवर्सिटी), उदयपुर	हिमाचल प्रदेश	5.11.08	213-ए	
48736	सिंह जसविन्द सिंह	189 - ई ब्लाक सिरसा	डीओ एसओ एसओ एसओ	नवम्बर - 2003	बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	7.07.2005	6734-ए	
48737	सिंह कुलदीप	84 - सी भारत कालोनी एसओ टीओ पेहलक	डीओ एसओ एसओ एसओ	सितम्बर - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	12.08.88	5462-ए	
48738	सिंह लक्ष्मण प्रसाद	1) एट - गोपीनथ पुर कालिदेव पीओ ओओ - निरसा जिला - धनबाद, झारखण्ड - 828205 2) गॉस - खेजुरबादिया पीओ ओओ - पुनर्नदरेपुरा जिला - बंगुरा देहल बंगाल	डीओ एसओ एसओ एसओ	2001	डीओ पीओ बिहार युनिवर्सिटी	देहल बंगाल कोरिया, कलकत्ता बिहार बोर्ड	17.08.2002 10.07.2002	-ए 24485 28855	सीओ सीओ एसओ -2573
48739	सिंह लाल	गॉस एडव पोस्ट इनसुलर शहर - झुनझुन शहर - झुनझुन	डीओ एसओ एसओ एसओ	मई - 2004	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	31.03.2008	5014	
48740	सिंह लालेन	गॉस - सिंकोवा घाट पीओ ओओ - सिंकोवा घाट जिला - तिनगुडिया, असम	डीओ एसओ एसओ एसओ	जुलाई - 1980	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	09.09.92	613	
48741	सिंह महेशपाल सोनिगिरा	गॉस श्री कल्याण सिंह सन्तत, 2 - शहर - झालावा जिला - झालावा	डीओ एसओ एसओ एसओ	मई - 2007	बरकपुरा युनिवर्सिटी, भोपाल	राजस्थान	5.2.2009	5190	
48742	सिंह मन्दीर	डी प्रसाद नगर, पीओ ओओ - अमृतसर कलान जिला - सिरसा - 125102	डीओ एसओ एसओ एसओ	जनवरी - 2007	जेओ आरओ नगर राजस्थान विद्यापीठ (डीस्क युनिवर्सिटी), उदयपुर	हरियाणा	27.11.08	6848-ए	

48743	सिंह मनोज कुमार सिंह	श्री देवनाथ प्रसाद सिंह	1) एट पी० ओ० - नरपति नगर, श्याम सिकरी जिला - मधुबनी, बिहार - 847239 2) मार्फत डा० सुनील कुमार शर्मा कमलधरप्रसाद होम्यो क्लीनिक, होस्पिटल रोड, भाका न० - 6, लहेरिया सराई दरौंगा, बिहार - 848001	बी० एच० एम० एच०	2002	बी० एच० एम० एच० युनिवर्सिटी	बिहार बोर्ड	02.07.2002	28847	सी० सी० एच० - 2581
48744	सिंह मनेय दिगविजय सिंह हरि	श्री हरी सिंह मनेय	हिरन मगरी, शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	बी० एच० एम० एच०	जनवरी - 2008	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीम्ह युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	25.07.2007	4873	
48745	सिंह एन. जयन्त		एस० जे० एम० होम्स कॉलेज पंजाबी मुवाहाटी - 22	डी० एच० एम० एच०	मई - 1991	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	13.07.98	518	
48746	सिंह एन. तरुण कुमार		जे० जे० एम० होम्स कॉलेज जोरहट, हलब रोड पी० ओ० जिला - जोरहट - 8, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.05.98	586	
48747	सिंह नरेन्द्रपाल	कुलदेव रॉय गुप्ता	पुनी कॉलेज, विष्णु कॉलेज कुल्लुबेडा	डी० एच० एम० एच०	1983	कौंसिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	14.11.94	6801-ए	
48748	सिंह नरेन्द्र	श्री सत्या देव सिंह	12 - ए - 8, पास भीमा होस्पिटल, शहर - बापू नगर, जिला - फिलवाड़ा	बी० एच० एम० एच०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीम्ह युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	26.07.2008	5065	
48749	सिंह नरेश प्रसाद	श्री विनोदशार सिंह	सोलन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, कुमायूँटी, सोलन	बी० एच० एम० एच०	1999	बी० आर० ए० युनिवर्सिटी बिहार मुजफ्फरपुर	हिमाचल प्रदेश	06.05.08	191-ए	
48750	सिंह नागेश्वराम विलेन्दुजील		जे० जे० एम० होम्स कॉलेज जोरहट, कसब रोड पी० ओ० जिला - जोरहट - 8, असम	डी० एच० एम० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.06.96	574	
48751	सिंह ओकराम हेमन्त		पी० ओ० सितप्रजामई - 785008 जिला - दमणाल रोड मणिपुर	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	29.06.98	045	
48752	सिंह ओमकार नाथ सिंह	श्री राम बिलास सिंह	1) 89/95, बंगुर पार्क थार्ड लाइन, सिबारा - होफिली (सेन्ट बंगाल) पिन कोड - 712248 2) गाँव - आदर्श पोस्ट - आदर्श, जिला - बान्हावली (पु० पी०)	डी० एच० एम० एच०	2001	सेन्ट बंगाल कॉलेज, कलकत्ता	सेन्ट बंगाल कॉलेज, कलकत्ता	4.4.2001	23654	सी० सी० एच० - 2597
48753	सिंह प्रथान	श्री भेद सिंह	गाँव - कियारी पी० ओ० - चुगल, सिंगला	बी० एच० एम० एच०	2008	युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	हिमाचल प्रदेश	04.04.07	175-ए	
48754	सिंह प्रताप	श्री एच० एच० एच० राठीर	गाँव - हवानी पी० ओ० - सोलयाता तहसील - चुगलखिन, बिलासपुर	बी० एच० एम० एच०	2005	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	14.03.07	173-ए	

48765	सिंह श्रीतपाल	जगजीत सिंह बरा	म० न० - 44, सैक्टर न० - 9/1 पास तिनव बाटिका शहर - हनुमान गढ़ जिला - हनुमान गढ़	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1988	डी० एच० एच० एच० पंजाब	राजस्थान	2.07.2007	4844	
48766	सिंह पुष्पेन्द्र	श्री विरेन्द्रा पाल सिंह	408 - बूझा नगर शहर - भरतपुर जिला - भरतपुर	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 2008	जीवाजी युनिवर्सिटी गालियर	राजस्थान	7.01.2008	4981	
48767	सिंह राज कुमार पारसमणि		एच० जे० एच० होम्स कॉलेज पंजाबरी गुवाहाटी - 37	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.03.98	834	
48768	सिंह रणदीप	हरपाल सिंह	447, सैक्टर - 13, यु० ई करनाल	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1992	कॉसिल ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	27.09.94	5593-ए	
48769	सिंह रणवीर गहलावाल	भगवान सिंह	डी० पी० ओ० - फरमाना जिला - सोनीवाल	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1986	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	22.09.87	5424-ए	
48770	सिंह राव विकासचन्द कुमलेश	श्री कमलेश सिंह	400 - बी. एच० अविधारी बाग, पी० ओ० गोरखनाथ जिला - गोरखपुर - 273015, (यु० पी०)	डी० एच० एच० एच०	2008	महाराष्ट्र युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नाशिक	महाराष्ट्र मुम्बई	22.12.05	40348	डी० सी० एच० -2881
48771	सिंह रविन्द	स्वर्णिनी श्री रावेल सिंह	238 - ई ब्लॉक गार्ड एनपीर सिंह नगर बुधियाणा (पंजाब)	जी० एच० एच० एच०	1982	जयपुर युनिवर्सिटी	पंजाब	9/4/1986	886	
48772	सिंह रविन्द	श्री बम सिंह	गति एच० पोस्ट - महाज शहर - राय विच जिला - भरतपुर	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 2008	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.12.2007	4974	
48773	सिंह एस. भीम		ज० जे० एच० होम्स कॉलेज जोरहट, पुस्तक रोड पी० ओ० जिला - जोरहट - 9, असम	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	14.09.98	564	
48774	सिंह सबरजीत	कमल सिंह	डी० पी० ओ० हिल्सवाला, तहसील - तोहाना जिला - फतेहाबाद	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2006	पंजाब	हरियाणा	23.04.08	5819-ए	
48775	सिंह सूरज	श्रीया सिंह	445/2 आदर्श नगर, नई रेलवे रोड पास सरस्वती काम्यलैक्स गुडगाँव	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1990	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	हरियाणा	30.10.98	5870-ए	
48776	सिंह सुरेन्द्र	राम कुमार	डी० पी० ओ० - बरसापुर जिला - गुडगाँव	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	20.07.90	5538-ए	
48777	सिंह तेजराज	श्री गुलाब सिंह	आर्यो गेट, पास लाल कोठी, शहर - दिग जिला - भरतपुर	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5110	
48778	सिंह भुनाजोबा गुजेसर		जे० जे० एच० होम्स कॉलेज पंजाबरी गुवाहाटी - 37	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1992	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	28.08.98	829	
48779	सिंह उमेश	श्री रम चन्दा	तहसील - जवाल शहर - नगीर जिला - नगीर	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 2004	जे० आर० एच० राज० सिद्धापीठ,	राजस्थान	28.02.2008	5000	
48770	सिंह उत्तम	श्री कल्याण सिंह	डी - 441, मालविया नगर, शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जी० जी० सिंह आर्क० पी० युनिवर्सिटी दिल्ली	राजस्थान	15.01.2008	5176	

48771	सिंह वरुणा	श्री पूर्णेश सिंह	18 - सरस्वती नगर, पास मालि कोलोनी शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 2007	जो आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	20.08.2008	5085	
48772	सिंह विजय	श्री रणवीर सिंह	49 गुरुदास कालोनी, बराणसी 22101, यु० पी०	एम० एम० (हिस)	1988	फेकली ऑफ होम्योपैथी उदयपुर	आन्ध्रा प्रदेश	27.03.06	6248	सी० सी० एम० -2718
48773	सिंह विजय	गालार	माव - कुशक पोस्ट - राणा पलवाल जिला - फरीदाबाद	डी० एम० एम० एम०	अगस्त - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	9.08.89	5513-ए	
48774	सिंह विकास	श्री ओंकार कच्छेल	डी० एम० ओ० शहर - द जिला -	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 2008	जो आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	28.02.2008	5004	
48775	सिंह विकास	श्री ओंकार कच्छेल	पी० पी० ओ० - जिला - हमीरपुर	डी० एम० एम० एम०	2007	जो आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	हिमाचल प्रदेश	22.02.08	183-ए	
48776	सिंह योगिता	श्री रामेश्वर सिंह	70 न० - 175, ए - सिडि - सिडि नगर शहर - कुहदी जिला - कोटा	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 2008	जो आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीन्ड युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	26.07.2007	4689	
48777	सिंह युनाम शान्ति कुमार		एम० जो एम० होम्यो कॉलेज पंजाबी गोवाली - 37	डी० एम० एम० एम०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	02.05.98	887	
48778	सिंह (मिस्), पुष्पा	श्री राम श्याम सिंह	1) एम/एस डी टी इन्स्टीट्यूट ए सिन्डर गहरामान सामने तसुम	डी० एम० एम० एम०	27.08.2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	13.08.2008	84	
48779	सिंह अजयपाल	श्री हरजाल सिंह	गंव - जद पी० ओ० - छांगला तह दसुया जिला - होशियारपुर	डी० एम० एम० एम०	2004	डी० एम० यु० एम० एम० पंजाब	पंजाब	17.04.2006	3016	
48780	सिंह अजीन्द	श्री सुखदेव सिंह	मार्फत सनगत मेडिकल हॉल मेन बाजार नंदी गोविन्द गढ़	डी० एम० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	10.08.2005	2906	
48781	सिंह आलमजीत	श्री हरवंत सिंह	70 न० - 432 फेस - 3 - बी - 1, गोवाली (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	02.01.2003	2807	
48782	सिंह अमनदीप	श्री रघुवीर सिंह	70 न० - 35, लाजर माल, कमुला (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	28.8.1998	1930	
48783	सिंह अमनदीप	श्री गोविन्द सिंह	पी० पी० ओ० - खुददीन गंगा सिंह, सह - लारी जिला - मुक्तसर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	17.10.2000	2373	
48784	सिंह अमनदीप	श्री कर्न सिंह	गंव एम० पी० ओ० - सनीर तह एम० जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एम० यु० एम० एम० पंजाब	पंजाब	27.03.2008	3160	
48785	सिंह अमर	श्री राम सिंह	नया सूरज नगरी, अमोहर जिला - फिरोजापुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1988	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	12.2.1999	2017	
48786	सिंह अमरवीर	श्री हरमजन सिंह	88, अर्जुन नगर, छाटिन्द कनाल सरन तारन रोड, अमृतसर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	7.12.2000	2400	
48787	सिंह अनरिन्द	श्री हरमजन सिंह	36/3 सामने टी० पी० गोविन्द पी० ओ० - शेरन वाला गेट, पटियाला (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	2.7.2000	2275	
48788	सिंह अमरजीत	श्री दिलीप सिंह	288 नानक पुरी मिलर गंज जुडियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1990	पंजाब	पंजाब	8/6/1993	1350	

48789	सिंह अमरजीत	श्री निधान सिंह	नं० - 1004/6 इन्द सिंह गिल नगर मोगा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	24.1.2001	2429	
48790	सिंह अमरजीत	श्री अमन सिंह	डी० पी० ओ० अमरपाल तहसील रायलकोट जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	07.04.2008	3194	
48791	सिंह अमरदीप	श्री रविन्द सिंह	ए - 320, एनजीत एमिनि, अमृतसर	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	24.10.2005	2913	
48792	सिंह अमरिन्द	श्री एनजीत सिंह	गोवि - जगदाह पी० ओ० - हजारा नगर जिला - गुरदासपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	7.9.2000	2350	
48793	सिंह अमरिन्द	श्री हरजीत सिंह	नं० 250, मोंडल पान, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	24.04.2008	3211	
48794	सिंह अमृतपाल	श्री अमर सिंह	नं० नं० - 3, नेता जी पार्क, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	पंजाब	8/3/1995	1437	
48795	सिंह अमृतपाल	श्री अजीत सिंह	गोय - उमरपुर, पी० ओ० - सिन्धु नगर तहसील मलरकोट जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	09.04.2008	3200	
48796	सिंह अमृतलीन	श्री जसवंत सिंह बापक	नं० नं० - 982/ए, दुर्गा मुरी लाइन रोड हथोवाल कलान, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1982	पंजाब	पंजाब	28/09/1995	1545	
48797	सिंह अनुप	पुत्र मोहन सिंह	पास जी० जी० हाई स्कूल सुलतानपुर लोधि जिला - मधुपरा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	22/02/1988	1063	
48798	सिंह अनुप	श्री हरदेव सिंह	139, चौक कालोनी पटियाला	डी० एच० एच० एच०	1989	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	27.06.2003	2839	
48799	सिंह अनुप	श्री जोगिन्द सिंह	नं० नं० - 116 नया मोंडल टाउन कालोनी होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	डी० एच० एच० एच०, पंजाब	15.08.2008	3273	
48800	सिंह अन्वर्षि	श्री रविन्द सिंह	बी - 7/427 मोहल्ला कुलाना शाहपुर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	12/12/1995	1567	
48801	सिंह अरवीर	श्री एनवीर सिंह	डी० पी० ओ० कलकपुर एनपुन राठो एच० जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2005	पंजाब	डी० एच० 30 एच० एच०	30.08.2007	3148	
48802	सिंह अरविन्द	श्री कल्याण सिंह	210, फेस - 3 - ए, मोहाली तहसील - खार जिला-रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	3.7.2000	2271	
48803	सिंह आशिका	पुत्री श्री राय सिंह	नं० नं० - 3445, सैक्टर - 71, मोहाली तहसील - खार जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	11.8.1999	2109	
48804	सिंह अमोकापान खिलकाविश	श्री अमोकापान तौमरा सिंह	1) केनकाई योगलान लखौरक, इमकाल ईस्ट मणिपुर 2) मार्केट प्रिन्सीपल एच० ई एच० एच० डी० एच० मोंडल, सिक्क विहार, इटानगर एच० पी० कोन - 88508749	डी० एच० एच० एच०	9/2/2009	पंजाब	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	9.03.2009	112	
48805	सिंह अवतार	श्री जगदीश सिंह	वाई नं० - 5 डी एच० पी० ओ० - बुलूर - 140610 राठो - राजपुर जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1995	पंजाब	पंजाब	20/04/1987	978	
48806	सिंह अवतार	श्री गुरुवर्ण सिंह	नं० नं० - 14820, गल्ली नं० - परनात नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	14/02/1989	1112	

48807	सिंह अद्वार	श्री मेहर चन्द	मो नो - 888 , ब्लाक भाई रणधीर सिंह नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम० एच०	मई - जून 2005,	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	19.06.2007	3131
48808	सिंह बलरूप	श्री राज सिंह	डी० पी० ओ० - 41 भागां तंज फगवासा जिला - कपूरथला (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1989	बिहार युनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर	पंजाब	9.2.1998	1790
48809	सिंह बालीहार	श्री गुरदाया सिंह	गाँव - कनजवा पी० ओ० मारीन्दा जिला - रोपड़ (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	14/10/1986	930
48810	सिंह बालीहार	श्री प्रकाश चन्द	गाँव - महलपुर पी० ओ० - बुढागुरु तहसी - मुकेशियन जिला - हरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	मई - जून 2006,	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	26.12.2007	3158
48811	सिंह बलजीत	पुत्र श्री भादु सिंह	मो नो - 2226 फौजी मोहला , सिल्लर गंज लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1983	बिहार युनिवर्सिटी , मुजफ्फरपुर	पंजाब	16/05/1986	897
48812	सिंह बलजीत	पुत्र श्री गुलाम सिंह	मो नो - 208 निरकारी कुंठा नई - 2 सिल्लर गंज लुधियाना - 3 (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	4/11/1987	1018
48813	सिंह बलजीत	श्री हरबस सिंह	मो नो - 8/188 चौम गली तान तारन जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1989	बिहार युनिवर्सिटी , मुजफ्फरपुर	पंजाब	27/05/1992	1294
48814	सिंह बलजीत	श्री सुरत सिंह	डी० पी० ओ० छबबल , तहसी तारन जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	6.10.1999	2144
48815	सिंह बलविन्दर	श्री जीत सिंह	मो नो - 1044 - ए सैक्टर - 41 - डी , चण्डीगढ़	डी० एच० एम० एच० एम०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	22.09.2006	3058
48816	सिंह गुणेंद्र	पुत्री श्री जोगिन्द सिंह	मो नो - 539 / 2, पट्टी , जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	5.9.2000	2345
48817	सिंह गुणेंद्र	श्री बलवंत सिंह	पब्लिक वाली क्लिनिक मिर्सात बहा 152101 तहसी - मुजफ्फर जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1983	बिहार युनिवर्सिटी , मुजफ्फरपुर	पंजाब	03/03/1987	974
48818	सिंह गुणेंद्र	श्री प्रीतम सिंह	मो नो - 300 , हिममताना तहसी - मलेकोटाला जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1987	पंजाब	पंजाब	14/02/1989	1114
48819	सिंह गुणेंद्र	श्री मेजर सिंह	डी० पी० ओ० - भागात भाईका तहसी - रामपुरा काल मटौडा	डी० एच० एम० एच० एम०	2000	पंजाब	पंजाब	26.04.2002	2596
48820	सिंह गुणेंद्र	श्री जगदीश सिंह सोधी	मो नो - 1821 सैक्टर - 32 , चण्डीगढ़ रोड , लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	07.04.2008	3193
48821	सिंह गुणेंद्र	श्री पवित्र सिंह	कल्याण होम्सोपेरी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल , जगदियाला रोड तान जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	24.03.2008	3171
48822	सिंह गुणपाल	श्री जस कौर सिंह	मार्फत दामेश मेडिकल हॉल , लाजपत राय रोड जगदिया जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1984	पंजाब	पंजाब	10/7/1986	911
48823	सिंह गुणपाल	श्री जसवीर सिंह	दामेश मेडिकल हॉल कांठेज रोड , जगदिया जिला - लुधियाना	डी० एच० एम० एच० एम०	1984	पंजाब	पंजाब	28.04.2003	2630
48824	सिंह विक्रमजीत	श्री जोगा सिंह	डी० पी० ओ० कोटली खास तहसी - दुधुवा जिला - हरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1985	बिहार युनिवर्सिटी , मुजफ्फरपुर	पंजाब	10.7.1986	910
48825	सिंह विक्रमजीत	श्री सुखदेव सिंह	सोडिया क्लिनिक , गुरदि बाजार , तान जिला	डी० एच० एम० एच० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	08.04.2008	3197
48826	सिंह बिन्दु	पुत्री श्री हरजिन्द सिंह	मो नो - 67 बरबु जांरु बरती रोड जलसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एम०	1983	पंजाब	पंजाब	16/03/1995	1453

48827	सिंह दुर्ग	श्री गुरमेल सिंह (पंजाब)	वी० पी० ओ० खेमना जिला - मर्ठीका न० 70 - 38, फंस - 4, ए० १० ए० नगर मोहाली जिला - रोपर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1992	पंजाब	29/1996	1645	
48828	सिंह बरनजीत	श्री जंग सिंह	न० 70 - 38, फंस - 4, ए० १० ए० नगर मोहाली जिला - रोपर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1986/1989	पंजाब	6.1.1997	1766	
48829	सिंह दलजीत	श्री नरगार सिंह (पंजाब)	न० 70 - 2974, फंस - 7, मोहाली (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1998	पंजाब	22.1.2001	2415	
48830	सिंह दलजीत	श्री जोगिन्द सिंह	वी० पी० ओ० - बाबा बकाला जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	2000	पंजाब	09.10.2001	2566	
48831	सिंह दर्शन	श्री मचार सिंह	गाँव - बालगिन्नी पी० ओ० - गोनिया मंडी जिला - मर्ठीका (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1985	पंजाब	11/10/1981	1285	
48832	सिंह दर्शन	श्री नरेजन सिंह	240 कजीत नगर पटियाला (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1987	पंजाब	19.3.1987	1719	
48833	सिंह दर्शन	श्री नरनन सिंह	वी० पी० ओ० - कोटली खास तहसील - मुकरीयन जिला - होशियारपुर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1989	पंजाब	27.3.1998	1817	
48834	सिंह दर्शन	श्री बुता सिंह	न० 70 - 14342 मर्ठी रोड, मर्ठीका (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1999	पंजाब	24.1.2001	2431	
48835	सिंह दशिन्द	श्री कर्मजीत सिंह	वी० पी० ओ० - बाबा तहसील ए० १० - लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1998	पंजाब	13.10.1998	1879	
48836	सिंह दशिन्द दीप	श्री हरचन्द सिंह	न० 70 - 2, बार्ड न० - 13, अहेमदगढ़ तहसील - मस्कोटला जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1981	पंजाब	16/08/1994	1381	
48837	सिंह दिनेश	श्री जसवंत सिंह	421 - ए०, मौहल टालन, लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1990	पंजाब	12/6/1991	1298	
48838	सिंह देवादीप	श्री साधु सिंह	बी - 4 - 8, करपास नगर, अहोहर जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1998	पंजाब	21.7.2000	2307	
48839	सिंह दवीन्द्र	श्री परमजीत सिंह	श्रीप न० - 1 जवाहर नगर कैम लुधियाना	बी० ए० ए० ए०	2004	बी० ए० ए० ए० ए०	24.10.2005	2927	
48840	सिंह देविन्द	पुत्र श्री करतार सिंह	वी० पी० ओ० - नारी तहसील - समरला लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1987	पंजाब	28/12/1988	1103	
48841	सिंह देविन्द	तेजवत सिंह	सिद्ध होम्योपैथी क्लीनिक पुनावा बाजार मारीदा जिला - रोपर	बी० ए० ए० ए०	2004	बी० ए० ए० ए० ए०	24.10.2005	2935	
48842	सिंह देविन्दपाल	श्री रणजीत सिंह	गाँव - छाहलन पी० ओ० - लखरन तहसील - समरला जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1989	पंजाब	30/07/1991	1280	
48843	सिंह बनवन्त	श्री आनूप सिंह	न० 70 - 1643/ फंस - 3 बी 2 मोहाली, जिला - रोपर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1990	पंजाब	25/06/1992	1302	
48844	सिंह दीवार	श्री मोहिन्द सिंह	गाँव - रणगियान पी० ओ० - मोरीन्दा जिला - रोपर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1990	पंजाब	10/11/1994	1417	
48845	सिंह दीवार	श्री ध्यान सिंह	वी० पी० ओ० - महालन तहसील ए० १० जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1987	पंजाब	16.6.2000	2282	
48846	सिंह दीवार	श्री गुरवण सिंह	वी० पी० ओ० - संगरूर-नी महुवाल संता बाला जिला - तारन तारन	डी० ए० ए० ए०	2000	पंजाब	27.07.2001	2534	
48847	सिंह दिलबाग	श्री हरसा सिंह	645/64, जे - ब्लाक, मोहिन्दवाड रोड तारन तारन जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० ए० ए० ए०	1996	पंजाब	14.7.1998	1889	

सिंह दीयानन्द)	सिंह रामचरण सिंह	1) मार्फत आर्यो सिंह टाउन सिमलपुरी जिला - सिवसगर (असम) पीओ ओ - सिमलपुरी	2) मार्फत आर्यो सिद्धो बोस सी - रोहतास नहारलापुर	पीओ एमओ एसओ	11/12/2007	सिबसगर युनिवर्सिटी	अरुणाचल प्रदेश	4.02.2008	78
48848	सिंह ग्यान रघुर्ण	श्री गुरुदेव सिंह	श्री गुरुदेव सिंह	श्री गुरुदेव सिंह	1997	पंजाब	पंजाब	7.1.1999	2006
48849	सिंह ग्यानदीप	श्री बलदेव सिंह	श्री बलदेव सिंह	श्री बलदेव सिंह	1995	पंजाब	पंजाब	13/03/1996	1820
48850	सिंह ग्यानदीप	श्री प्रकाश सिंह	श्री प्रकाश सिंह	श्री प्रकाश सिंह	2000	पंजाब	पंजाब	9.2.2001	2447
48851	सिंह ग्यानदीप	श्री प्रकाश सिंह	श्री प्रकाश सिंह	श्री प्रकाश सिंह	2004	पीओ एमओ एसओ	पंजाब	24.03.2006	2898
48852	सिंह ग्यानदीप	श्री प्रकाश सिंह	श्री प्रकाश सिंह	श्री प्रकाश सिंह	1985	पंजाब	पंजाब	08.10.2003	2845
48853	सिंह गोविन्द	श्री विशाल सिंह	श्री विशाल सिंह	श्री विशाल सिंह	1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	पंजाब	9/3/1989	1140
48854	सिंह गुरवरण	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	नवम्बर - दिसम्बर 2005	पीओ एमओ एसओ	पंजाब	26.08.2008	3288
48855	सिंह गुरदेव	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	1987	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	22/11/1995	1553
48856	सिंह गुरदेव	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	1985	पंजाब	पंजाब	4.5/1987	979
48857	सिंह गुरदेव	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	1985	पंजाब	पंजाब	12.02.2001	2452
48858	सिंह गुरदेव	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	1989	पंजाब	पंजाब	18.05.2005	2003
48859	सिंह गुरदेव	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	1987	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	29/10/1990	1214
48860	सिंह गुरदेव	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	1988	पंजाब	पंजाब	6.3.2000	2224
48861	सिंह गुरदेव	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	1985	पंजाब	पंजाब	16/02/1989	1118
48862	सिंह गुरदेव	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	श्री कर्म सिंह	1989	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	27/05/1992	1293

48863	सिंह गुरपीत	पुत्र श्री जोगिन्द सिंह	बी० पी० ओ० - लखन के पदरा तहसील - कपुरथाला (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	29/10/1987	1012	
48864	सिंह गुरपिया	श्री जगदेव सिंह	बी० पी० ओ० - मंडी कलात तहसील - रामपुरा काला - मंडी (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	4.1.2000	2403	
48865	सिंह गुरपीत	सुन्दर सिंह	गांव एच० बी० ओ० - बगथाला जिला - कुल्कोठा	बी० एच० एम० एच०	1989	पंजाब	कॉमिल ऑफ होमोपैथी सिरटन ऑफ मेडिसिन, हरियाणा पंजाब	3.03.2006	5750-ए	
48866	सिंह गुरपीत	श्री अंगरेज सिंह	मो० न० - 12 - ए गली न० - 3 पी० ओ० - खन्ना नगर, कृष्णा नगर अमृतसर (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	15/03/1990	1200	
48867	सिंह गुरपीत	श्री करतार सिंह	बी० पी० ओ० - पड़ौला तहसील - नया जिला - मंडी (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	6/11/1990	1217	
48868	सिंह गुरपीत	श्री कर्न सिंह	बी० पी० ओ० - तलवंडी रीथ तहसील - रीथकोट जिला - लुधियाना	बी० एच० एम० एच०	1994	पंजाब	पंजाब	27/02/1986	1579	
48869	सिंह गुरपीत	श्री बलवंत सिंह	जैन मार्केट, जिला जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	1985/1987	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	22.4.1987	1706	
48870	सिंह गुरपीत	श्री अमरजीत सिंह	178, नया मॉडल टाउन लुधियाना	बी० एच० एम० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	03.07.2001	2622	
48871	सिंह गुरपीत	श्री कुलजीत सिंह	मो० न० - 843, सैक्टर - 11, गार्डन कालोनी खार जिला - मोहाली	बी० एच० एम० एच०	2006	पंजाब	पंजाब युनिवर्सिटी, मल्होत्रागढ़	05.09.2006	3038	
48872	सिंह गुरपीत	श्री प्रीतपाल सिंह	मो० न० - 174, सैक्टर - 14, जी० टी० बी० चामने बस स्टैंड खार जिला - मोहाली (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	बी० एच० एम० एच०	02.04.2008	3185	
48873	सिंह गुररणजीत	पुत्र श्री सखा सिंह	बी० पी० ओ० - हयवोवाल कलात तहसील - जिला - लुधियाना (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	9/5/1989	1181	
48874	सिंह गुरदेव	श्री हरदेव सिंह	139, सैक्टर कालोनी पटियाला	बी० एच० एम० एच०	1989	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	27.06.2003	2639	
48875	सिंह गुरदेव	श्री गुरतार सिंह	गांव - चकरीयान पी० ओ० - कोट - लखु तहसील - जिला - मंडी (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	1989	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	16/7/1991	1258	
48876	सिंह गुरविन्द	श्री केवल सिंह	मो० न० - 1652 गली न० - 2 बन्द नगर लुधियाना	बी० एच० एम० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	30.06.2001	2613	
48877	सिंह गुरविन्द	श्री गुरदीप सिंह	मो० न० - 3582, सैक्टर - 89, मोहाली	बी० एच० एम० एच०	2002	पंजाब	पंजाब	19.11.2003	2653	
48878	सिंह गुरविन्द	श्री हरदेव सिंह	सगुवाल, खोहरा रोड जिला - लुधियाना	बी० एच० एम० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	07.11.2001	2565	
48879	सिंह गुरविन्द	श्री गुरदीप सिंह	208 / ए बरहीपुर सिविल साहब, बरही (पु० पी०)	बी० एच० एम० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	14/05/1987	980	
48880	सिंह हकम	श्री मेहमान सिंह	बी० पी० ओ० - बरली अला सिंह, सिविल जिला - पटियाला	बी० एच० एम० एच०	मई - 1987	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	18.08.2001	2640	
48881	सिंह हररा	श्री सिरोजन सिंह	बी० पी० ओ० - लागोवाल जिला - संगरूर (पंजाब)	बी० एच० एम० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	17/08/1994	1397	
48882	सिंह हरराजन	श्री गुरदेव सिंह	10, लाजपत रीथ मार्केट पास बरली टावर लुधियाना	बी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	15/11/1995	1652	

सिंह हरमज	श्री प्रीतम सिंह	बसंत नगर, खन्ना जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1987/89	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	20.8.1997	1721
48984	सिंह हरचरण	पुत्र श्री चारु सिंह गांव - दलौवाल पी० ओ० - दंगन तह० - दसुया जिला - हरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	10/1/1990	1182
48985	सिंह हरदीप	खन्ना रोड, समराला जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1989	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	15/07/1991	1259
48986	सिंह हरदीप	पी० पी० ओ० - फतेहपुर राजपुर तह० एम० जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	12.8.1998	2112
48987	सिंह हरदीप	बी - 3, न० 70 - 460, देलोन रोड नन्दपुर सहनवाल जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	2001	पंजाब	पंजाब	22.01.2002 27.08.2008	2580 नवम्बर - दिसम्बर 2005 बी० एच० यूपी एम० एम०
48988	सिंह हरदेव	पी० पी० ओ० - मेहन सरजा तह० एम० जिला - मटोडा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	8/8/1986	890
48989	सिंह हरदेव	गांव - किला जीवन सिंह पी० ओ० - न० 70 - 84 - के शाखा नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	18.05.2001	2508
48990	सिंह हरमनपाल	गांव - किला जीवन सिंह पी० ओ० - न० 70 - 84 - के शाखा नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	1/10/1993	1357
48991	सिंह हरिन्दजीत	पुत्र श्री अवतार सिंह	डी० एच० एम० एम० एम०	1989	पंजाब	पंजाब	4/8/1988	1072
48992	सिंह हरिन्दजीत	पी० पी० ओ० - अयाली कलान जिला - लुधियाना (पंजाब)	बी० एच० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	बी० एच० यूपी एम० एम० एम०	पंजाब	07.04.2008	3195
48993	सिंह हरजीत	मोहल्ला - देव बुरी खेत रोड तह० - फागवाड़ा जिला - कपूरथला	डी० एच० एम० एम० एम०	1985	पंजाब	पंजाब	8/8/1986	1814
48994	सिंह हरजिन्द	झानी जैन सिंह मार्केट, बघा पुराना जिला - योगा (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	21.10.1999	2157
48995	सिंह हरजिन्द	पी० पी० ओ० - बीन्स जिला - नवानागढ़ (पंजाब)	बी० एच० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2008	बी० एच० यूपी एम० एम० एम०	पंजाब	28.03.2008	3182
48996	सिंह हरजिन्दपाल	गांव - माहनी नथु पी० ओ० - कुल कलान जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1984	पंजाब	पंजाब	3/4/1986	882
48997	सिंह हरजीत	हिरा कलौनिक, देसरी रोड, लुधियाना	डी० एच० एम० एम० एम०	दिसम्बर - 1984	बी० एच० एम० एम० एम०	पंजाब	05.12.1985	881
48998	सिंह हरजिन्दजीत	न० 70 - 302 किदवाह नगर लुधियाना	बी० एच० एम० एम० एम०	2004	बी० एच० यूपी एम० एम० एम०	पंजाब	24.10.2005	2828
48999	सिंह हरजिन्द	70 - 71, छोटी बरादरी, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एम० एम०	1987/87	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	5.2.1998	1789
48990	सिंह हरमनदीप	102 - ए. नथुन इन्ड्रेल, बरेवाल रोड लुधियाना	बी० एच० एम० एम० एम०	2004	बी० एच० यूपी एम० एम० एम०	पंजाब	24.10.2005	2846
48991	सिंह हरमनदीप	बी - 408 / 1 कृष्णा नगर, लुधियाना	डी० एच० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	02.03.2001	2461

48902	सिंह हरविन्द	श्री गुरदेवसिंह पुत्री पीठ ओठ - कुंगी कलान बाया सन श्री नन्द लाल राम तहो - पलतडी सनु जिला - मर्ठीका पाल (पंजाब)	पीठ एको एको एको	1988	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	पंजाब	9/3/1989	1137
48903	सिंह हरविन्द	श्री सुरेन्द्र सिंह	पीठ एको एको एको	2001		पंजाब	31.01.2008	2985
48904	सिंह हरपाल	श्री शरण सिंह	पीठ एको एको एको	1985		पंजाब	10/11/1988	950
48905	सिंह हरपाल	श्री स्वर्णजीत सिंह	पीठ एको एको एको	मई - जून 2005		पीठ एको यु. एको एको	30.05.2007	3128
48906	सिंह हरपीत	श्री वनम सिंह	पीठ एको एको एको	1986		पंजाब	27.1.1998	1763
48907	सिंह हरपीत	श्री बलदेव सिंह	पीठ एको एको एको	1988		पंजाब	6.8.1999	2108
48908	सिंह हरपीत	श्री बलदेव सिंह	पीठ एको एको एको	1989		पंजाब	24.4.2000	2254
48909	सिंह हरपीत	श्री राम दास सिंह	पीठ एको एको एको	2000		पंजाब	05.10.2001	2552
48910	सिंह हरपीत	श्री वर्मान सिंह	पीठ एको एको एको	पंजाब - दिसम्बर 2008		पीठ एको यु. एको एको	26.03.2008	3174
48911	सिंह हरपाल	श्री दलवीर सिंह	पीठ एको एको एको	दिसम्बर - 1984		पीठ एको एको एको	14.11.1985	848
48912	सिंह हरसिमन	श्री कंचनजीत सिंह	पीठ एको एको एको	2005		पीठ एको यु. एको एको	04.01.2007	3070
48913	सिंह हरविन्द	पुत्र श्री सुखदेव सिंह	पीठ एको एको एको	सितम्बर - 1988		राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	13/10/1989	1171
48914	सिंह हरविन्द	श्री अजमेर सिंह	पीठ एको एको एको	1990		पंजाब	8/8/1994	1403
48915	सिंह शीर सुखवीर कोर मोहन	श्री शीर मोहन सिंह	पीठ एको एको एको	1985		कर्नाटक युनिवर्सिटी	05.10.2001	2553
48916	सिंह इन्दर मोहन	श्री अमरजोत सिंह	पीठ एको एको एको	1988		पंजाब	20.7.1988	1887
48917	सिंह इन्दरपाल	पुत्र श्री गुरदेव सिंह	पीठ एको एको एको	1986		पंजाब	27/11/1987	1029
48918	सिंह इन्दरी	श्री गुरिन्द सिंह	पीठ एको एको एको	1986		पंजाब	8/8/1996	1813
48919	सिंह इन्दजीत	श्री मोहर सिंह	पीठ एको एको एको	1988		पंजाब	10.3.2000	2241
48920	सिंह इकबाल	श्री जमदीन सिंह	पीठ एको एको एको	मई - जून 2007		पीठ एको यु. एको एको	15.10.2008	3283
48921	सिंह जगजीत	बलविन्द सिंह	पीठ एको एको एको	2008		पीठ एको यु. एको एको	23.05.2007	3103

48922	सिंह जगमोहन	श्री गेज सिंह बरार ठीक नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1997	पंजाब	22.8.1999	2137	
48923	सिंह जगमोज	श्री निवका सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	22.12.1988	1100	
48924	सिंह जगतार	श्री सुरदेव सिंह श्री श्री नन्द लाल राम पाल	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1997	पंजाब	23.02.1989	1128	
48925	सिंह जगतार	श्री च्यारा सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	7.1.1998	1776	
48926	सिंह जगतार	श्री रेशमा सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	2004	पंजाब	24.10.2005	2812	
48927	सिंह जगतेवर	श्री नरैन्द सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	3.9.1998	1836	
48928	सिंह जसवीर	श्री कंधार सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1984	पंजाब	17/04/1986	888	
48929	सिंह जसवीर	श्री हरगजन सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	2000	पंजाब	06.06.2001	2518	
48930	सिंह जसजीत	श्री रामजीत सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1990	पंजाब	31/7/1992	1310	
48931	सिंह जसपाल	श्री कृपाल सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	2.2.2000	2203	
48932	सिंह जसप्रीत	श्री स्वर्ण सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	सई - 1988	पंजाब	16.08.2001	2539	
48933	सिंह जसविन्द	श्री भगवंत सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1990	पंजाब	26/18/92	1296	
48934	सिंह जसवंत	श्री लखामण सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	20/04/1989	1155	
48935	सिंह जसवंत	श्री स्वर्ण सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1989	पंजाब	4/11/1991	1287	
48936	सिंह जसविन्द	श्री अजीब सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	25.8.1998	1920	
48937	सिंह जसविन्दपाल	श्री हर्बाल सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1990	पंजाब	19/06/1992	1301	
48938	सिंह जसविन्द पाल	श्री गोपाल सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	2.3.1998	1600	
48939	सिंह जसिन्द	श्री सुखपाल सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	2001	पंजाब	04.10.2004	2776	
48940	सिंह जसिन्द	श्री सुन्द लकपाल सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	2004	पंजाब	23.06.2005	2807	
48941	सिंह जसिन्द	श्री सरदार सिंह	माफत 300 जे० एम० शर्मा, गली नं० - 1 अबाहर किसानपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम० एम०	2004	पंजाब	24.10.2005	2833	

48942	सिंह जतिन्द	श्री दर्शन सिंह	वी० पी० ओ० बमाल तहसील एम० जिला तारन	वी० एम० एम० एम०	2004	वी० एम० 30 एम० एम०	पंजाब	26.09.2006	3062	
48943	सिंह जतिन्द पाल	श्री गोपाल सिंह	वी० पी० ओ० बमाल तहसील बारा - बकाला, जिला - अमृतसर (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	फरवरी - 1999	राजस्थान हाई ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	पंजाब	15/08/1990	1208	
48944	सिंह कमलजीत	श्री राम लुभाया	न० 442, फेस - 6 एम० एम० एम० नगर मोहली जिला - रोपड़ (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1990		पंजाब	14/02/1991	1238	
48945	सिंह कमलजीत	श्री सुरज सिंह	न० 539, फेस - VI, माहली तहसील जालंधर जिला रोपड़ (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1997		पंजाब	3.1.1999	2007	
48946	सिंह कमलजीत	श्री हरमन सिंह	118, पाली नगर, लुधियाना (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1997		पंजाब	11.11.1999	2168	
48947	सिंह कमलकाय	श्री हरमन सिंह	90, धरम बाघ, गटियाला (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1998		पंजाब	16.5.2000	2283	
48948	सिंह कमलवीर	श्री हरदीप सिंह	वी० पी० ओ० जेलियाल, तहसील जिला - साँकर (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1997		पंजाब	21.4.1999	2027	
48949	सिंह कंदलजीत	श्री विजय सिंह	जलियाला रोड, तारन - तारन अमृतसर (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1989	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	27/05/1992	1292	
48950	सिंह कंदलजीत	श्री संतोख	582, मोटा सिंह नगर, जलन्धर	वी० एम० एम० एम०	1986	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	21.04.1997	1700	
48951	सिंह कंदलजीत	श्री बलकार सिंह	वी० पी० ओ० गुर तहसील - जालंधर साहिब, जिला - अमृतसर (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1986		पंजाब	22.10.1998	1960	
48952	सिंह कंदलजीत	श्री जलजल सिंह	पट्टी - जिलोवाल, गाँव - हिलान, तहसील फिलोर, जिला - जलन्धर (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1988		पंजाब	26.8.1989	2127	
48953	सिंह कदर किशम	श्री कंधालजीत सिंह	न० 81 - आर मोहल टालन, लुधियाना	वी० एम० एम० एम०	मई - जून 2008		पंजाब	30.08.2007	3146	
48954	सिंह कदरजीत	श्री हरबस सिंह	न० 34-34/4897, हिलोवाल कलान, लुधियाना	वी० एम० एम० एम०	2005		पंजाब	04.01.2007	3074	
48955	सिंह कदरील	श्री जलक सिंह	पास बंजल होस्पिटल चोलीला जिला - हरनाल	वी० एम० एम० एम०	2003		पंजाब	05.04.2005	2960	
48956	सिंह कदरार	श्री गुरबक्श सिंह	न० 30 जे-537 माई रणवीर सिंह नगर लुधियाना	वी० एम० एम० एम०	अप्रैल - मई 1970		पंजाब	22.07.2005	2904	
48957	सिंह कुशवंत	सर्वाय ओ० राजन सिंह	राज्य होमोपैथी ओस्पिटल, पास टेलीफोन एक्सचेंज, राजकोट लुधियाना (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1998		पंजाब	26.11.1999	2173	
48958	सिंह किरपाल	श्री बख्तावर सिंह	गाँव - मेहंदपुर पोस्ट अटमपुर जिला - जलन्धर (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	दिसम्बर - 1976		पंजाब	15.08.2008	3274	
48959	सिंह कुलवीर	श्री जगदेव सिंह	न० 7883 गली न० - 4 दशमेश नगर मेहंदपुर जिला - कलाकोट (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1985		पंजाब	4/12/1986	956	
48960	सिंह कुलवीर	श्री मनोहर सिंह	मुख अंगद बहा खाना कुमा न० - 5 310-बी XIII क्लब गज लुधियाना (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1987		पंजाब	7/12/1988	1096	
48961	सिंह कुलवीर	श्री रतन सिंह	वी० पी० ओ० दीनपुर, गाँव - देहक, तहसील सनगला, जिला - लुधियाना (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1992		पंजाब	10/11/1994	1418	
48962	सिंह कुलवीर	श्री बलदेव सिंह	9/5 हरदयाल रोड, पास रमा स्वामी संतसरा सदन, जलन्धर कैन्ट (पंजाब)	वी० एम० एम० एम०	1987	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	18.9.1997	1722	

48963	सिंह कुलरार	श्री अशोक सिंह	330/100 जे ब्लाक, भीम आर एम नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 1991	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	3.7.1997	1714
48964	सिंह कुलरार	श्री सुखराज सिंह	बिन्दा कालोनी, त्रिवरी रोड, पौरो त्रिवरी जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	11.12.1997	1749
48965	सिंह कुलरार	श्री राम सिंह	मन्दी मूलपुर, 1/233 फिरोजपुर रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	6.3.1998	1806
48966	सिंह कुलरार	श्री हरी सिंह	गांव - कलानौर तहसील एम० जिला पुलवासापुर	डी० एम० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	8.12.1995	1558
48967	सिंह लखविन्द	श्री बलवंत सिंह	गांव - हरसैन, भीम ओ देवाद तहसील बाटला, जिला - पुलवासापुर	डी० एम० एम० एम०	दिसम्बर - 1983	डी० एम० एम० एम०	पंजाब	26.08.1985	821
48968	सिंह लिली	श्री पृथ्वीपाल सिंह	नो 2967/4 - सी० गली नो -9 नई जन्ता नगर लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एम० एम० एम०	पंजाब	22.04.2008	3208
48969	सिंह मलकियत	पुत्र श्री दर्शन सिंह	गांव - हवापुर, भीम ओ कोटली खास, तहसील दसुवा जिला - होशियारपुर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	29.04.1988	1063
48970	सिंह मलकियत	पुत्र श्री एस सिंह	वी० भीम मंड तहसील एम० जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1988	पंजाब	पंजाब	10/1/1990	1183
48971	सिंह मलकीत	श्री मुख्तार सिंह	वी० भीम ओ लेहरा मोहब्बत, जिला - मर्हटा (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	जून - 1987	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	7/1/1992	1288
48972	सिंह मलकीत	श्री लम सिंह	बीदीवाला रोड गली नो -4, गुरु तेग बहादुर नगर, मर्हटा (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	21.06.1995	1501
48973	सिंह मन्दीप	पुत्र श्री तेज सिंह	खले रोड, युलतानपुर लोधी जिला कालुखाला (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	21/12/1987	1037
48974	सिंह मन्दीप	श्री हरजिन्द सिंह	पुलना बाई नो -4, पटौटी जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	16.7.1999	2079
48975	सिंह मन्दीप	श्री मोहिन्दपाल सिंह	नो नो 3789, करतार नगर, मंडल ठाहन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	25.10.1999	2164
48976	सिंह मंगलदीप	श्री सतनाम सिंह	सी-917, उरबान इस्टेट फेस - 2 फ़कल गैरिड लुधियाना	डी० एम० एम० एम०	2003	पंजाब	पंजाब	24.10.2005	2929
48977	सिंह मनिन्द	श्री सुखदेव सिंह	नो नो 8-ए/46 कालापाल रोड धुरी जिला - संगरूर	डी० एम० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	05.03.2001	2461
48978	सिंह मनिन्दपाल	श्री अमरवीर सिंह	नो नो जी-401, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना	डी० एम० एम० एम०	2003	डी० एम० एम० एम०	पंजाब	17.04.2008	3019
48979	सिंह मन्दीत	श्री जगजीत सिंह	गांव - जलालाबाद इस्ट तहसील - जिरा जिला - फिरोजपुर	डी० एम० एम० एम०	1994	पंजाब	पंजाब	2/4/1996	1591
48980	सिंह मन्दीत	श्री स्वर्ण सिंह	गांव - काली पिट, भीम ओ राम मंडी तहसील एम० जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1984	आगरा युनिवर्सिटी	पंजाब	8.11.1988	1990
48981	सिंह मन्दीत	श्री ओंकार सिंह	गांव - केहरवाली, यास चर्व, तहसील दसुवा, जिला - होशियारपुर	डी० एम० एम० एम०	2005	डी० एम० एम० एम०	पंजाब	23.04.2007	3096
48982	सिंह मन्दीत	श्री राधु सिंह	नो नो 1614, फेस - 7 मोहली, तहसील खारार, जिला - चोपर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	1.7.1999	2055
48983	सिंह मन्दीत	श्री कुलवंत सिंह	नेशनल होमो क्लीनिक, गली रोदान वाली, मोहली बाजार, राहन, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	8.10.1999	2145

48984	सिंह मेहरावन्त	श्री सुपेन्द्र सिंह	नं० नं० - 111, नौ एका नगर, कोल्लेज रोड, मुलानपुर, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एका एका एका	1999	पंजाब	पंजाब	25.9.2000	2367	
48985	सिंह मोहिन्द	श्री सुपेन्द्र सिंह	454- आर० पारस नगर, जिला - मर्ठीका (पंजाब)	डी० एका एका एका	1987	पंजाब	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	16/08/1994	1386	
48986	सिंह मुकेश	श्री राम प्रकाश	नई बगर गिन अजोती, अबरोट जिला- किरौलीबाद	डी० एका एका एका	2006	पंजाब	डी० एका यु० एका एका	17.07.2008	3246	
48987	सिंह मुकतिन्द	श्री प्रधान सिंह	मार्फत एका मलिक सिंह, नं० नं० 848, बी-म्यू पी० ओ० फिरोज मंज, तह० एका जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एका एका एका	1992	पंजाब	पंजाब	23/08/1995	1525	
48988	सिंह मुलीनर	श्री विद्यामल सिंह	नई करतार नगर गली नं० - 6, पुरी लाइन पी० निलर मंज जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एका एका एका	1980.84	पंजाब	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	3.2.1998	1786	
48989	सिंह नगिन्द	श्री केवल सिंह	पी० पी० ओ० बग्गा (साहकोट) तह० - नाकोदार जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एका एका एका	1992	पंजाब	पंजाब	17/08/1994	1396	
48990	सिंह नरेन्द	श्री कृष्ण सिंह	नं० 4472, कोट भगत सिंह एका बरकपुर आर० अमृतसर	डी० एका एका एका	दिसम्बर - 1984	पंजाब	डी० एका एका एका	29.08.1985	827	
48991	सिंह नरिन्द पाल	श्री जयवंत सिंह	पी० पी० ओ० निहलु वाल तह० शाहकोट जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एका एका एका	2001	पंजाब	पंजाब	13.05.2002	2603	
48992	सिंह नवदीप	श्री बलवीर सिंह	आजाद नगर, टापा, जिला - बननाला (पंजाब)	डी० एका एका एका	2006	पंजाब	डी० एका यु० एका एका	26.05.2006	3059	
48993	सिंह नवीनजोत	श्री अमन सिंह	पी० पी० ओ० गेयदीयाना जिला - हाथियापुर	डी० एका एका एका	2004	पंजाब	डी० एका यु० एका एका	24.10.2006	2938	
48994	सिंह नरकोज	श्री प्रीतम सिंह	पी० पी० ओ० आतावाल रामा बकाला जिला - अमरिासा	डी० एका एका एका	2000	पंजाब	पंजाब	22.08.2001	2643	डी० एका एका एका (रेडिड डिग्री) नई - जून 2004
48995	सिंह नरविन्द	श्री कालवीर सिंह	मार्फत बलदेव सिंह 7 - 5 गाँति पुरा जलन्धर (पंजाब)	डी० एका एका एका	1991	पंजाब	पंजाब	20/07/1993	1356	डी० एका यु० एका
48996	सिंह निर्मल	श्री सुपेन्द्र सिंह	गाँव - बालीर पी० ओ० धुमा पार० राणपुर जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एका एका एका	1985	पंजाब	पंजाब	26/12/1986	965	
48997	सिंह निर्मल	श्री जोगिन्द सिंह	गाँव - सिना सुन्द, पी० ओ० अजुल अकसर, तह० - पटली, जिला - जमुनसर (पंजाब)	डी० एका एका एका	1996	पंजाब	पंजाब	23.12.1997	1761	
48998	सिंह परमजीत	श्री सुपेन्द्र सिंह	वास गुरू नामक टिन्बर स्टोर जवाहर के रोड मंज जिला - मर्ठीका (पंजाब)	डी० एका एका एका	1985	पंजाब	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	29/08/1988	923	
48999	सिंह प्रमजोत	श्री दीपिन्द पाल सिंह	नं० नं० - 256, फंस - 7, मोहली	डी० एका एका एका	2001	पंजाब	डी० एका एका एका	14.05.2004	2681	
49000	सिंह प्रदीप	श्री बलदेव सिंह	नं० नं० - 329, वाई नं० - 1, पटना जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एका एका एका	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	डी० एका यु० एका एका	24.04.2008	3210	
49001	सिंह प्रगात	श्री हरजत सिंह	नं० नं० - 236 - 5, सरना नगर, पखोवाल रोड, लुधियाना (पंजाब)	डी० एका एका एका	नई - जून 2006	पंजाब	डी० एका यु० एका एका	19.12.2007	3154	

सिंह प्रदीप	श्री हरचरण सिंह	मो नो - 349, मोहल्ला गुरदीम जारोना जिला - लुधियाना	मो एमो एमो एमो	2004	मो एमो एमो एमो	पंजाब	31.01.2006	2986
49002	श्री हरचरण सिंह	मो नो - 349, मोहल्ला गुरदीम जारोना जिला - लुधियाना	मो एमो एमो एमो	2004	मो एमो एमो एमो	पंजाब	31.01.2006	2986
49003	सिंह प्रदीप	मो नो - 349, मोहल्ला गुरदीम जारोना जिला - लुधियाना	मो एमो एमो एमो	1996	मो एमो एमो एमो	पंजाब	8.12.1998	1986
49004	सिंह प्रदीप	मो नो - 29/5, कनाल कालोनी, मोहल्ला, जिला - मुक्तसर	मो एमो एमो एमो	1999	मो एमो एमो एमो	पंजाब	21.7.2000	2301
49005	सिंह प्रदीप	मो नो - 29/5, कनाल कालोनी, मोहल्ला, जिला - मुक्तसर	मो एमो एमो एमो	1987	मो एमो एमो एमो	पंजाब	21/06/1991	1251
49006	सिंह परमवीर सिंह	मो नो - 17, ई सरमा नगर, लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1991	मो एमो एमो एमो	पंजाब	7/12/1993	1368
49007	सिंह पुनम	मो नो - 34/4894, दुर्गापुरी, मोहल्ला, जिला - मुक्तसर	मो एमो एमो एमो	2003	मो एमो एमो एमो	पंजाब	25.10.2004	2793
49008	सिंह प्रदीप	मो नो - 12140, अटल नगर, लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	2004	मो एमो एमो एमो	पंजाब	05.11.2005	2954
49009	सिंह प्रदीप	मो नो - 12140, अटल नगर, लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1988	मो एमो एमो एमो	पंजाब	14/01/1991	1232
49010	सिंह प्रदीप	मो नो - 964, ईस - 3 - बी 2, मोहल्ला, जिला - मुक्तसर	मो एमो एमो एमो	1998	मो एमो एमो एमो	पंजाब	6.2.2001	2446
49011	सिंह प्रदीप	मो नो - 308/2, बागमि मनाल दास वर्मापुरा बाजार, पटोयाला	मो एमो एमो एमो	2000	मो एमो एमो एमो	पंजाब	31.01.2006	2979
49012	सिंह प्रदीप	मो नो - 7 नई पंजाब माता नगर, मोहल्ला, जिला - लुधियाना	मो एमो एमो एमो	1996	मो एमो एमो एमो	पंजाब	19.2.1998	1796
49013	सिंह प्रदीप	मो नो - 324, देओ नगर, जिला - लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1992	मो एमो एमो एमो	पंजाब	17/08/1994	1396
49014	सिंह रमपाल	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1994	मो एमो एमो एमो	पंजाब	28.7.1998	2094
49015	सिंह रमपाल	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1985	मो एमो एमो एमो	पंजाब	28.04.2003	2629
49016	सिंह रमपाल	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1998	मो एमो एमो एमो	पंजाब	4.10.1999	2142
49017	सिंह रमपाल	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1985	मो एमो एमो एमो	पंजाब	22/12/1986	960
49018	सिंह रमपाल	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1985	मो एमो एमो एमो	पंजाब	13/08/1994	1389
49019	सिंह रमपाल	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1990	मो एमो एमो एमो	पंजाब	13/08/1994	1382
49020	सिंह राजदीप	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1990	मो एमो एमो एमो	पंजाब	29/12/1994	1424
49021	सिंह राजदीप	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1990	मो एमो एमो एमो	पंजाब	11.04.1985	792
49022	सिंह राजदीप	मो नो - 134, नया मोहल्ला टाउन लुधियाना (पंजाब)	मो एमो एमो एमो	1993	मो एमो एमो एमो	पंजाब	28.10.1996	5837-ए

49023	सिंह रणदीप	श्री गुरदेव सिंह	खानुवान रोड मोहिन्द नगर बटला जिला - गुरदासपुर	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	11.04.2001	2497	
49024	सिंह रणदीप	श्री हरपाल सिंह	मार्फत दया नन्द शीकन्द, सामने युग स्टेरि, गांव नवा गराय, पी० ओ० नादा, तहसील - खाराज जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1991	पंजाब	28/09/1992	1323	
49025	सिंह रणदीप	श्री जसवंत सिंह	गांव घामोली, नया रेलवे रोड न० - 3, राजपुर, जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	22.1.2001	2423	
49026	सिंह रणजीत	श्री बलवीर सिंह	पी० ओ० ओ० फतेहगढ़ रंजपुर, तहसील - पटियाला जिला - मोना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	24.03.2008	3170	
49027	सिंह रणजीत	श्री अरजुन सिंह	मोहो - पलीवाल कुलतानपुर बायीं जिला - कापूरथला	डी० एच० एच० एच०	1983	पंजाब	25/12/1986	983	
49028	सिंह रणजीत	पुत्र श्री हरदेव सिंह	गांव एच पी० ओ० कोथला तहसील - मल्लोकोटला जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	जून - 1987	पंजाब	26/02/1990	1193	
49029	सिंह रणजीत	श्री मेहर सिंह	न० 70 - 771 - बी XII गली न० - 4, निरकारी मोहला, मिलेर गंज, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	8/1/1996	1573	
49030	सिंह रणवीर	श्री बलदेव सिंह	न० 70 - 198, दयासेवा कालोनी जिलाकपुर, जिला - मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	18.06.2000	2518	
49031	सिंह रविन्द	श्री दीना नाथ	गांव - कोट पी० ओ० पाटिल तहसील - एच जिला - होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1990	पंजाब	2/4/1992	1275	
49032	सिंह रविन्द	श्री कृष्ण चन्द	बी - 8, 934 सोवेल नगर, जलन्धर शहर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	2/6/1992	1297	
49033	सिंह रविन्द	श्री धानी सिंह	शिमगा रोड मंसा - 151505 (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	17/08/1994	1395	
49034	सिंह रविन्द	श्री मनोहर सिंह	341, मंस अमर दास नगर, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	18.8.2000	2327	
49035	सिंह रविन्द	श्री गुरदेव सिंह	मार्फत मदन नर्सिंग होम घंटी नगर जलालाबाद (हिन्दू) जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	30.06.2006	2806	
49036	सिंह रविन्द	श्री गुरदेव सिंह	न० 70 द-685, फेस - 1, मोहाली (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - मई 2005	पंजाब	29.06.2007	3135	
49037	सिंह रविन्द	श्री हरचरण सिंह	न० 70 - 407बी 39 पंजाब मंसा नगर पी० ओ० मॉल टाउन लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	7/6/1996	1597	
49038	सिंह रंगम	श्री जसवंत सिंह	पी० ओ० ओ० बारसरी तहसील - जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	28/12/1998	1104	
49039	सिंह रंगम	श्री रमन सिंह	पी० ओ० ओ० रूपवाली, तहसील - शाहकोट जलन्धर	डी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	05.11.2005	2956	
49040	सिंह कपिल	श्री कर्न सिंह	न० 70 बी - 438 - 41, जदीवाला तहसील - जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1983	पंजाब	25/06/1986	908	
49041	सिंह राजनील	श्री कर्नजीत सिंह	न० 70 - 46, मन नगर, जलन्धर	डी० एच० एच० एच०	1998	पंजाब	23.02.2007	3065	
49042	सिंह सदीप	श्री मोहिन्द सिंह	न० 70 - 1499, दुर्गा पुरी हयावास कलान, जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1990	पंजाब	22/11/1993	1366	

49043	सिंह संदीप	श्री बन्धु सिंह बेदी	मो नो - 594/1. आई एमपीर सिंह नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1999	पंजाब	22.1.2001	2425
49044	सिंह सतीश	श्री जगजित सिंह	डी० पी० ओ० हमरतन तहो एण्ड जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1987	पंजाब	7/12/1988	1098
49045	सिंह सरबजीत	श्री गुरधर सिंह	गाँव - बापला, पी० ओ० मंकी, तहो - मलेरकोटला, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1997	पंजाब	25.9.1998	1864
49046	सिंह सरबजीत	श्री अमर सिंह	हयादोलाल कलान, पठितार नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1998	पंजाब	16.7.1999	2078
49047	सिंह सरबजीत	श्री जसवंत सिंह	डी० पी० ओ० नावान पिंड जिला - अमृतसर	डी० एच० एम० एच० एच०	2000	पंजाब	22.01.2002	2581
49048	सिंह सरबजीत	श्री याकील दास	मो नो बी / FX 779 पास सिविल हॉस्पिटल लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1987	पंजाब	16/02/1989	1126
49049	सिंह सरबजीत	श्री धाना सिंह	सिविल हॉस्पिटल बारनाला, जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1992	पंजाब	13.3/1995	1445
49050	सिंह सरबजीत	श्री गुरद्वंद सिंह	मो नो 725, नई जबादी, पी० पी० ओ० कोट खातसा, तहो एण्ड जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1988	पंजाब	3.3.1999	2100
49051	सिंह सरदुल	श्री प्रताप सिंह	डी० पी० ओ० मेहगा सराई जिला तहो एण्ड मर्ठीका (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1984	पंजाब	17/04/1986	887
49052	सिंह समुख	श्री कुण्डन सिंह	पी० पी० ओ० खादुर साहिब, तारन	डी० एच० एम० एच० एच०	अगस्त - सितंबर 1983	पंजाब	16.10.1985	846
49053	सिंह सतनाम	श्री रेखा सिंह	डी० पी० ओ० खुदा, तहो दसाया, जिला - होशियारपुर	डी० एच० एम० एच० एच०	अगस्त - सितंबर 1983	पंजाब	06.10.1985	842
49054	सिंह सतनाम	पुत्र श्री सुजीत सिंह	पी० पी० ओ० तहो एण्ड जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1987	पंजाब	6/8/1989	1165
49055	सिंह सतनाम	श्री गुरपूर सिंह	215 बरग बी अंग लेहाल पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1988	पंजाब	29/11/1990	1220
49056	सिंह सतनाम	श्री हरबंस सिंह	गांव जगत पुरी पी० ओ० वर्मागढ़, तहो खारर, जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1991	पंजाब	2/21/1993	1382
49057	सिंह सतनाम	श्री लखा राम	गांव - पीर मेहदी, पी० ओ० अमीर खारर जिला (वेस्ट) जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एम० एच० एच०	1987	पंजाब	14.02.2001	2483
49058	सिंह सतनाम	श्री जसपाल सिंह	डी० पी० ओ० मेरखार तहो - जिला, जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एम० एच० एच०	2006	पंजाब	19.05.2008	3223
49059	सिंह शतित्व जीत	श्री अमरीक सिंह	डी० पी० ओ० नावान पिंड तहो एण्ड पिंड जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	2000	पंजाब	14.01.2002	2578
49060	सिंह श्याम पाल	रघु दीप सिंह	इन्दारज, आरु सी० एच० डी० रणोपास (तुह) जिला - मुहगांव	डी० एच० एम० एच० एच०	अगस्त - 1988	हरियाणा	20.03.1989	6491-ए
49061	सिंह शिव शरण	श्री मोहन सिंह	मो नो - 1283, सैक्टर - 33-सी, बन्दीगढ़	डी० एच० एम० एच० एच०	2008	पंजाब	11.09.2008	3271
49062	सिंह सुहिरद	श्री गुरपाल सिंह	मो नो - 1882, पास अक्दरी, नो - 5, मोहला अगवार गुजाल तहो - जगसत जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एच० एच०	1989	पंजाब	24/10/1991	1286

49063	सिंह सुखवीर	पुत्र श्री साधु सिंह	वी० पी० ओ० पित्तवान कलान बाया कोटकापुरा जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 1986	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	25/1/1989	1169	
49064	सिंह सुखदीप	श्री विलोक सिंह	गांव नाम, पी० ओ० नाम कलान, जिला अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1999	पंजाब	पंजाब	7.9.2000	2363	
49065	सिंह सुखदीप	श्री मलकित सिंह	मार्जडा श्री तापक सिंह, नामबादवार, वी० पी० ओ० कलान, तहसील - राजकोट, जिला - लुधियाना	डी० एच० एम० एम०	2005	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	18.09.2006	3046	
49066	सिंह शोखजिन्द	श्री हरमजन सिंह	गांव दया कलान, पी० ओ० बृजपुर, जिला - मोना	डी० एच० एम० एम०	2004	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	13.09.2006	3041	
49067	सिंह सुखजीत	पुत्र श्री लाम सिंह	बन्वाल रोड भवानीगढ़ जिला - संगरूर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1983	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	12/8/1986	904	
49068	सिंह सुखजीत	पुत्र श्री गुरदेव सिंह	वी० पी० ओ० गहदी तहसील एमड जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	जून - 1987	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	12/5/1989	1162	
49069	सिंह सुखमान पाल सिंह	श्री हरिन्द पाल सिंह	न० 70 - 43, माटी इल्लेव, बरेवाल रोड लुधियाना	डी० एच० एम० एम०	2003	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	18.08.2006	3038	
49070	सिंह सुखजिन्दर पाल	श्री कर्नल सिंह	वी० पी० ओ० कांगडा, तहसील, नाकोदार, जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1989	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	8.1.1998	1777	
49071	सिंह सुखपाल	श्री कौर सिंह	वी० पी० ओ० जोखार तहसील - मुकतासर जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1989	पंजाब	पंजाब	17/04/1991	1239	
49072	सिंह सुखपाल	श्री जोगिन्द सिंह	न० 70 - 4023/46 - डी, चण्डीगढ़	डी० एच० एम० एम०	1995	पंजाब	पंजाब	8.10.1996	1659	
49073	सिंह सुखप्रीत	श्री मुरा सिंह	गली न० - 2 पौरवार बावस रोड मटीका	डी० एच० एम० एम०	मई - जून 2003	डी० एच० यु० एच० एम०	पंजाब	05.04.2005	2868	
49074	सिंह सुखपाल	श्री नाथपाल सिंह	वी० पी० ओ० बलुआना, जिला - मटीका (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1992	पंजाब	पंजाब	10/2/1994	1375	
49075	सिंह सुखराज	श्री सुभाषन सिंह	गांव - त्रिपुर पी० ओ० फतेहपुर राजपूताना जिला - अमृतसर	डी० एच० एम० एम०	2001	पंजाब	पंजाब	18.04.2002	2685	
49076	सिंह सुखरतन	श्री बलदेव सिंह	230, पुरवाल निवास, पी० ओ० धुमन पुलिस स्टेशन बंसा, जिला नावाहासर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	5.12.1997	1741	
49077	सिंह सुखजिन्द	श्री दलवीर सिंह	3 - नामदेव नगर, मुकतासर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	20.7.1998	1912	
49078	सिंह सुरेन्द्र	श्री लखन सिंह	वी० पी० ओ० फुल्ल खेत, तहसील मलौट जिला मुकतासर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	21.10.1999	2153	
49079	सिंह सुरेन्द्र	श्री गुरबक्श सिंह	वी० पी० ओ० चामता, तहसील पायल, जिला - लुधियाना	डी० एच० एम० एम०	अगस्त - सितम्बर 1983	डी० एच० एम० एम०, पंजाब	पंजाब	09.08.1985	814	
49080	सिंह सुरेन्द्र	श्री कर्न सिंह	गांव - हयातपुर, पी० ओ० कोटली खास, तहसील दसुया जिला - होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1996	पंजाब	पंजाब	15/2/1988	1047	
49081	सिंह सुरेन्द्र	पुत्र श्री जोगिन्द सिंह	अजनाल रोड फतेह गढ़ पुरगान तहसील बटाला जिला - गुरदासपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	1986	पंजाब	पंजाब	21/02/1990	1192	
49082	सिंह सुरेन्द्र पाल	श्री अमृत सिंह	वी० पी० ओ० कोटली खास तहसील दसुया जिला - होशियारपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एम०	मई - 1983	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	5/2/1986	873	

49083	सिंह सुरेन्द्र पाल	श्री कुलबीर सिंह	गांव - सोखेनवाला, पी० आ० गियावाल अस्थान तहसी - शाहकोट, जिला - जलन्धर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 1991	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	12.2.1999	2018
49084	सिंह सुरजीत	पुत्र श्री कन्हरीर सिंह	मोहो - पहरात जिरा जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1986	पंजाब	पंजाब	4/11/1987	1019
49085	सिंह स्वर्णजीत	श्री बरवंत सिंह	मो नो - 110, इन्डस्ट्रियल एरिया (ए) लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1988	पंजाब	पंजाब	31/05/1990	1202
49086	सिंह गगनपूर	श्री हरजीत सिंह	77 - सी. रंघु गांव, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	2002	सी० एच० एम० एस०, पंजाब	पंजाब	11.06.2004	2710
49087	सिंह तरलोचन	श्री यास सिंह पुत्री श्री बरवंत सिंह	बेदी हॉस्पिटल के सामने पीस्ट आफिस फट्टी जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1987	पंजाब	पंजाब	14/02/1989	1115
49088	सिंह तरविन्द	श्री हरमोहिन्द सिंह	मो नो - 23 - सी. गुरदेव नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1996	पंजाब	पंजाब	24.8.1998	1916
49089	सिंह देहल	श्री करतार सिंह	पी० पी० आ० शिकर मधियान तहसी - बटाला जिला - गुरदासपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1985	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	18/8/1989	916
49090	सिंह तेजिन्द	श्री जसवंत सिंह	मोहल्ला - फतेह शुक्र मो नो ए- 1173, लखन	डी० एच० एम० एस०	2000	पंजाब	पंजाब	26.07.2001	2533
49091	सिंह तेजविन्द	श्री जसवंत सिंह	245, बस्ती चौक, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1991	पंजाब	पंजाब	12/5/1995	1478
49092	सिंह याना	श्री सरदार सिंह	मो नो - 111/39 अबादी हज़ूर सिंह फाजिल्का जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1994	पंजाब	पंजाब	9/11/1998	558
49093	सिंह बरिन्द	श्री गुरदेव सिंह	जयवाल नगर, विवेदास स्कूल रोड, पी० आ० बोगिट्टी, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1997	पंजाब	पंजाब	22.9.1998	2135
49094	सिंह जविन्द जीत	श्री जविन्द सिंह	अगर कॉलेज सैन्टल टाउन फामवास जिला - कापुरथाला	डी० एच० एम० एस०	2000	पंजाब	पंजाब	26.07.2001	2531
49095	सिंह बरिन्द पाल	श्री जान सिंह	पी० पी० आ० कृष्णपुर कजान तहसी - जिरा, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1989	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	10/7/1991	1255
49096	सिंह जविन्द पाल	श्री प्रीतम सिंह	गांव - पुना पी० आ० अलीगढ़ तहसी - जलन्धर जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1987	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	28/02/1989	1132
49097	सिंह विजय पाल	श्री हरपाल सिंह	मो नो - 62, नीला हॉस्पिटल, दुआ रोड अजला, जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1998	पंजाब	पंजाब	27.7.1998	1903
49098	सिंह विक्रमजीत	श्री जोगिन्द सिंह	मो नो - 533 आजाद नगर सुलतानविह रोड, अमृतसर	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	12.03.2001	2466
49099	सिंह विरिन्द	श्री बुद्धदेव सिंह	गांव - रंजान पी० आ० देहलीयन तहसी - लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	जून - 1987	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	8/3/1991	1249
49100	सिंह विरमजीत	श्री अगरजीत सिंह	सी - VII/303 जन्म लोक कालोनी, संगरपुर रोड, मंडी गोबिन्दगढ़, जिला - फतेह गढ़ सिरिह (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	2000	पंजाब	पंजाब	9.2.2001	2448
49101	सिंह बरिगुरु	श्री गुरवर्ण सिंह	मो नो खबलू - ट-178, पी० पी० आ० बहादुर, जिला - बननाला	डी० एच० एम० एस०	2004	पंजाब युनिवर्सिटी	पंजाब	17.04.2006	3021
49102	सिंह सितेश	श्री यशवीर सिंह	पास मार्बलिंग बोर्ड, लोपर खाकिनी, सिमला - 2	डी० एच० एम० एस०	2008	पंजाब युनिवर्सिटी	हिमाचल प्रदेश	06.05.08	180-ए

सिंगला सुभन	श्री ओ पी सिंगा	गर्व - बखान पी ओ भूटटी, जिला - सिंगला	डी एच एम एम एम	1981	पंजाब होमोपैथी कॉलेजिल	सिंगला प्रदेश	25.07.87	48-ए
सिंगला स्वना	श्री विनोद कुमार सिंगला	ए - 340/2, शास्त्री नगर, पास पी एच टीओ कालोनी, गहर - जोधपुर जिला - जोधपुर	डी एच एम एम एम	जनवरी - 2007	जो आरु नगर राजस्थान विधायी (डीनर युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	15.01.2009	6172
सिंगला कची	पुत्री श्री प्रदीप कुमार सिंगला	ओरिंट टॉवर, कैलाश चौक, सिंगला लाइन, लुधियाना	डी एच एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2421
सिंगला विकास	श्री एम पी सिंगला	नं 30 - 1156, री - 23 - बी चण्डीगढ़ नं 70 - 437, एरन इस्ट फेस - 1, जलधर	डी एच एम एम एम	मई - जून 2004	डी एम यु एम एम	पंजाब	24.10.2005	2614
सिंगला अतिथि	श्री अशोक सिंगला	री - 34/4881, गली नं - 8, दुर्गापुरी हयबोवाल, लुधियाना	डी एच एम एम एम	2005	डी एम यु एम एम	पंजाब	03.01.2007	3082
सिंगला अनीता	पुत्री श्री मुखरिन्द कन्द	कड के के सिंगला, लक्की क्लोनिक निरवहा, जिला - मुक्तसर (पंजाब)	डी एच एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	9.8.2000	2315
सिंगला अनीता	पत्नी अरुण सिंगला	1) नं 30 - 1496, सैक्टर - 13, एरन इस्ट क्लोनिक 2) एम टी एम - 45, सैक्टर - 13, कुल्सोत्र	डी एच एम एम एम (G.D.C.)	जून - 2002	बाबा करीम युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कपीलकोट (पंजाब)	हरियाणा	19.04.2006	6766-ए
सिंगला अरुण	श्री राकेश चन्द सिंगला	नं 30 - 156, ड्रीम लाइन हयबोवाल कला, लुधियाना (पंजाब)	डी एच एम एम एम	2006	डी एम यु एम एम	पंजाब	19.05.2008	3226
सिंगला आशिष	पुत्री श्री सुनिन्द कुमार सिंगला	मुना मंडी पी ओ कोट कपुरा, जिला - फरीदकोट (पंजाब)	डी एच एम एम एम	2000	पंजाब	पंजाब	22.1.2001	2409
सिंगला अशोक कुमार	श्री विमला कुमार सिंगला	नं 30 - 3108 नीम वाला चौक राठ - कपुर जिला - रोपर (पंजाब)	डी एच एम एम एम	1993	पंजाब	पंजाब	19/01/1995	1426
सिंगला देवा	श्री सनात रीय सिंगला	एम/एस हरबंस कपुरा स्टोर - 33 - बी, इन्ड नगर सामने - मिल्क प्लांट लुधियाना (पंजाब)	डी एच एम एम एम	1985	पंजाब	पंजाब	1.1.1997	1679
सिंगला देवा	पुत्री श्री चरण देव पत्नी श्री नरेश कुमार सिंगला	बी - 146, अगोला इन्डलेव पीएमडी दिल्ली - 4	डी एच एम एम एम	1987	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	21/04/1989	1164
सिंगला दीपिका	श्री आदर्श कुमार सिंगला	नं 30 - 111, नया ऑफिसर कॉलोनी पटियाला (पंजाब)	डी एच एम एम एम	अप्रैल - 2006	पंजाब युनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	पंजाब	11.09.2007	3149
सिंगला देवराज	श्री अमर नाथ	पी ओ ओ एम मंडी, तारु तलवंडी राठ जिला - मंडी (पंजाब)	डी एच एम एम एम	1990	पंजाब	पंजाब	18.5.2000	2266
सिंगला दिव्या	श्री हुकम चन्द सिंगला	मण्डा बस्ती नं 70 - 284 - ए गली नं 2 - ए - ए, मंडी (पंजाब)	डी एच एम एम एम	2000	पंजाब	पंजाब	01.02.2002	2584
सिंगला हरिन्दपाल	श्री स्वर्ण प्रवाल	नं 30 - 208 सैक्टर - 8 - सी, चण्डीगढ़	डी एच एम एम एम	1985	पंजाब	पंजाब	4/12/1986	866
सिंगला ईशा	पुत्री श्री राजेन्द पाल सिंगला	बारी सिन्धु, पास क्लोनिक टॉवर, होशियारपुर (पंजाब)	डी एच एम एम एम	1999	पंजाब	पंजाब	22.12.2001	2407
सिंगला निमली	श्री आकाश सिंगला	सुगानी सिन्धु, नं 30 - बी - XI-136, शाहपुर रोड, फिलकांज, लुधियाना	डी एच एम एम एम	1996	पंजाब	पंजाब	6.3.1998	1807

[illegible]

49139	सिन्हा सुगन्ता कुमार	गांव धारगांव पीठ ओठ - टिगोवाल जिला - करीमनगर, असम	डी० एच० एम० एस०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.07.98	342	
49140	सिन्हा तामली	मार्फत मिस्टर दिलिप सिन्हा बरसागरा आर० जी० डी० एच० रोड हाउस न० - 30 पी० ओ० छत्रवरी - 781367, मुवाहाडी - 19	डी० एच० एम० एस०	मार्च - 1988	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	17.08.2005	916	
49141	सिन्हा टोन्वी	गांव - गौबारा बस्ती पी० ओ० - मुजधाटिया जिला - नगांव, असम	डी० एच० एम० एस०	फिरोजपुर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	04.05.88	284	
49142	सिन्हाजी वाला जयेंद्र धर्मेन्द्र सिन्हाजी	मार्फत सीमा सुर्वेशरी, 67, नया केराव नगर, शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2006	जो आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	24.07.2007	4883	
49143	सिसोदिया निशा	98 - चन्द दिवारी नगर, छाटियारा शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एम० एस०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5089	
49144	समृति परमार	गांव - जयौंसि पी० ओ० जलरी तहसील नांदेन जिला - हमीरपुर	डी० एच० एम० एस०	2008	बाबा फरीद युनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	22.04.08	188-ए	
49145	श्रीमति मन्जीत कोर (प्रीतन मेम) मिसेज मन्जीत कोर सिन्हा (निवासित नम)	पी० पी० ओ० मलसेन तहसील नकोदर जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1987	पंजाब	पंजाब	22.01/1990	1185	
49146	सोधा गोपाल सिंह	पास रोड बस स्टैंड भवानीपुरी पुर्वांचल शहर - जेसलमेर जिला - जेसलमेर	डी० एच० एम० एस०	जनवरी - 2007	जो आर० नागर राजस्थान विद्यापीठ (डी० एच० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	15.07.2008	5036	
49147	सोधी हरजीत सिंह सोधी	डबल्यू - जे - 8, बस्ती गंजन, जलन्धर शहर	डी० एच० एम० एस०	अप्रैल - मई 1984	पी० एच० एम० एम०, पंजाब	पंजाब	13.08.1985	818	
49148	सोधी साहिब	गुरु नागक मोहल्ला बंग तहसील नयवान शहर जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1987	पंजाब	पंजाब	12/12/1988	1102	
49149	सोधी हरजीत सिंह	न० न० - 828, फेस - 10, मोहाली तहसील खार, जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1999	पंजाब	पंजाब	3.7.2000	2281	
49150	सोधी टीना	सोधी आहस एच० जलन्धर कल्लिक, मेन बाजार मंडी मोहिन्दगढ़, जिला - फतेहगढ़	डी० एच० एम० एस०	1988	पंजाब	पंजाब	7.8.2000	2320	
49151	सोहन लाल	न० न० - 20 बाट न० - 6, राता मंडी तहसील तलवंडी सन्त जिला - मर्ठा (पंजाब)	डी० एच० एम० एस०	1987	पंजाब	पंजाब	28/4/1993	1349	
49152	सोही अमनदीप सोही	कोटी न० - 1074 फेस - 1, मोहाली	डी० एच० एम० एस०	2000	पंजाब	पंजाब	16.08.2001	2542	
49153	सोही अमनदीप सिंह	न० न० - 282 बाई न० - 8, सुपर मिल रोड मोहिंद जिला - रोपर	डी० एच० एम० एस०	2004	पी० एच० यु० एम० एम० पंजाब	पंजाब	24.03.2006	2998	

[illegible]

[illegible]

49201	सुखदेव राज	श्री हंस राज शर्मा	बी० पी० ओ० घनौर तहसील - राजपुरा जिला - पटियाला (पंजाब)	बी० एच० एच० एच०	1983	पंजाब	पंजाब	28/01/1988	889		
49202	सुखतान आर्ज. डाका वान	श्री टी० एच० सुम	शरणगं मुसलमान जैनवा मेवालय	बी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2008	पंजाब	राजीव गांधी मुनिवर्षिटी हैल्थ साइंस, हैंगलार	21.11.2008	278		
49203	सुलेमान रैजाज अजीज	डॉ० अजीज अहमद सुलेमान	1) आइ - डी - 95, जो० एच० यू० कालोनी, बीकानेर राजस्थान 2) एच० पी० ए० एच० हैल्थ साइंस, सामने बी. पी० एच० सैक्टर - 1, झारका, नई दिल्ली	बी० एच० एच० एच०	2004	पंजाब	डा० फरीद मुनिवर्षिटी ऑफ हैल्थ साइंस फरिदाकोट (पंजाब)	10.2.05	4477		सी० सी० एच० - 2806
49204	सुलताना नजलीभा		मार्केट - नूर महमद गाँव - छयालबरी पी० ओ० - बगरीबरी - 783348 जिला - झररी, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	असम	रोड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	25.07.2002	851		
49205	सुनो विरोडो		मार्केट लुविरी मुनि यू० डी० ए० सी० एच० ऑफिस जुमबोटो गाँव - सुनि पी० ओ० - जुमबोटो - 798820 जिला - जुमबोटो	बी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2004	असम	डिब्रुगढ़ मुनिवर्षिटी	19.01.07	995		
49206	सुमरा हसनजीत सिंह	श्री पारमजीत सिंह सुमरा	सुमरा हॉस्पिटल, बी० पी० ओ० भुजारी तहसील - जगताव, जिला - लुधियाना	बी० एच० एच० एच०	मई - जून 2007	पंजाब	बी० एच० यू० एच० एच०	15.10.2008	3282		
49207	सुनील दत्त	नरेण दत्त	बस्सी गेट अन्दर सामने - पंचायत बनसाला हिंसी	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	31.01.05	5725-ए		
49208	सुनील कुमार	के० लाल	9 संभाष नगर यमुना नगर (हरियाणा)	डी० एच० एच० एच०	1980	हरियाणा	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	27.09.94	5596-ए		
49209	सुनीता	पत्नी प्रेम छावडा	छावडा होम्योपैथी क्लिनिक पास पीस्ट ऑफिस मंडी दादरवाली जिला - सिरसा	डी० एच० एच० एच०	1985	हरियाणा	बी० एच० एच० एच०	16.12.1988	5468-ए		
49210	सुनीता रानी	पत्नी श्री हरवंत लाल	बी - 14, न० 30 - 110, फिक्क वंज प्रेम नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	25.10.1989	2162		
49211	सुरेन्द्र कुमार	एच० एच० सिद्धाथ रेवाडी	सिद्धाथ हॉस्पिटल कोसली जिला - रेवाडी	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1987	हरियाणा	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	15.02.90	5530-ए		
49212	सुरेन्द्र मोहन	बनारसी दास	बनारसी दास विल्डिंग, रेलवे रोड अम्बाला	डी० एच० एच० एच०	जून - 1964	हरियाणा	स्टेट केरुटी ऑफ होम्योपैथी, मेडिसिन (कलकत्ता)	29.12.1975	1-ए		
49213	सुरेश पाल	वीर रीम पुनिय	एच० एच० आर० डा० बी० कालोनी बरवाला रोड हिसार	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1987	हरियाणा	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	7.07.88	5448-ए		
49214	सुरेश पाल	श्री हरी चन्द	गाँव - अलुवा पी० ओ० बरकतपुर तहसील - राजपुरा जिला - पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	29/03/1989	1146		
49215	सुरी प्रमलीन कौर	श्री नरेन्द्र बाल सिंह सुरी	125 - ए, सेंट नगर, पटियाला (पंजाब)	बी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	पंजाब	बी० एच० यू० एच० एच०	28.08.2008	3260		

49232	तलवार संदीप कुमार	श्री बलवीर सिंह	वी० पी० ओ० घटा वावा, मुजानपुर मंडी जिला - लुधियाना (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1995	पंजाब	पंजाब	14.02.1987	1688	
49233	तलवार सैली	पुत्री श्री जी० डी० टकवार	मार्फत डा० एस० एम० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	18.07.1999	2070	
49234	तलवार अनुपम		मार्फत - प्र० के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	मार्च - 1993	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	10.07.98	862	
49235	तलवार चंपक कुमार		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	अगस्त - 1999	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	20.12.2000	778	
49236	तलवार चाणक्य		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवंबर - 2000	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	19.12.2001	828	
49237	तलवार जुरी		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	सितंबर - 1998	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	07.09.99	738	
49238	तलवार कुशल कुमार		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	दिसंबर - 1990	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	30.03.98	469	
49239	तलवार मनोरजन		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	15.09.87	269	
49240	तलवार मीना कुमार		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	जनवरी - 1992	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	18.06.98	582	
49241	तलवार नीपा		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवंबर - 2000	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	14.11.2002	883	
49242	तलवार प्रशाना कुमार		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	अप्रैल - 1984	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	30.04.85	138	
49243	तलवार सत्यजीत		मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	नवंबर - 2000	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	12.05.2004	914	
49244	तलवार नयवीर कौर	पुत्री श्री मोहिन्दरपाल खलवार	मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	1998	पंजाब	पंजाब	11.11.1998	2187	
49245	तलवार प्रमल	श्री ताला टाकिया	मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	9/2/2009	असम	पानीव गंजी मुनिवर्ति अरुणाचल प्रदेश	16.03.2009	115	
49246	तलवार सुरेश सिंह	एम० एम० एम० सिंह	मार्फत - के० तलवार, पोस्ट ऑफिस रोड सिरिंह, जिला - फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)	डी० एम० एम० एम०	जुलाई - 1970	असम	रोड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली	11.12.1978	445-ए	

49247	तनेजा विनिरा	संजय तनेजा	1687 सैक्टर - 4 पंचकुला	डी० एच० एच०	दिनांक - 2006	पंजाब युनिवर्सिटी, पटलीमढ़	हरियाणा	30.05.08	5832-ए
49248	तनेजा भैरव-1	श्री दिलीप सिंह तनेजा	51 - ई, डी० आर० एच० नगर, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	20.7.1998	1992
49249	तनेजा सुनीला	पुत्री श्री केवल कुमा तनेजा	वेधपुरा, चांदियाला ग्रुप अर० एच० जिला - अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	26.11.1987	1010
49250	तनवर प्रताप सिंह तनवर	श्री राम सिंह तनवर	अकलू जेठ - 420 नरायणा नई दिल्ली - 28	डी० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	30.03.1989	1147
49251	तनवीन खुरोना	श्री दिलीप सिंह	मो न० - 937, फस्ट प्लोर सैक्टर - 41 ए, बख्शीमढ़	डी० एच० एच०	2006	पंजाब युनिवर्सिटी, पटलीमढ़	पंजाब	15.05.2008	3221
49252	त्रिलोक चन्द	श्री भागवान दास	मो न० बी एक्स - 407 गली न० - 3 - 979/23 गली न० - 7, दीप नगर, कालापुरा, जिला - फरीदकोट	डी० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	14.02.2001	2464
49253	तरसेम चन्द	श्री हंस राज	मार्फत श्री एच० आर० सिंगला न० न० - 979/23 गली न० - 7, दीप नगर सिखित लाइन लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	17/02/1989	1123
49254	तरसेम लाल	श्री हरबंस लाल	मो न० - 29317, गली न० - 6, जनता नगर, मट्टीडा (पंजाब)	डी० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	24.1.2001	2433
49255	तरुणा	श्री जगमोहन शर्मा लुधियाना (पंजाब)	887, उबरन इस्टेट, दुर्गा रोड लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच०	1993	पंजाब	पंजाब	11/5/1995	1479
49256	तरुण राजपुत	श्री एच० पी० सिंह चमकवात, सोहन	सोहन होमोपैथी मेडिकल कॉलेज, चमकवात, सोहन	डी० एच० एच०	2005	डी० आर० एच० युनिवर्सिटी आगरा	हिमाचल प्रदेश	28.06.06	163-ए
49257	तरुणा	पुत्री श्री दीनो नम्बा चुधु	मो न० - 170, लाजपत नगर, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एच०	1991	पंजाब	पंजाब	14/07/1993	1353
49258	रयांन तले	श्री त्यांब टोपु	1) मार्फत देविन तोपु, मोडल गांव महलापुन, जिला - पपुन पारे, ए० पी० फोन - 9856409653	डी० एच० एच०	31.01.2009	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	9.03.2009	109
49259	टीना कुमारी	श्री नीन्द सिंह	सरोज मदन, चिन्मय रोड संजुली, सिमला - 171006	डी० एच० एच०	2008	डी० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (जीव युनिवर्सिटी), उदयपुर	हिमाचल प्रदेश	11.07.08	198-ए
49260	तजेन्द्र पाल	श्री शिव राम	834, जयपुर उबरन इस्टेट फेस - 2 लुधियाना	डी० एच० एच०	2003	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	12.04.2005	2883
49261	तिवारी श्रेश्ठी	श्री संजीव तिवारी	श्री - 2 देव नगर, सामने तलास फैक्टरी, टंक रोड, शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	15.12.2008	6181
49262	तिवारी राहुल	श्री पी० एन० तिवारी	1614, फेस - 7, मोहाली तहसील - खार, जिला - रोपर (पंजाब)	डी० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	27.6.2000	2289
49263	ठाकुर रणजु	श्री रोशन लाल ठाकुर	74, हरबंस नगर, बस्ती गुजन, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एच०	1996	पंजाब	पंजाब	26.3.1998	1814
49264	ठाकुर विजय कुमार	श्री सोहन लाल ठाकुर	जित नगर, पास हनुमान मंदिर फजिलका	डी० एच० एच०	जून - 1985	बिहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	पंजाब	06.11.2008	3284
49265	ठाकुर रबी	श्री कुलवीर सिंह	मो न० - 1264, भापर गली, देरली रोड, लुधियाना	डी० एच० एच०	2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	16.09.2006	3051
49266	ठाकुर रविन्द्र सिंह	श्री टी० एच० ठाकुर	डी० पी० ओ० दिवड़, तहसील - सालोनी जिला - मग्गा	डी० एच० एच०	2004	राजीव गांधी युनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, बंगलौर	हिमाचल प्रदेश	01.03.06	161-ए

सी० सी० एच०
-2745

49267	ठाकुर चिन्ता शंकर	गांव - जबरलोकिया पीठ ओ - मदनगोला वाया दोनोका जिला - नगाव, असम	डी० एच० एच० एच०	अप्रैल - 1981	विहार युनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	असम	34.07.88	110		
49268	ठाकुरिया डिनो	कामरुपा पीठ ओ - बसोलापुरी जिला - नलबारी, असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1996	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	3.04.98	898		
49269	ठाकुरिया रमन चन्द	मार्कट सिस्टर के. आर. थाकुरिया गांव - खानगुख पीठ ओ - धरपुर - 761133 जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - 2000	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.12.2001	829		
49270	थान संगीता थान	कोटी नं० - 18, जगदीश आश्रम, पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	4/12/1988	957		
49271	थापा रैशिका	आर. जे. एच० एच० - 170, जीत मदन गली नं० - 38, साह नगर, पालम कोलोनी, नई दिल्ली - 110045	डी० एच० एच० एच०	2008	विनायका विश्व युनिवर्सिटी सालेम	तमिल नाडू एच० एच० कोसिगो देनई	2.5.08	2436		सी० सी० एच० - 2965
49272	थापा गोपाल चन्द	सतिनगर, कठिलारा मुवाहाटी - 19, जिला - कामरूप, असम	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1986	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	30.08.88	308		
49273	थापर मोस्ता	बी - 1, 900 / 4 सामने पुलिस लाइन, कुश्वाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	6/10/1995	1548		
49274	थाराई शैला	दामोश नगर, पास ओम आश्रम जलाबाद (सेक्ट) जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	31.1.2001	2443		
49275	थाराई विशाल	दामोश नगर, जलाबाद (सेक्ट) जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	पंजाब	29.8.2000	2340		
49276	थियोफिलस अजय नोबिल	945, कांजपुर रोड, करनाल	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 1983	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली	हरियाणा	4.07.94	6691-ए		
49277	थिन्द सदीप कौर	नं० 70 - 86 वार्ड नं० - 3, डा० टी० आशिस पुरानी अबादी शहर - श्री गंगा नगर जिला - श्री गंगा नगर	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 2006	बाबा फरीद युनिवर्सिटी	राजस्थान	28.02.2008	5002		
49278	थिंगनोक कुसुनोक	1) मार्कट साई (संग) सेक्टर स्कम काशीनी, ए - सेक्टर, नहरलगुन, पीठ 2) मार्कट नहरलगुन होम्यो बी - सेक्टर नहरलगुन जिन - 8612183114	डी० एच० एच० एच०	20.11.2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	18.12.08	101		
49279	थोपस सुनील	सोनस होम्योपैथी मेडिकल कालेज एच० एच० एच०, सोनल	डी० एच० एच० एच०	2003	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	हिमाचल प्रदेश	29.12.08	219-ए		
49280	थागजम एकेश	एच० एच० एच० होम्योपैथी कालेज पंजाबरी मुवाहाटी - 37	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 1992	बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	20.05.98	660		
49281	थुकराल राकेश	942/9 जटपुरा, कपुरथाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	29/09/1994	1413		

क्र.सं.	विधायक का नाम	विधानसभा क्षेत्र	पद संभाला वर्ष	पद छोड़ा वर्ष	पद संभाला तारीख	पद छोड़ा तारीख	पद संभाला स्थान	पद छोड़ा स्थान	पद संभाला संख्या
49282	श्री राम शंकर तिवारी	1) केशव पुर मण्डल रोड हेतु नगर, पुराना पीवर हाउस, तोरना, बिलासपुर (सीओ जीओ) 2) सीओ / चोकसी एमओ एमओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	1999	2004	13.8.01	13.8.04	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	सीओ सीओ एमओ -2701
49283	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2004	2008	19.05.05	39.01	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	सीओ सीओ एमओ -2586
49284	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2008	2012	27.05.2008	50.20	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49285	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2012	2016	24.8.1998	19.15	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49286	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2016	2020	22.04.2008	32.07	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49287	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2020	2024	14.06.98	56.33-ए	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49288	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2024	2028	27.05/1992	12.95	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49289	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2028	2032	30.10.98	56.71-ए	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49290	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2032	2036	7.9.2000	23.55	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49291	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2036	2040	7.9.2000	23.54	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49292	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2040	2044	19.10.2001	26.82	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49293	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2044	2048	07.07.2005	26.83	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49294	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2048	2052	19.05.2008	32.27	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49295	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2052	2056	4.9/1987	9.87	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49296	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2056	2060	7.10.86	53.82-ए	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	
49297	श्री राम शंकर तिवारी	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर (सीओ जीओ)	2060	2064	25.11.08	56.43-ए	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	एमओ जीओ कोलेज बिलासपुर	

49298	त्रिपाठी अखिलेश	श्री समाकर त्रिपाठी	गाँव - कायलाहा, पीर पटवारा, नगीह जिला - सतना (एच पी) सिन - 485446	बी० एच० एच० एच०	2008	विष्णु युनिवर्सिटी, उज्जैन	एच० पी० कौंसिल मीपाल	30.3.07	19040	सी० सी० एच० - 2811
49299	त्रिपाठी अशोक कुमार	स्वर्णाय श्री सी० सी० त्रिपाठी	गो न० - 9, खतराना, तोला बाजार लोहराहा, जिला - इटावा (एच पी) - 208001	बी० एच० एच० एच०	2005	जीवाजी युनिवर्सिटी, रायसियर	यू पी० बोर्ड लखनऊ	24.8.07	28136	सी० सी० एच० - 2846
49300	त्रिपाठी मनिषा	श्री प्रेम कुमार शर्मा	292 ए बडलू एच० सी० कौलोनी रोड गो - 3 अंबावरी शहर - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2005	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	2.03.2007	4820	
49301	त्रिपाठी मनिषा	श्री यश कसल त्रिपाठी	210 - ए, बकील कॉलोनी, सैक्टर - 2, शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर (राज्य)	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीन युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	5.2.2009	5189	
49302	त्यागी नाथु	श्री नरेश त्यागी	माऊली विकास त्यागी, मोहन दई ओपनल कैंसर डिपेंडेंट एच० रिजर्व फाउंडेशन, जी० टी० रोड बाई पास लुधियाना	बी० एच० एच० एच०	2005	बी० एच० यू० एच० एच०	पंजाब	23.04.2007	3093	
49303	त्यागी रविन्द्र कुमार	श्री अनूप सिंह त्यागी	कॉलेज रोड, अंबोहर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	12.11.1989	2389	
49304	त्यागी विनोद कुमार	परसा नन्द त्यागी	1) गो न० - 474, सैक्टर - 22, एच० बी० कौलोनी फरीदाबाद 2) 1 - बी/87 एच० आइ० टी०, फरीदाबाद	बी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1993	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	18.01.2000	6873-ए	
49305	त्यागी विरेन्द्र	श्री ए० एच० त्यागी	रेलवे रोड अंबोहर, राठौ फजिल्का जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1984	सी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	28.12.1985	809	
49306	समी गुरदत्त सिंह समी	श्री गुरदत्त सिंह समी	10 गुरु नानक नगर, पी० सी० मॉडल टाउन, जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1976	सेंट बंगाल	पंजाब	16.7.1989	2076	
49307	सदीन हनीफ		गाँव - नगाजन पी० आ० - खारुपटीया - 784115 जिला - दरंग असम	डी० एच० एच० एच०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	03.07.98	618	
49308	सदीन खाया बाहा		गाँव - नगाजन पी० आ० - खारुपटीया - 784115 जिला - दरंग असम	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1986	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	23.07.98	335	
49309	सपाध्याय जया	श्री नारोत्तम शर्मा	72 - जे - 2, अंबोहर नगर शहर - कोटा जिला - कोटा	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सीन युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	5.03.2009	5187	
49310	सपाध्याय जय	श्री नारोत्तम शर्मा	नर्सरी फोरेस्ट प्रोजेक्ट, खातमाता बाया शहर - कोटा जिला - कोटा	बी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2008	नारोत्तम विद्यापीठ युनिवर्सिटी, गुने	राजस्थान	2.07.2007	4845	
49311	सपल जगजीत सिंह	श्री सपदेश सिंह सपल	2172, सामने पी० एच० बी० गली, हयबोवाल लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1988	पंजाब	पंजाब	5.12.1987	1742	
49312	सपल निरु	जगदीश लाल सपल	40 - बी, जमान सिंह नगर, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	दिसम्बर - 1984	सी० एच० एच० एच० एच०	पंजाब	13.08.1985	835	
49313	सपल दिशाल	श्री सुपरमल सपल	गो न० - 4229, दुर्गा पुरी, हयबोवाल कलान, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	20.7.1988	1874	

उपमा	श्री श्री एमो नारायण	84 - एक, कितलु नगर दुधियाना	श्री एमो एमो एमो	1999	पंजाब	पंजाब	05.03.2001 12.03.2003	2462	श्री एमो एमो एमो (प्रिडिक्ट डिप्टी) मई - जून 2003 श्री एमो एमो एमो
49314	उपमा								
49315	उपमा	श्री श्री रमेश कुर	श्री - 23/4985, मोहर सिंह नगर, गली नं - 4, दुधियाना (पंजाब)	श्री एमो एमो एमो	1979	पंजाब	7.10.2000	2365	
49316	श्री रेखा	श्री श्री राजा कुमार पाटेल	बराहपुर गली, बराहपुर (पंजाब) - 760008	श्री एमो एमो एमो	2006	उत्तल युनिवर्सिटी	28.7.06	सी-3374	श्री एमो एमो -2591
49317	वैद सरीर	बलराम देव	बदर अकली मार्केट, फागवाड़ा, जिला - कपूरथला (पंजाब)	श्री एमो एमो एमो	1999	पंजाब	24.8.2000	2328	
49318	वैद दीलिप	श्री आरु को वैद	नं 70 - 23, जवाहर नगर दिल्ली - 7	श्री एमो एमो एमो	1988	पंजाब	15/02/1988	1048	
49319	वैकुण्ठ सत्या नारायण	श्री लक्ष्मी नारायण वैकुण्ठ	पापत्री सदन प्लॉट नं - 10, तुलसी नगर, प्रतापनगर, शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	श्री एमो एमो एमो	जनवरी - 2006	राजस्थान	26.07.2007	4881	
49320	वन्दना	श्री एमो श्री गुप्ता	श्री एमो श्री एमो दलहोसि, चम्बा	श्री एमो एमो एमो	1997	पंजाब होयोपेरी कोसिल	16.02.05	148-ए	
49321	वन्दना	श्री धर्म पाल शर्मा	नं 70 - 7380, निरकारी कालोनी मुक्तसर (पंजाब)	श्री एमो एमो एमो	1996	पंजाब	23.6.1998	1859	
49322	वन्दना	श्री कैलाश चन्द	नं 10 / 151, ह्यर्न चंद, मानसरोवर, शहर - जयपुर जिला - जयपुर	श्री एमो एमो एमो	मई - 2007	राजस्थान	23.08.2008	5073	
49323	वनीता	पुत्री श्री प्रेमी राज	खंटीन मोहल्ला, कुलतान पुर लोदी जिला - कपूरथला (पंजाब)	श्री एमो एमो एमो	1996	पंजाब	9.12.1998	1998	
49324	वलकुंगा		गांव - कतला, ऐजवाल पीओ ओ - ऐजवाल - 796001/गोवा जिला - 82/2 बस्ती मोहिन्दराव गोवा जिला - फरीदकोट (पंजाब)	श्री एमो एमो एमो	अगस्त - 2005	हिमाचल युनिवर्सिटी	21.11.06	882	
49325	वरना रानी	श्री कश्यपी लाल		श्री एमो एमो एमो	1985	पंजाब	25/11/1986	982	
49326	वराने कुनाल	डॉ. सुरेश चन्दा वराने	जय माँ काला कंठा, पुरसन गेट, पास बिजली दप्तर, कुतरे देवी बाला मार्ग, रुद्रास, यू पी - 204101	श्री एमो एमो एमो	2006	जीवाली युनिवर्सिटी, ग्याजिवर	28.3.07	27049	श्री एमो एमो -2639
49327	वासदेव मोहित	श्री को वासदेव	1029 सैक्टर - 10, फरीदाबाद	श्री एमो एमो एमो	जनवरी - 98	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	15.10.07	5812-ए	
49328	वशिष्ठ रंजना	श्री बलराज कुमा वशिष्ठ	जगतपुरा तहसील - फिलौर, जिला - जलंधर (पंजाब)	श्री एमो एमो एमो	1996	पंजाब	28.8.1998	1931	
49329	वशिष्ठ सीमा	पुत्री श्री प्रीतम सिंह	श्री पीओ ओ सोहन तहसील - खरार जिला - रोपड़ (पंजाब)	श्री एमो एमो एमो	1988	पंजाब	29/12/1989	1180	
49330	वशिष्ठ सत प्रकाश हरी राम		श्री पीओ ओ - बबोला जिला - फरीदाबाद	श्री एमो एमो एमो	अप्रैल - 1986	राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, जयपुर	12.08.88	5465-ए	
49331	वशिष्ठ सुगन्धा	श्री श्री एमो वशिष्ठ	मार्केट श्री चार लाल बशिष्ठा श्री पीओ ओ मुलपुर तहसील - खरार जिला - रोपड़	श्री एमो एमो एमो	1986	पंजाब	20.7.1998	1889	

49332	वरुन रियसंगमी	श्री बरिंदरों वासु	1) मार्केट बसस कोर्टेज, जगसाम एस्टेटी रोड, ब्याक - सी, पीओ - सेमलोग मणिपुर 2) मार्केट डिस्ट्रिक्ट एनो इओ एनो सीओ एनो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट विहार, इटानगर एओ पीओ फोन - 8862990494, 03852422786	श्री एनो एनो एनो	11/2/2009	राज्य गामी युनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	9.03.2009	113		
49333	वासुदेव मोहित	श्री सुशील वासुदेव	1098 - ए, सामने गीता मदन गुरुदासपुर	श्री एनो एनो एनो	2000	पंजाब	पंजाब	13.07.2001 14.09.2005	2528	श्री एनो एनो एनो (मिडिल डिग्री) मई - जून 2004 श्री एनो एनो एनो एनो	
49334	वसुधा वत्स	पुत्री - श्री रघुनाथ सुन्दर शर्मा	पब्लिक होमियो क्लीनिक, पास दुर्गा मंदिर, मिथरवाहा जिला - मुक्तसर (पंजाब)	श्री एनो एनो एनो	1999	पंजाब	पंजाब	9.8.2000	2514		
49335	वत्स संजीव कुमार	अश्विनी कुमार वत्स	593 हाउसिंग बोर्ड जिल्हा	श्री एनो एनो एनो	आगस्ट - 1986	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	18.10.92	5560-ए		
49336	वत्स सुनेन्द कुमार	राम निवास शर्मा	सुनेन्द होमोपैथी क्लीनिक, सलहावास रोड रेलवे स्टेशन, कोसली जिला - रेवाडी	श्री एनो एनो एनो	अगस्त - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	02.02.1989	5476-ए		
49337	वत्स वसुधा	पत्नी - डा. मित्रपाल	338/6 बाला जी होमोपैथी क्लीनिक बेल नगर धरौडा जिला - कपवा	श्री एनो एनो एनो (G.D.C.)	दिसम्बर - 2002	बारा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	हरियाणा	19.04.2006	6757 - ए		
49338	वीना	श्री रघुनाथ लाल	श्री पीओ एनो एनो एनो - आनन्दपुर साहिब जिला - रोपर	श्री एनो एनो एनो	नवम्बर - दिसम्बर 2006	श्री एनो एनो एनो एनो	पंजाब	02.04.2008	3168		
49339	वीना रानी	पुत्री - श्री सोमनाथ	नो नो - 221, सेक्टर - 32, पास समरला चौक, लुडियाना (पंजाब)	श्री एनो एनो एनो	1987	पंजाब	पंजाब	17.12.1999	2176		
49340	वीना रानी	पुत्री - श्री लेखराज	नई बदादी, गली नो-3, सुलतानपुर जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	श्री एनो एनो एनो	1988	पंजाब	पंजाब	24.4.2000	2250		
49341	वीनु	श्री बी.बी.बाई	2 - सी - 18, तलवडी, शहर - कोटा जिला - कोटा	श्री एनो एनो एनो	मई - जून 2002	बारा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	राजस्थान	13.1.2008	6168		
49342	वेन्कटे बनिदी बालाजी नन्दन	मिस्टर भविषी रेक्टर	एन/194/1, लाजा तेलको कालोनी जयपुर - 831004	श्री एनो एनो एनो	1987	नगरपुर युनिवर्सिटी	महाराष्ट्र कोसिल, मुम्बई	15.12.97	25925	श्री एनो एनो एनो -2715	
49343	वर्मा आरानी	श्री सुशील वर्मा	नो नो - 1562, सेक्टर - 7 - सी, पन्डीगढ़	श्री एनो एनो एनो	2006	पंजाब युनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, यूग टीओ, चण्डीगढ़	कोसिल ऑफ हेल्थ साइंस मेडिसिन, यूग टीओ, चण्डीगढ़	3.11.06	121-ए	श्री एनो एनो एनो -2801	
49344	वर्मा मोसनी	श्री नन्द कुमार वर्मा	नो नो - 3, कृष्ण वाई, रेवुल बाजार, रेवुल जिला एनो पीओ - 460004	श्री एनो एनो एनो	2007	बकसुला युनिवर्सिटी, मोपाल	एनो पीओ कोसिल मोपाल	6.12.07	16490	श्री एनो एनो एनो -2877	

वर्ग अंश	श्री आर.आर. वर्मा	वर्ग विनिर्देश, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	2009	राज्य फुलविलेसिटी	हिमाचल प्रदेश	23.05.08	193-ए
49346	वर्ग अंश	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2007	राज्य फुलविलेसिटी	राजस्थान	15.01.2009	5179
49347	वर्ग गीता	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	1995	राज्य फुलविलेसिटी	हरियाणा	13.01.97	5841-ए
49348	वर्ग पंकज	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	2007	राज्य फुलविलेसिटी	राजस्थान	10.03.08	15613
49349	वर्ग प्रदीप कुमार	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 2005	राज्य फुलविलेसिटी	राजस्थान	3.12.2008	5150
49350	वर्ग राजेश कुमार	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	मई - 1988	राज्य फुलविलेसिटी	असम	07.09.99	739
49351	वर्ग रिंकु	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	जुलाई - 2008	राजस्थान फुलविलेसिटी	राजस्थान	10.12.2007	4975
49352	वर्ग रुचिता	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2006	राजस्थान फुलविलेसिटी	हरियाणा	6.10.08	5842-ए
49353	वर्ग रुचिता	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2008	राजस्थान फुलविलेसिटी	राजस्थान	27.07.2007	4890
49354	वर्ग सुरेश कुमार	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	मई - 2004	राजस्थान फुलविलेसिटी	राजस्थान	16.02.2008	4994
49355	वर्ग वैशाली	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	जून - 2004	राजस्थान फुलविलेसिटी	हरियाणा	25.07.06	5788-ए
49356	वर्ग विजय	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	जनवरी - 2007	राजस्थान फुलविलेसिटी	राजस्थान	28.1.2009	5188
49357	वर्ग आरती	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	1999	राजस्थान फुलविलेसिटी	पंजाब	7.7.2000	2291
49358	वर्ग अनुष्ठा	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	1999	राजस्थान फुलविलेसिटी	पंजाब	6.3.2000	2235
49359	वर्ग चन्मल	मार्कट टाउ विमान, सुविधा, संसाधन, शिमांश - 4	डी० एच० एम० एम०	1899	राजस्थान फुलविलेसिटी	पंजाब	22/04/1991	1243

49360	वर्मा गीता	श्री के.के. वर्मा	मो नो - 140 - फिदवाइ नगर, गुडियाणा (पंजाब)	मो नो - 140 एमो एमो एमो	1986	पंजाब	पंजाब	04.11.1996	1870	
49361	वर्मा मनीष	पुत्री श्री लाल बन्धु वर्मा	मो नो - 463/2 अवालत बाजार सामने शिव मंदिर, पटियाला (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1999	पंजाब	पंजाब	23.1.2001	2428	
49362	वर्मा मनीष	कंचन कृष्ण वर्मा	कंचन कुंज मो नो - 80, शंकर नगर सामने 80 एमो बाइस होस्टल, यमुना नगर रोड जालंधरी	मो नो एमो एमो एमो	जून - 2004	पंजाब	राजा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	12.01.2006	5744-ए	
49363	वर्मा मञ्जु	पुत्री - श्री राम कृष्ण वर्मा	मो नो - 1249, राजगुला टालन जिला - पटियाला (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1988	पंजाब	पंजाब	18/4/1988	1080	
49364	वर्मा मैत्री	श्री जे.पी. वर्मा	मो नो - 1823, फेस - 7, मोहली	मो नो एमो एमो एमो	2001	पंजाब	पंजाब	07.04.2003	2826	
49365	वर्मा निरु	श्री प्रेम वर्मा	मो नो - 220, प्रेम नगर बदसन रोड पटियाला (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	नवम्बर - दिसम्बर 2005	पंजाब	मो नो एमो एमो एमो	30.05.2007	3116	
49366	वर्मा रमेश	श्री जसवंत राय	मो नो - 561, मो पी ओ - जंजु सिंह तहसील पंजाब - जलंधर (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1990	पंजाब	पंजाब	9/12/1992	1327	
49367	वर्मा रविन्द	बी.के. वर्मा	मो नो - 3, फेसलटी हाउस, सरकारी कॉलेज कैम्प रोड - 1, पंचकुला	मो नो एमो एमो एमो (D.D.C.)	जून - 2004	पंजाब	राजा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट (पंजाब)	30.03.2006	5783-ए	
49368	वर्मा संजीव	श्री राम लाल वर्मा	मो पी ओ कलसीन जिला - गुडियाणा	मो नो एमो एमो एमो	2000	पंजाब	पंजाब	03.02.2002	2587	
49369	वर्मा सौरभ	श्री हरिश वर्मा	मो नो - 11 - 963 - ए फेसल नंज पास बाबा थान सिंह चौक, गुडियाणा	मो नो एमो एमो एमो	नवम्बर - दिसम्बर 2005	पंजाब	मो नो एमो एमो एमो	30.05.2007	3113	
49370	वर्मा शालिनी	श्री के.के. वर्मा	मो नो - 8/225, कोर्ट रोड नतासराहर जिला - जलंधर (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1986	पंजाब	पंजाब	16.12.1987	1750	
49371	वर्मा श्री	पुत्री - श्री सतीश वर्मा	मो नो - 32, विल्लोन मार्ग पटियाला - 147001 (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1985	पंजाब	पंजाब	29/9/1986	924	
49372	वर्मा सुधा	पुत्री - श्री शक्ति प्रकाश वर्मा	मो नो - 415 बाई नो - 4, कुवा प्रताप खाना - 141401 जिला - गुडियाणा (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1989	पंजाब	पंजाब	20/6/1992	1283	
49373	वर्मा सुधा	पुत्री - श्री सुरील कुमार वर्मा	मो नो - 3238, पुरानी मंडी, पिनसवाहा जिला - मुक्तसर (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1997	पंजाब	पंजाब	22.1.1999	2011	
49374	वर्मा सुवी	श्री कृष्ण लाल वर्मा	मो नो - 3238, पुरानी मंडी, पिनसवाहा जिला - मुक्तसर (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1986.87	पंजाब	विहार युनिवर्सिटी	22.4.1997	1706	
49375	वर्मा सुमिता	श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा	मो नो - 2828 पास इग्ली वाला मंदिर, जैन मंजी खारा जिला - माहाली (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	मई - जून 2005	पंजाब	मो नो एमो एमो एमो	19.06.2007	3120	
49376	वर्मा तपसेन साल	श्री शिव बरण दास वर्मा	मो नो - 317 - 11/ आनंदगढ़ तहसील काटला जिला - झंगर (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1984	पंजाब	पंजाब	28/01/1986	861	
49377	वर्मा उपासना	पुत्री - श्री जसवंत सिंह	पुत्री - श्री जसवंत सिंह, जिला - फिरोजपुर (पंजाब)	मो नो एमो एमो एमो	1999	पंजाब	पंजाब	10.11.2000	2391	

क्र.सं.	विधायक	श्री राज कुमार	होरा बाग जारोन, जिला - लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	28.03.2001	2492
49378	विमरसरी	श्री राज कुमार	होरा बाग जारोन, जिला - लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	28.03.2001	2492
49379	विदया भवीर कुमार	श्री सुन्दर कुमार	192 - बी, ईस्ट - 3, हीरान माली	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2006	राजस्थान	25.07.2007	4685
49380	विम इन्दर मोहन	श्री जोगिन्द कुमार	95, शाहपुर रोड तहसी - पम्कोट	डी० एच० एच० एच०	1993	पंजाब	24.07.1995	1520
49381	विज सिंग	श्री श्री रोशन लाल सिंग	40 नं० - 372, जेस - 6, मोहाली	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	30.9.1998	1975
49382	विज विकास	श्री एस.के. विज	167, दशमेश नगर, फिरोजपुर शहर	डी० एच० एच० एच०	1999	पंजाब	03.03.2001	2454
49383	विजय ऐकता	श्री हरिश्च विजय	2 - जे-11-12, तलवंडी शहर - कोटा जिला - कोटा	डी० एच० एच० एच०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	13.10.2008	5120
49384	विजय कुमार	रमेशचन्द्र लाल	रमेश नर्सिंग होम महना रोड बहापुर	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1989	हरियाणा	20.07.90	5537-ए
49385	विजयवर्मिया हिमानी	श्री ओ.पी. विद्यावर्मिया	डी - 40 रूप विहार नया संगनर रोड शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी० एच० एच० एच०	2003	राजस्थान	21.04.2008	5017
49386	विक्रम	श्री सत देव	मोहो - कईयान की ओ - 7, तहसी - दसुया जिला - हरियाणा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	8.1.1999	2008
49387	विक्रम कुमार	जादीश बन्ध	राज - झरली पी० ओ० - फिरोली जिला - मोहिन्दगढ़ (हरियाणा)	डी० एच० एच० एच०	अक्टूबर - 2006	हरियाणा	24.02.09	5853-ए
49388	विमल	श्री ओताकार नाथ	40 नं० - 39 / 3586 गली नं० - 1, दुर्गापुरी हवेलीवाल कलान लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1994	पंजाब	6/10/1995	1547
49389	विनोद कुमार	श्री सागर मल शर्मा	गंग एण्ड पोस्ट - सिखवाली गहर तहसी - फतेहपुर जिला - सिकर	डी० एच० एच० एच०	जुलाई - 2006	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	10.12.2007	4977
49390	विनोद कुमार	फूल चन्द	मार्केट एण्ड को शर्मा हनुमान गली सीएच वादरी जिला - सिवाही	डी० एच० एच० एच०	मई - 1986	युनिवर्सिटी ऑफ बिहार, मुजफ्फरपुर	18.12.87	5434-ए
49391	विनोद कुमार	हरपत सिंह	16 पटेल नगर सामने बुडा अफिस सिवाही	डी० एच० एच० एच०	सितम्बर - 1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	12.08.88	5456-ए
49392	विनु माटिया	श्री विवेक मल्ला	13, आदर्श कालोनी, नकोदार जिला - जलन्धर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1996	पंजाब	25.8.2000	2333
49393	विजय कुमार	तेजा सिंह	विजय क्लोनिंग शास्त्री मार्केट पास फवारन चौक नरयणगढ़ जिला - अंबाला	डी० एच० एच० एच०	मार्च - 1988	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	25.06.90	5534-ए
49394	विदी नवराशिका	श्री वरिन्द सिंह	40 नं० - 1338 कनल काउन रोड, गिल रोड लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	नवम्बर - दिसम्बर 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	19.09.2008	3276

49385	विदी सोनु	पुत्री - श्री लक्ष्मण नं० 134, गुरु आनन्द नगर, चन्दीगढ़ रोड, नवागढ़ (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	22.03.1999	2020		
49388	विक्र सुखविन्द कौर	पत्नी - श्री नं० 83, सेवक कालोनी पटियाला (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1984	पंजाब	पंजाब	11/08/1986	915		
49397	विरमानाथ	पुत्र श्री एतन नथ, श्री वीरीटेल हॉस्पिटल, श्री कृष्ण मंदिर शास्त्री नगर, मॉडल टाउन लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	07/11/1988	1071		
49398	विकेक ललित	श्री ओम प्रकाश नं० 2615 फेस - 7, सोहली	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब	पंजाब	09.08.2001	2537		
49399	व्यास लत	श्री के.सी. व्यास 71, स्वामी नगर, टिकरी मंदी रोड शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	डी० एच० एच० एच०	जनवरी - 2007	राजस्थान	राजस्थान	28.08.2008	5034		
49400	व्याहरे प्रमाकर प्रसाद	1) 58, 50 जी० कालोनी कतोल रोड पास आर० एच० एच० कालोनी, नागपुर - 440013 2) 3, मनोरेक सोसाइटी, पास वृंदावन कालोनी, कतोल रोड, नागपुर - 43	डी० एच० एच० एच०	1996	महाराष्ट्र कोसिल, मुंबई	एच० सी० एच०, मुंबई	17.3.98	26551		सी० सी० एच० - 2658
49401	वडेहरा विनामी	पुत्री श्री ओम प्रकाश वडेहरा 148 - एल, मॉडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1992	पंजाब	पंजाब	25/10/1994	1415		
49402	खवा इन्दजीत	वार्ड नं० - 4, बराला जिला - हिंसा	डी० एच० एच० एच०	फरवरी - 1989	राजस्थान रोड ऑफ होमोपैथी मेडिकल, जयपुर	हरियाणा	4.01.95	5619-ए		
49403	खवा शिवानी	3 - बी - 47, जवाहर नगर, शहर - श्री गंगानगर, जिला - श्री गंगानगर	डी० एच० एच० एच०	2003	बाबा करीद युनिवर्सिटी (पंजाब)	राजस्थान	24.04.2007	4632		
49404	खवा इन्दु	नं० 308, नार्थ स्टेट, मर्डीबा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मार्च - दिसम्बर 2005	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	13.08.2007	3143		
49405	खवा रूची	गली नं० - 2/7 नया सुरुज नगरी जिला - फिरोजपुर	डी० एच० एच० एच०	2004	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	24.10.2005	2944		
49406	खवा सीमा	नं० 1859, नेवी गली, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	1987	पंजाब	पंजाब	14/09/1988	1077		
49407	वारी गीता पाहवा अलिवाल विधी	नं० 179 - आर मॉडल टाउन, लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	1985	पंजाब	पंजाब	19.05.2003	2635		
49408	वारी गीता पाहवा पत्नी श्री एच.के. वाही	1) 777, एक - टाकप, तिमारपुर, दिल्ली - 54 2) नं० 211, आइ - ब्लॉक बी आर० एच० नगर लुधियाना	डी० एच० एच० एच०	2000	पंजाब कोसिल	पंजाब	11.04.2001	2498		सी० सी० एच० - 2588
49409	वालिया मयता	नं० 22454 गली नं० - 10, नाव रोड मेन पोस्ट ऑफिस, कोट रोड, सिविल लाइन, मर्डीबा (पंजाब)	डी० एच० एच० एच०	मई - जून 2006	डी० एच० यु० एच० एच०	पंजाब	19.12.2007	3155		

49410	बालिया मदीप	श्री सुखदेव सिंह बालिया	मो नो - 2812, केस - 11, मोहाली जिला - रोपर (पंजाब)	डी एच एच एस	1996	पंजाब	पंजाब	17.11.1997	1733	
49411	बालिया पूजा	श्री डी एस आहलुवालिया	मो नो - 124/2 तारापुरी इन्कलेव, ऑक्सिडरस कालोनी, संगरूर रोड, पटियाला	डी एच एच एस	2002	पंजाब	पंजाब	19.11.2003	2648	
49412	बालिया पूर्णिमा	श्री सुभास बालिया	एचओ आरओ जीओ - 690, केस - 9, मोहाली	डी एच एच एस	1999	पंजाब	पंजाब	15.02.2001	2453	
49413	बालिया रविन्द्रजीत कर	श्री हरिन्द्र सिंह बालिया	चम्बीगढ़ होम्योपैथ क्लिनिक, फुली कलान, रहो एच जिला - फतेहगढ़ साहिब	डी एच एच एस	1998	पंजाब	पंजाब	24.4.1998	1921	
49414	बलराम सुनेन	पी.जी.एस. चतुर्ग	मिशान कम्पाउन्ड जोवाप	डी एच एच एस	दिसम्बर - 2003	मेघालय	मेघालय	2.12.2003	266	
49415	बलराम लंगटोर बाइस	डॉ. हेलेन सिंह सिंगाबोह	सलबलाई नौगमली शिलीग	डी एच एच एस	नवम्बर - 2008	मेघालय	मेघालय	19.11.2008	276	
49416	बंगरु दिवांगम	श्री धर्माई बांगरु	1) मार्केट धर्माई बंगरु, पीओ ओ लोडीग, त्रि-जिला - एच पीओ - 798631 2) मार्केट तलेन पंगंग, फस्ट अप पीओ एच थियु, इटानगर, एच पीओ फोन - 9438227961	डी एच एच एस	9/12/2008	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	5.02.2009	106	
49417	यादव सुलोचना	श्री अनी बन्द यादव	699, रोड नो - 9, देवी नगर नया संगनर रोड शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी एच एच एस	जुलाई - 2006	राजस्थान	राजस्थान	16.02.2008	4996	
49418	यादव महामा	श्री राम दोर यादव	19, रविन्द्रा सक्ती, पीओ लिजुआ जिला - हावड़ा - 711204	डी एच एच एस	1999	मेघालय	मेघालय	15.11.99	—ए22642	डी पी एच —2805
49419	यादव मनोज	श्री राम निवास यादव	लेक्चरर, भारतीय होम्योपैथ मेडिकल कोलेज, बी - नरसिंह गेट, शहर - भारतपुर जिला - भारतपुर	डी एच एच एस	अप्रैल - 1999	राजस्थान	राजस्थान	22.11.2007	4963	
49420	यादव वेद प्रकाश	वर्मा पाल यादव	याद - परखोतपुर पीओ ओ - जयपुर जिला - रेवाड़ी	डी एच एच एस	अप्रैल - 1993	हरियाणा	हरियाणा	27.10.96	5394-ए	
49421	यादव अरिता	श्री पूरण बन्द यादव	1/ 428, मालवीया नगर, शहर - जयपुर जिला - जयपुर	डी एच एच एस	मई - 2007	राजस्थान	राजस्थान	8.10.2008	5082	
49422	यादव अरविन्द	श्री नन्द लाल यादव	नन्द सदन, नो नो - 132 - बी श्रीना थापुराम शहर - कोटा जिला - कोटा	डी एच एच एस	जनवरी - 2007	राजस्थान	राजस्थान	26.07.2008	5056	
49423	यादव गोपाल लाल यादव	श्री शिंदर लाल यादव	मार्केट श्री रामेश्वर बाग, याद - हस्तेशा, बागा मन्दिन्द्रा	डी एच एच एस	जनवरी - 2007	राजस्थान	राजस्थान	15.07.2008	5039	

49424	यादव कशीराम	हरि सिंह यादव	बी० पी० ओ० - मरानी जिला - रेवाड़ी	डी० एच० एम० एच०	1987	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	14.11.84	5603-ए	
49425	यादव लोकेश्वर सिंह	श्री महेश्वर सिंह यादव	23 मकलीर कोसली, बदला रोड, बराबाय - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एम० एच०	जनवरी - 2008	जो आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (कीमट युनिवर्सिटी), जयपुर	राजस्थान	31.07.2007	4898	
49426	यादव माही पाल सिंह	निहार सिंह यादव	बन्नावती होम्योपैथी स्लीपिंग बस स्टैंड हंसका जिला - रेवाड़ी	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1982	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	2.05.89	5496-ए	
49427	यादव मनोज कुमार	श्री जयसिंह यादव	221 - देवी नगर, नया संगमर रोड सहस्र - जयपुर जिला - जयपुर	बी० एच० एम० एच०	जुलाई - 2008	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	4.02.2008	4988	
49428	यादव नीलू	पत्नी - रामा नन्द यादव	1) 807 / ए कुदुपुर रेवाड़ी 2) होलीस्टिक हीलिंग सेंटर - 3, रेवाड़ी	बी० एच० एम० एच०	2002	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	3.03.86	5748-ए	
49429	यादव शिव कुमार	सुरत सिंह	बी० पी० ओ० मुसेरं जिला - रेवाड़ी	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1982	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	2.05.89	5494-ए	
49430	यादव सुभाष शन्ध	हरि सिंह यादव	बी० पी० ओ० मुसेरं जिला - रेवाड़ी	डी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	1.05.86	5399-ए	
49431	यादव सुभाना	पत्नी - यदवीन्द्र सिंह	रेलवे रोड कोसली जिला - रेवाड़ी (हरियाणा)	बी० एच० एम० एच०	अप्रैल - 1984	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	हरियाणा	30.11.99	5672-ए	
49432	यादव धर्मवीर	कौम प्रकाश यादव	1) शीप नो - एल - 210, शिवन पीक मॉडल टाउन रेवाड़ी 2) जैन हॉस्पिटल, जयपुरी रेवाड़ी	बी० एच० एम० एच०	2000	नागपुर युनिवर्सिटी	हरियाणा	30.05.2002	5692-ए	
49433	यादव मनोज	कृष्ण यादव	गांव - मुलगाही गोधा जिला - रेवाड़ी	डी० एच० एम० एच०	1984	कौन्सिल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पंजाब	हरियाणा	5.05.2008	5758-ए	
49434	यादव प्रेम कुमार	जैन चन्द यादव	1) ट्रक ग्रुपिंग के पीछे, नो नो - ए- 216, गाँधी नगर रेवाड़ी 2) हंसी नगर रेवाड़ी	डी० एच० बी०	1977	स्टेट कौन्सिल ऑफ होमोपैथी, नेपाल (एम० पी०)	हरियाणा	24.09.2002	5698-ए	
49435	यादव यशवीर	बलवीर यादव	1) 136 सेंटर - 1, (एम० एम० टी०) रेवाड़ी 2) ताक रोड, पटौली, मुहगांव	डी० एच० एम० एच०	सितंबर - 1988	राजस्थान बोर्ड ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, जयपुर	हरियाणा	11.04.1991	5541-ए	
49436	यदविन्दर	श्री अमृतलाल	नो नो - 86 नया बस - सिलपुरा, नई रेलवे लाईन, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1986	पंजाब	पंजाब	28/08/1996	1041	
49437	यमनाम चतिकाजी		गांव - खुरीय लेनलॉग पोस्ट - पोलमपट 795008 जिला - दफकल ईस्ट, मणिपुर	डी० एच० एम० एच०	अगस्त - 1982	बोर्ड ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	01.06.98	832	
49438	योगिता	श्री हंस राज	कालरा रोड सिंह हॉल बाजार, अमृतसर (पंजाब)	डी० एच० एम० एच०	1998	पंजाब	पंजाब	8.4.1998	1829	

49439	योगयात्रिभाक	मार्फत - सोरोटो डेग गाँव - यानगोपी बी० पी० ओ० - लोगडीम चोट जिला - दुमसांग, 7906122 मार्गलैंड	बी० एच० एच० एस०	अगस्त - 2005	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	22.11.06	963	
49440	यद्विक	136 ग्रेन पार्क, सिटील लार्डन, सुथियाना	डी० एच० एच० एस०	2005	बी० एच० एच० एच० एच० एस०	पंजाब	18.09.2006	3048	
49441	विनी खान	241 - खानजीपीर (नॉर्थ) शहर - उदयपुर जिला - उदयपुर	बी० एच० एच० एस०	जून - 2007	जे० आर० नगर राजस्थान विद्यापीठ (सी० डी० युनिवर्सिटी), उदयपुर	राजस्थान	15.01.2009	5174	
49442	जमान अनेगुज	बोरखोला, जोरहात पी० ओ० डिस्टीक - जोरहाट, असम	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 1984	बी० डी० ऑफ होमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असम	असम	21.09.85	167	
49443	जोशमाविया एच. टी.	मार्फत - डा० एच० टी० जोशमाविया ऐजवात पी० ओ० तलुनाल 790161 जिला - फील्डवेल्ड तलुनाल, मिजोरम	बी० एच० एच० एस०	अक्टूबर - 2004	डिब्रुगढ़ युनिवर्सिटी	असम	21.11.06	981	
49444	जुनुन अली	हाउस न० - 24 - 14 डिजान नगर, शहर - कोटा जिला - कोटा	बी० एच० एच० एस०	मई - 2007	राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान	10.10.2008	5108	सी० सी० एच० - 2723
49445	यादव बिजु लाल	गाँव - रेपरा रामपुर बियनाथ पी० ओ० - जैनपुर इस्टेट जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन कोड - 843123	बी० एच० एच० एस०	दिसम्बर - 1998	बाबसाहेब नीम रॉय अम्बेडकर बिहार युनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर	अरुणाचल प्रदेश	16.08.2007	74	
49446	हर वी यंग डू	मकखुप मेन रोड शिलॉंग	डी० एच० एच० एस०	जून - 1975	कोसिल ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, वेस्ट बंगाल	मेघालय	15.10.1984	1	
49447	रॉय सुमाजीत	अरबोनगिरी गुरा	डी० एच० एच० एस०	जून - 1997	कोसिल ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, वेस्ट बंगाल	मेघालय	31.03.2000	256	
49448	प्राईमा सी० नारटिअम	" रोज विला " नानग्रम हिल्स, शिलॉंग	डी० एच० एच० एस०	अप्रैल - 2003	कोसिल ऑफ होमोपैथी मेडिसिन, वेस्ट बंगाल	मेघालय	30.07.2004	257	
49449	आई० बेकोर एस० खार	" ड्रैप बसुक " लासोहलुन, ब्लाक - III शिलॉंग - 4	बी० एच० एच० एस०	जुलाई - 2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी इटानगर	मेघालय	3.07.2008	272	
49450	मदनकराकपुर माखिन	श्री ए० जैवा श्री परमानेन्ट अपर लेनसोना लोन जेव, शिलॉंग	बी० एच० एच० एस०	अगस्त - 2008	राजीव गांधी युनिवर्सिटी इटानगर	मेघालय	14.08.2008	274	

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार
केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद्

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्
नई दिल्ली

दिनांक

सं. 13-32/2010 - के० हो० प०/के० हो० र० - VIII - होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 21 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रावाधानों के अनुरूप केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर का रखरखाव करती है। उक्त रजिस्टर के भाग - II को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

क्रम सं. 1 से 31737, 31738 से 46117, 46118 से 59120, 59121 से 60494, एवं 60495 से 60552 तक केन्द्रीय रजिस्टर भाग II को भारत के राजपत्र सं. 1, भाग - III, खण्ड 4 में जनवरी 2, 1993; जनवरी 6, 1996; अप्रैल 26, 2003; अक्टूबर 9, 2004; एवं नवम्बर 15, 2008 में क्रमशः प्रकाशित हो चुके हैं।

डा० ललित वर्मा
रजिस्ट्रार
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

क्रम सं०	नाम	पिता / पति का नाम	पता : (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकरण है और राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकरण की तारीख	राज्य रजिस्ट्रार में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	यदि केन्द्रीय रजिस्टर से हटाया गया है तो उसकी तारीख और उसका / उसके कारण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60553	अबरोल यश पाल	श्री पी० डी० अबरोल	पी० एण्ड पी० ओ० खलियार मनदीद	हिमाचल प्रदेश	22.09.85	827.बी		
60554	अचरजी सचिन्दा कुमार		गांव - पब धानी राम पथर पी० ओ० होजाई	असम	12.11.75	1618		
60555	आदित्या सत्या रानी		गांव - बरा बेरी पी० ओ० - चेतन्या नगर जिला - करीमगंज	असम	01.05.70	1131		
60556	अहमद फेजुदीन		गांव - पंपारा पी० ओ० - सेंगलामरी 781318 जिला - बोरपेता, असम	असम	01.07.74	1438		
60557	अहमद हाजी मोला इबराहीम अली		गांव - खरकुटी पी० ओ० - दिमकुरी जिला - गोलपरा, असम	असम	20.08.76	1769		
60558	अली सहर		होवली बोजार पी० ओ० - होवलर जिला - बोरपेता असम	असम	31.03.76	1701		
60559	अली सोबाब		गांव पानीघाट 788716 जिला - करीमगंज	असम	20.09.71	1151		
60560	बच्चन समन लाल	श्री आर० आर० बबैन	पी० पी० ओ० बदसाली उना	हिमाचल प्रदेश	14.03.84	35.बी		
60561	बेनरजी काली दास		ए० टी० रोड अथगांव गवाहाटी - 1	असम	14.06.61	165		
60562	बरमा राम कुमार		पानीगांव ए० टी० रोड पी० ओ० जिला - नगांव असम	असम	01.08.67	985		
60563	बरमन तुकेश्वर		गुनेमानी होम्यो० हॉल गांव - बोलकांमरी पी० ओ० - अमिनकाटा जिला - कोकराफार असम	असम	28.07.75	1571		

60564	बलुआ दिलीप कुमार		फोरेस्ट कालोनी बुद्धिष्ट कालोनी रोड पी० ओ० - शिलोंग 793601 मेघालय	असम	01.05.74	1359	
60565	बलुआ रुहित		रायदिनगिया पी० ओ० आए भेटी जिला - नगांव, असम	असम	01.05.74	1344	
60566	बलुआ सनात रंजन		स्टेशन रोड रणगिया जिला - कामरूप असम	असम	31.03.76	1706	
60567	मगवती नवीन चन्द्रा		गांव - नस्तोम गांव पी० ओ० - नगांव जिला - नगांव असम	असम	20.09.71	1144	
60568	मट्टचर्जी दिलीप सुषण		रोयाल अपार्टमेंट हरबाला रोड उबुपरी गुवाहाटी - 7	असम	08.06.62	662	
60569	मट्टचर्जी रमेन्द्रा कुमार		एच० क्यू० आई० ० जी० ए० आर० शिलोंग पी० ओ० - शिलोंग - 11 मेघालय	असम	20.08.76	1612	
60570	मट्टचर्जी तरुण		मोन रोड पी० ओ० - नहरकाटी 786610 जिला - दिब्रुगढ़	असम	28.07.75	1587	
60571	मोमिक तपन रंजन		गांव - पी० ओ० - छापमसुख जिला - नगांव असम	असम	01.05.74	1720	
60572	मृणु अश्वुल मुसबीर		चेरीटेबल होम्यो० हॉल फेरीघाट चरंग पी० ओ० - काटीगढ़ जिला - कछर असम	असम	10.04.74	1482	
60573	बोरा अम्बु राम		बोरा होम्यो० हॉली पी० ओ० - लाखी पथर वाया - घेमाजी जिला - घेमाजी असम	असम	12.11.75	1619	
60574	बोरा दया राम		गांव - आदर्श नगर, मिलोनपुर पी० ओ० - नगांव 782001 जिला - नगांव असम	असम	10.09.71	1099	

60575	बोरसूण असरफ अली	अजीजीआ फमिरी कृष्णापुर बाजार पी० ओ० - रैमपुर हयलाकण्डी असम	असम	27.03.62	597	
60576	बोरसूण जतिन्द्रा मोहन नाथ	गांव - भीतर गंगा पुर पी० ओ० - जराई ताला बाजार जिला - कछर असम	असम	04.06.62	620	
60577	ब्रह्मा धनोमुख रंजन	गांव - बोरदलाय कालोती होजय टाउन पी० ओ० - होजय 782425 जिला - नगांव असम	असम	21.11.73	1279	
60578	चक्रबोती बेनी मधाब	टी० आर० फुकुन रोड पी० ओ० - बोनयगांव 783380 जिला - बोनगाईगांव असम	असम	01.05.74	1379	
60579	चक्रबोती रामापदा	गांव - पी० ओ० - मलूमरी जिला - नगांव असम	असम	10.10.74	1484	
60580	चक्रबोती रणजीत कुमार	गांव - नेल्ली पी० ओ० - नेल्ली जिला - मोरीगांव असम	असम	01.05.74	1334	
60581	चक्रबोती सीतागंधु	गांव - पी० ओ० - रूपही जिला - नगांव असम	असम	12.11.75	1607	
60582	चक्रबोती दिलीप कुमार	होन्या० सेवा सदन केन रोड पी० ओ० - बोनयगांव जिला - बोनयगांव, असम	असम	17.07.61	470	
60583	चक्रबोती राजेन्द्रा कुमार	गांव - नेल्ली पी० ओ० - नेल्ली जिला - मोरीगांव असम	असम	10.09.71	1098	
60584	चन्द्रल मोहन सिंह	गांव - गुलारवाला पी० ओ० - बरोना नलागढ़ सोलन जिला	हिमाचल प्रदेश	22.02.85	71 बी	
60585	चट्टीजी दिना बन्धु	मुनिया पाटी ए० एम० सी० रोड पी० ओ० - घुबरी असम	असम	12.11.75	1634	

60586	चौधरी अनिरुध सिन्हा	आर० के० मिशन रोड पी० ओ० — बिद्यापरा जिला — छुबरी असम	असम	28.07.75	1572	
60587	दास बिसवा बिहारी	गांव — भोगेश्वरी परा पी० ओ० — बोनगायगांव — 783380 जिला— बोनगायगांव	असम	20.08.76	1771	
60588	दास देबेन्द्रा नाथ	हनेसन रेमेडी 2 न० मधुघरिया नून मटी, गुवाहाटी — 20	असम	30.03.77	1778	
60589	दास देबेन्द्रा चन्द्रा	होवली बाजार वार्ड न० — 1, पी० ओ० — होवली 781316 जिला — बोखेता असम	असम	20.11.86	915	
60590	दास गिरिन्द्रा कुमार	गांव — उदलगुरी पी० ओ० — उदलगुरी	असम	31.03.76	1658	
60591	दास गुला सुजीत कुमार	गांव — बोगपानी पी० ओ० — बोगपानी 788171 जिला — तिसुकिआ असम	असम	08.03.75	1550	
60592	दास मणिकलाल	लुमडिंग टाउन पी० ओ० — लुमडिंग जिला — नगांव असम	असम	12.11.75	1631	
60593	दास नगेन्द्रा कुमार	गांव — उत्तर बोरबिल पी० ओ० — उत्तर बोरबिल जिला — करबैंगलॉग असम	असम	31.03.76	1709	
60594	दास नरायण चन्द्रा	गांव — पी० ओ० कुमारीकाट जिला — नलबरी असम	असम	06.06.82	638	
60595	दास पुरण चन्द्रा	गांव — नपानी अंजुकुपानी पी० ओ० — अंजुकुपानी जिला — नगांव असम	असम	10.07.81	393	
60596	दासगुप्ता पुलिन बिहारी	लोअर मार्केट मधुघरिया पी० ओ० — मधुघरिया जिला — तिसुकिआ असम	असम	26.06.81	286	

60597	देव अभिनाश चन्द्रा	अरुचन होम्सो फानेसी दुलियाजन पी० ओ० — दुलियाजन 78602 जिला — दिहुगार्ह असम	असम	21.11.73	1312	
60598	देव रॉय निर्मल कंती	स्टेशन रोड पी० ओ० — करीमगंज जिला — करीमगंज असम	असम	31.03.76	1733	
60599	देव सुसिल कुमार	साधना होम्सो क्लीनिक रेलवे कालोनी जिला — दीमापुर नागालैंड	असम	26.06.61	226	
60600	देबनाथ अनिल कुमार	होजय टाउन कृष्णा नगर पी० ओ० — होजय जिला — नगांव असम	असम	10.10.74	1487	
60601	देबनाथ नरेन्द्र चन्द्रा	गांव — शिलकादर बस्ती पी० ओ० जोपीजन 782429 जिला — नगांव असम	असम	21.11.73	1283	
60602	देबनाथ निमई चन्द्रा	गांव — शुबासिनि रोड तिसुकिया जिला — तिसुकिया	असम	18.03.75	1552	
60603	देबनाथ रणजीत कुमार	गांव — पी० ओ० — बोरेपेता रोड जिला — बोरेपेता असम	असम	31.03.76	1717	
60604	देका नगोन	मोरीगांव टाउन पी० ओ० — जिला — मोरीगांव असम	असम	10.09.71	1094	
60605	देका नरेन्द्र नाथ	पश्चिम बेलतोला कैलाश नगर गुवाहाटी — 28	असम	10.09.71	1060	
60606	डे बाबुल चन्द्रा	गांव — नजिरंजन पी० ओ० — छोटा हयबोर जिला — नगांव असम	असम	31.03.76	1710	
60607	डे सोबा	रेहाबरी गुवाहाटी — 8	असम	20.08.76	1776	
60608	डे सयामल कुमार	थाना रोड कोकराझार पी० ओ० — कोकराझार 783370 जिला — कोकराझार असम	असम	31.03.76	1689	

60609	दिहिगिया मनोज कुमार	गांव - अमलोखी टी इस्टेट पी० ओ० - सलना जिला - नगांव असम	असम	01.05.74	1387	
60610	दत्ता असुतोष	गांव - सौलींग पी० ओ० - बोमधुली जिला - नगांव असम	असम	07.12.76	1843	
60611	दत्ता चौधरी तपन कुमार	गांव - गोरीपुर पी० ओ० - गोरीपुर जिला - दुबरी असम	असम	10.08.72	1206	
60612	दत्ता दुर्गेश्वर	असम हौय्यो रिमज - गोलाघाट टाउन पी० ओ० - जिला - गोलाघाट असम	असम	01.08.67	1002	
60613	घोश विमल चन्द्रा	गंगताला बाजार पी० ओ० - सिमुलपुरी	असम	01.05.74	1381	
60614	गोगई जोगेन्द्रा नाथ	गांव - कचरारिद हट ककटी गांव पी० ओ० - कछरी हट जिला - सिबसागर	असम	01.05.74	1381	
60615	गुप्ता सतपाल श्री के० आर० गुप्ता	161 - आर, मॉडल टाउन, लुधियाना (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	22.04.85	217 बी	
60616	हलदार तारा प्रसाद	होस्पिटल रोड पी० ओ० - तेजपुर 784001 जिला - सोनीतपुर असम	असम	21.11.73	1310	
60617	हक अब्दुल	गांव - हरी नगर पी० ओ० - राजा तिलतार जिला - कछार असम	असम	20.08.76	1780	
60618	हये अब्दुल	गांव - पी० ओ० - मोरीगांव असम	असम	10.10.74	1501	
60619	जखारिया तकषणति	गांव - नाथ हयबोरगांव पी० ओ० - हयबोरगांव - 2 जिला - नगांव असम	असम	20.09.71	1146	
60620	कालाचन्द अधिक्य	वार्ड न० - 5 मेकियाजुली पी० ओ० - मेकियाजुली जिला - सोनीतपुर असम	असम	12.11.75	1605	

60621	कालिदा गोलक चन्द्रा	आनन्द होम्बो फार्मसी पी० ओ० - रंगिया जिला - कामरूप असम	असम	20.08.76	1779	
60622	कामोर्गो बिसनुप्रिया देब	गांव - थालिगराम पी० ओ० - थालिगराम जिला - कछर असम	असम	31.03.76	1654	
60623	कच हरीकृष्णा	गांव कांति राम पी० ओ० - रंगाबरी	असम	01.05.74	1453	
60624	कच रबिन्द्रा	गांव - सरैया पी० ओ० - सिलचर रोड जिला - करीमगंज असम	असम	06.05.67	978	
60625	करभारकर मनोरंजन	बरा बरी (राजाबट) पी० ओ० - जोरहट - 14 जिला - जोरहट असम	असम	21.11.73	1273	
60626	काइली पी० एन०	इ - 135, नरायण विहार नई दिल्ली - 28	हिमाचल प्रदेश	28.06.85	521.बी	
60627	कुमार रमेश	पी० पी० ओ० - मंडी चौंता सरगौर	हिमाचल प्रदेश	15.06.85	488.बी	
60628	लसकर अब्दुल लतीफ	गांव - बोलीपारा बाजार पी० ओ० - बोलीपारा बाजार जिला - हयलाकंडी असम	असम	10.08.72	1213	
60629	लसकर अब्दुलुर	गांव - छिपुर सोनगन पार्ट - 3 पी० ओ० जिला - हयलाकंडी असम	असम	10.09.71	1040	
60630	महानत प्रेमकांत	महत्त होम्बो फार्मसी समारुपी जिला - नगांव असम	असम	20.08.76	1808	
60631	मजुमदार विमला कृष्ण	होम्बो फार्मसी लंका पी० ओ० - लंका जिला - नगांव असम	असम	07.12.76	1856	
60632	मजुमदार देबाबरात	जिथुकल्याण होम्बो हॉल अगरतला त्रिपुरा	असम	08.03.75	1549	
60633	मजुमदार पोचा	गांव - इन्धपुर अबोरखाना 788712 जिला - करीमगंज असम	असम	10.07.71	1079	

60634	मलिक ठा०		हनेमन होम्यो० हॉल पी० ओ० — लुमडिंग जिला — नगांव असम	असम	17.06.64	811	
60635	मलिक खितिया रंजन		मलिक कलीनिक बोरेपा रोड 791415 जिला — बोरेपा रोड असम	असम	10.10.74	1464	
60636	मलिक आर० एम०		स्टाक कालोनी गांव — बरू पी० ओ० — मोहिन जिला — हनीपुर बंग एडरस	हिमाचल प्रदेश	22.5.85	388 बी	
60637	मलिक जनारदन		गांव — पश्चिम अमरकांडा पी० ओ० — गरजन बाजार जिला — नगांव असम	असम	31.03.76	1729	
60638	मस्त राम	श्री परमा नन्द	गांव — नौलखा पी० ओ० — कलायद सुन्दर नगर मंडी	हिमाचल प्रदेश	16.12.85	953 बी	
60639	मोक्षि दम्बर		गांव — बमफर पी० ओ० — तोपाटली जिला — कामरूप असम	असम	10.09.71	1093	
60640	मित्रा जिवन		करुण बरी पी० ओ० — ललुका जिला — नार्थ लखिमपुर असम	असम	12.11.75	1614	
60641	नदी सिबू कुमार		झग हाउस पी० ओ० — लुका 782446 जिला — नगांव असम	असम	31.03.76	1741	
60642	नंदी मधुसुधन		रेलवे क्वार्टर न० — 108 बुनीमयदन गुवाहाटी — 22 असम	असम	20.08.76	1781	
60643	नंदी सुखेन्दु बिकश		जनकल्याण सेवा सदन नेताजी रोड पी० ओ० — लुमडिंग जिला — नगांव असम	असम	01.05.74	1382	
60644	नाथ खगेन्द्र कुमार		गांव नौई पी० ओ० — हुगराजली जिला — सोनितपुर असम	असम	08.03.75	1548	
60645	नाथ मोनिलाल		गांव — बरीया पी० ओ० — मूलागंज जिला — करीमगंज असम	असम	01.05.74	1374	

60646	नाथ नरेन्द्रा चरण	सतीश्वर होम्सो क्लीनिक पास सिंगनल एण्ड ऑफिस बदरपुर पी० ओ० -- बदरपुर जिला-- करीमगं 78806, असम	असम	22.06.61	245	
60647	नयोंग अनिल चन्द्रा	छाया होम्सो हॉल बी० एन० बोस रोड पी० ओ० -- डुबरी असम	असम	28.12.67	981	
60648	पंडित अरुण चन्द्रा	गांव -- हयबोरगांव रेलवे स्टेशन रोड पी० ओ० -- हयबोरगांव -- 2 जिला -- नगांव असम	असम	08.03.75	1509	
60649	पाल असिम कुमार	ए० डी० पी० रोड नगांव पी० ओ० नगांव -- 1 जिला -- नगांव असम	असम	31.03.76	1712	
60650	पाल दिलीप नारायण	पी० ओ० -- लूमडिंग जिला -- नगांव असम	असम	12.11.75	1632	
60651	पाल कुमुद रंजन	गांव -- कालीगंग बाजार 788720 करीमगं असम	असम	28.11.86	863	
60652	पाल मन रुद्रा	धाना रोड वार्ड न० -- 8 पी० ओ० -- नार्थ लखीमपुर जिला -- लखीमपुर असम	असम	12.11.75	1621	
60653	पाल साईलेन कृष्णा	जोरहट -- 1 जिला -- जोरहट असम	असम	10.07.61	372	
60654	फानिन्द्रा नारायण	गांव -- नयोगीपारा पी० ओ० -- सलकोच जिला -- डुबरी असम	असम	31.07.74	1424	
60655	प्रसाद कमाख्या	चोकियाजुली वार्ड न० -- 1 पी० ओ० -- चोकियाजुली जिला -- चोकियाजुली असम	असम	01.05.75	1351	
60656	प्रसाद रामसूत	होम्सो सलिनिकेन पी० ओ० -- होजय जिला -- नगांव असम	असम	03.02.63	750	

60657	पुरक्यास्य राठीस रजन कर	4 - सोनाली कॉमन्वेल्स एपा0 थार लाइन अंबिका पट्टी सिलचर 788004 जिला - कछर असम	असम	10.09.71	1128	
60658	रहेमान लुण्पुर	गांव - निलबागन बाजार पी0 ओ0 - निलबागन जिला - नगांव असम	असम	08.03.75	1521	
60659	रहेमान सलमान	खातुन फार्मसी मानिसम देवान रोड पी0 ओ0 जिला - नगांव असम	असम	10.10.74	1495	
60660	रॉय दयाल चन्द्रा	गांव - पुनगोर पी0 ओ0 - सलिचर मेडिकल कॉलेज जिला - कछर असम	असम	18.01.87	881	
60661	रॉय देबतोश	रॉय होम्बो0 हॉल एल0 आई0 सी0 रोड दिगबोई जिला - दिब्रुगढ़ असम	असम	31.03.76	1649	
60662	रॉय मुकुन्दा बिहारी	गांव पी0 ओ0 - छतजालन्गा बाजार जिला - कछर असम	असम	10.08.72	1212	
60663	रॉय नलिनी कांता	स्टेशन रोड पी0 ओ0 - दुलत चेंहरा 788736 जिला - करीमगंज असम	असम	29.11.86	918	
60664	रॉय निर्मल चन्द्रा	गांव - मजबत जिला - दरंग असम	असम	01.05.74	1349	
60665	रॉय सत्या गोपाल	गांव पी0 ओ0 - तुलसीबरी 781376 जिला - कायरूप असम	असम	20.06.61	223	
60666	रॉय सुभास	बिलारीपाटा टाउन पी0 ओ0 - बिलारीपाटा जिला - डुबरी असम	असम	12.11.75	1612	
60667	साहा अमरनाथ	गांव - अमरीबरी पी0 ओ0 - अमरीबरी बाया बालीपाटा 724101 जिला - सोनितपुर असम	असम	07.12.76	1842	
60668	साहा नानी गोपाल	गोलापाटा टाउन पी0 ओ0 - गोलापाटा 783101 जिला - गोलापाटा असम	असम	01.05.74	1380	
60669	साहा सुधीर कुमार	मिलोन नगर लखीमपुर पी0 ओ0 - लखीमपुर - 783129 जिला - गोलापाटा असम	असम	31.03.76	1684	

60670	साइकिया दिसेन	गांव - सिया बरी पी० ओ० - अहातगुरी जिला - मोरीगांव असम	असम	31.03.76	1744	
60671	साइकिया परावत कुमार	गांव - पानीगांव छाया अली पी० ओ० - पानीगांव जिला - नगांव असम	असम	01.05.74	1342	
60672	समसुदीन अहमद	गांव - लंका बाजार पी० ओ० - लंका 782448 जिला - नगांव असम	असम	10.05.71	1141	
60673	सरकार गौरंगा	जगदीश होम्यो क्लीनिक नार्थ मुमोयगरी पी० ओ० - असबागन जिला - नगांव असम	असम	07.12.76	1844	
60674	सरकार सगिर अली	गांव - बालकुमारी पी० ओ० - तुलसीबिन जिला - कोकराझार असम	असम	08.03.75	1538	
60675	सर्मा अनिल कृष्णा	जॉयदुर्गा होम्यो हॉल एन० एन० रोड धर्म नगर त्रिपुरा	असम	20.08.76	1819	
60676	सर्मा बोरदोलाइ तोसेस्वर	गांव - महासिती पी० ओ० - बेबजीय जिला - नगांव असम	असम	21.11.73	1274	
60677	सर्मा दिमबेस्वर	गांव - बेबजीया पी० ओ० - बेबजीय जिला - नगांव असम	असम	10.08.72	1191	
60678	सर्मा जगमोहन	गांव - पुरानीगुदाम पी० ओ० - पुरानीगुदाम जिला - नगांव असम	असम	10.09.71	1136	
60679	सर्मा जॉयदेव	गांव पी० ओ० - दुती जिला - दरंग असम	असम	05.07.61	335	
60680	सर्मा कनक चन्द्रा	फतासिल गुवाहाटी - 9	असम	01.05.74	1331	
60681	सर्मा लक्ष्मी नाथ	रूप नगर गुवाहाटी गुवाहाटी - 32	असम	28.07.75	1664	
60682	समा नलिनी कला	गांव - इटा छालि टी० ओ० रोड पी० ओ० - जिला - नगांव असम	असम	20.09.71	1145	
60683	सर्मा नरेस्वर	गांव - बोनगलीकुछी पी० ओ० - रंगिया जिला - कारुण असम	असम	31.03.76	1735	

60684	सर्मा प्रभुल्ल कुमार	जापरकुछी जलबरी पीठ ओठो - तैरेछिया वाया नलबरी जिला - नलबरी असम	असम	20.09.71	1158	
60685	सर्मा प्रभुल्लया कुमार	गांव - बोरनदी जिला - नलबरी असम	असम	31.03.76	1694	
60686	सर्मा रमेश चन्द्रा	गांव - मोगपुर पीठ ओठो - मोलापुरी 781318 जिला - बोरपेटा असम	असम	06.12.62	645	
60687	सर्मा रमेशवर	होमेश्वर होम्योड हॉल बाक बाजार पीठ ओठो - मुगकुछी जिला - नलबरी असम	असम	07.12.76	1870	
60688	सर्मा शंकर धार	होम्योड मेडिकल हॉल केठ पीठ रोड पीठ ओठो - एनठो लखीमपुर जिला - लखीमपुर असम	असम	12.11.75	1617	
60689	सर्मा सुशील चन्द्रा	कठालपुर पीठ ओठो - जालुखाना वाया तिहु जिला - नलबरी असम	असम	31.03.76	1693	
60690	सेतगुप्ता विरा रंजन	आनन्दा बाजार एठ टीठ रोड पीठ ओठो - मकुम 786170 जिला - तिसुकिआ असम	असम	26.06.81	287	
60691	शर्मा अंजु	शर्मा क्लोनिक , दा मौल सोलन	हिमाचल प्रदेश	29.04.85	301.बी	
60692	शर्मा प्रेम चन्द	गठ नठ - 20 , दुर्गा कालोनी नांगल उना , नेशनल हाइवे उना	हिमाचल प्रदेश	07.03.85	161.बी	
60693	शर्मा सुखदेव	पीठ एण्ड पीठ ओठो लमबट्ट जिला - हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	14.05.85	376.बी	
60694	सिक्का विरेन्द्रा कुमार	डी - 58 जहागीरपुरी	राजस्थान	5.08.72	2204	
60695	सिंह रामागया	गांव - धर्मगुल पीठ ओठो - धर्मगुल जिला - नगांव असम	असम	01.07.74	1403	
60696	सिंह संतोख	वी एण्ड पीठ ओठो - संतोखगढ़ उना	हिमाचल प्रदेश	25.10.85	910.बी	
60697	सिंह सावन	गांव - जवाहरपुर पीठ ओठो - देरावल्ली पटियाला पंजाब	हिमाचल प्रदेश	16.08.85	668.बी	

60698	सिंह रामशेर	श्री बीर सिंह	गांव - संगति, पी० ओ० - समर हिल शिमला - 5	हिमाचल प्रदेश	19.09.85	692 बी
60699	श्रीमति लीलावती	श्री शंकर दत्त	पी० एण्ड पी० ओ० - हरीपुर कुलू	हिमाचल प्रदेश	25.10.85	913 बी
60700	श्रीवास्तव हरेन्द्रा कुमार		दिसपुर गुवाहाटी - 5	असम	20.08.76	1788
60701	स्वामी सक्तिपादा		पी० ओ० - लतु जिला- करीमगंज असम	असम	29.11.66	871
60702	वल्लुक्दार सुसंता रंजन		गांव पी० ओ० - लहरीघाट जिला- मोरीगांव असम	असम	08.03.75	1507
60703	ठाकुर मोहन सिंह	श्री एन० आर० ठाकुर	मोहल्ला धालपुर कुलू	हिमाचल प्रदेश	16.12.85	958 बी
60704	शान्तालियन लाल एस० एल०		जैन मेडिकल स्टोर पी० ओ० - अजिवाल जिला - अजिवाल मिजोरम	असम	20.01.62	795
60705	थोन्ना सी० लाल हिमिंग		गांव - कवरठेडा पी० ओ० - कवरठेडा मिजोरम हिलस	असम	26.12.86	969
60706	उद्दीन बसीर		श्री गौरी बजार पी० ओ० - गौरी बजार जिला - करीमगंज असम	असम	20.08.76	1828
60707	वर्मा देश राज	श्री के० सी० वर्मा	322 सेट न० - 7, जंझर नगर पटियाला पंजाब	हिमाचल प्रदेश	14.05.85	377- बी
60708	वहोब अब्दुल		अब्दुल होम्यो हॉल गांव - हेरापट्टी पी० ओ० - सोमरी जिला - नगांव असम	असम	20.08.76	1803

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार
केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद्

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY
NEW DELHI

Dated

No. 13-32/2010 CCH/CRH – VIII The Central Council of Homoeopathy in pursuance of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 21 and Section 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) maintains a Register known as the Central Register of Homoeopathy. Part – I of said Register is being published in the Gazette of India.

From S.No 1 to 20243, 20244 to 33097, 33098 to 37359, 37360 to 39961, and 39962 to 45989 have been included in Part – I of Central Register of Homoeopathy published in the Gazette No.I. Part – III, Section IV dated January 2, 1993, October 9, 2004, May 26, 2007, November 15, 2008 and August 8, 2009 respectively.

Dr. LALIT VERMA
Registrar
Central Council of Homoeopathy

S.No	Name	Father's/Husband's Name	Address a) Residential b) Professional	Qualification a) General b) Medical	Dates on which qualifications were obtained	Name of institution from which registrable qualification were obtained	State in which Registered and the authority granting the State Registration	Date of registration in State Register	Registration number given in the State Register	Additional medical qualification with date obtaining and name of authority granting the qualification	Date and reason(s) for removal from the Central Register, if any	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45990	Aarti Lalit	D/o D.K. Lalit	# 46 Sector -13 Urban Estate Kurukshetra	BHMS	2004	Punjab University Chandigarh	Haryana	6.03.06	5751-A			
45991	Abbott Chand	Sh. Janak Raj Abbott	H. No. 318 Han Niwas Kidwai Nagar Ludhiana (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	6/10/1995	1548			
45992	Abdul Chowdhury		Vill-Dadara P.O.-Dadara Dist-Karnup, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	153			
45993	Ahishhek	Sh. Krishna Prakash	Jawahar navodaya Vidyalaya, Mandaphia City, / Dist. Chittoorgarh	BHMS	Jan, 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4892			
45994	Acherjee Goutam		Hahnemann Homoeo Dispensary Silchar P.O.-Silchar Dist-Cachar, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Rajasthan	22.09.99	491			
45995	Acherjee Nilal Chandra		Vill-P.O.-Joy Borpur Dist-Cachar, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.11.84	94			
45996	Adhikari Debasish		J.N. Road Goalpara P.O.-Goalpara Dist-Goalpara, Assam	D.H.M.S.	Apr-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.04.2001	792			
45997	Aditi	D/o Sh. Ramesh Kumar Garg	Handiya Bazar, Bamala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	5.7.1999	2059			
45998	Agarwal Ashu	Sh. Suresh Chandra Agarwal	153, Kakra Shernsher Khan, Etawah (U.P.)- 206001	B.H.M.S.	2008	University of Burdwan	W.B. Council, Calcutta	23.6.08	27149			CCH-2602
45999	Agarwal Sapna	Sh. Ram Babu Gupta	4 Sharda Colony, 80 Feet End, Mahesh Nagar, City-Jaipur Dist-Jaipur	BHMS	July, 2006	Raj University	Rajasthan	28.02.2008	4998			
46000	Agarwala Rituj Raj	Sh. Manohar Das Agarwal	B.M. Agarwala Colony P.O.-Dhansar-828106, Dist.-Dhanbad, (Jharkhand)	B.H.M.S.	2006	University of Burdwan	W.B. Council Bihar Board	21.2.06 20.03.06	26082 27768			CCH-2592

46002	Aggarwal Anup	Sh. S.K. Aggarwal	502, Vardhaman Nagar, City-Jaipur Dist.-Jaipur.	BHMS	Dec-2000	Karnataka University	Rajasthan	16.03.2007	4823
46003	Aggarwal Anurag	Sh. H.O. Aggarwal	13 Industrial Area, Bhaspur.	BHMS	2003	Baba Farid Univ. of H. Sc. Faridkot (PB)	H.P.	19.01.06	160-A
46004	Aggarwal Dinesh Kumar	Khet Ram Aggarwal	Agg. Homoeo. Clinic Near City Hos. Dabra Chowk Hissar	DHMS	Aug-86	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	9.03.89	5477-A
46005	Aggarwal Narinder Kumar	M.R. Aggarwal	Bus Stand Ateli Mandi Distt.-Mohindergarh	DHMS	Sep-84	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur.	Haryana	14.11.94	5608-A
46006	Aggarwal Anita	Sh. K.B. Aggarwal	H.No. 271, New Deep Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	6.4.1998	1831
46007	Aggarwal Ankush	Sh. Jawahar Lal Aggarwal	Guru Nanak Nagar, St. No. 4, Ludhiana	BHMS	Nov-Dec 2004	BFUHS	Punjab	26.09.2006	3063
46008	Aggarwal Anuja	Sh. O.P. Aggarwal	P/3-2 Church Road, Ferozpur Cantt. (Pb.)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	22.07.2005	2899
46009	Aggarwal Gorav Kumar	Sh. Ashwani Kumar Aggarwal	H.No. 1765, Phase VII, Mohali, TEH. Khairat Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	13.8.1998	1907
46010	Aggarwal Neha	Sh. K.K. Aggarwal	96-D, Kitchlu Nagar Ludhiana	BHMS	Nov-Dec 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3114
46011	Aggarwal Nisha	Sh. Bhushan Kumar	H.No. 3172, New Tagore Nagar, Halibowal Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3091
46012	Aggarwal Pankaj Kumar	S/O Sh. Munna Lal Aggarwal	37 South Anar-Kali Ext. Krishna Nagar Delhi-110051	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	27/11/1987	1028
46013	Aggarwal Parvash	M.P. Aggarwal	Aggarwal Homoeo. Dispensary Agra Chowk G.T. Road Palwal	BHMS	April, 1990	Agra University	Haryana	28.04.93	5576-A
46014	Aggarwal Rippy	D/o Sh. Inderpal Aggarwal	H.No. 77, St. No. 22, Jalandhar Cantt. (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	18.1.2000	2185
46015	Aggarwal Ritesh	Sh. Ravi Aggarwal	Ram Nagar, B-1-1375, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.2.2000	2224
46016	Aggarwal Shailu	Sh. Ram Avtar Aggarwal	79 Veer Colony, Bhathinda (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.11.1998	1995
46017	Aggarwal Shikha	Sh. Han Om Aggarwal	H.No. 321 Mohalla Awa Post Office Road Dist Jalandhar	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2836
46018	Aggarwal Sumit	Sh. Satish Aggarwal	Chaura Bazar Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	BFUHS	Punjab	16.11.1999	2171
46019	Aggarwal Suniti	Sh. Som Aggarwal	197-A, Aggar Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	26.11.1999	2174
46020	Agnihotri Alok	B.D. Agnihotri	# 1894 Sector -15 Panchsala	DHMS	Sep-78	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	15.09.82	3457-A
46021	Agnihotri Minakshi	Sh. R.C. Agnihotri	11-A Textile Colony, Industrial Area-A Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2958
46022	Agrawal Neha	Sh. Kalash Chand Gupta	113 / 93 Kumbha Marg, Pratap Nagar, Sangarner City- Jaipur Dist. Jaipur.	BHMS	May 2007	Raj University Jaipur	Rajasthan	28.11.2008	5145

46022	Agrawal Neha	Sh. Kailash Chand Gupta	113/93 Kumbha Marg, Pratap Nagar, Sangner City, Jaipur Dist. Jaipur.	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	26.11.2008	5145
46023	Agrawal Rashmi	Sh. Ram Narayan Agrawal	137, Surya Nagar, Gopal Pura Bypass, Ganesh Marg, City Jaipur Dist. Jaipur.	BHMS	Mar/ April 2006	D. A. J. Indore.	Rajasthan	22.07.2008	5050
46024	Agrawal Mahesh	Sh. Bhikki Lal Agrawal	56-A Kushal Nagar Behind Rajshree Resort City, Sanganer Dist. Jaipur.	BHMS	2005	Raj University	Rajasthan	11.06.2008	5030
46025	Agrawal Sachin	Sh. Dinesh Kumar Agrawal	D-33, Gomati Kunj, Saraswati Marg, Bani Park City, Jaipur Dist. Jaipur.	BHMS	July, 2006	Rajasthan University	Rajasthan	4.02.2008	4889
46026	Ahmed Abdul Matin		Vill-Bardasiga, P.O.- Chacharia Dist-Borpela Assam	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.10.06	967
46027	Ahmed Abdul Salam		Vill-Angarkata P.O.- Baginbari 783399 Dist- Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.08.2001	812
46028	Ahmed Alauddin Ali		Sixmile, Khanapara P.O.- Guwahati-02 Dist-Kamrup Assam	O.H.M.S.	Nov-95	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.10.99	740
46029	Ahmed Alimuddin		Vill-Anani P.O.-Amani, Via- Chamta Dist-Nalbari, Assam	O.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.04.85	133
46030	Ahmed Amir Uddin		Vill-Karakhatli P.O.- Pathinari Dist-Borpela, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.07.98	532
46031	Ahmed Arzeena		Mathura Nagar, Hem Baruah Path Bye Lane No.- 8, House No-24 Near Down- town Hospital, Guwahati-6	B.H.M.S	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	10.10.06	955
46032	Ahmed Fand		Vill-Mukualimua P.O.- Mukualimua 781126 Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.10.2000	749
46033	Ahmed Gias Uddin		Vill-Chenibari P.O.-Bherbari Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.07.98	621
46034	Ahmed Jai Lal Abedin		Vill-Dalgaon (Azad Nagar) P.O.-Dalgaon, Dist- Darrang, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.03.99	503

46035	Ahmed Monir Uddin	Vill-Begena-ati P.O.-Choral Halkor Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.06.2001	797
46036	Ahmed Naimuddin Syed	Nakuli-2 P.O.-Rangia Dist- Kamrup, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.07.2003	871
46037	Ahmed Nasir Mir	Chand Homoeo Clinic Hijubari, Hatigaon Dist- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.12.86	220
46038	Ahmed Nilima Peyer	Vill-Bihdia P.O.-Bihadia Dist Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.01.2002	839
46039	Ahmed Samrunuddin	Vill-Deuchunga P.O.- Deuchunga 761366 Dist- Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.07.98	636
46040	Ahmed Tajuddin	Vill-Bordolguni P.O.- Bordolguni Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.07.98	505
46041	Ahmed, Arshad Nazir Ahmed	Vill Rehpa, PO Phiangwan Dist. Gurgaon.	BHMS	May 2002	Rajiv Gandhi University Of Health Sciences, Karnataka, Bangalore	Haryana	13.12.2005	5739-A
46042	Ahuja Kam Sh. Prem Pal Ahuja	3-4-B, Prem Nagar, City / Dist. Sri Ganga Nagar,	BHMS	May, 2005	Baba Farid University, Punjab.	Rajasthan	2.07.2007	4842
46043	Ahuja, Komal D/o Sh. Vijay Kumar Ahuja	Ahuja Street, V.P.O. Makhu, TEH. Zira, Dist. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	7.2.2000	2209
46044	Ahuja, Robina Sh. Hukam Chand Ahuja	H.No. 2422, Gurudwara Road, Rajpura Town, Dist. Patiala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	21.1.1998	1779
46045	Ajlin Shisha Pohsangap Mr.E.B. sohtun	C/o E.B. Sohtun Pohkesh Rynjah, Shillong	BHMS	Feb-05	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Banglore	Meghalaya	27/4/2005	258
46046	Airi, Naveen Vas Dev Airi	H.NO.611, Sector-17, Panchkula.	BHMS	2003	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab Chandigarh	Haryana	22.12.2006	5784-A
46047	Airi, Naveen Sh. Vasdev Airi	V.P.O. Zirakpur, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.11.1997	1726

46048	Ajay Kanwar	Sh. Daljit Singh	Guru Nanak Nagar, 1016, St. No. 10, Gurbax Colony, Patiala (Pb.)	D.H.M.S.	1981-86	ELIHAR UNIVERSITY	Punjab	12.11.1997	1730
46049	Ajay Kumar	Sh. Rameshwar Lal	Ward NO.4, Dabli Rathan City- Hanuman Garh, Dist- Hanumanagarh.	B.H.M.S.	Jan, 2005	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	11.07.2007	4851
46050	Akand Manowar Hussain		Vill-Satapara P.O.-Katari Hara Dist-Goswara, Assam	B.H.M.S.	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.11.06	987
46051	Akhlesh.	Sh. Sampat Lal Dhanka	71/ 78 Near K.V. -5 Mansarovar City-Jaipur; Dist- Jaipur	B.H.M.S.	Jan, 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	26.07.2007	4884
46052	Akond Abu Taib		Vill-New Bhaithani P.O.- New Bhaithani 794104 Dist- West garo Hillis, Meghalaya	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	07.10.06	947
46053	Ali Abdul		Vill-Chalapathar P.O.- Chalapathar via Batadraba Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.08.07	1011
46054	Ali Ahmed		Vill-Singamari Kochigaon P.O.-Kacharigaon-784117 Dist-Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.05.89	306
46055	Ali Marfat		C/O-Md. Mohar Ali Vill-P.O.-Batamani via Batadraba Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.07.2001	806
46056	Ali Md. Israil		Vill-Jalinbari P.O.- Gachpara (Raha) 782425 Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Nov-95	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.03.98	677
46057	Ali Md. Jamir		C/O-Jahur Ali Vill Dobok (1 No) P.O.-Dobok 781354 Dist-Kamrup Assam	B.H.M.S.	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.10.06	966
46058	Ali Md. Khured		Vill-Chilling P.O.- Ghangrapara Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	149
46059	Ali Nur Hassan		Rageswar P.O.-Nagarbera Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.05.85	140
46060	Ali Saiful		C/O-Md. Sukur Ali Charch Road P.O.-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.07.98	484

46061	Ali Soleman	S.A. Research & diagnostic & Cure Centre, Nayanpur Ganeshturi, Guwahati-6	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.06.98	507	
46062	Alka	H.No. 1628, Phase-V, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	21.03.2003	2613	
46063	Aloka	C/O Shri R.K. Sharma, H.No. 31, Ram Nagar, Vill Kalkai P.O. Pind Dakotia, Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	4/1/1991	1228	
46064	Aloka	C/o Jindal Homoeo. Clinic Courts Colony Sirsa	DHMS	1988	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	22.07.91	5548-A	
46065	Alom Shuhel	C/O-A. Ali Ahmed Sunderban Nagar House no-8 Hallgaon, Guwahati-38	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	12.10.06	958	
46066	Alom Zulfikar	Vill-Montpur P.O.-Bagribari 783399 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	14.08.2001	811	
46067	Aman Sanam	Janat Villa, VPO, Bhupur, Sunder Nagar, kktDistt. Mandi.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un Udaipur, (Ra)	H.P.	11.07.08	185-A	
46068	Ambika Devi	Aggarwal Street Zira, Distt. Ferozepur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2916	
46069	Amin Nurul	Vill-Publowashur P.O.-New Bongaigaon 783381 Distt- Bongaigaon Assam	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.11.06	980	
46070	Anit Handa	H.No. 1763, Phase III-B2, Mohali, Distt. S.A.S. Nagar, Ropar (Pb)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	1.12.1997	1735	
46071	Amiteshwar	10, Ait Nagar, Sultanwind Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	13.9.2000	2361	
46072	Anilak Chand	Circular Mukatsar Road, Jallalabad West, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	Jan-1991	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	20.7.1998	1876	
46073	Amrik Singh	H.No. 656, Phase VII, Mohali (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2411	
46074	Anrit Pal	H.No. U2/3164, Preet Vihar Kherabad Road Amritsar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2920	
46075	Anil Ruwmdar Rodani	Panchal Education Office Colony P.O. Japhou Bazar, Chandel Manipur	B.H.M.S	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	12.06.08	1081	
46076	Anamika	H.No. 4562/2, Chatta Narunai, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	17.7.1997	1717	
46077	Anamika	C/o Sh. C. B. Rana, House No. 148, Extn. II, Nangloi, New Delhi	BHMS	2008	B.E.A. Bihar University	Bihar Board	19.5.08	28624	CCH-2699

46078	Anand, Prarthna	Sh. Ashok Anand	H No. 3542, Street No-13, New Shivaji Nagar Ludhiana	BHMS	2005	BF-UHS	Punjab	04.01.2007	3078
46079	Anand, Sanjia	D/O Sh. Dharampal Anand	Anand Medical Hall, Main Bazar Bassi Pathana, Distt. Fateh Garh Sahib (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	18/9/1995	1539
46080	Anees Sadiya	Sh. Aneesur Rahman Khan	C/o Sharma Brothers 14-15, Durgapath, Ambabari City-Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	July, 2005	Raj University	Rajasthan	11.06.2008	5023
46081	Angra, Monika	D/O Sh. R.D. Angra	Lal Kothi - 100, M.C. Campus, Brown Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	20.4.2000	2247
46082	Anil Kumar	Satyavir Singh	1) VPO : Chandani Distt.- Bhiwani 2) Sori Bawashir Hospital (Homoe. Shopping Complex) Shop No-62, Mohindergarh	DHMS	1990	Raj Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	14.11.94	5609- A
46083	Anil Kumar	Sh. Om Prakash Singh	C/o Smti Ajay Singh, 105- Roorp Nagar -II, Mahesh Nagar, City-Jaipur Dist- Jaipur.	BHMS	May 2007	Raj University Jaipur	Rajasthan	28.1.2009	5185
46084	Animesh Deep	Sh. Karamjit Singh	HIG. 690, Phase 8, Mohali	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.03.2001	2485
46085	Anita	D/O Sh. Madan Mohan Anand	12 Opp. Thana Sadar Nagar, Railway Laca Shed, Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	23.10.1998	1984
46086	Anita	Sh. Amar Chand	D. 153, Parvahan Nagar, Khalipura Road, City Jaipur Dist-Jaipur. (Raj.)	BHMS	May 2007	Raj University Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5111
46087	Anita Garg (Maiden Name) Mrs. Anita Singla (Married Name)	W/O Sh. Pawan Singla	297-C Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	19/01/1990	1186
46088	Anali	Sh. Ashok Mehta	K.No. 377, Phase-I, Mohali	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	21.01.2004	2660
46089	Anjana Rani	Sh. Satpal Sidana	Patel Nagar, St. No. 8, Malout, Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	16.12.1997	1753
46090	Anjana Rani	W/o Sanjeev Kumar	26/5 Hakikat Nagar Rty. Road, Near Arya Smaj Mandir Jind s	BHMS (GDC)	Jun-05	Baba Farid University of Health Science Faridkot	Haryana	3.08.07	5902- A
46091	Anoop Jyoti	Sh. B.K. Verma	Arjun Nagar Tam Taran Road Amritsar	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2867
46092	Ansari Javed		Vill-Tenga Basti P.O.- Bakala Dist-Sonitpur, Assam	D H M S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.06.98	620
46093	Ansari, Manzoor Ali	Abdul sakur Ansari	H.No 335, Sector 7, Panchkula	BHMS	May, 1995	Karnataka University	Haryana	20.12.1996	5638- A

46094	Anshu	Sh. Ved Parkash Verma	H.No. 1075, Phase-X, S.A.S. Nagar Mohali, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	24.2.1997	1690	
46095	Antoni Maroj		C/O-P. M. Antony Borbhata Christian Pally P.O. +Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.12.98	713	
46096	Anupam	Sh. Madan Devi Goel	Remedy Homoeo Clinic, V.P.O. Maltur, Mohali, Teh. Kharar (Ropar)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.5.1999	2031	
46097	Anupam Rupal	Sh. Joginder Singh	B-2744, Near Bank Of Punjab, Barnala	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2918	
46098	Anupma	D/o Sh. Purshotam Lal	Vill. Manak Majra, P.O. Sohara, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	5.7.2000	2288	
46099	Anupreet	Sh. Balbir Singh	H.No. 106/9 New Abadi Anandpur Sahib Ropar	BHMS	May-June 2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2834	COH-2725
46100	Anupriya	Sh. Om Prakash Sharma	Ward-32, Neadr, Fire Brigade Office, City-Hanumangarh Distt. Hanumangarh	DHMS	Third Fro. May/June 1997	CHSM, Punjab	Rajasthan	28.06.2008	5032	
46101	Anuradha	D/o Sh. Kuldip Mohan	H.No. 2652, Phase XI, Mohali (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2408	
46102	Anureet	D/O Sh. Manjeet Singhkureja	H. No. 886, Phase-11, S.A.S. Nagar, Mohali, Teh. Kharar Distt Ropar(Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	11/9/1995	1530	
46103	Archana Mukesh	W/o Mukesh Kumar	Red Cross Homoeo. Hospital VPO : Badshahapur (Gurgaon)	GHMS	1983	Kanpur University Kanpur	Haryana	22.09.88	5463-A	
46104	Amelia Anterpreet Singh	Sh. Manmohan Singh	A-58, D.L.F. Colony, Patiala (Pb.)	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	28.02.2003	2608	
46105	Arodhia, Madhuri	Sh. Harbans Lal Arodhia	H.No. 1431, Urban Estate, Phase 3rd, Bhalinda(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	30.05.2008	3239	
46106	Arora Chetna	D/o Vidya Bhushan Arora	525/9 Laxman Colony Thanesar Kurukshetra	BHMS	Dec-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	1.05.08	5821-A	
46107	Arora Dharam Pal	Hukam Chand Arora	3w Arora Homoeo. Hospital Model Town Hissar	DHMS	Aug-86	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur	Haryana	27.05.93	5562-A	
46108	Arora Geeta	Sh. Harbans Lal Arora	Handa Colony, Near Vishnu Cinema, City- Raisingh Nagar, Distt- Sri Ganga Nagar.	BHMS	2005	Baba Farid University, Ferozkot	Rajasthan	30.01.2008	4985	
46109	Arora Sunil	Ramesh Chander Arora	500/10 New Ashok Colony Near SBI Road Kailhal	BHMS	2001	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	19.12.03	5706-A	
46110	Arora Sunil	Sh.R.C. Arora	Solan Homoeopathic Medical College, Chambaghat, Solan.	BHMS	2001	Punjab Homoeo council	H.P.	05.10.05	159-A	
46111	Arora, Ramandeep	D/o Sh. Surjit Singh	Guru Angad Nagar, St. No. 9, Kotkpara Road, Muktsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	9.2.2000	2216	

46112	Arora, Aditi	Sh. Ashok Arora	H.No. 8, H. Ashok Vihar, Rishi Nagar Ludhiana(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	09.05.2008	3216
46113	Arora, Ajay	Sh. Kewal Krishan	H. No. 3819/1 Pitam Nagar Model Town Ludhiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	21/1/1996	1563
46114	Arora, Ananddeep	D/o Sh. Surjit Singh	Opp. Court Road, Koliakpura, Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	27.11.1998	1996
46115	Arora, Anjali	D/o Sh. Kushal Arora	19-Friend Colony, Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.1.2000	2193
46116	Arora, Anu Bala Sh.	Prem Kumar	Misrian Mohalla, H.No. B.V. 325, Faridkot (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	19.02.1998	1802
46117	Arora, Arunesh	Sh. Naresh Kumar Arora	Gupta Street Fauji Road, Korkapura Distt. Faridkot (Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	02.07.2008	3245
46118	Arora, Deepthi	Sh. Ashok Arora	35- Ashok Vihar, Rishi Nagar, P.O. Civil Lines, Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	30.06.2006	3032
46119	Arora, Honey	Sh. Basant Kumar	152, St No. 2 New Deep Nagar Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	05.04.2005	2857
46120	Arora, Madhu	Sh. Tarsem Lal	B-34/2254, Josti Nagar, Harbawal Kalan, Ludhiana	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	30.05.2003	2637
46121	Arora, Madhu	Sh. Jagdish Sharan Arora	Lakhna Niwas 3242, Pultighar, Gali No. 1, Amritsar(Pb)	BHMS	Nov - Dec 2004	BFUHS	Punjab	09.07.2007	3139
46122	Arora, Maninder Kaur	Sh. Sharanjeet Singh Arora	H.No. 128, Phase 1 Urban Estate Dugri Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2930
46123	Arora, Manu	D/o Sh. M.L. Arora	H. No. 2675, Phase-VII, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Roopar (Pb)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	30.3.1999	2021
46124	Arora, Meenu	Sh. Jagdish Chand	E-164, Randhir Singh Nagar, Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	05.05.2001 3.07.2007	2456
46125	Arora, Meenu	Sh. Anand Kumar Arora	V.P.O. Baba Rai Kalan Teh. Nakodar Distt. Jalandhar(Pb)	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	19.06.2007	3127
46126	Arora, Moon	Sh. Krishan Chand	B-34/8817, St. No. 2, New Vijay Nagar Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	25.07.2006	3034
46127	Arora, Parul	Sh. N.P. Arora	HM-340, Phase-IX, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	06.05.2003	2633
46128	Arora, Pooja	D/o Sh. Jagdish Saran Arora	H.No. 2036, Sec. 71, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	5.10.1999	2143
46129	Arora, Rani	Sh. Niranjan Singh	Lachhmanar Chowk, Amritsar, (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	30.3.1998	1818
46130	Arora, Reenu	Sh. Loveleen Kumar	H.No. 305, Pemiun Apartments Pakhowal Road, Gurdev Nagar Ludhiana	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	19.05.2008	3225
46131	Arora, Reetika	Sh. Surinder Pal Arora	H.No. 669, Phase -3 B1, Mohali	BHMS	2001	CHSM, Punjab	Punjab	08.06.2004	2709

BHMS Gr.
Deg.
May - June
2006
BFUHS

46132	Arora, Rocky	D/O Sh. Avtar Singh	H. No. 14505, St. No. 6, Bhagwan Nagar, Dholewala Chowk, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1983	PUNJAB	Punjab	4/7/1995	1503
46133	Arora, Sandeep	Sh. J. N. Arora	H. No. 1822, Phase V, Mohali, TEH. Khair, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	3.7.2000	2286
46134	Arora, Supriya	Sh. Vijay Arora	H. No. 2, Garden Colony, Morinda Teh. Chamkaur Shih, Distt. Roopar (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	02.04.2008	3184
46135	Arora, Timsy	Sh. Ashok Arora	H. No. 609/22 Sec. 5 Sham Nagar Bharat Nagar Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2939
46136	Arya Priyanka	Sh. A. S. Arya	Prabhu General Store, Lower Bazar, Solan	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur (Raj)	H.P.	6.08.08	205-A
46137	Asad, Rehman	Sh. Asadullah	H. No. B-13 Malerkotla Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	12/10/1993	1358
46138	Asfaque Mahmood		22/4A/1-K.C. Road Kashipur, Kolkata-2 West Bengal	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.03.08	1025
46139	Ashina	Sh. Kanwar Mohinder Singh	A-58, D.L.F. Colony, Opp. Zila Parishad, Tripuri, Patiala	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	19.11.2003	2647
46140	Ashina	Sh. J.K. Nanda	#149, Alam Nagar, P.O. Model Town, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2852
46141	Ashok Kumar	Blr Singh Verma	Near Aggarwal College Satpal Mohalla Jhajjar	DHMS	Sep-88	Raj Board of Homoe. Medi. Jajpur	Haryana	12.09.89	5522-A
46142	Ashok Kumar	Roshan Lai	1) # 986 Sector -11, Panchkula 2) Booth No.-85 Shopping Centre Sector -15 Panchkula	DHMS	Sep-78	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	28.11.94	5616-A
46143	Ashok Kumar	Amar Nath Aggarwal	# 742 Sector -7 Panchkula	DHMS	Dec-82	CHSM Punjab	Haryana	23.12.97	5653-A
46144	Ashok Kumar	S.S. Yadav	MIG 260 Housing Board Colony Katka	DHMS	1987	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	8.11.01	5680-A
46145	Ashwani Kumar	Dev Raj Dawar	P.O. Ladwa Dist. Kurukshetra	DHMS	Sep-79	Council Of Homoeo. System of Med Punjab	Haryana	28.12.82	3486-A
46146	Ali Kapila	D/o Sh. Mohinder Paul Kapila	22, Sidh Peeth Marg, Near New Dandi Swami Mandir, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2410
46147	Alter, Punushottam Chand	Sh. Moher Singh Alter	Vill. P.O. Harsaur Teh. Barsar Distt.	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	30/09/1986	928
46148	Attri, Ashwani Kumar	Sh. Ram Asra Attri	Hamirpur (H.P.) -174306 Das Villa Phul Wala Bazar Una (H.P.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	18/12/1995	1561
46149	Avtar Singh	Sh. Sarwan Singh	VPO Sahion Teh. Distt. Nawanshahr-144421	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	20/08/1996	1630

46150	Avtar Singh Vikku	Sh. Darshan Singh	V.P.O. Tibra Teh. Sultanpur (Lodi) Dist. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	13/05/1996	1592	
46151	Awasthy, Deeply	D/o Sh. Muk Raj Sharma	Vill. Majpur, P.O. Kiri Khurd, TEH. Pathankot, Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	16.2.2000	2221	
46152	Awati, Manisha Ramesh	Sh. Awati Ramesh Aparna,	AUP O. Mhasai Ta - Miraj Dist. Sangli Maharashtra State- Pin-416409	BHMS	2007	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	31.10.07	43858	CCH-2885
46153	Azad, Abdul Kalam		Vill. Nallonga, Majerpara P.O.-Diplachowk Dist- Darrang, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	17.04.85	125	
46154	Azad, Vishal Danid	Sh. Abdul Masih Azad	W-285, Bada Bazar Basti Shikhi Jalandhar(Pb)	D.H.M.S.	2000	PUNJAB	26.07.2000 09.11.2005	2532	BHMS Gr Deg 2003 BFUHS
46155	Azizur Rahaman		Howli Homoeo Clinic Amban Hoelt Town P.O.- Howli 781316 Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	29.05.2001	591	
46156	B. Ambika	D/O Sh. L. Bala Subrah- Manyam	Central State Farm Ladrowai Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	10/11/1986	945	
46157	Babber, Deepti	Sh. G.S. Babber	C/O DRU Kamal Khandewal 69/A Kirti Nagar, Tonk Road, City- Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	Oct/Nov. 2005	Bharati Vidyapeeth Univer., Pune	6.10.2008	5079	
46158	Bagga, Ajay Kumar	Sh. Harbans Lal Bagga	H.No. 2717 Sector 40-C Chandigarh	DHMS	1985	PUNJAB	4/11/1986	939	
46159	Bagga, Raman Deep	Sh. Dev Raj Bagga	Bagga Hospital Gill Road, Teh. & Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	14/08/1995	1524	
46160	Bagga, Renu	D/o Sh. R.C. Bagga	D-30, N.F.L. Colony, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	4.8.1999	2105	
46161	Bahra Rajot		293/254 Chota Tengra Keshari Road P.O.- Kharagpur 721301 Dist- Paschim Midnapur, W.B.	D.H.M.S.	May-81	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	29.12.04	910	
46162	Baidwan, Navreet Kaur	D/O Sh. Labh Singh Baidwan	H.No. 1072 III-B-2 Mohali Teh. Kharar Distt. Roopar (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	4/11/1987	1017	
46163	Balloong Rashmi Rekha		Ron Nagar Ward No. - 3 Near S.B.I. P.O. - Dharmaji Assam	B.H.M.S.	Oct-06	Dibrugarh University	26.03.08	1033	
46164	Bains, Brinder Singh	Sh. Kamal Singh	H.No. 207-L, Model Town Hoshiarpur (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	4/5/1990	1207	
46165	Bairwa, Sunita	Sh. Ganga Ram Bairwa	C/o Shri Prakash Chand Bairwa, Panchwati Restaurant, Jhallowar Road City-Jagpura -kota Dist-Kota (Raj)	BHMS	Jan.2007	JNRV, University Udaipur	10.10.2008	5123	

46166	Baishya Dibyajoyti	C/O Paban Baishya Ward No-3 Rangia 781354 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.10.2000	748
46167	Baishya Kanak Chandra	Hatigarh Barnunimoinadam Guwahati-21	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	131
46168	Baishya Rajesh Kumar	C/O Kulada Baishya W/No. II Lachit Nagar, Gouripur, Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.11.03	885
46169	Baishya Tarun Chandra	C/O Hari Ram Baishya Vill. Jagara P.O., Jagara Dist-Nalbari Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.99	415
46170	Bajaj, Ekta	181 Sector-4 Mansa Devi Complex Panchkula	BHMS	May 2003	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab Chandigarh	Haryana	22.12.2006	5782-A
46171	Bajaj, Pooja	H No. 812, Phase VII, Mohali, TEH Kharar, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	11.9.1998	1921
46172	Bajwa, Amarinder	New Jama Masjid Distt. Sangrur(Pb)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	21.7.2000	2308
46173	Bajwa, Iqbal Singh	Gagandeep Colony, Jodhpur, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.7.1998	1902
46174	Bakshi S.P.S.	Sec-6 Parwanoo, Solan	DHMS	1973	Delhi Homoeo Board	H.P.	18.12.01	123-A
46175	Bal Kanchan	Telia Pangaoon Halborgaon-2 Dist-Nagaoon, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	B.H.S.M. Assam	Assam	11.03.84	117
46176	Bal Krishan	317, Gwal Mandi, Ferozepur Cantt (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	22.10.1999	248
46177	Bala, Adarsh	H.No. 1164, Street No. 5, Chowk No. 6 Abohar Distt, Ferozepur	D.H.M.S.	2000	PUNJAB	Punjab	02.05.2001 24.03.2006	BHMS Gr. Deg. 2003 BFUHS
46178	Bala, Anju	H No. 1329, Sector-23-B, Chandigarh	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	14.01.2005	2820
46179	Bala, Anu	B-34, 2777 Rajesh Nagar, Halibowal Kalan Ludhiana(Pb)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	25.01.2005	2821
46180	Bala, Indu	St. No.1, Guru Nanak Colony, Faridkot.	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	04.09.2003 04.08.2006	BHMS Gr. Deg. 2005 BFUHS
46181	Bala, Kiran	Basti Machhian Wali Zira Distt. Ferozepur (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	12/06/1986	903

46182	Bala, Kiran	D/o Sh. Banarsi Dass Gupta	Near State Bank Of Patiala, Berata, Mandi, Distt Mansa (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	21.7.2000	2306	
46183	Bala, Kiran	D/o Sh. Gurdip Singh	H.No. 175/23, St. No. 6, A Hira Bagh, Jagraon, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	2001	PUNJAB	22.1.2001	2417	
46184	Bala, Kiran	Sh. Vijay Kumar	C/O Dr. Vijay Kumar Behl Main Bazar Shahkor Distt. Jalandhar	DHMS	1999	PUNJAB	03.01.2002	2575	
46185	Bala, Manju	D/o Sh. Madan Lal	14-D Thermal Colony, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	2.2.2000	2199	
46186	Bala, Manju	D/o Sh. Judge Mal Gupta	Anaj Mandi, Sunam, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	31.8.2000	2343	
46187	Bala, Neena	Sh. Surinder Kumar	East Mohan Nagar, Golden Temple, Sultanwind Road, Amritsar	DHMS	1999	PUNJAB	15.03.2002	2472	
46188	Bala, Neeraj	Sh. Jagdish Krishan Sahney	B-1672, Upkar Nagar Civil Lines, Ludhiana (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	27/08/1996	1634	
46189	Bala, Neeru	Sh. Som Parkash	H.No. 539/19/10, Street No 5 Preet Nagar Shiv Pur Ludhiana	DHMS	2000	PUNJAB	17.09.2001	2547	
46190	Bala, Parmod	D/o Sh. Dayal Chand	H.No. HB-65 Phase-1 Mohali The Khairat Distt. Roopar	DHMS	1997	PUNJAB	28.9.1998	1969	
46191	Bala, Renu	Sh. Krishan Lal	MIG(S) 5139, Pancham Cooperative H/B, Society, Sec68, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	27.03.2003	2618	
46192	Bala, Sarita	Sh. Hans Raj	V.P.O. Parjjan Kalan Teh. Shahkot, Distt. Jalandhar.	BHMS	2002	PUNJAB	16.03.2004	2667	
46193	Bala, Saroj	D/O Sh. Han Ram Gard	H. No. B-XII/139 College Road/ Barnala Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	10/1/1990	1184	
46194	Bala, Sonu	D/o Sh. Mohan Lal	Bhag Wali Road, Raman, Mandi, TEH Talwandi Sabo, Distt. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	9.6.1999	2039	
46195	Bala, Suman	Sh. Arjan Dass	H.No. 112, Adarsh Colony Near Bhadson Chungi, Patiala (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	10.4.1997	1698	
46196	Balandi, Virender Kumar	Sh. Milk Raj	Street No. 4 Dharm Nagar, Abohar Distt. Ferozepur (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	24/2/1987	971	
46197	Baldev Krishan	Sh. Amar Nath Sharma	V.P.O. Jaspalon 141421 Teh. Khanna Distt. Ludhiana(Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	10/11/1986	944	
46198	Baldev Krishan	Sh. Ram Krishan	St. No. 12, 2nd Chowk, Abohar, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	14.7.1998	1866	
46199	Bali, Sushma	Sh. Sat Pal Sharma	H.No. ES 265, Abadpur, St. No. 1, PO Bhargava Nagar, Jalandhar (Pb)	DHMS	1996	PUNJAB	20.7.1998	1883	
46200	Ballav Bireswar	Dr. Pratulla Kumar Ballav	Vill & P.O. Kamarapur, Dist-Hooghly W.B.-712612	B.H.M.S.	2003	University of Burdwan	12.10.04	25525	CCH-2570

46201	Bam, Bonjar	Shri Harbom Bam	a) Liru Village P.O.P. S. Likabali, Dist. West Saining, Arunachal Pradesh b) C/o Mrs. Jumen Bam R.C.S. Office, D. Sector Naharlagun, A.P.	BHMS	28.01.2008	Dibrugarh University	Arunachal Pradesh	4.02.2008	79	
46202	Bamba, Archana	Sh. Manmohan Bamba	55, Daalogiri Appis, Mail Road, Luthiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	13/08/1996	1616	
46203	Barnon Shingaiyang		Vill-Satanga-B.P.O.-Sutnga P.O.-Khlehnat Dist.-Jayantia Hills, Meghalaya.	D.H.M.S.	Aug-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.12.92	568	
46204	Banerjee Basudev		Vill-Hari Rampur P.O. Gulabarin Dist-Hoogly, West Bengal	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.03.85	234	
46205	Banerjee Susanta		C/O J.L. Banerjee Santipara, Dibrugarh P.O. Dist-Dibrugarh-1, Assam	BHMS	1988	University of Calcutta	Assam	22.09.88	310	
46206	Banga Sukhdev Singh	Sh. Gokal Singh Banga	C/o Zora Singh Banga, Guru Teg Bahadur Nagar, Gali No - 9, Bathinda (PB)	DHMS	1991	MP Bhopal	Punjab	16.05.1997	1708	
46207	Bank Bhabani Bhusan		Vill-Kharupetia P.O.-Kharupetia Ghat Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.12.98	488	
46208	Bank Biswesal		Vill-Kharupetia P.O.-Kharupetia Ghat Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.12.98	614	
46209	Bansal Chaitika	Sh. Praveen Bansal	House No 40, Street No-2, Shastri Park Chander Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051	BHMS	2007	G.G. Singh I.P. University Delhi	Delhi Board	22.5.07	003541	CCH-2671
46210	Bansal Rajni	D/o Chaman Lal Bansal	134 W.No.-7 Shivaji Nagar Narnaul DT, Mohindergarh	BHMS	Jan-96	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	19.06.08	5799-A	
46211	Bansal Ranbir	Panna Lal	C/o Barwaia Hospital & Nursing Home Cheeka (Kathal)	DHMS	1982	Council of Homoeopathy, Punjab	Haryana	28.04.94	5567-A	
46212	Bansal Sanjeev Kumar	Joginder Pal Bansal	28/14 Mahadev Colony Shivan Gate Kathal	BHMS	Apr-94	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	28.02.07	5790-A	
46213	Bansal, Ajay Kumar	Sh. Madan Lal	C/O M/S Madan Kial Parveen Kumar Post Office Bazar, Bhainda (Pb)	DHMS	Aug - Sep 1987	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	Punjab	31/03/1989	1149	
46214	Bansal, Ekta	Sh. Ramesh Bansal	H.No. 116, Baro Bazar, Jalandhar	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	03.04.2001	2494	

46215	Bansal, Meelody Sh. Roshan Lal	Shop No. 18, Ward No. 5, Old Post Office Chowk, Malout Distt: Muktsar(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	19.05.2008	3224
46216	Bansal, Parveen	S/O Sh. Iqbal Singh Bansal	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	9/2/1983	1043
46217	Bansal, Puja	Sr. Pawan Kumar Bansal	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	22.03.2001	2482
46218	Bansal, Ranjana	D/O Sh. C.L. Bansal	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	29/11/1989	1176
46219	Bansal, Sandeep	Sh. Sat Pal Bansal Panchkula (Hr)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	19.5.1998	1847
46220	Bansal, Sunila	Sh. Dhanpat Rai Bansal W/o Sh. Sat Parkash Mangla	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	11.6.1997	1710
46221	Banshiwal, Surendra Kumar	Sh. Madan Lal Banshiwal	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4877
46222	Baraik, Sushma	Sh. Karam Dayal Baraik	BHMS	May-June 2005	BFUHS	Punjab	19.06.2007	3124
46223	Barbana Ranu	C/O N.K. Barbaruah Accountant Bagheangh P.H.E. O.O. Kuwan Pukhuri Jorhat-9, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.87	238
46224	Bardhan, Soumitra	Asit Nagar, Dibrugarh P.O. Dist-Dibrugarh, Assam Pin 786001	D.H.M.S.	Sep-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.06.04	901
46225	Bargohai, Ananta	VIII-Puralguri P.O.- Puralguri Dist-Sivsagar, Assam	D.H.M.S.	Aug-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.05.88	296
46226	Bargohai, Diganta	Health Clinic, Panjabari Bazar Sixmile, Narengi Road Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.02.2001	787
46227	Bargohai, Gayatri	V.I.P. Road Sixmile Chandan Nagar, Tribeni Path 2nd Bye Lane House No-3, Guwahati-22	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	10.10.06	954
46228	Barm Dui, Kumar	VIII-Bihampur (Khali) P.O.- Mularkuchi Dist-Nainital, Assam	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.03.98	657

46229	Barman Anil Chandra	Vill-Puthimari P.O.-Odaigun Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.09.87	276
46230	Barman Baikuntha	Vill-Kekankuchi P.O.-Kekankuchi via Bartola 781138 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.03.98	623
46231	Barman Biswajit	C/O-Rama Kanta Barman Vill-Bari 781338 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.01.04	886
46232	Barman Jayanta Kumar	C/O-Sri Mahendra Nath Barman Vill-Porakuchi P.O.-Sandha 781337 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.11.2001	822
46233	Barman Jotimala	C/O-Sri Jitendra Nath Barman Vill-Porakuchi P.O.-Sandha 781337 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.12.2001	833
46234	Barman Manoj Kumar	Vill-Bartala Nalbari P.O.-Bartala 781138 Dist-Nalbari Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.10.2000	754
46235	Barman Mrigen	Vill-Kajipara P.O.-Kajipara 781341 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.04.98	693
46236	Barman Mrigen	Vill-Barbang (Lohitpara) P.O.-Barbang 781325 Dist-Borpeta Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	11.03.2002	845
46237	Barman Neelkamal	Bengal Hahnenmann Laboratory 9/12 Dr. Suresh Sarkar Road Calcutta	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.12.2000	373
46238	Barman Sukumar	Barman Para P.O.-Borpeta Road Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.09.87	277
46239	Barman Tapan Kumar	Bidyapur, Nalbari P.O.-Bidyapur Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.04.98	553

46240	Baro Bhraman Chandra	Vill-Kataligaon No.1 P.O.-Mushalpur via Titu Dist Naibari, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.01.2000	374
46241	Baro Binapani	Vill-Jayanti Nagar-1 P.O.-Sonapur 782402 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.12.2001	825
46242	Baruah Amitava	Shayama Prasad Pattu P.O.-Dist-Cooch Behar W.B.	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	11.01.2000	654
46243	Baruah Bishnu	Vill-Parabi P.O.-Barbati Dist-Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.05.88	302
46244	Baruah Dilip	Rangajan Hatichungi gaon P.O.-Rangajan via Titabor Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.05.87	245
46245	Baruah Dimbeswar	Vill-Rajbari P.O.-Bhupura Dist-North Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.05.88	271
46246	Baruah Durlow Chanora	P.O.-Kenduguri Dist-Jorhat-10, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.06.87	248
46247	Baruah Ghanashyam	Vill-Kamala Baria P.O.-Jorhat 785004, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	144
46248	Baruah Hema	C/O Duleswar Baruah Jorhat Civil Hospital P.O.-Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.09.84	76
46249	Baruah Joy Chandra Hali	Vill-Khamen Konar Gaon P.O.-Dhekakhrana Dist-Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.03.87	232
46250	Baruah Lipi	Vill-Tarajan Sonarigaon No.2 P.O.-Jorhat Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.12.2000	777
46251	Baruah Manoj Kumar	Vill-Balijan P.O.-Balijan 784172 Dist-Sonitpur Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	03.11.06	977

46252	Baruah Ranjit	Vill-Dhavaapukhuri P.O.- Bahana P.O. + Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.87	198	
46253	Baruah Reeta	C/O-Kishnu Saikia A.K. Enterprise, Adabari Guwahati-14	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.12.2002	867	
46254	Baruah Rupam Kumar	Vill-Parjat P.O.-Haloguri Via Chepon 785673 Dist- Sivasagar Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.05.98	731	
46255	Basir Abdul	Vill-Nagajan P.O.- Kharupeta ghat Dist- Darrang Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.07.98	613	
46256	Bassi Swati	Solan Homoeopathic Medical College & Hospital, Kumarnatti, Solan.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur, (Raj)	H.P.	5.11.08	216-A	
46257	Basu Amit Bikram	95/19, P. C. Mitra lane, Tollygunge, Kolkata- 700033	BHMS	2005	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	12.9.05	25954	CCH -2627
46258	Basumatari Biju	Vill-Bhalo Augury P.O.- Barpam Tinali Dist-Sonitpur Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.98	493	
46259	Basumatari Binod Kumar	Paschim Rehaban P.O.- Begmara Bazar Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Aug-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.05.88	291	
46260	Basumatari Paresh	Vill-Bheloguri P.O.-Borpani Tinali 784175 Dist-Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Mar-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.03.04	895	
46261	Bathia, Poonam	Sunder Nagar, Street No. 6 Abohar, Dist. Ferozepur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3008	
46262	Batta, Usha Rani	C/o Anand Emporium, Hospital Road, Mau Mandi, Dist. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.9.2000	2352	
46263	Batra Ajay Kumar	1) New Colony, Rly. Station, Barara, Ambala. 2) Preet Nagar, Barara (Ambala) H.No-72, Ward No.20, Mohalla Mata Rani, Near P.N. Bank (Old) Khanna, Dist-Ludhiana, Punjab	DHMS	Feb.1989	University of Bihar Muzaffarpur	Haryana	28.01.1998	5655-A	
46264	Batra Anupriya	Sri Hari Krishan	B.H.M.S.	2005	Baba Farid University H. Sciences, Faridkot, Punjab	Punjab Council	14.09.05	2910-A	CCH -2567

46265	Batra, Anshu	Sh. A.L. Batra	Near Bus Stand, Opp Church G.I. Road, Khanna, Distt. Ludhiana	BHMS	1984	AGRA UNI	Punjab	28.03.2003	2636
46266	Batra, Baldev Singh	Sh. Avtar Singh Batra	DF-10, Rajindra Hospital, Patiala (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	28.10.1998	1985
46267	Batra, Mini	D/O Sh. B.R. Batra	B-23, 37/58, Street No 9, Shiva Ji Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	28.05/1985	1487
46268	Batra, Sunita Rani	D/O Sh. Jetha Nand	H No. 1731, Rajpura Town Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	4/2/1993	1339
46269	Batta, Ashok Kumar	Sh. Om Parkash Batta	16-E Tagore Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	21/02/1989	1124
46270	Batta, Shaveta	Sh. Anil Kumar Batta	1475 Chowk Misran, Daresi Road Ludhiana	BHMS	May - June 2004	BFUHS	Punjab	20.05.2007	3115
46271	Bayan Himangsu		Bidya Nagar, Baghsbari P.O. Guwahati-37 Dist. Kamrup, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.07.2001	800
46272	Bayan Simanta		Bidyannagar Panjabari P.O. Guwahati-37 Dist. Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.02.2001	785
46273	Bedhara, Jyotsna	D/O P.K. Bedhara	H No 427, Sector- 15 Panchkula	BHMS	April, 2005	Punjab University Chandigarh	Haryana	5.02.2007	5787- A
46274	Bedi Kamini	Sh. Des Raj	Ward No.2, Bawa Sawnpur, Sujapur Tira, Distt. Hamirpur	BHMS	2008	Baba Farid Univ. of H. Sc Faridkot (PB)	H.P.	6.08.08	208- A
46275	Bedi Santa	W/o Arvind Bedi	H No 538 Sector, 10 Panchkula	DHMS	1989	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab	Haryana	05.09.1991	5549- A
46276	Bedi, Annet Kaur	Sh. H.S. Bedi	H No. 1936, Phase X, SAS Nagar, Mohali, TEH Khara, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	8.5.1998	1835
46277	Bedi, Milap Singh	Sh. Jiwan Singh Bedi	Milap Medical Hall Lahori Gate Patiala (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	17/09/1986	919
46278	Bedi, Navneet Kaur	Sh. Balbir Singh Bedi	H No. 21-R, New Sabzi Mandi Hoshiarpur, Vill-Ramgaon P.O. Simalgun Dist-Sivsagar, Assam	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	07.11.2001	2563
46279	Begum Husnara			B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	30.10.06	976
46280	Begum Jazrina		Rajbari Mission Compound P.O.-Rajbari 785014 Dist. Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.06.98	649
46281	Begum Mofida Salvada		Lachinagar Homoeo Clinic Lachinagar, Guwahati - 7	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.09.84	87

46282	Begum Razia	Vill-Mirothonga Htta P.O., Imphal East, Manipur	D.H.M.S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.09.03	877	
46283	Begum Sayada Jubeda	Lachinagar Byelane-3 Guwahati-37	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.04.99	481	
46284	Begum Sayada Siddika	Lachinagar Byelane-3 Guwahati-7	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.04.99	339	
46285	Behera Narayan	1) J.K.C. Rangji Mahal, At, I.P.O. Barsana, Mathura (U.P.)-281405 2) At & P.O. Baghamani, Dist. Khurda Orissa - 752061	DHMS	1976	Orissa Board of Homoeopathic Medicine, Bhubaneswar	Orissa	10.12.76	C/0298	CCH-2710
46286	Behl, Vinay	H. No. 233, Gali No 5, Jagat Pura, Hoshiarpur(Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	26/05/1995	1494	
46287	Bela	H.No. 148, St. No. 5, TEH silpura, Amritsar (Pb.)	BHMS	1990	UNIVERSITY OF RAJASTHAN	Punjab	20.7.1998	1884	
46288	Bhadra Joyshree	Khagra Ban P.O.- Khegraban Dist-Cooch Behar (W.B.)	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.06.98	471	
46289	Bhagat Dipti Navneet	C/o Mr. Y.M. Bhagat, H-43, B, Sector-22, Noida 201301, (U.P)	B.H.M.S.	2004	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council, Mumbai	16.2.2005	38619	CCH-2604
46290	Bhagia Neha	4-DA-12 Jawahar Nagar, City Jaipur Dist- Jaipur.	BHMS	May, 2007	University of Rajasthan	Rajasthan	3.10.2008	5078	
46291	Bhagwan Dass	H.No. 106, Shivalik Avenue, Choti Ayali Ludhiana(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	09.05.2008	3218	
46292	Bhagwati Anup Kumar	C/O-Goliak Ch. Bhagwati Kakaya P.O.-Kakaya 781304 Dist-Nalbari Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.10.2001	818	
46293	Bhagwati Manoranjan	Station Road, Daily Bazar P.O.-Dulzan 78662 Dist- Dibrugarh Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.11.2002	865	
46294	Bhagwati Pratul	Vill-Jagara P.O.-Jagara Dist-Nalbari	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.07.98	656	

	Bhagwati Putul Chandra	Vill-Nij Bashtal P.O., Dhamdama Dist-Nalban, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.05.98	644
46295								
46296	Brakoo Sanjeevan Kumar	House No 70, Ward No. 11 Grain Market Ahmedgarh Teh. Materkolia Distt. Sangrur(Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	7/3/1986	875
46297	Bhalla, Pritpal Kaur	St. No. 2, Babir Basti, Faridkot (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	17.12.1997	1759
46298	Bhambra, Neelam	Q.No.34, PSEB Colony No. 11, Patiala	DHMS	Dec 1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	08.10.1985	844
46299	Bhandari Vidhika	898 - Sector No-4, Hiran Magni, City- Udaipur Distt- Udaipur	BHMS	Jan.2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5066
46300	Bhandari Abhey	Ward No. 9, Near Rajmehar, Nalagarh, Solan	BHMS	2008	Baba Farid Univ. of H. Sc. Faridkot (PB)	H.P.	06.05.08	189- A
46301	Bhandari, Kanchan Dev	H.No. 34/3996, Halbowal Kalan, Durga Puri Ludhiana(Pb)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	20.11.2004	2799
46302	Bhandari, Ritu	H.No. 75 Phase-II, Mohali, TEH. Khatar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	14.7.1998	1865
46303	Bhandari, Samiti	6633/1, Gali No. 2 1/2, New Hargobind Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.2.2000	2206
46304	Bhanot, Anu	V.P.O. Mullana, TEH. Khatar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	16.10.1996	1666
46305	Bharat Bhushan	Hall Bazar Muktsar Distt. Faridkot (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	10/2/1987	970
46306	Bharat Bhushan	H. No. 2222, Bassant Nagar Street No 5, Ludhiana(Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	1/12/1988	1093
46307	Bharati	43- C, LIG Flats, Prasad Nagar Karol Bagh, New Delhi.	B.H.M.S.	2008	University of Delhi	Delhi Board	15.4.08	003623
46308	Bhardwaj Isha	1297 Sector-9 Ambala City	BHMS	Dec-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	2.05.08	5824- A
46309	Bhardwaj, Abhishek	VPO -Sherpur - Khilchaur, City- Swaminadhopur Distt- Swaminadhopur. 1) 56/11 Chanakyapur Behind Sheela Cinema, Rohtak 2) Poly Homoe. Clinic Bara Bazar OPP Suraj Book Depot, Roht.	BHMS	Jan.2007	JRNRV University Udaipur	Rajasthan	3.12.2008	5156
46310	Bhardwaj, Sadhu Sharma	Hargopa Shastri	DHMS	1980	CHSM Punjab	Haryana	5.03.97	5648- A
46311	Bhardwaj, Anjulan	D/O Sh. R.S. Bhardwaj, W/O Sh. Vijay Parkash Namakodar (Jalandhar)	BHMS	1984	DELHI BOARD	Punjab	1/12/1988	1085
46312	Bhardwaj, Kuldeep Kumar	S/O Sh. Lachman Ram Bhardwaj	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	29/10/1987	1013

COH-2590

46313	Bhardwaj, Monica	Sh. Vijay Bhardwaj	Moh. Mishra, Grain Market, Nurmahal Dist. Jalandhar	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	05.03.2001	2460	
46314	Bhardwaj, Rahul	Sh. Gopal Bhardwaj	577, Civil Lines, Moga (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	27.7.1998	1894	
46315	Bhardwaj, Rajesh	Sh. M.K. Sharma	H.No. H.M. 107, Phase IV, Mohali, TEH. Kharar, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	1.7.1999	2057	
46316	Bhardwaj, Rakesh Chander	Sh. Udit Dass Bhardwaj	VPO New Bhargala Teh. Dasuya Dist. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	31/05/1990	1203	
46317	Bhardwaj, Shweta	D/o Sh. S.K. Bhardwaj	H.No. 1674, Ghangrian Street, Opp. Gopal Temple, Malerkotla, Dist. Sangrur (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	9.6.1999	2069	
46318	Bhargava, Nishi	D/o Sh. Vinod Kumar Bhargava	Remedy Homoeo Clinic, Mattar, Mohali, TEH. Kharar (Ropar)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	22.6.1999	2045	
46319	Bharti, Nalini	Sh. Chandra Bhushan Prasad	Pritam Niley, Rammurthy Nagar, Hilsa, Nalanda, Bihar-Pin-801302	B.H.M.S.	2008	B.B.A. Bihar University Muzaffarpur	Bihar Board	15.04.08	28551	CCH-2585
46320	Bhasin, Anju	D/O Sh. R.S. Bhasin	C/O Balbir Singh Chadha, H. No. 301, Phase-3 A, Mohali (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	28/02/1995	1431	
46321	Bhaskar, Birdu	D/O Ramesh Bhaskar	V.P.O. Uppar Teh. Navan Shahar Dist. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	25/01/1991	1235	
46322	Bhati, Meghana Singh	Sh. Alok Singh Bhati	311 - Vidhute Nagar, City-Banswara Dist. Banswara (Raj.)	BHMS	Jan. 2007	JNRV, University Udaipur	Rajasthan	10.10.2008	5129	
46323	Bhati, Shushma Chadha	W/o R.S. Bhati	Vik. Fatehpur Chandila Near Rly. Station Faridabad	BHMS	Dec-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	12.08.08	5836-A	
46324	Bhatia, Meeta	W/o Deep Bhatia	# 480 Sector - 9 Faridabad	BHMS	1993	Board of Homoeo. System of Med. Delhi	Haryana	10.10.2000	5677-A	
46325	Bhatia, Shefa	W/o Dr. Vikas Bhatia	4 Mall Road Jivan Nagar, Opp Pir Baba Karnal - 132001	BHMS	2002	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	29.09.08	5840-A	
46326	Bhatia, Amrit Pal	Sh. Madan Gopal Bhatia	V.P.O. Hadliabad, Moh. Narang Shahpura, TEH. Phagwara (Kapurthala)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	13.9.1999	2130	
46327	Bhatia, Anita	Sh. O.P. Bhatia	182-HV/Eb, Nangal Town Ship Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	27/02/1996	1578	
46328	Bhatia, Harbans Lal	Sh. Brij Ram Bhatia	V.P.O. Nandpur, Dist. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	BHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	24.8.2000	2332	
46329	Bhatia, Jyoti	Sh. S. K. Bhatia	Dogar Basti, H.No. 3-R, Faridkot (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	4.9.1998	1939	
46330	Bhatia, Nidhi	D/o Sh. Raj Kumar Bhatia	B-XI 1440/1, Rari Mohalla, Neem Wala Chowk, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	14.12.1999	2177	
46331	Bhatia, Nisha	Sh. Dhian Singh Bhatia	H.No. 1433, Sec-41-B, Chandigarh	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.11.2006	3068	
46332	Bhatia, Raman	Sh. Surinder Bhatia	H.No. 610/30, Sham Nagar Ludhiana (Pb.)	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	23.07.2005	2900	

46333	Bhatia, Sandeep	Sh. Harbans Lal Bhatia	Vill & P.O. Fatehgarh Panitloor Distt. Moqa(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	02.04.2008	3188	CCH-2694
46334	Bhatia, Sarita	Sh. Rajinderpal Bhatia	HIG-854 Phase-XI, Mohali(Pb)	BHMS	May-June 2003	BFUHS	Punjab	03.01.2005	2816	
46335	Bhatnagar, Pooja	Sh. I.S. Bhatnagar	Ht-16 Phase-1, Mohali	BHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	02.06.2004	2698	
46336	Bhatt, Kunal	Sh. Suresh Chandra Bhatt	Satadiya Bazar, City- Bhinder Distt. Udaipur.	BHMS	July, 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	4.02.2008	4987	
46337	Bhatt, Priya	Dr. Dinesh Chandra Sharma	1) B-17, HIG-II A.D. A. Colony, Jhansi, Allahabad 2) C/o Salman Kansar, 262, FF-Lpne No-1, Jhri Form, Jamia Nagar, New Delhi-25, 3) Chprayas, Katipulli Colony, Pandar Nagar, Opp. Shadipur Depot, New Delhi.	BHMS	2003	Dr. B.R.A. University Agra	U.P., Board Lucknow	22.3.03	26011	
46338	Bhattacharjee Anulya Chandra		Vill-Pathanghat P.O.- Pathanghat Distt Darrang Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoecpathic System of Medicine, Assam	Assam	29.12.86	216	
46339	Bhattacharjee Divyajyoti		Santipath R.G. Baruah Road Guwahati-24	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoecpathic System of Medicine, Assam	Assam	17.04.85	127	
46340	Bhattacharjee Nilima		Santipath R.G. Baruah Road Guwahati-24	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoecpathic System of Medicine, Assam	Assam	17.04.85	128	
46341	Bhattacharjee Pran Kanta		Vill-Nij Gulekin P.O.- Barama Distt-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Dec-80	Board of Homoecpathic System of Medicine, Assam	Assam	01.07.98	515	
46342	Bhattacharjee Samir		New Kent Homoeo. Drugs and Clinic, Mariani P.O. Mariani, 785634 Distt- Jorhat, Assam	D.M.S.	May-89	West Bengal Council	Assam	26.08.2006	930	
46343	Bhattacharjee Sanjib		Vill-Kakaya P.O.-Kakaya Via Baisor 781304 Distt- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoecpathic System of Medicine, Assam	Assam	08.07.98	487	
46344	Bhattacharjee Satyabrata		Vill-Pahatatali Binovanagar, Guwahati Guwahati-18	D.H.M.S. •	Mar-85	Board of Homoecpathic System of Medicine, Assam	Assam	21.01.88	282	

46345	Bhattacharjee Swapan Kr.		Geap Homoeo Pharmacy Netal Subhash Road Rehaban, Guwahati-8	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.05.85	135	
46346	Bhagal Harjeet	D/o Tara Singh Bhogal	Bhagal Ice Factory, Pinjore Distt: Panchkula	DHMS	1993	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	31.05.95	5630- A	
46347	Bhowmik Susanta		Vill. Sovagang P.O.- Alipurdia-21 Dist- Jalpaiguri West Bengal	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.05.2000	379	
46348	Bhugra Archana	Mr. Laxmi Chand Bhugra	Block No.6, House No.120, Geeta Colony, Delhi -31	BHMS	2008	G.G. Singh I.P. University Delhi	Delhi Board	25.4.08	oo3671	CCH-2635
46349	Bhullar Bhander Singh	Sh. Ajit Singh Bhullar	H.No. 614, St. No. 15, Old Bishan Nagar, Patiala(Pb)	BHMS	May - June - 2006	BFUHS	Punjab	30.08.2007	3147	
46350	Bhushan, Bharat	Sh. Amar Nath	St No 16 Ajit Road Distt Bhalinda (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	6/8/1996	1607	
46351	Bhuyan Bhupen		Purbanchal Nagar Near Red Cross Hospital Chanmani, Guwahati-3	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.07.98	510	
46352	Bhuyan Pradip Kumar		Vill-Nononi Panigaon P.O.- Noroi Dist-Nagaon P.O.- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.09.86	186	
46353	Bhuyan Ranjan Kumar		Vill-Tokowbrigaon P.O.- Sissibargaon 786110 Dist- Dibrugarh, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.10.2000	756	
46354	Bibhuty Kaushalendra Kumar	Sri Harinandan Kumar Bibhuty	Dhiraj Apartment, C-8, Ground Floor, Navgher Road, Bhayander (E) Dist, Thane	BHMS	1999	B.B.A. Bihar University	Bihar Board M.C.H. Mumbai	31.1.2000 12.10.07	26248 43751	CCH-2625
46355	Bisiedy Lyngdoh	(L) S. Mawlieh	Mawprem Shillong	DHMS	Apr-84	Board of Homoeopathic Medicine, Guwahati, Assam	Meghalaya	14.10.1988	177	
46356	Bidani Navneet	Sudhrit Bidani	1)H.No 119, Sector-13, Hissar, 2) Bidani Homoeopathic Clinic, Opp.Centre jail, CMC, Delhi Road, Hissar.	BHMS	Oct,2000	University of Pune	Haryana	26.07.2006	5769- A	
46357	Bilu Ram	Sh. Hemraj Yadav	Vill. Raikhera, Teh Tizara City, Alwar Dist- Alwar	BHMS	July, 2006	Rajasthan University	Rajasthan	5.12.2007	4982	

46358	Bindra Jyoti	W/o Dinesh Bindra	1) 25/26 Parbhu Prom Purani Ambala Cantt. 2) Charitable Homoeo Dispensary Dayal Bagh Ambala Cantt.	DHMS	1994	Council Of Homoeo System of Med Punjab	Haryana	19 09 2001	5679- A
46359	Bir, Jasbir Singh	S/O Sh. Mohinder Singh Bir	V.P.O. Lakhank Padda Teh. Dhillwan Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	29/01/1990	1188
46360	Birdi, Harpreet Singh	Sh. Parmjit Singh Birdi	H.No. 212, Industrial Area- A, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2147
46361	Birdi, Manmohan Singh	Sh. Bant Singh Birdi	H.No.: B-21, 4511/3, Street No 10, Shimlapuri, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	26/06/1988	1210
46362	Birdi, Sukhvinder Singh	Sh. Bant Singh Birdi	H.No. 4511/3 Gali No 10 Opp Post Office Simla Puri Distt Ludhiana (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	2/4/1992	1274
46363	Biswal, Sheetal	Sh. Brij Sunder Biswal	C/O Sh. Amrit Pal Vill, Umarpura, P.O. Nattu Majra, Distt. Sangrur	BHMS	May-June 2006	BFUHS	Punjab	09 04 2008	3202
46364	Biswas (Ms.) Anusua	Sh. Ajay Kumar Biswas	a) C/o A.K. Biswas, Village & P.O. Madhya Khagra Bari, P.S. Maynaguri, Distt Jalpaiguri, West Bengal b) A.K. Biswas, Village & P.O. Madhya Khagra Bari, P.S. Maynaguri, District Jalpaiguri West, Bengal	BHMS	3.07.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	14.08.2008	89
46365	Both Raj	Sh. Des Raj	H. No. 736/1, New Tagore Nagar, Habibnagar Kalan Distt. Ludhiana	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	17/07/1994	1391
46366	Bora Bhujendra Kumar		Vill-Lone mai P.O.- Rayamayang Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.87	251
46367	Bora Biswa Singha Agni		Vill-Rangdoi (Brahmagaon) P.O.-Rangdoi Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Sep-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.2000	742
46368	Bora Durlav		Krishnapur Baisistha B.N. Path Guwahati-29	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	23.10.06	963
46369	Bora Husheswar		Vill-Chatrasali, P.O.-Mehima Bani Borhola Jorhat	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.06.86	175
46370	Bora Naban Chandra		Vill-Barimakha P.O.- Barimakha Dist-Nabari, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.04.88	293

46371	Bora Pradip Kumar	C/o Mr. Rup Ram Bora Vill, Barua Gaon Dist-Golaghat, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.01.99	717	
46372	Bora Prasanna Kumar	Vill-Dichalnagar P.O.-Dichalnagar Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jul-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.05.85	142	
46373	Bora Rabin	Vill-Simaluguri, Lephera P.O.-Silasaku Dist-Sibsagar, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.07.87	195	
46374	Bora Asit Chandra	Balichapani Bohatgaon P.O., Haligari Bolechapani Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.02.99	723	
46375	Bora Biren Chandra	Vill-Halipara P.O.-Dekarghat Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Dec-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.02.89	337	
46376	Bora Damon Bhalang	Vill-Khimmusning Jowai P.O.-Jowai 791530 Jayantia Hills Meghalaya	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.02.2002	843	
46377	Bora Dharmeswar	No.1 Brahmingaon Chengell gaon, Kenduguri P.O.-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.11.86	191	
46378	Bora Dilip Chandra	Vill-Albheti P.O.-Albheti Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.10.2003	882	
46379	Bora Dipendra	South Halibargaon S.R. Road P.O.-Halibargaon-2 Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.12.2000	776	
46380	Bora Ganesh Chandra	Vill-Gozpuria P.O.-Jalukbari Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	154	
46381	Bora Hiranba Prasad	Vill-Chamuaogaon P.O.-Namkhatowai via Mohima Dist-Jorhat-26, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.05.88	297	

46382	Borah Jayantia	Vill.-Dewalagaon P.O.- Gobindapur 787055 Dist- Laximpur, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	14.07.98	477
46383	Borah Kinaram	Jitu Jyoti Homoeo Clinic Morigaon P.O.-Dist- Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	14.05.85	156
46384	Borah Pobitra	2 No. Bebejia Kachari Gaon P.O.-Purana Titabor 785632 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.12.2000	774
46385	Borah Rup Chandra	C/O Nabin Ch. Borah City Studio, Ujanbazar Guwahati- 3	D.H.M.S.	Apr-84	B.H.S.M. Assam	Assam	11.04.85	122
46386	Borang, Nabho Shri Yorang Borang	a) Damro Vill. P.O. Manyang Upper Siang Dist.A.P. b) Damro Vill. P.O. Manyang Upper Siang Dist.A.P. Ph.9863467856 /9438095539 (M)	BHMS	26.12.2007	Dibrugarh University	Arunachal Pradesh	21.01.2008	75
46387	Borbera Diboak	Purana Amlopatty Golaghat Town P.O. Golaghat, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	4.02.87	211
46388	Borborah Dipanka	Vill.-Nonoi Panigaon P.O.- Nonoi 782101 Dist-Nagaon, Assam	B.H.M.S.	Dec-04	Dibrugarh University	Assam	16.03.07	1002
46389	Bordoloi Anupam	D.B.C. Road*, Tarzan P.O.- Tarzan 785001 Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.03.2000	367
46390	Bordoloi Bhabesh Chandra	Vill.- Jorhat Tarajan Sonargaon P.O.- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.07.2005	915
46391	Bordoloi Dost Dhiraj Sri	C/O Han Dev Bordoloi Vill.- Agdala P.O.-Balhata Chara- ali 781381 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-04	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.02.04	888
46392	Bordoloi Lakumi	Vill.-Garali Gaon P.O.- Barapujia Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.10.2000	758

46393	Bordoloi Pradip	Vill-Kanuja Bari P.O.-Laluk 784160 Dist-Lakhimpur, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.07.98	615	
46394	Bordoloi Sarat	Qr. No-VII M-4/1 Capital Complex Dispur, Guwahati 6 Dist-Kamrup, Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	10.10.06	956	
46395	Bordoloi Utpal	C/O Bhabadeb Bordoloi Nabagiri Road Near Red Cross Hospital Chandmarib Guwahati-03	D.H.M.S.	Nov-95	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.03.98	673	
46396	Borghohai Munin	Vill-Deopani Gohai gaon P.O.-Deopani via Namati Dist-Sivsagar, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.05.87	244	
46397	Borghoi Purna	Lambudhar Datta Path Nakari, P.O.-North Laxmipur, Assam-787001	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.05.85	161	
46398	Borghohai Binoyjoyti	Habiram Bora Road Sivsagar P.O.-O.N.G.C. Sub Post 785640 Dist- Sivsagar, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.10.2000	757	
46399	Borghohai Padma	C/O T.C. Borghohai Vill- Jagun Bazar P.O.-Jagun Dist-Tinsukia, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.11.2000	763	
46400	Boro Suku Ram	Vill-Gurmow P.O.-Gurmow Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.02.2000	524	
46401	Boruah, Manoj Kumar	a) C/o Mr. Jogeswar Baruah, Village Baijan P.S. Gohpur, Dist. Sonitpur, Assam-784172 b) PHC Sangram, Dist Kurung Kumey, A.P.	B.H.M.S.	13.12.2005	Dibrugarh University	Arunachal Pradesh	5.02.2009	108	
46402	Bose Amitava	Shyam Prasad Pally P.O.-Dist-Cooch Behar W.B.	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	11.01.2000	654	
46403	Brahm Parkash Chandgi Ram	1) Yadav Homoe. Centre, 206 Ratan Complex M. Garh 2) Yadav Homoe. Centre, Masani Rd. M. Garh.	D.H.M.S.	1992	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	27.08.98	5669-A	

Sl. No.	Name of the Candidate	Registration No.	Qualification	Board of Homoeopathic Medicine, Assam	Year of Passing	Grade
46404	Drabina Kishor Kumar	Birji-Angura Ward No-3 P.O. Birji 783390 Dist Bongaigaon Assam	D.H.M.S.	April 2000	29.01.2002	841
46405	Brar Raj Preet Singh	232/2 Ward No. 10 Opp Ganerwala Theatre Sirsa Road Rania Distt. Sirsa	BHMS	Dec-03	7.12.2006	5778-A
46406	Brar Sarvjeet Kaur	VPO Kalanwali Mandi Distt. Sirsa	DHMS	1987	27.09.94	5600-A
46407	Brar, Aneet	437-L, Model Town, Patiala(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2005	19.06.2007	3119
46408	Brar, Harpreet Kaur	H.NO. 2890-A, Govt. Employee Colony, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	20.7.1999	2074
46409	Brar, Iqbal Singh	H.No. 251, Sector 11-A Chandigarh	DHMS	1985	8/10/1986	935
46410	Brar, Robin Deep Singh	H.No. 285/100, J-Block, Bhat Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb)	BHMS	2003	16.03.2005	2839
46411	Brar, Sumnder Kaur	V.P.O. Kheowall Teh. Muktsar Distt. Fardkot	DHMS	1984	7/3/1988	1054
46412	Brar, Vishavdeep Singh	285/100, J-Block, B.R.S. Nagar Ludhiana	BHMS	2004	30.06.2006	3031
46413	Brij Bhushan	H.No. 1495, Phase-3, B-2, Mohali Teh. Kharar, Distt. Rohtak (Pb)	DHMS	1992	16/08/1994	1363
46414	Brij Prabhakar Bala Mohan	Nagar P.O. Baldev Nagar Ambala City 2) Brij Homoe. Clinic Near Satija Sweet Patel Road A/City	LCEH	May-88	28.04.93	5574-A
46415	Brijesh Kumar	C.O. Shri Shiv Shakti Clinic, Ward No-23 Near Khetarpal Temple, Rawatsa, City- Hanuman Garh, Dist- Hanuman Garh	BHMS	Jan. 2005	3.07.2007	4847
46416	Busar Rakesh Kumar	Post Gudha Katla VIA Bandikui City- Bandikui Dist- Dausa	BHMS	July. 2006	5.12.2007	4960
46417	Butler, Jagmeet Singh	H.No. 323, Ward No 1, Street No 2, Near Court Complex, Hunsar Chowk, Golderbaha, Distt. Muktsar (Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	27.03.2008	3178
46418	Chahal, Manmohan Singh	110, Model Gram Ludhiana (Pb)	D.H.M.S.	1977	3/3/1987	973
46419	Chabque, Nerlu	D/O H. No. 164abu Lane Meerut Cantt (Up)	DHMS	1987	22/02/1989	1127

46420	Chakroborty Drubajyoti		C/o-Pares Chakroborty Vill- Barjan P.O.-Borpak Dist- Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.07.98	593	
46421	Chakroborty Ratan		C/o Phondhar Chakroborty Vill-Hakama P.O.-Hakama via Blaspara Dist-Dhubri Assam	D.H.M.S.	Mar-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.07.98	450	
46422	Chakroborty Sajal Kumar		Vill-Dodepar P.O.-Kharjia Kakrabari 736101 Dist- Cooch Behar (W.B.)	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.06.98	473	
46423	Chakroborty Snkar		Vill-Krishna Nagar P.O.- Hojai Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.2000	543	
46424	Chakroborty Suprajit		Vill-Patidaha P.O.- Patidaha 783371 Dist-Bongaigaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.11.2000	768	
46425	Chadha, Shalika	D/O Sh. V.N. Chadha	H. No. 102, New Atam Nagar, Ludhiana (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	23/01/1995	1427	
46426	Chadha, Shalini	Sh. S.P. Chadha	H.No. 419, Phase-VII S.A.S. Nagar Mohali Teh. Kharar Dist. Ropar	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20/02/1997	1687	
46427	Chadha, Srikha	Sh. S.B. Chadha	H.No. 88-G Htp Colony V Lehra Mohabbat Bathiana	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	14.06.2001	2515	
46428	Chahal Rekha	D/o Mahavir Chahal	V. Nizampur P.O. Chandoli Distt- Panipat	BHMS	Jan-07	JRNRV Deemed Uni. Udaipur	Haryana	27.11.08	5846- A	
46429	Chahal, Kamajit Singh	Sh. Gurnail Singh	V.P.O. Khanpur, Teh & Distt. Ludhiana	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	28.04.2003	2631	
46430	Chahal, Sandeep	Sh. M. S Chahal	No. 819, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	5.9.2000	2347	
46431	Chahal, Sukhvinder Singh	Sh. Bai Ram Chahal	Vill: Barewal Awana P.O. Aggar Nagar Distt: Ludhiana(Pb.)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2873	
46432	Chahal, Sukhvinder Singh	Bai Ram Chahal	Chand Hospital, Dhani Phatak, Delhi Road, Charkhi Dadri, Dist. Bhiwani	BHMS	Dec. 2003	Baba Fand University, Fandkot.	Haryana	7.12.2006	5760- A	
46433	Chakroborty Mounita	Sh. Sadhan chakroborty	2/85, Mahajati Nagar, P.O. Birati, Kolkata -700051.	BHMS	2006	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	11.1.07	26515	CCH -2657

46434	Chakraborty, (Ms.) Kaberi	Sh. Dipankar Chakraborty	a) C/o Dilip Chakraborty West Bhaskarnagar, Byelane No-5, H.No. 3, Shantipath Guwahati-781018, Assam Ph. 09435306704	BHMS	7.08.2007	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	19.08.2008	99
46435	Chakraborty, Pankaj Kumar	Sh. Parimal Chakraborty	b) C/o Dilip Chakraborty, West Bhaskarnagar, Byelane No-5, H.No. 3, Shanti Path, Guwahati 781018, Assam	BHMS	16.08.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	23.03.2009	116
46436	Chakravarty Soma	W/o Rajesh Kumar	a) C/o P. Chakraborty, Moses Complex, Near Chakesang Church, Upper P.W.D. Kohima Nagaland	BHMS	Apr-04	Saurashtra University Rajkot, Gujarat	Haryana	26.30.09	5856- A
46437	Chakraborty Jayanta		b) C/o P. Chakraborty, Remedy Homoeo. Clinic, 51, Upper P.W.D. Kohima Nagaland	D.H.M.S.	Apr-84	B.H.S.M. Assam	Assam	11.04.85	120
46438	Chand Sibbal	Sh. Satish Chander	77 Bank Colony Pipiwala Town, Manimajra (CHD)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	15.9.1998	1958
46439	Chand Sibbal	Sh. Satish Chander	K.K. Civil Hospital P.O. Goleghat 786621 Dist. Goleghat, Assam Outside Bhandari Gate, Batala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.7.2000	2289
46440	Chand, Mehar	Fateh Singh	Mohala Simbal G.T. Road Batala Distt. Gurdaspur	DHMS	Sep. 1987	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	08.05.1996	5632- A
46441	Chandan, Pankaj	L.K. Chandna	V.P.O. Mohan Tehsil Ballabgarh Dist. Faridabad	DHMS	1999	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab	Haryana	31.10.2006	5772- A
46442	Chander Kant	Sh. Baldev Sharma	H.No. B-16/386 Club Road, Malerkotla, Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	7/9/1994	1405
46443	Chander Mohan	Sh. H.P. Lakhera	Lakhera Niwas 3242, Pulighar, Gali No. 1, Amritsar (Pb)	BHMS	May-June 2004	BFUHS	Punjab	09.07.2007	3138
46444	Chander Sekhar	Sh. Murali Lal	B-VII-190 Beri N. Mohalla Gurdaspur-143521 (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	1/11/1986	947
46445	Chander, Devinder	Sh. Girdhar Sharma	H.No. B-9-640 Santokhpura, Jalandhar (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	9/12/1992	1328
46446	Chander, Subhash	Sh. Jagdish Chander	V.P.O. Lawgroya Distt Nawanshahr (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	2/11/1996	1566

46447	Chandha, Rajjika	D/o Sh. V N Chadha	H.No. 102, St. No. 1, New Alam Nagar, Jassian Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	8.5.2000	2258
46448	Chandhok, Rachna	D/o Sh. Chaman Lal Chandhok	36, Netru Nagar, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	23.12.1998	2001
46449	Chand, Navdeep Singh	Sh. Gurdeep Singh Chand	22, Ranjit Avenue, Kapurthala (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	07.08.2002	2600
46450	Chand, Seema	Sh. Karanjit Chandi	H.No. 345, W.No. 4, Kucha Partap, Khanna, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	8.6.1998	1851
46451	Chandha, Neetu	Sh. Lalit Kumar Chandha	H.No. 173, Phase III-B-2, Mohali	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	12.01.2004	2656
46452	Chandok, Navjot Kaur	D/o Sh. Manjit Singh Chandok	H.No. 2836, Phase 7, Mohali, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	28.1.2000	2195
46453	Chandra, Prabha	W/o Ravinder Verma	113, Faculty Houses Govt. College Campus, Sec-1, Pk1	BHMS	Jun-05	Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot	Haryana	16.04.07	5794-A
46454	Chandu Lal	Bahadar Ram	2) DSS-191 Sector-21 Panchkula	DHMS	Feb-81	Council of Homoeo System of Med. Punjab	Haryana	28.12.84	5259-A
46455	Charan, Gupta Rakha Shiv	Sh. Shiv Charan Gupta	Vill: Thobrian PO: Mirjapur Distt. Sirsa	BHMS	2000	PUNE UNI.	Punjab	09.10.2004	2777
46456	Chatrath, Subha	W/o Dinesh Chatrath	C/O Rajasthan Steel Center, Near Punjab & Sind Bank, G.T. Road, Mandi Gobindgarh (Pb.)	DHMS	1983	CHSM Punjab Chandigarh	Haryana	20.07.90	5539-A
46457	Chatterjee, Rataniai		# 2209 Sector - 7, Kamal Ananda Ram Baruah Path Khulika P.O., Habirgaon-2 Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.07.98	382
46458	Chatopadhyaya, Narendra Narayan	Sh. N.C. Chatterjee	B-V/151, Netaji Subhash Nagar, Abohar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	9.6.1998	1854
46459	Chaudhary, Shailesh	Sh. Sher Singh Chaudhary	17- Saraswati Nagar, Mali Colony City - Udaipur Dist- Udaipur.	BHMS	Jan.2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5063
46460	Chaudhary, Sheetal	Sh. Randhir Singh	H.No. 1070, Sector-19-B, Chandigarh	BHMS	Dec-06	Punjab University Chd.	Punjab	03.12.2008	3287
46461	Chaudhary, Vandana	D/O Sh. Dharam Chand Chaudhary	H. No. 770, Phase-II, Mohali, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	25/04/1995	1455
46462	Chaudhry, Nidhi	Sh. Ashok Kumar	BXX-363 Jaswant Nagar Ghumar Mandi Ludhiana	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3111
46463	Chauhan, Ramesh Chand	Bishamber Singh	# 1265/ 31 Gali No - 6 Laxman Vihar Gurgaon	DHMS	Sep-81	Board of Homoeo System of Medicine, Delhi	Haryana	12.10.88	5465-A
46464	Chauhan, Kunal	Sh. I.S. Chauhan	Set No. 8, Swaran Blindu Building, Nabha House, Shimla -4	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur (Raj)	H.P.	05.08.08	200-A

	Chauhan Unmesh	Sh. S.L. Chauhan	Gaitam Kulir, Below Old Post Office, Sanjauli, Shirala.	BHMS	2007	Baba Farid Univ of H. Sc. Faridkot (Pb)	H P	14.03.07	174 A
46465	Chauhan Virender	Sh. A.R. Chauhan	Vill. Khandhora, P.O. Baighatla, Jaisingpur, Kangra.	BHMS	2002	Rajshah Univ	H P.	19.04.04	143- A
46466	Chauhan, Sonal	Sh. Madan Lal Chauhan	D-4, Civil Hospital Bhalinda (Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	30.05.2008	3217
46467	Chawla, Archana	D/O Sh. Nand Lal	H. No. 217 Hargobind Nagar, Phagwara, Distt Kapurthala(Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	19/11/1993	1351
46468	Chawla, Sanjeev	Sh. Lal Singh	H. No. 29-D Model Town, Patiala (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	4/9/1992	1318
46469	Chawla Jyoti	Sh. Haresh Chandra Chawla	A-121, Chadevardai Nagar, Khel Nagar City- Ajmer Distt. Ajmer	BHMS	July, 2006	Raj University	Rajasthan	28.02.2008	4999
46470	Chawla Shilpa	D/o Davinder Chawla	805 Sector-12 Panchkula	BHMS	2004	Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot	Haryana	2.01.09	5849- A
46471	Chawla, Gurpreet Kaur	Sh. Inderjeet Singh	22, SF, HIG Flats Shumar Mandi, Ludhiana.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	02.02.2006	2994
46472	Chawla, Navneet Kumar	Sh. Chaman Lal Chawla	Mohalla Dhokianwala Kasuris Gate, Ferozepur City-152002(Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	1/1/1987	967
46473	Chawla, Seema	Sh. S.M. Chawla	H.No. 390/45-A, Chandigarh	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	8.10.1996	1661
46474	Chawla, Seema	Sh. B.P. Chawla	A-4, R.S. Colony, Dera Beas, Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.3.1998	1809
46475	Chawla, Shilpa	Sh. Davinder Chawla	H.No. 4576-A, Sector-70, Mohali	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3010
46476	Chawla, Shweta	Sh. Sohan Lal Chawla	B-1206, Prem Gali, Fazilka, Distt. Ferozepur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3015
46477	Chajara Pawan Kumar	Sh. Shyam Sunder Chhabra	Churi - Ait garh City- Jhunjhunu Distt. Jhunjhunu	BHMS	May, 2007	University of Raj, Jaipur,	Rajasthan	15.12.2008	5163
46478	Chhabra Ekla	D/o Darshan Singh	A-4, Rani Park Mahesh Nagar, Ambala Cantt.	BHMS	Dec-05	Baba Farid University of Health Science Faridkot	Haryana	10.08.07	5803- A
46479	Chhabra, Gagandeep Kaur	D/o Sh. Harjit Singh	H NO. 621, Phase 1, Mohali, TEH. Kharar, Distt Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	22.6.1999	2051
46480	Chhabra, Savita	D/o Sh. Ram Dial Chhabra	909/1A, Tagore Nagar, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	30.3.1999	2024
46481	Chhabra, Sulabh	Sh. Kewal Krishan Chhabra	Opp. Dashmesh Public School Dashmesh Nagar Jalandhar (W) Distt. Ferozepur (Pb)	BHMS	May - June 2008	BFUHS	Punjab	18.01.2008	3161
46482	Chhabul Agharkar Savita	Sh. Agharkar Chhabul Ram Krishna	Akshay Bhawan Machgaon, City- Mount Abu Distt-Mount Abu (Raj.)	DHMS	Oct. 1992	MC of Homoeo., Mumbai	Rajasthan	5.03.2009	5198
46483	Chhaya tomar	D/o Sh. Harbir Singh	C/o Dr. D.P. Godara Suraj Nagr, Abohar, Distt. Ferozpur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2149

46485	Chhipa Shakir Mohammed	Sh. Ramjan Sharif Chhipa	Bhupalsagar, Teh. Kapasan city, Chittor garh Dist- Chittor Garh.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	26.07.2007	4883	
46486	Chittara Ashok Kumar	Sh. Mohan Lal Chittara	Vill. Kharatana, The. Mavli City- Udaipur Dist-Udaipur.	BHMS	July, 2006	JRN.R Deemed University	Rajasthan	28.02.2008	5003	
46487	Chittora Rudhi	Sh. Purushottam Chittora	5 D 32- A Mahaveer Nagar, EXT. City- Kota Dist. Kota.	BHMS	July, 2006	Rajasthan University	Rajasthan	4.02.2008	4991	
46488	Chopra Sushma	W/o Ashok Chopra	# 998 Sector -11, Panchkula	DHMS	1984	Council of Homoeo System of Med. Punjab	Haryana	28.04.94	5594- A	
46489	Chopra, Ankush	Sh. R.K. Chopra	Lane No.1, Mo. Gaudam Nagar, Una Road Hoshiarpur	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3096	
46490	Chopra, Monica	Sh. Manmohan Chopra	H. No. 1086 Dugri Road Urban Estate Phase-1, Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	17.09.2001 16.05.2005	2549	BHMS Gr. Deg. 2004 BFHUS
46491	Chopra, Monika	Sh. Sushil Chopra	H. No. 1657 Near Gurdwara Akali Dattar Gurdwara Road Khair Distt Ropar (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	2/1/1996	1562	
46492	Chopra, Neeraj	Sh. Chander Mohan Chopra	St. No. 8 Circular Road Abohar Distt. Ferozpur	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	09.05.2001	2505	
46493	Chopra, Nitin	Sh. C.S.Chopra	H.No. 41, Ms Enclave Dhakoli, Teh: Dera Bassi, Distt: Patiala(Pb)	BHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	02.06.2004	2701	
46494	Chopra, Rajni	D/O Sh. Baldev Raj Chopra	H. No. 16, Shahid Bhagar Colony, Teh. Rajpura, Distt Patiala (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	24/07/1995	1522	
46495	Chottra, Mannan	Sh. Sudesh Kumar	Sudesh Homoeo Clinic Sat Kartar Nagar Market Jalandhar	BHMS	April 2006	Punjab University Chd.	Punjab	08.10.2008	3281	
46496	Choubisa Chirag	Sh. Prem Shanker Choubisa	Near S.t. Depot, Mathugamra Road, City- Dungarpur, Dist- Dungarpur.	BHMS	Jan, 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4900	
46497	Choudhary Chetna	Sh. Hira Lal Choudhary	158, North Ayad Near Saraswati Niketen School City- Udaipur, Dist-Udaipur.	BHMS	Jan, 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4855	
46498	Choudhary Jagdish Ram	Sh. Kheraj Ram Choudhary	VPO - Alai, City- Nagaur Dist- Nagaur (Raj.)	BHMS	May, 2007	Raj University Jaipur	Rajasthan	28.1.2009	5186	
46499	Choudhary Harish	Sh. Amar Chand Choudhary	1510 / 51, Near Phedoffice Ved Vihar Colony, Sarveshwar Nagar, Lohakhan City- Ajmer Dist	BHMS	June, 2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	7.11.2008	5134	
46500	Chowdhry, Vandna	D/O Sh. V B Chowdhry	Ajmer (Raj.) No. 540, Phase 10, Mohali Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	31.1.2001	2444	
46501	Chowdhury Aniva Dutta	C/O Sri Anil Kumar Dutta Chowdhury Vill-Bansbari Jorhat P.O.-Rajabari Jorhat 785014 Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam		26.12.2001	831	

46502	Chowdhury Arti	Ranagata Road P.O. Tinsukia 786125 Dist- Tinsukia, Assam	D.M.S.	May-84	West Bengal Council	Assam	12.08.87	181
46503	Chowdhury Basir Ahmed	Vill-Kanakpur P.O.- Kanakpur Part-I Dist- Cachar, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.87	264
46504	Chowdhury Shabnesh	Vill-Barbang Chondrupara P.O.-Barbang 781325 Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.10.2000	755
46505	Chowdhury Biswajit Saha	Vill-Kharupetia P.O.- Kharupetia Dist-Darrang, Assam	D.M.S.	Jun-84	West Bengal Council	Assam	31.08.92	498
46506	Chowdhury Jamaluddin	Shyam Charanarkuli Part III P.O.-Alongang Dist- Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.07.98	465
46507	Chowdhury Janardan Roy	Vill-Narakasur P.O.- Kahilpara Guwahati-19 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.10.86	188
46508	Chowdhury Jini	Railway Station Road Near Town P.O.-Rajabari 785002 Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.06.86	176
46509	Chowdhury Joyti Prasad Roy	Sarbhog Town P.O.-Srbhog 781317 Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Nov-95	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.07.98	704
46510	Chowdhury Kunjilal	N.I.Rly Homoeo Dispensary, Guwahati-1	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.05.85	150
46511	Chowdhury Mainul Haque	Vill-Chalapathar P.O.- Chalapathar Via Baladraba	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	11.06.99	535
46512	Chowdhury Prasad Chandra	Vill-Ambaripam P.O.- Aggumi Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.12.86	221
46513	Chowdhury Rahaman Mofijur	Vill-Pub Mukunda Ali P.O.- Letonpar Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Nov-95	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.04.98	690

46514	Chowdhury Safiqul Islam	Vill-Sonaibera P.O.- Balamari-782122 Dist- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	April-94	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.02.2001	786	
46515	Chowdhury Sambhu	Bidyapur P.O.-Nalbari Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05-3.98	670	
46516	Chowdhury Sudipa	Darrang Homoeo Hall Ulubari, Guwahati-7 Dist- Kamrup Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.07.2001	805	
46517	Chowdhury Sitapa	B.K. Kakori Road Ulubari, Guwahati Guwahati-7	B.H.M.S.	Feb-01	University of Calcutta	Assam	26.09.2006	929	
46518	Chowdhury Tahsin Ahmed	Vill-Kayegram P.O.- Bhangabazar Dist- Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.05.85	147	
46519	Chowdhury Tirtha Dyuti	B.K. Kakori Road Ulubari, Guwahati Guwahati-7	B.H.M.S.	Feb-01	University of Calcutta	Assam	16.09.2006	928	
46520	Chowhan Ram Nibash	Jogijan Basti P.O.-Hojai Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.11.84	96	
46521	Chug, Shuchy	883-A, Phase-XI, Mohali, TEH. Kharar, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	3.7.2000	2279	
46522	Chugh, Punam	B-XIII-1175, St. No. 16, Field Ganj, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	12.7.2000	2297	
46523	Chugh, Sonal	H. No 590, Sec 20-A Chandigarh	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	27/08/1996	1636	
46524	Chulia Ghana Kanta	Vill-Moronikathgaon P.O.- Moroi, Bebeja Kathgaon Dist-Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.12.86	194	
46525	Chulia Nava	Vill-Hakul Gaon P.O.- Ghatapara Dist-Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.02.87	214	
46526	Chulia Ranjit	VILL-Bhebeli P.O.- Sissibogaon 786110 Dist- Dhemaji Assam	D.H.M.S.	Aug-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.12.2000	780	
46527	Chulia Runashri	Vill. Barthekarbari P.O.- Haibogaon, 784169 Dist- Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.09.2006	927	

46528	D. Daniel Raj	Mr. D. Danraj Devidass	C-11, Panchsheel Endave, Gen. Tito Marg, Near Chirag Delhi Flyover New Delhi-17	BHMS	2005	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Karnataka Board	15.11.05	- A-8529	CCH-2682
46529	Dadhich Bhasker	Sh. Banwari Lal Sharma	1165, Mahaveer Nagar Ind City-Kota Dist. Kota	BHMS	2007	JNRV, Deemed University, Udaipur	Rajasthan	22.07.2008	5048	
46530	Dadhich Sunila	Sh. Om Prakash Dadhich	BDR III rd New Civil Lines, Kota Road, City-Baran Dist. Baran	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	26.11.2008	5147	
46531	Daftri Shweta	Sh. Ravikant Daftri	172 LIG Colony, Indore (M.P.)-452008m Vill. Jharasenti PO. Baliabgarh Distt.-Fardabad	DHMS	1998	M.P. Council Bhopal	M.P. Council	15.12.2000	13352	CCH-2670
46532	Dagar Dinesh Singh	Har Ram Dagar	Rly Station Kosi Distt.-Rewari	DHMS	Sep-87	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	6.03.91	5540-A	
46533	Dahiya Prem Pal	Arjun Singh Dahiya	1) # 2056 Sector - 6 Bahadurgarh 2) Dahiya Homoe. Clinic Delhi Rohtrak Road Bahadurgarh	DHMS	Aug-87	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	16.01.92	5553-A	
46534	Dahiya Ranbir	Balwant Singh		DHMS	Aug-87	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	6.02.95	5622-A	
46535	Dahutia Kumar Basanta		Vill-No. 1 Sarudrak P.O.- Dirak Maikhang Dist- Dibrugarh, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.03.87	293	
46536	Dalai Shivani	Sh. Kali Charan Singh	B-188 Nehru Nagar, Pani Patan, City-Section 30 (1) Dist-Jaipur	BHMS	April 2005	Punjab University, Baba Farid	Rajasthan	19.05.2007	4836	CCH-2787
46537	Daman Deep	W/o Gurjinder Singh Sidhu	H.No. 1257, Sector- 13 Urban Estate, Kurukshetra	BHMS	Dec. 2003	University of Health Sciences, Farakkot	Haryana	9.02.2006	5747-A	
46538	Damanbhalang	Risford Lamare	Khimmusniang, Jowai	DHMS	Apr-87	Board of Homoeopathic Medicine, Guwahati, Assam	Meghalaya	14.10.1988	178	
46539	Dangi Gunjan	Sh. Satish Dandi	Rishabh Colony, Cemen Road, City- Ramganjmandi, Dist- Kota	BHMS	Jan. 2007	JNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5068	
46540	Danwar Shonit Kumar	Dalu Ram Danwar	61 Mahesh Nagar Ambala Cantt	DHMS	1991	Council of Homoe. System of Med. Punjab	Haryana	29.06.93	5564-A	
46541	Danwar Vineet Kumar	D R. Danwar	61 Mahesh Nagar Babyai Road Ambala Cantt.	BHMS	Nov-06	BRA Bihar University Muzaffarpur	Haryana	11.09.08	5838-A	

46542	Das Shubhankar	Sh. Band Baran Das	1) Birsha Nagar, Zone No-9, H.No.-7, CR, Road-3, Jamshedpur-831004 2) S.H. Medical College, P.S. Road, Sakchi, Jamshedpur-831001	BHMS	2001	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	12.7.01	23803	CCH-2626
46543	Das Ajoy Kumar		Vijl-Bisnupur P.O.-Bhella Dist-Borpeta Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.12.2001	835	
46544	Das Nakesh Kumar		Kalyani Nagar, Kahlipar Guwahati Guwahati-19	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.09.2002	860	
46545	Das Alokesh		Vijl-Natun Para, Bongaigaon P.O.+Dist-Bongaigaon 783380 Dist-Fieldweg Tiungvel, Mizoram	D.H.M.S.	Aug-90	Bihar University	Assam	27.12.06	982	
46546	Das Anjali (Paut)		Vijl-Silagram P.O. Aringaon Guwahati-31	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.04.87	235	
46547	Das Anupam		C/O-Mr. Haren Das Vijl-Pathala 781325 Dist-Borpeta Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.08.2002	853	
46548	Das Archana		Vijl-Boko (Dakuapara) P.O. Boko 781123 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.01.2002	840	
46549	Das Baralata		C/O-Sri Maheshwar Das Basistha Chariali Beltola Guwahati-28	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.12.2001	827	
46550	Das Biswajit		Darrang Homoeo Pharmacy N.B. Road P.O.-Tezpur 784001, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.05.98	699	
46551	Das Dhirendra Chandra		Haiborgaon Station Road P.O.-Haiborgaon Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.02.99	444	
46552	Das Diganta		C/O-Dr. A.C. Das, Dept of Physics B Baruah College Guwahati-7	D.H.M.S.	Sep-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.07.04	906	

46553	Das Dypanvita	Dawal Bhawan Old D.C.B. Road, East Chowking P.O. Dist-Dibrugarh, Assam	D.H.M.S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.08.03	874
46554	Das Ganendra	Vill-Laitbari P.O.-Laitbari Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.07.98	383
46555	Das Gautam Kumar	Vill-Mauchan P.O.- Keokuch, 781309 Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.09.2002	858
46556	Das Jitendra Mohan	Vill-Lanka P.O.-Lanka Dist- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.09.86	182
46557	Das Jyotish Chandra	Vill-Ulubar P.O.-Ulubar 781367 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Sep-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.06.04	904
46558	Das Kartik Chandra	C/O Sri R.N. Pan Kahlipara, Surajpigar	D.M.S.	Jun-78	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Assam	20.06.83	73
46559	Das Kishore Kumar	Vill-Barbari P.O.-Tihu Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.12.2001	836
46560	Das Malay Kumar	C/O-Subhash Ch. Das Krishna Nagar P.O.-Dev Kanta Nagar Guwahati-33	D.H.M.S.	Mar-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.10.2003	881
46561	Das Manoj Kumar	Vill-Doshima P.O.-Rongjuli 783130 Dist-Goalpara, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.05.98	460
46562	Das Manoranjan	Vill-Baralkuchi P.O.- Tinipukhuri Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.02.99	354
46563	Das Monjit	Ujanbazar S.R.S. Road Gueahat-1 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Sep-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.06.04	899
46564	Das Minral	Vill-Tebitola P.O.-Tebitola 781368 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	14.05.2001	793

46565	Das Munindra	Vill-Kalakuchi P.O.- Kalakuchi via Tamulpur 781367 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.03.98	663	
46566	Das Nishikanta	M.V. School Road P.O.- Katlicherra Dist-Cachar, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.12.87	219	
46567	Das Purnananda	Homoeo Swasthalaya Tarajan, A.T. Road P.- Jorhat-1 Dist-Jorhat-1 Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jun-87	Bihar University	Assam	18.03.98	455	
46568	Das Rajkumar	Vill-Boko (Dakuapara) P.O.- Boko 781123 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.07.2001	807	
46569	Das Ranjit	Sankarpur Hengrabari Road Dispur Guwahati-36	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.09.2001	521	
46570	Das Ratnanaya	C.O-Dr. D.C.Das Rupnagar, Guwahati Guwahati-32	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.09.98	422	
46571	Das Sadhan Chandra	Vill. - Dowamalkha P.O.- Latibari Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.11.2005	917	
46572	Das Shridhar	Vill-Barakuchi P.O.- Tirupukhuri Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.07.96	387	
46573	Das Sidhi Ram	Vill-Sennela P.O.- Sawkuchi Guwahati-18 Dist- Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.08.88	304	
46574	Das Sudarshan	Vill-Jhakali Bili Pathar P.O.- Borpeta Road 781315 Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.06.98	589	
46575	Das Sudhansu Chandra	Vill-Baral Kuchi P.O.- Paschimjhar Gaon Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.06.98	360	
46576	Das Sudhir Chandra	Sankar Mission Road Panigaon, P.O.-Panigaon Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.11.84	97	

46577	Das Swapan Kumar	Darang Homoeo Clinic Dr. B Baruah rd. Ulubari Guwahati-7	D.M.S.	Jun-77	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Assam	20.06.83	72
46578	Das Tapash	Ananda Nagar Bye Lane-3 Pandu, Guwahati-12 Dist. Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.03.98	680
46579	Das Tarani Kumar	Kumar Homoeo Clinic Balisitha Chairali Guwahati, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.08.88	305
46580	Das Tuluj Kumar	Vill-Bamunkuchi P.O.-Raipur, Patsala 781325 Dist-Borpete, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.07.98	608
46581	Das Uttam Kumar	Vill-Siliguri Basti P.O.-Siliguri Basti Via Rojai Dist. Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Sep-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.07.99	732
46582	Dasgupta Krishna	Hannemann Homoeo Clinic Lakhtokia Guwahati-1	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.07.85	166
46583	Datta Bhadra	Golap Homoeo Hall Vill. Nawbaisa Gaon P.O.-Diso Nagar Dist.-Jorhat-1, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.05.88	284
46584	Datta Bupen	Vill-Bhagamukh P.O.-Dhakuakhana Dist. N Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	152
46585	Datta Kalpana	Vill-Sarisa Bari Anjukpani, Nagaon Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.03.99	385
46586	Datta Kalpana Rani	Fancy Ali, Jorhat P.O.-Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.10.86	177
46587	Datta Milon Kumar	Ananda Nagar Dispur P.O.-Guwahati-5	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.12.86	212
46588	Datta Parimal Ch.	Srisosh Medical Hall P.O.-Bishnath Chariali Dist-Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.07.87	237

46589	Datta Tilendra Nath	Vill-Bhagamukh P.O.- Dhakuakhana Dist.- N Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.05.85	160
46590	Dave Apurva	7 - Keshav Nagar University Road, City- Udaipur Dist.- Udaipur.	BHMS	Jan, 2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	10.12.2008	5159
46591	Dave Ashok Kumar	Azad Basti, Vakli Colony, City- Bali Dist. Pall (Raj.)	BHMS	June, 2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	7.11.2008	5133
46592	Dawra, Pooja	H.No. 1532 Phase 3-BII, Mohali, TEH. Kharar, Dist. Ropar (Ph.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	17.6.2000	2321
46593	Dayal, Rashpal Kaur	H.No. 1 Near Gunowara Singh Sabha, National Avenue, Rama Mandi, Jalandhar	BHMS	Oct. Nov 2004	BHARTI VIDYA PEETH UNI.	Punjab	25.09.2006	3057
46594	De Mondip	C/O-N. Barinakar Dr. B.K. Kakati Road Ulubari, Guwahati-7	B.H.M.S.	Aug-94	University of Calcutta	Assam	24.04.98	694
46595	Deb Asit Ranjan	Parents Memorial Bisrupally, Hojai P.O. - Hojai, Dist. - Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.11.84	102
46596	Deb Kumari Manjulari	C/o-Sri B.C. Deb Sankarpur Bye Lane-2 Gopinath Nagar Guwahati-16	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.12.2001	834
46597	Deb nath Narayan	Kushal Nagar P.O.- Haiborgaon-782002 Dist.- Kamrup, Assam	B.H.M.S.	Mar-92	University of Calcutta	Assam	10.03.98	667
46598	Deb Praloy Karli	Vill-Pakhrabada P.O. - Kailashahar Dist-North Tripura	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.03.87	236
46599	Deb Ranadhir	C/O-H.B. Deb Dr. B.K Kakoti Road Ulubari- Guwahati-7	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.04.85	137
46600	Deb Ratan Kumar	Alpha Nagar, Agartala P.O.- Medelpara West Tripura	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.09.85	168
46601	Debnath Pradip	C/O-Jitendra Debnath Vill- Jalukbari P.O.-Jalukbari Dist-Damrang, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.11.2000	762
46602	Debnath Subhash	Vill-Urdhagaon P.O.- Parokhwa 782411 Dist.- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.09.2001	816

46603	Debnath Sukuma	N. Area Laskar Pathar Road P.O. Lanka 782445 Dist-Nagaon Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.08.07	1009
46604	Deepali	Sh. Krishan Lal Mehal Mobarak Colony Sangrur (Pb)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	21.02.2002	2590
46605	Deepanjali	D/O Sh. Manjit Singh 267/D, B-34 New Chandler Nagar Ludhiana (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	6/7/1992	1305
46606	Deepen Baruah	Vill-Chackradhargaan P.O. Habichukia Dist-Golaghat, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.07.2001	808
46607	Deepika	Sh. Shantigara Singh 124-B, GTB Avenue Model Town Jalandhar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	06.07.2001 02.02.2006	2523
46608	Deepika	Sh. Sham Lal Bansal H.No. 403, Ward No. 2, Hira Mahal Colony, Nabha Distt. Patiala	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	07.04.2005	2627
46609	Deepika	Sh. Ashok Kumar 101-C Udhham Singh Nagar Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	11.01.2006	2973
46610	Deepthi Lalit	W/o Vivek Lalit 8/8 Cita Colony Kurukshetra	DHMS	1998	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	14.06.05	5127-A
46611	Dehra Meenakshi	D/O Sh. Raghunir Rai Dehra	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	30/04/1992	1279
46612	Deka Arun Chandra	Homoeo Cure Research Clinic Nalbari 781335 Dist-Nalbari Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.98	482
46613	Deka Bajendra Nath	Vill-Nij Sarabani P.O. Deodhanghat Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	B.H.S.M. Assam	Assam	03.12.84	113
46614	Deka Binan Chandra	Vill-Khajara New College P.O.-Gopal Bazar Nalbari Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.01.2001	783
46615	Deka Bina	C.O-Dr. Dwipendra Deka S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.06.98	597
46616	Deka Bireswar	Vill-Hussain Chuburi P.O. Santi Phukun Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.03.98	534
46617	Deka Dhiraj	Vill-Jagara P.O.-Jagara 781310 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.07.2001	799

46618	Deka Dwipendra	Chasal Sixmile Khanapara Guwahati-22, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.05.86	298	
46619	Deka Haridhan	Vill-Bagmara P.O.-Barakpala Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.04.98	691	
46620	Deka Jibeswar	Vill-Karua Hagi P.O.-Jaikhana Dist-Nalbari Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.01.2000	401	
46621	Deka Jitendra	Vill-Jhakuapara P.O.-Hazorika Para Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.07.98	664	
46622	Deka Joydev	Chandmani Purbanchal Nagar Near Red Cross Hospital Guwahati-3	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.09.2001	815	
46623	Deka Manoj Kumar	Vill-Lalakata P.O.-Baisitha, Guwahati-29 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.06.04	898	
46624	Deka Pankaj	Vill-Salon P.O.-Kendua 781121 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.12.2000	779	
46625	Deka Pranab Joyti	Vill-Niz-Dandua P.O.-Niz Dandua 782104 Dist-Morigaon Assam	D.H.M.S.	Sep-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.07.99	733	
46626	Deka Runti	Vill-Bangaldhara P.O.-Bangaldhara Dist-Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.07.98	445	
46627	Deka Surendra Nath	Vill-Saithebari P.O.-Saithebari Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.09.87	258	
46628	Deka Harendra	Deka Homoeo Pharmacy Ambari, Fatasil (Near Ambari High School) Guwahati-25	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.03.98	678	
46629	Deora Hitesh	Deora Bhawan, Near Anand Cinema, Outside Sojati Gate, City-Jodhpur, Dist-Jodhpur.	BHMS	Jan, 2006	JRNRAJ D. University Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4899	

46630	Devi B nod Chandra	Vill-Kaikamari P.O.- Tengapani Dist-Sivsagar, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.03.88	275		
46631	Desarda Pravin Parasmai Desarda	1) Mohan, Saraswati jeen Masitgad, Jalna. 2) C/o D.K.M.M. Homoe. Medical College, Aurangabad	B.H.M.S.	1989	Dr. B.A. Marathwada University Aurangabad	M.C.H. Mumbai	13.12.99	29682	M.d (Hom) Paediatrics	CCH-2620
46632	Deuri Amalendu	No-2 Mohang Village P.O.- Bordumsa Dist-Tinsukia Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.01.99	715		
46633	Deuri Charan	Vill-Gartgaon P.O.- Bagmara Bazar 781238 Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.07.85	162		
46634	Deuri Narnigla	C/O-Dilip Deori Vill-Singlani P.O.-Tengapni Dist- Sivsagar, Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	17.01.07	994		
46635	Deuri Ram Prasad	Agam Omlung Gaon, Jonai P.O.-Jonai Dist-Dhemaji Assam	B.H.M.S.	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.10.06	965		
46636	Devi (Debnath) L.Gomati	Kushal Nagar P.O.- Haiborgaon-782002 Dist- Kamrup, Assam	B.H.M.S.	Mar-92	University of Calcutta	Assam	10.03.98	668		
46637	Devi Anongsangbam Amila	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.06.98	652		
46638	Devi Bijaya Chongtham	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.05.2000	341		
46639	Devi Etangbam Tamphasana	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.06.98	628		
46640	Devi Hemam Jiteswari	J.K.S. Homoeo College Jorhat, Club Road P.O.- Dist-Jorhat-6, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.05.98	576		
46641	Devi Karabam Kremila	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.03.98	635		

46642	Devi Khwairakpam Sumalata	Vill-Lairejam P.O.-Tuithal Airport 785001 Dist-Imphal West, Manipur	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.05.07	1013	
46643	Devi Kousam Manorama	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.06.98	639	
46644	Devi Lalsram Santi Bala	Vill-Litlong P.O.-Litlong 795130 Dist-Imphal Manipur	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.11.07	1016	
46645	Devi Morangtham Prembati	Kamakhya Homoeo Clinic Sixmile Khannapara Guwahati-22	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.08.07	1012	
46646	Devi Monika	C/o-Dr. Pramod Chandra Sarma Kamachal Silpukhuri Guwahati-3	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.11.2001	823	
46647	Devi Nabajam Ibefonbi	Vill-Taa bungkh N.C. Road Imphal 795113 Dist-Imphal West Manipur	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.10.06	962	
46648	Devi Ningthoujam Rombhabati	J.K. Salkia Homoeo College Club Road, Jorhat-8	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.07.98	707	
46649	Devi Ningthoujam Sumita	J.K. Salkia Homoeo College Club Road, Jorhat-8	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.05.98	696	
46650	Devi Pangajam Rupabati	J.K.S. Homoeo College Jorhat, Club Road P.O.+ Dist-Jorhat-8, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.06.98	585	
46651	Devi Resmi Rekha	South Haiborgaon Sathi Radhika Road P.O.-Haiborgaon-2 Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.99	726	
46652	Devi Rijumoni	Vill-Gadhiya P.O.-Gadhiya Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.04.98	616	

46653	Devi Shyam Dheinyapati	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.06.98	598
46654	Devi Sublata	J.K.S. Homoeo College Jorhat, Club Road P.O. + Dist-Jorhat-8, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.06.98	573
46655	Devi Thangjam Memthaja	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.05.98	627
46656	Devi Thougam Susila	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.05.2000	340
46657	Devi Usha	Kumar Nivas Shiva Puram P.O.-Basarpur Gorakpur (U.P.)	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	14.07.99	642
46658	Devi Yumnam Sumila	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.02.2001	788
46659	Dewan Abhinav, Anil Dewan	1104 Sector-14 Sonapat	BHMS	Dec-05	Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot	Haryana	16.04.07	5792-A
46660	Dewan Sayed Md. Ali	C/O Syed Abdul Karim Dewan Vill-Sarikod, P.O. Baihata Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.02.98	671
46661	Dewan Susanta, Bagchi	Himangsu Homoeo Hal Silpukri P.O.-Guwahati-3 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.03.98	333
46662	Dewan, Pooja Mohan Dewan	H.No. 847, Sec. 70, Mohali (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	24.1.2001	2432
46663	Dewri Sanat Kumar	Vijil-Sunpura Dewri Gaon P.O.-N-Balijan 786158 Dist- Tinsukia Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.10.2000	745
46664	Dey Bornali	Vijil-Majuli Island Naya Bazar Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.09.2000	478

46665	Dey Dilip	Kahilpara Colony (Hill Side) P.O.-Binova Nagar Guwahati-18	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.05.2002	849	
46666	Dey Dulal Chandra	Homoeo Clinic Dhekiajuli P.O.-Dhekiajuli Dist. Sontpur, Assam	D.M.S.	Jun-72	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Assam	31.03.76	46	
46667	Dey Rabi	Kamakhyia Nagar Adabari Tinali Guwahati-12	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.11.86	202	
46668	Dey Rahindrakumar	Vill-Chakritop P.O.-Nagaon, Assam	D.M.S.	May-89	West Bengal Council	Assam	25.08.93	447	
46669	Dey Samir	Sarada Homoeo Hall Tinsukia P.O.-Dist-Tinsukia 786125, Assam	D.M.S.	Mar-81	West Bengal Council	Assam	30.05.07	1006	
46670	Dey Sudhir Chandra	Vill-Sastrinagar P.O.-Huj Rangagari Dist-Nagaon Assam 782002	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.12.86	173	
46671	Dhadwal, Mamta	S.C.O. No. 45-46, Machya Marg, Sec-8-C, Chandigarh	BHMS	1999	NAGPUR UNIVERSITY	Punjab	30.06.2006	3033	
46672	Dhalwal, Sukhmani	No. 260-B Bhal Randhir Singh Nagar Ludhiana(Pb)	BHMS	May-June 2005	BFUHS	Punjab	19.06.2007	3125	
46673	Dhamija, Harinder Kaur	HM-39, Phase 3-B-1, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	30.7.1999	2097	
46674	Dhamuja, Saloni	H.No. 574, Sec. 9, Panchkula (Hr.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	19.5.1998	1845	
46675	Dhana Ram	New Indra Market, Opp. Bus Stand, Abohar, Distt. Ferozepur (Pb.)	D.H.M.S.	1982	Bihar University Jaipur	Punjab	3.9.1998	1935	
46676	Dhanjeet	Naya Goon, P.O. Nada, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	17/08/1994	1392	
46677	DhanKhar Seema	Rajiv Nagar, 2318, E/3 Gurgaon - 122001	BHMS	Sep-06	University of Calcutta	Haryana	1.09.08	5837-A	
46678	DhanKhar Seema	Vill. P.O. Dhakia, Distt-The Jhajjar, Haryana -124109	B.H.M.S.	2008	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	29.2.08	26963	CCH-2595
46679	DhanKhar Manoj Kumar	B-84, Man Singh Pura, Tonk Road, City-Jaipur Distt-Jaipur	BHMS	July, 2006	Raj University, Jaipur	Rajasthan	28.1.2009	5184	
46680	Dhanopiya Anu, Dhanopiya	C/o Mr. Chandmal Chhipa, Near Baba Mandir, Asind City-Bhilwara Distt. Bhilwara	BHMS	July, 2006	Vikram University Ujjain	Rajasthan	20.03.2008	5007	
46681	Dhar Linson	Shangpeng, Gowai P.O.- Jowai Distt-Jaintia Hills, Meghalaya	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.04.85	124	

46682	Dhar Mohin Behari	Vill-Pub Phaniram Pathar P.O. Teibasti Via Hojai P.O. Hojai Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.08.85	163	
46683	Dhar Sayabrata	Decapatty Sictar P.O. Sictar, 1 Dist-Cachar, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.05.87	224	
46684	Dhari, Dashyant Kamal	H.No. 1009, Phase-4, Mohali Teh Kharar Dist Ropar (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	10/7/1990	1211	
46685	Dhawan Tamana	House No 139, Sector -9, Panchkula, Haryana	BHMS	2008	Bharati Vidyapeeth University, Pune	Maharashtra Council, Mumbai	5.7.08	45141	CCH-2708
46686	Dhawan, Ashima	H.No. 41, Phase VI, Mohali, TEH. Kharar, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.7.1998	1900	
46687	Dhawan, Sagun Kumar	H.No. 3103, Krishna Nagar, Sirhind Mandi, Dist. Fatehgarh Sahib (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	24.8.1999	2121	
46688	Dhewa Alka	VI-C-120 J.N.V. Colony, City- Bikaner Dist- Bikaner	BHMS	Jan.2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5057	
46689	Dhillon Kamal Jeet	Govt. Bijali Board Residence City- Padampur	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	8.10.2008	5084	
46690	Dhillon, Preet Kanwal	Vill. Khurampur, Via Mahapur, P.O. Shahpur, TEH. Nakodar, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	5.7.2000	2299	
46691	Dhillona, Bhupendra Singh	V.P.O. Sardul Shahar, Distt. Sri Ganga Nagar (Raj.)	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	01.08.1985	804	
46692	Dhiman Manphool	VPO Nanakpur Near Panjore, Distt. Panchkula	DHMS	Jul-77	University of Bihar, Muzaffarpur	Haryana	21.11.79	2915- A	
46693	Dhiman Shivalika	Vill. Jawahar Nagar, P.O. H.P. B.O. School Education, Dharamshala Kangra.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Uni Udaipur (Raj)	H.P.	06.08.08	204- A	
46694	Dhiman, Anandeep	H.No. 380, W.No. 18, Shastri Nagar, Mandi Gobindgarh, TEH. Amloh, Distt. Fatehgarh Sahib (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	4.8.1999	2106	
46695	Dhiman, Harpreet Singh	H.No. 4665, Phase-II, Urban Estate, Dugri Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	26.09.2008	3065	
46696	Dhingia Arun Kumar	Vill-Borapathar Ranggaon P.O.-Kumargaon 786008 Dist-Dibrugarh, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.01.99	714	

46697	Dhingra Heena	Dr. H.C. Dhingra	31/480 Housing Board, Pratap Nagar, Sangar City, Jaipur Dist. Jaipur	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	26.11.2008	5144	
46698	Dhingra, Harpreet	D/O Sh. Sainam Singh Dhingra	H.No. 459, Model Town, Ludhiana (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	15/9/1995	1536	
46699	Dhingra, Reena	Sh. Alam Parkash	H.No. 4, Sector-20-A, Chandigarh	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	01.02.2007	3084	
46700	Dhingra, Sunita	Moh. Sheikh Nur-Mahall	Teh. Phillaur Dist. Jalandhar (Pb)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	07.07.2005	2891	
46701	Dhir, Pardeep Kumar	Sh. Gurchran Dass Dhingra	H. No. 4569, Radha Swami Street Patiala (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	14/02/1989	1110	
46702	Dhir, Rajiv	Sh. Madan Mohan Dhir	C/O Hahnenan Homeo Clinic Opposite Rad. Cross Bhawan Kapurthala-144001 (Pb)	DHMS	1987	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	Punjab	28/3/1989	1143	
46703	Dhir, Rajnish Kumar	Sh. Narinder Dass Dhir	Ward No. 4, Gidderbaha, Dist. Muktsar (Punjab)	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHISM Punjab Chandigarh	Punjab	13.06.1985	799	
46704	Dhone Vaishali Mahadeo	Sh. Mahadeo Namdeo Dhone	H.No. 494 B.R.K. Puram City, Kota Dist. Kota	BHMS	1998	Nagpur University	Rajasthan	28.11.2007	4955	
46705	Dhingra Puspa		Vill-Kamalbari Bebeja P.O. Onguri Shyam Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	11.09.87	247	
46706	Dimi Kuru		C/O-Kuru Hasang Qr. No. 7 Type IV Mowb-II P.O. Itanagar 791111 Dist. Papumpara, Arunachal Pradesh	B.H.M.S	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	19.01.07	996	
46707	Dimple	D/o Sh. Harbans Lal	H.NO. 456 New Model House, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	26.8.1999	2123	
46708	Dinesh Kumar	Banshi Dhar	134 W.No. -7 Shivaji Nagar Narau DT. Mohindergarh	BHMS	1996	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	19.06.08	5798- A	
46709	Dinesh Mohan	Dr. Surender Mohan	Mohan Homeo. Clinic 1168/4 Rly Road Ambala City	DHMS	1993	Council Of Homoeo System of Med. Punjab	Haryana	20.02.95	5623- A	
46710	Dipika	Sh. Shyam Dass	H.No. 2 C-18, Talwandi, City-Kota Dist. Kota.	BHMS	May/ Jun-2002	BFUHS, Faridkot	Rajasthan	5.2.2009	5191	
46711	Diwedi Archana	Sh. T.R. Sharma	Solan Homoeopathic Medical College, Chantabghat, Solan.	DHMS	1991	Punjab Homoeo council	H.P.	06.11.03	136- A	
46712	Diwedi Pawan Kumar	Sh. O.N. Sharma	Solan Homoeopathic Medical College, Chantabghat, Solan.	DHMS	1991	Punjab Homoeo council	H.P.	06.11.03	137- A	
46713	Dixit Aradhana	Sh. Raghu Dixit	6, Scheme No.8, Gandhi Nagar City-Alwar Dist. Alwar.	BHMS	April, 2003	Raj University	Rajasthan	15.07.2008	5043	
46714	Dixit, Neeraj Kant	Sh. Krishan Kant Dixit	Opp. D.A.V. College Gali No.8 Bhatinda (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	4/1/1986	940	
46715	Dogra Richa	Sh. B.M. Dogra	Vill. Dastoli, P.O. Maraog, Ten. Chopal, Dist. Shimla (H.P.) Pin-171211,	BHMS	2008	J.R. Nagar Rajasthan Vidyapeeth University Udaipur.	Council of H.s. of Medicine (H.P) Shimla	28.5.08	194- A	CCH-2847

46716	Dogra, Sandeep Kumar	Sh. Kuldeep Chandra	42 Garden Colony R.B. Duni Chand Road, Distt Amritsar (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	13/01/1994	1373
46717	Dogra, Suman Sh.	Dharam Pal Dogra	C/O Sh. K.L. Sharma, Imli Mohalla Khajuri Gate, Batala Distt. Gurdaspur	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	21.01.2004	2658
46718	Dorman, Anil Chandra		South Sarania, Ulubari Distt. Nagaon Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.05.2003	869
46719	Dormary, Nibila		Vill-Suagpur, Goreswar No 5 P.O.-Suagpur Distt-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.10.2000	751
46720	Doley, Dimple		Vill-Jorhatia Gaon P.O.-Gogamukh Distt-Dhemaji, Assam	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.07.04	907
46721	Doley, Normal Ch.		Bahfala Tinali P.O.-Bahfala Tinali, Jorhat Distt-Jamiat, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.01.86	178
46722	Dowerah, Kalpan		Vill-Ushapur P.O.-Morahat Distt-Sibsagar, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.03.87	196
46723	Dronendar, Dev Goswami		Vill-Basudev Shian P.O.-Moroi, Bebelia Distt-Sivsagar, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.05.88	274
46724	Dsa, Granshyam		Vill-1 No.Gallhati P.O.-Distt-Borpeta 781301	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.08.2000	475
46725	D'Souza, Rosalina	Sh. Christopher D'Souza	C/O St. Joseph's School, 1-B, Ashok Nagar, Behind Maharashtra Bhawan, City Udaipur Distt. Udaipur.	BHMS	Jan.2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5060
46726	Dua, Puja	D/o Sh. Balbir Singh Dua	No. 2841 Phase 1, Mohali, Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	17.11.2000	2395
46727	Dubey, Kapil Deva		C/O-Mrs. Gayatri Deva Kandriya Vidyalaya Satgaon, Guwahati-27	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.08.98	318
46728	Dubey, Nidhi	Sh. Nirmal Dubey	H.No. HM-340 Phase-9, Mohali(Pb)	BHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	14.07.2004	2731

46729	Dudhe Parmanand T	Sh. Tuli Ram K. Dudhe	Solan Homoeopathic Medical College & Hospital, Kumharhatti, Solan.	D.H.M.S.	1985	Court of Examination of Homoeopathic & Bio. Bombay (Mah)	H.P.	29.12.08	218-A
46730	Duggal, Seema	Sh. Krishan Kumar Duggal	Mahlan Gali Chawal Bazaar B-IV, 120, Ludhiana	D.H.M.S.	1984	PUNJAB	Punjab	09.05.2002	2598
46731	Dutt Mahesh	Sh. Manohar Lal	Vill. Chuhanpur, P.O. charor	D.H.M.S.	1988	Raj. Homoeo Chi. Mandal.	H.P.	21.08.00	111-A
46732	Dutt, Sunil	Sh. Mulkh Raj	Vill. Alluna P.O. Basantipura Teh. Rajpura Distt. Patiala (Pb)	D.H.M.S.	1986	PUNJAB	Punjab	19/04/1989	1153
46733	Dutta Apurba		Qr. No VIII (M) 6/1 Capital Complex, Dispur Guwahati- 6	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.05.2001	794
46734	Dutta Ashis		C/O-Ajoy Kr. Dutta Dutta Para (Rangauti Part-1) P.O.- Paikan Dist-Hailakandi Assam	D.M.S.	Jan-86	West Bengal Council	Assam	04.07.08	1088
46735	Dutta Biren Chandra		2.No. Charigaon P.O.- Purani Gohai Gaon Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.03.98	325
46736	Dutta Gayetri		Vill-Kalkhwa Jyotipur Near M.g. College Jorhat P.O.-Dist-Jorhat 785001 Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.07.2001	803
46737	Dutta Joy Prasad		Vill-Simaliya P.O.- Mularkuchi Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.03.98	519
46738	Dutta Manoj		Vill-Bhokatcheungiaon P.O.- Karanga, Jorhat-8 Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.10.2000	759
46739	Dutta Minku Pratim		C/O-Dr. Chackrapani Dutta Vill-Cherigaon (Duttapara) P.O.-Bhanga Dist-Jorhat Assam	B.H.M.S.	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	05.03.08	1018
46740	Dutta Minoti		Suk Homoeo Chamber Hengrabari Road Guwahati- 6	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.05.98	526
46741	Dutta Pranab		C/o-Asutosh Dutta Sollang P.O.-Borphuli 782143, Dist- Nagaon, Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	23.10.06	969

46742	Dutta Rabindra Kumar	Rabi Bhawan Farasi Main Road Guwahati	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.07.2000	434	
46743	Dutta Rajen	Vill. Norjen P.O.-Norajan 787001 Dist-Lakhimpur Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.04.98	695	
46744	Dutta Ranjit	B.G. Colony (Kalibari) P.O. New Bongaigaon 763381, Dist-Bongaigaon Assam	D.H.M.S.	Jun-88	Bihar University	Assam	27.12.06	991	
46745	Dutta Subrata	1) AL-21, Sector-II Salt Lake, Kolkata-700091 2) Topolek Enclave, Mahis Gole, Dhalipara- Sh-6, North 24, Parganas, Kolkata-700102	B.H.M.S.	1994	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	18.8.1994	19129	CCH-2598
46746	Dutta Thaneswar	C/O-Mr. Ramen Bordoloi By Pas Near Ajanta Hall P.O.-Tarajan 785001, Dist Jorhat Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.02.2000	404	
46747	Dutta, Adish	H. No. 432, Krishna Nagar, Ghumar Mandi, Ludhiana (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	28/02/1995	1429	
46748	Dutta, Monika	V.P.O. Awankha, Police Station Dina Nagar, TEH. & Dist. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.3.1998	1811	
46749	Duxarah Tosheswar	Vill. Bahupathar P.O.-Dulapathar Dist-Laximpur, Assam	D.H.M.S.	1986	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.04.88	285	
46750	Dwivedi Ravi Shivam	165, Dil Himmat Gani, Allahabad U.P.-211016 A. Lyngdoh	B.H.M.S.	2007	Dr. B.R.A. University Agra	U.P. Board Lucknow	20.3.07	27821	CCH-2617
46751	Dworyne Rasswal K.	Madai, nangkwar P.O.-Shillong-793008 East Khasi Hills, Meghalaya	D.H.M.S.	Apr-84	B.H.S.M. Assam	Assam	27.03.85	118	
46752	Fazlur Rahman	Relax Aids Old Circuit House Road P.O.-Dist-Jorhat-1, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.09-84	82	
46753	Franklin Garry	Qualapatty, Shillong P.O.-Shillong-2, Meghalaya Dist-East Khasi Hills	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.04.85	123	
46754	Franklin Garry	Qualapatty Shillong-2	DHMS	Apr-84	Assam Board of Homoeopathic Medicine	Meghalaya	15.10.84	42	

46755	G. Pandian	Sh. M. Gurusamy	Sankaran Illam, Barathidasan, St. Attayam Patti (P.O.) Salem Dist- 637501(W.B)	BHMS	1993	Madurai Kamaraj University	Tamil Nadu H.M. Council	29.6.93	507	CCH -2630
46756	Gaba Mukesh	Ram Lal Gaba	# 3227 Sector-44 D, Chandigarh	BHMS	1998	Uni. Of Calcutta	Haryana	27.06.02	5893- A	
46757	Gaba, Lucky	Sh. Chaudhary Ram Gaba	H.No. 1331, Aya Mohalla, G.T. Road Ludhiana(Pb)	BHMS	May-June 2005	BFUHS	Punjab	19.06.2007	3126	
46758	Gagandeep	Sh. Harjit Singh	H.No. 1804, Phase VII, SAS NAGAR, Mohali, Distt. Ropar. (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1746	
46759	Gagneja, Deepak	Sh. Charan Dass	H.No. 5910, Gali No.1, Abohar Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1987	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	Punjab	20/08/1991	1262	
46760	Gain Bikash Ranjan	Sh. Jalindra Nath Gain	C/o Bhagwan Mahaveer Hospital, City- VPO- Sumar pur Distt. Pali (Pb.)	BHMS	Aug. 1994	University of Calcutta	Rajasthan	3.12.2008	5151	
46761	Gaihotra Shaveta	Sh. Sri Ram Gaihotra	16 G Block City-3 Distt. Sri Ganganagar	BHMS	May, 2005	Banca Fand University, Pb.	Rajasthan	22.0.2007	4839	
46762	Gambhir, Gurpreet	Sh. Gurcharan Singh Gambhir	H. No. 550-L Model Town Ludhiana(Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	6/9/1994	1404	
46763	Gambhir, Ravi	Sh. Dharam Pal Gambhir	376-E Bhagat Singh Nagar Pakhawal Road Ludhiana	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3112	
46764	Gambhir, Reema	Sh. Ashok Kumar	Capt. H.S. Sandhu Adarsh Nagar, St. 7 Gontana Road Bathinda	BHMS	Nov. Dec 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3110	
46765	Gaminin, (Ms.) Dammy	Sh. Terdam Gaminin	a/C/o T. Gaminin, Near Yough Hostel, Naharlagun, Distt. Papum Pare, A.P. Ph.9612182738(M)	BHMS	31.01.2009	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	9.03.2009	110	
46766	Gandhi, Jyoti	D/O Sh. Daya Nand Gandhi	687/1 Urban Estate, Dugri Road, Ludhiana(Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	11/5/1995	1477	
46767	Gangahar, Ratul	Sh. Om Parkash Ganghar	H.No. 5136, Arorian Street, Patiala	BHMS	2004	Pb. Uni. Chd.	Punjab	24.03.2006	2997	
46768	Ganpat Mirakshi Solunkhe	Sh. Ganpati Shripati Salunkhe	C/o Prashant Pawar, Rupe Nagar, Dabok The Mavali city-Dabok the Mavali Distt. Udaipur	BHMS	Dec.2003	Puna University	Rajasthan	13.03.2008	5006	
46769	Garg Richa	Sh. H.P. Garg	103, Ram Path Shyam Nagar, City- Jaipur Distt. Jaipur.	BHMS	1996	Delhi University, Delhi.	Rajasthan	5.12.2007	4969	
46770	Garg Susheel Kumar	Sh. Lal Chand Garg	D-53, Murti Kalia Colony, Gopal Pura Bye Pass, City- Jaipur Distt- Jaipur.	BHMS	July,2006	Rajasthan University,	Rajasthan	10.12.2007	4979	

46771	Garg, Anuradha	Lat. Sh. Mohan Kumar Garg	H.No. 3445, Sec. 71, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Rupar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1878
46772	Garg, Dimple	Sh. Mansa Ram Garg	3058, Power House Road, St. No. 2, Bhatinda (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	10.2.1998	1791
46773	Garg, Pardeep	Sh. Rattan Lal Garg	Azad Nagar, PO Tapa, TEH. Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	29.1.1998	1784
46774	Garg, Geetanjali	D/o Sh. Devinder Garg	H.No. 1435, Sec. 61, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Rupar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	3.8.1999	2101
46775	Garg, Nareesh	Sh. C.R. Garg	Circular Road Near Jain Tin Factory Gidderbaha Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	13/05/1996	1595
46776	Garg, Neenu	Sh. Keshav Garg	C/O Jeet Medical Hall Main Bazaar Road Amargarh, Malerkotla Distt. Sangrur	D.H.M.S.	1999	PUNJAB	Punjab	26.06.2001 27.12.2005	2520 BHMS Gr. Deg. May - June 2004 BFUHS
46777	Garg, Neha	Sh. Tarsem Lal Garg	B-34-7424, New Durga Puri, Haibowal Kalan Ludhiana (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	08.04.2008	3196
46778	Garg, Nitika	Sh. Ajay Kumar Garg	Tawela Mai Sahib, Nabha, Distt. Patiala	BHMS	Nov - Dec 2006	BFUHS	Punjab	25.08.2008	3254
46779	Garg, Rajeet	Sh. Balraj Garg	H.No. 5186, Rattan Street, Nakodar, Distt. Jalandhar (Pb.)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	20.02.2008	3165
46780	Garg, Rajesh	Sh. V.K. Garg	H.M-59, Phase III B-1, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Rupar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	18.8.1998	1909
46781	Garg, Rashmi	Sh. I.D. Garg	II-A/209 Nehru Nagar, Ghaziabad	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	25/06/1996	1598
46782	Garg, Shally	D/o Sh. Prem Kumar Garg	H.No. 296/5, New Town Moga (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	12.11.1999	2169
46783	Garg, Sheefali	D/o Sh. Megh Raj	B-IV 936, Near Morca Model School, Maler Kotla, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	11.9.1998	1953
46784	Garg, Shefa	Sh. S.P. Garg	H.No. 807-B B-XIX Patel Nagar Civil Lines	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	5/8/1996	1603
46785	Garg, Suneet	Sh. Parshotam Dass Gupta	47, Dashmesh Colony, Rajpura Town, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	30/08/1994	1399
46786	Gaur Pankaj	Dr. U.C. Gaur	C/o Dr. Vishal Kumar, Dr. MPK Homoeo. Med. College, Station Road, City Jaipur Distt. Jaipur	BHMS	Jan. 2007	GGSI University Delhi	Rajasthan	15.01.2008	5177
46787	Gaur, Ritu	D/o Sh. Surinderpal Gaur	B-XXIV-H No. 3500, New Madhopuri, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	3.7.2000	2287
46788	Gaurav Dhand	Sh. Surinder Kumar	H.No. 2286, Dhiran Mohalla, Nokodar, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	04.03.1998	1805
46789	Gaurav Rattan	Sh. Sukhdev Kumar Rattan	Moh. Thekuran, Sultanpur Lodhi, Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	31.1.2001	2437

46790	Gautam Praveen	Sh. Nand Kishore Gautam	7. H. 27, Mahaveer Nagar III City, Kota Dist. Kota.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ, D. University Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4878	
46791	Gautam Vanija	Sh. Prem Prakash Gautam	52 - Sindhi Colony, Khudabadi Sonara Marg, Banipark, City- Jaipur Dist. Jaipur	BHMS	May. 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5095	
46792	Gautam Bronika	Sh. K.K. Gautam	VPO Dughli, Teh. Bhoranj, Distt. Hanpur	BHMS	2008	Punjab University	H.P.	06.05.08	188- A	
46793	Gautam Dev	Shre Sodhi Ram	H.No. 4607 Ranjit Pura P.O. Khalsa College Amritsar (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	16/04/1990	1198	
46794	Gautam Patel	Sh. Vijay Singh	Madhyon ki Galli, City- Nagaur Dist- Nagaur (Raj)	BHMS	May. 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5103	
46795	Gautam Sonia	Sh. K.D. Gautam	VPO. Bassi, Teh. Sri Naina Deviji, Bilaspur	BHMS	2006	Baba Farid Univ of H. Sc. Faridkot (Pb)	H.P.	20.02.07	171- A	
46796	Gautam, Anu	Sh. Karam Chand Sharma	40 Pariap Nagar Sangrur (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	2/9/1996	1648	
46797	Gautam, Bal Sharan	Sh. Karam Nath Gautam	Kothi Road, Nawanshahar	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	29.08.1985	826	
46798	Gautam, Mitu	Sh. Rakesh Gautam	C/o Dr. Ashok Kumar Sharma, 4727, Moh. Bhogian, Jagroan, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	2.7.1998	1864	
46799	Gautam, Sanjeev Kumar	Sh. Prem Singh	Vill. Nawa Gram House No. 727, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	27.10.1999	2160	
46800	Gautam, Sonia	Sh. K.D. Gautam	H.No. 14-H, B.B.M.B. Colony, Ganguwal, Teh. Anandpur Sahib, Distt. Ropar	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3043	
46801	Gayam Chandra Mali		Vill. Baihata P.O.-Baihata Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.07.03	872	
46802	Gayam Noni Gopal		Borpeta Road Ward No-3 P.O.-Borpeta Road Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.12.88	312	
46803	Gayam Tridip Kumar		Vill. Laxminagar, Haiborgaon P.O.-Haiborgaon, 782002 Dist- Naagori, Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.08.2006	926	
46804	Gayatri Dubey		C/O Dr. K.D. Dubey Salgaon P.O.-Guwahati-27 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.08.98	421	

46805	Godam Rajani Rupdas	Mr. Rupdas Godam	1). Sambodhi Colliary Ward, near Karema Vir School, Warora, Dist. Chandrapur (M.S.) Pin-442907 2). B. 84, N.H.P.C. Residential Colony, Chamera Power Station, Stage-II Kanam, Chamba (H.P.)-176310 Kheta Ram Street, 2934, Muktsar (Pb.)	B.H.M.S.	2004	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council Mumbai	20.10.04	38096	CCH-2588
46806	Geeta	Sh. Amarjeet Singh	2). B. 84, N.H.P.C. Residential Colony, Chamera Power Station, Stage-II Kanam, Chamba (H.P.)-176310 Kheta Ram Street, 2934, Muktsar (Pb.)	D.H.M.S.	1996	PUNJAB	Punjab	4.2.1998	1788	
46807	Geeta	Sh. Jai Singh	C/o Dr. N.C. Chatterjee, Marian Clinic, Abohar (Pb.)	D.H.M.S.	1996	PUNJAB	Punjab	18.6.1998	1858	
46808	Geeta	Sh. Jai Singh	Mohan Colony Solan	D.H.M.S.	1997	Punjab Homoeo council	H.P.	24.08.98	102-A	
46809	Geeta Armit	D/o Sh. Hari Ram Garg	No. B XII/139, College Road, Barnala, Dist. Sangrur (Pb.)	D.H.M.S.	1999	PUNJAB	Punjab	8.9.2000	2359	
46810	Geeta Rani	Sh. Bhagat Ram	V.P.O. Aniwala S.S. Teh. Fazilka Distt Ferozepur	D.H.M.S.	1994	PUNJAB	Punjab	21/03/1996	1588	
46811	Geetanjali	D/o Sh. Sohan Lal Sharma	Vill. Mehtol, P.O. Behrampur Bet, Teh. Chamkaur Sahib, Distt. Ropar (P)	D.H.M.S.	1986	PUNJAB	Punjab	28.9.1998	1970	
46812	Geetika	Sh. Ravinder Kumar	H.No. 73-B, Sewak Colony, Pakala (Pb.)	B.H.M.S.	2003	BFUHS	Punjab	09.10.2004	2791	
46813	Ghai Ram Kumar	Sh. Jagan Nath Ghai	Vill. Bhattian P.O. Khanna Teh. Samrala Distt. Ludhiana (Pb.)	D.H.M.S.	1984	PUNJAB	Punjab	28/01/1986	874	
46814	Ghai Saprandan Kaur	Sh. Nitmaljit Singh	H.No. 232, Nanak Nagan, Near N.C.C. Office, Mogal (Pb.)	B.H.M.S.	2002	PUNJAB	Punjab	17.06.2004	2729	
46815	Ghai Vinod Kumar	S/O Sh. Manohar Lal Ghai	H.No. 181 Phase III-A, Mohali Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb.)	D.H.M.S.	1988	PUNJAB	Punjab	8/12/1989	1177	
46816	Ghakarta Vishwanath Singh	Sh. Sohan Lal Ghadonia	C-66, Bai Nagar, Karapur, City - Jaipur Distt. Jaipur	B.H.M.S.	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	28.1.2009	5182	
46817	Ghatowar Manoranjan		Vill. Madhupur P.O. Biswanath Charali Distt. Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.03.98	658	
46818	Ghosal Dilip Kumar		M.G. Road Ujan Bazar, River Side Guwahati-1 Distt. Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.11.99	338	
46819	Ghosh Simanliti	Mr. Gobinda Padaghosth	2/1, Banerjee para Road, Kolkata - 700061, W.B.	B.H.M.S.	2006	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	2.1.07	26455	CCH-2689
46820	Ghosh Anandendu		C/O. Triguresh Narayan Ghosh P.O. Dibrugarh-786001 Distt. Dibrugarh, Assam	D.H.M.S.	Sep-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.06.04	902	

46821	Ghosh Probin Kumar	Rajmoldam Jorhat P.O.-Jorhat-1 Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.02.86	183		
46822	Ghosh Utpal Chandra	Sarala Homoeo pharmacy P.O.-Moroni 785634 Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.07.98	408		
46823	Gill, Gurdeep Singhi	V.P.O. Borash, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNI	Punjab	17.8.2000	2323		
46824	Gill, Harsiman Kaur	H.No. 566, Phase -3-B1, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	9.2.2000	2218		
46825	Gill, Jaspreet Kaur	Aggarwal Gillan, Dharamkot, TEH. Zira, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	29.3.2000	2242		
46826	Gill, Jaspreet Kaur	250-C, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	10.11.2000	2392		
46827	Gill, Kuldeep Singh	V.P.O. Kotla Bhair, TEH. Samrala, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNI	Punjab	17.5.2000	2322		
46828	Gill, Manpreet Singh	H.No. 152 (Nursary) Model Town, Pakhowal Road Ludhiana (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	23/06/1989	1166		
46829	Gill, Navjot Kaur	483 R. Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	21/12/1990	1224		
46830	Gill, Pritpal Singh	V.P.O. Panj Grain Kalan Teh & Distt. Faridkot (Pb.)	BHMS	Jan 2000	RAJASTHAN BOARD	Punjab	29.06.2007	3136		
46831	Goel Ashok Kumar	Ayurvedic Aushdhalaya Near Rest House Ballabgarh	DHMS	May-86	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	7.10.86	5379- A		
46832	Goel Deepa	1) 1022 B-11 Milap Nagar, Manav Chowk Ambala City 2) Shop No.-7 GSS Sonda Jalbana Road Ambala City	BHMS	Jun-05	Baba Farid University Faridkot	Haryana	12.06.08	5833- A		CCH - 2738
46833	Goel Shalini	540 Sector - 7, Panchkula	DHMS	1992	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	16.11.07	5814- A		
46834	Goel, Anu	H.No. 4227/15 Lehal Colony Patiala	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	21/10/1988	1085		
46835	Goel, Deepika	H.No. 42, Sector - 15, Panchkula, (Haryana)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	21.4.1999	2028		
46836	Goel, Geetika	H.No. 49/14, O-1, Sandeep Nagar, Behind Hotel Gulmor, Ludhiana(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	20.06.2008	3243		
46837	Goel, Mohit	H.No. 266-A, Shastri Nagar, Ludhiana	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	19.05.2008	3222		
46838	Goel, Seema	A Ggar Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	13/08/1996	1618		

46851	Gogoi Ratul	VIII-Dulukghara gaon P.O.- Rangajan via Titabor 785630 Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jul-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.11.88	260	
46852	Gogoi Saitendra Kr.	VIII-Modern Poly Clinic P.O.- A.T. Road oppo R.R.L. Gate 1, Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.06.85	157	
46853	Gogoi Shikha Rani	VIII-Dekagaon Pulitbor (R.R.L.) P.O.-Dist-Jorhat Assam	B.H.M.S.	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	06.06.08	1067	
46854	Gogoi Tanu	VIII-No.2 Rajapukhuri P.O.- Urianghat-785601 Dist- Golaghat, Assam	D.H.M.S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.11.03	884	
46855	Gogoi, (Ms.) Jayashree	a) Dikshu Mout Gaon, P.O., Dikshu, Via -Namti Chariali Dist. Sibsaigarh b) Govt. Middle School, Podumoni, Mahadevpur, Dist. Lohit, A.P. Ph.9436052954(M)	BHMS	14.12.2007	Dibrugarh University	Assam	4.02.2008	80	
46856	Gohai Barpatra Rana	VIII-Hachara Railong Gaon P.O.-Hachara 785641 Dist- Sivasagar, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.05.98	556	
46857	Gohai Pratap Chandra	VIII-Kalha Patner P.O.- Kalha Patner Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.05.88	272	
46858	Gor Sonal	66- Patirkar Colony, City- Dungarpur Dist- Dungarpur(Raj.)	BHMS	Jan.2007	JPNRV, University , Udaipur	Rajasthan	10.10.2008	5127	
46859	Gorjot Singh Vraich	V.P.O. Zirakpur, TEH. Kharar, Distt Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	12.11.1997	1729	
46860	Gosain Birnai Rai	K.No - 429, Sector - 14 Delhi Road, Gurgaon	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	08.08.1985	813	
46861	Goswami Ashok Kumar	C/o Nathi Lai Goswami, Vill Nawab Basai City - Sapou, Dist- Dholpur.	BHMS	July,2006	Raj University	Rajasthan	28.02.2006	4997	
46862	Goswami Laxmi Prasad	Bireja Homoeo Hall Natun Bazar, A.T. Road P.O.-Dist- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.10.86	174	
46863	Goswami Mridul Chandra	Kath Bapu Satra Karanga, Jorhat P.O.-Jorhat-8 Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.01.87	189	

46864	Goswami Pankaj		Oppo to Ashram Road, Sanipur P.O., Guwahati-9 Dist Kamrup, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.08.2001	813	
46865	Goswami Phani Bhushan		Kamala Homoeo Clinic, Kaitikuchi P.O., Kaitikuchi Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.12.84	109	
46866	Goswami Pradip		Vill-Rajpur P.O., Rajpur, Palsala Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.03.98	682	
46867	Goswami Dipak Kumar		Vill-Rajdhani Medical (Homoeo) Nayanpur Road, Ganeshguri Guwahati-6	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.05.98	423	
46868	Goswami Nabajit		C/O-Mr. M.D. Goswami S.B.I. Office Colony House No.34 Hatigam Cghatrali, Geetamondir, Guwahati-34	B.H.M.S.	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	12.10.06	959	
46869	Goyal Anil Kumar	Nasib Chand Goyal	Goyal Homoeo. Clinic Approach Road uklana Mandi Hissar	DHMS	1988	Board of Homoeo. System of Med. Delhi	Haryana	8.03.94	5566-A	
46870	Goyal Rajesh Deep	Birbal Dass Gupta	Goyal Hospital Doctor Market Nai Mandi, Kalanwali Sirsa	DHMS	1995	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	18.03.04	5709-A	
46871	Goyal Ruchika	Sh. Rajinder Mohan Goyal	D-642, Saraswati Vihar, New Delhi - 110034	BHMS	2008	Guru Gobind Singh I.P. University, Delhi	Delhi Board	30.4.08	3720	CCH-2831
46872	Goyal Som Nath	Anwar Nath	C/o Homoeo. Hospital Tohana Road Ratta Distt:- Fatehabad	DHMS	Mar-88	Raj. Board of Homoeo. Med. Jaipur	Haryana	19.07.89	5501-A	
46873	Goyal Unesh	Sh. Ramesh Chandra Goyal	89- Shivram Colony, Jagatpura, city, Jaipur Distt:- Jaipur	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5109	
46874	Goyal Yash	Sh. Satya Prakash Gupta	D-53, Jyoti Marg, Baou Nagar, City- Jaipur Distt:- Jaipur	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5097	
46875	Goyal, Abhimanu	Sh. Nareish Kumar	Manu Hospital Mour Mandi Teh. Talwindi Sabho, Bathinda.	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	09.09.2005	2509	
46876	Goyal, Anita	D/O Sh. S.K. Goyal	H.No. BN/213, Patlata Gate, Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	12/7/1995	1511	
46877	Goyal, Anjali	Sh. Krishan Lal Goyal	Pathkan Wala Mohalla, Sunam, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.4.1998	1830	
46878	Goyal, Anu	Sh. Prem Chand Goyal	H. No. 22603, Gali No. 16, Bhagu Road Bathinda.	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	17.09.2001	2548	
46879	Goyal, Ashok Kumar	Sh. Mohan Lal Goyal	W-2/32, Near Dav High School, Gilderbaha, Distt: Muktsar(Pb)	DHMS	1981	CHSM Punjab	Punjab	28.08.2008	3262	

46880	Goyal, Bhushan Lal	Sh. Hem Raj	V.P.O. Bhoja Teh. & Distt Marisa (Pb.)	DHMS	1989	RAJASTHAN BOARD	Punjab	10/1/1991	1231	
46881	Goyal, Manu	Sh. B.R. Goyal	B-12, Govt. Flats, Officers Colony, Civil Station, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.4.1998	1827	
46882	Goyal, Monika	Sh. S.P. Goyal	35, Dada Nagar, Model Town, TEH., & Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.4.1998	1824	
46883	Goyal, Narinder Kumar	Sh. Satya Pal Goyal	H. No. 707, Krishna Colony, Malerkotla Distt. Sangrur(Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	25/10/1994	1416	
46884	Goyal, Priya	Sh. Mukesh Kumar	#253, Veer Colony, Amrik Singh Road, Bathinda	BHMS	2004	BFU-IS	Punjab	24.10.2005	2949	
46885	Goyal, Raj Rani	Sh. Ram Sarup	Super Market, Near Bus Stand, Suman, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.3.1998	1810	
46886	Goyal, Saloni	Sh. Tarlok Nath Goyal	332, Dr. Sham Singh Road, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	4.9.1998	1944	
46887	Goyal, Sandeep	Sh. Madan Lal Goyal	Subart Building, BXII-136, Shahpur Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	26/5/1995	1485	
46888	Grewal, Anu	Sh. Ajmer Singh Grewal	H.No. 376-C, Urban Estate, Phase-1 Ludhiana	BHMS	April - 2002	TAMILNADU Dr. MGR Medical Uni.	Punjab	18.08.2006	3035	
46889	Grewal, Harinder Kaur	Sh. Amarjit Singh Grewal	12-13/A, Model Gram Extn., Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.03.2001	2468	
46890	Grewal, Kiran	D/o Sh. Hoshnar Singh	V.P.O. Killa Rajpur, TEH. & Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	17.9.1998	1961	
46891	Grewal, Manpreet	D/O Sh. Major Singh Grewal	H. No. 590, Phase 3-B-1 S.A.S. Nagar Mohali, Teh. Khairat, Distt Ropar(Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	15/09/1992	1319	
46892	Grewal, Sandeep	Sh. Harbans Singh	K.No. 278, Phase IV, SAS NAGAR, Mohali, Distt. Ropar. (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	7.1.1998	1767	
46893	Grover, Deepthi	Sh. Ramender Pal Grover	40-H, Shaheed Bhagal Singh Nagar Ludhiana(Pb.)	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	07.07.2005	2892	
46894	Grover, Meenakshi	Sh. Alam Parkash Grover	H.No. 1971, Rajpura Town, Distt. Patiala	BHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	30.04.2004	2690	
46895	Grover, Rekha	Sh. Jagan Nath Grover	H.No. 9/292, Adarsh Nagar, Banga, Distt. Nawanshahr (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.3.1998	1812	
46896	Grover, Sunit	D/o Sh. Darshan Lal Grover	Vill. Mandi Kilaian Wali, PO Lambi, TEH. Malout, Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	8.11.2000	2383	
46897	Guha Bishnu Prasad		Qr. No.05/TX-II C.P.W.D. Colony Zoo Narengi Road Japongog Guwahati-24	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.06.2001	466	
46898	Gulati, Amita	D/O Sh. Raj Kumar Gulati	H. No. 72, St No 9, Guru Nanak Nagar, Patiala(Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	18/09/1995	1541	
46899	Gulati, Arvinder	Sh. Gurbax Singh	563-R, Model Town, Ludhiana	DHMS	Dec-1984	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	27.08.1985	822	

46900	Gulati, Ashok Kumar	Sh. Vishwa Mitter Gulati	Mohalla Chandhrian Phillaur, Dist. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	15/09/1992	1321	
46901	Gulati, Harkirat Singh	Sh. Avtar Singh Gulati	H.No. 212 Block 13 Kucha No. 16 Field Ganj Ludhiana (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	13/05/1986	892	
46902	Gulati, Jyotinder Singh	Sh. Awlat Singh Gulati	H.No. 212 Block 13 Kucha No. 16 Field Ganj Ludhiana (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	14/05/1986	891	
46903	Gulati, Pardeep Kumar	Sh. Daulat Ram Gulati	Shop No. 10, Purana Gurudwara Mangal Town Ship Teh. Anandpur Distt. Roop Nagar (Pb.)	B.M.S.	1981	Agra Uni	Punjab	31/05/1991	1250	
46904	Gulera Annu	Sh. H.S. Gulera	Vill. Sakroha, P.O. Gagai, Distt. Mandi.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur (Raj)	H.P.	6.08.85	207-A	
46905	Gulera Nitika	Sh. Surinder Gulera	VPO. Sakoh, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur (Raj)	H.P.	06.08.08	202-A	
46906	Gulera Shalini	Sh. H.S. Gulera	H.No. 292/1, Haripur, P.O. Sunder Nagar, Mandi.	BHMS	2005	Baba Farid Univ. of H. Sc. Fandkot (PB)	H.P.	05.12.06	188-A	
46907	Gunjti Kaur	Late Sh. Kuldip Singh Chopra	H.No. 290, Phase II, SAS NAGAR Mohali, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1740	CCH - 2742
46908	Gupta Arti	Sh. Bipin Mohan Gupta	1- TA- 23, Dada Badi, City, Kota Distt. Kota	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5101	
46909	Gupta Deepika	Mr. Ravi Gupta	4, Ram Bhawan, Gali No-3, Shri Nagar Shikhar Basti, Delhi-34	BHMS	2008	G.G. Singh I.P. University Delhi.	Delhi Board	30.4.08	003717	CCH-2649
46910	Gupta Dinesh	Sh. Bhagwan Das Gupta	90-B Block WNO-6, City Shri Karanpur, Distt. Sri Ganganagar	BHMS	Jan 2005	Raj University, Jaipur	Rajasthan	11.07.2007	4852	
46911	Gupta Niti	Dr. Nirmal Kumar	1) Nili Nursing Home, Badoli Road, Baraut, Distt. Bagpath, U.P. - 200611 2) House No -388, F.F. Sec. 5, Gurgaon, Haryana	BHMS	2006	Bharati Vidyapeeth University, Pune.	Maharashtra Council Mumbai	17.2.07	42432	CCH - 2704
46912	Gupta Nitin	Sh. Virendra Gupta	F-35, Mess Colony, Shastri Nagar, City-Jaipur Distt. Jaipur	BHMS	May, 2007	University of Raj, Jaipur	Rajasthan	15.12.2008	5165	
46913	Gupta Prena Prabhat	Sh. Prabhat Gupta	1) K-38-A, Saket, Delhi-110017. 2) P-35/36, Pandav Nagar, Mayur Vihar-I, Delhi-91	BHMS	2008	Bharati Vidyapeeth University, Pune.	Maharashtra Council, Mumbai of Homoeopathic Mumbai	9.4.08	44873	CCH - 2707
46914	Gupta Rajesh Kumar	Sh. Om Prakash	Al. Madhotal, Infront of ITI, Damoh Road, Jabalpur (M.P.)	BHMS	2007	B.B.A. Bihar University Mutassar pur	Bihar Board	20.8.07	28407	CCH - 2706
46915	Gupta Shuchika	Mr. P.K. Gupta	E-52, Amar Colony, Lalpat Nagar, -IV, New Delhi - 110024	BHMS	2008	Guru Gobind Singh I.P. University, Delhi	Delhi Board	28.04.08	3690	CCH - 2716

46916	Gupta Siddhant	Sh. Adarsh Kumar Gupta	H.NO. 116, Sector- 9 /L Gandhi Nagar, City- Hanuman Garh Dist- Hanuman Garh.	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	25.11.2008	5142	
46917	Gupta Vinay	Sh. Jai Prakash Gupta	Sq-10, Siddhartha Enclave, Ashram Chowk, New Delhi-110014	B.H.M.S.	2008	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Delhi Board	14.7.08	3758	CCH -2593
46918	Gupta Vishal	Sh. Chandrika Prasad Gupta	C-2911, Mini LIG, Awas Vikas Colony, Raja Ji Puram, Lucknow-226017,	BHMS	2003	Dr. B.P.A. University Agra	U.P. Board Lucknow	5.4.03	26130	CCH -2678
46919	Gupta Chinmai	Dr. Ravi Prakash Gupta	205/3, Saraswati Kunj HT, Roorkee (U.P.)	BHMS	2003	Dr. B.P.A. University Agra	Rajasthan Board, Jaipur	19.4.04	4419	CCH -2658
46920	Gupta Garima	Sh. Vinilesh Kumar Gupta	D- 9-10, Pratap Bhawan, Keshav Nagar, Bajarla, City- Swainmadhopur Dist- Swainmadhopur (Raj.)	BHMS	June, 2007	JRNRV, University, Udaipur	Rajasthan	7.11.2008	5132	
46921	Gupta Hirak		Satgaon Bazar P.O.- Satgaon Guwahati-27	D.H.M.S.	Nov-95	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.03.98	685	
46922	Gupta Kalyan Dutta		Binobha Nagar, Guwahati P.O.-Guwahati-18 Dist- Kamrup, Assam	D.H.M.S.	April - 84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.12.88	309	
46923	Gupta Pankaj	Ram Kumar Gupta	# 143 Sector - 7 Urban Estate Kurukshetra	DHMS	Dec-96	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	29.09.03	5704- A	
46924	Gupta Purnima	Sh. Dharamveer Gupta	51, Kali Bari Apartments, Udyah Marg, Sec-II Diz Area, New Delhi-110001	BHMS	2008	Guru Gobind Singh I.P. University, Delhi	Delhi Board	25.4.08	OO3677	CCH -2646
46925	Gupta Ram Kumar	Sh. Matu Ram Gupta	V.P.O. Laru Mandi Teh. Rajpura Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	21/03/1986	879	
46926	Gupta Ramananda		Takbari A.T. Road Guwahati-1 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.08.98	710	
46927	Gupta Ruchi	Sh. Radhey Shyam Gupta	H.NO. 317, Guru Ramdas Nagar, Gali No. 4, Laxmi Nagar, City- New Delhi Dist- New Delhi	BHMS	Jan, 2006	JRNRV D. University, Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4871	
46928	Gupta Sangeeta	Sh. P. C. Gupta	Ashiana, Ward No.4, Palampur Distt. Kangra	DHMS	1991	Punjab Homoeo council	H.P.	11.09.02	130- A	
46929	Gupta Santosh Kumar	Sh. Radhey Shyam Gupta	Shahganj, Tulsiipura, City- Gindon City Dist Karauli (Raj.)	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5092	
46930	Gupta Sunil Kumar	Sh. Laxmi Chandira Gupta	Yachna Homoeo. Clinic, Mathura Road, Sassi Gate, City- Aligarh. Dist. Aligarh.	BHMS	Aug. 1998	Rajasthan University,	Rajasthan	22.11.2007	4952	

46931	Gupta Suresh Prasad		C/O-Shirda Prasad Vill+P.O.-Bakula 782482 Dist-Karbianglong, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.12.2000	781	
46932	Gupta Vinod Kumar	Prem Chand Gupta	1) C/o Gupta Medicoose, Bajaj Colony Gharaunda (Karnal) 2) # 173/6 HUDA Main Market Karnal	DHMS	1995	CHSM Punjab	Haryana	5.03.97	5644-A	
46933	Gupta Vivek	Kailash Chander Gupta	2-C Ram Nagar Ambala Cantt.	DHMS	1993	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	14.03.95	5624-A	
46934	Gupta, Aartee	C/O Sh. Prem Kumar Gupta	Vill & Mohalla, Zail Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	4/7/1995	1505	
46935	Gupta, Aman	Sh. Dharna Dass Gupta	HM-329, P.H.B. Jarnalpur Colony, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1890	
46936	Gupta, Anuradha	Sh. Mahinder Pal Gupta	945-I, Bhai Ramohar Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	23.12.1997	1764	
46937	Gupta, Bharti	W/O Sh. Bharat Bhushan	SI No 16 Ait Road Distt Bhatinda (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	6/8/1996	1606	
46938	Gupta, Bindu	Sh. Raj Kumar Gupta	H. No. 147, SI No. 3, Tapa Mandi, TEH. Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	4.9.1998	1943	
46939	Gupta, Deepak	Sh. L.C. Gupta	H. No. 1881, Randhawa Road, Kharar, Distt. Ropar (Pb)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	22.1.1999	2013	
46940	Gupta, Neena	W/o Varinder Gupta	1) Anand Fashioner, 41 Nehru Palace Karnal 2) Gupta Homoeo Clinic, 136/11, Opp. Mila Place, Model Town, Ambala Road Kathal.	BHMS	2001	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab Chandigarh	Haryana	10.7.2006	5765-A	
46941	Gupta, Neeru	Sh. Srilosh Kumar	H. No. 785-C, Agar Nagar Malerkotla, Distt. Sangrur	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	15.03.2003	2473	
46942	Gupta, Pankaj	Sh. Ram Kumar Gupta	H. No. HM-29, Phase III, SAS NAGAR Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1744	
46943	Gupta, Parveen Kumar	Sh. Sham Lal Gupta	Boat No. 156, Sector-7, Chandigarh	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	16.09.1985	836	
46944	Gupta, Prachi	Sh. Bippan Kumar	H. No. 437 Uraban Estate Phase I, Jalandhar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2915	
46945	Gupta, Rajni	D/O Sh. Krishan Lal	V.P.O. Lohian Khas, Teh. Nakodar Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	15/9/1995	1537	
46946	Gupta, Raman	Sh. Madan Lal Gupta	729, Sector 38-39, New Urban Estate Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	25.8.1998	1919	
46947	Gupta, Rameek	Sh. Madanjit Gupta	B-34-222/13 Durgapuri Haibowal Ludhiana (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	13/08/1996	1621	

46948	Gupta, Rama	Sh. Prem Chand Gupta	C/O Sunil Kumar Gupta Lami Gali, Kharar, Distt Ropar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	7/2/1994	1374	
46949	Gupta, Ritu	Sh. Satish Kumar Gupta	B-9, Vikas Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	9.6.1998	1853	
46950	Gupta, Rohtash Kumar	Karam Chand Aggarwal	1) H.No. 554, Inter Puri, Patiala (Faridabad) 2) Manoj Homoeo. Clinic, Baldev Gali, Patiala	DHMS	1990	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur	Haryana	28.04.93	5579-A	
46951	Gupta, Rosy	D/o Sh. Sudershan Kumar Gupta	222-D, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	8.8.2000	2313	
46952	Gupta, Seema	S.N. Gupta	H.No. 178, Phase IV, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	25.8.1998	1917	
46953	Gupta, Shailya	D/o Sh. Prem Chand Gupta	17-B, Udhham Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.2.2000	2225	
46954	Gupta, Shalini	Sh. Raj Kumar Gupta	HE-239, Phase V, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.3.1998	1816	
46955	Gupta, Shally	D/o Sh. Tirath Ram	Near Monti Mandir, Sujanpur, TEH. Pathankot, Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	28.7.1999	2093	
46956	Gupta, Shaloo	D/o Sh. Ashok Gupta	H.No. 1826, Phase VII, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	16.7.1999	2077	
46957	Gupta, Snelly	D/o Sh. V K Gupta	H.No. B-V-498, Shastri Nagar, Malerkotla, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	10.5.2000	2286	
46958	Gupta, Shipri	Sh. V.K. Gupta	H.No. 3396, Gali No-1, Bawa Colony K.K. Road, Muktsar (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2005	BFUHS	Punjab	29.08.2008	3265	
46959	Gupta, Shobha	Sh. Sat Paul Gupta	161-R, Modal Town, Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	25.10.2004	2794	
46960	Gupta, Shurti	Sh. Bipan Gupta	437, Ueban Estate, Phase- I, Jalandhar	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	08.10.2008	3280	
46961	Gupta, Sindhu	Sh. Ashok Kumar Gupta	H.No. 167-188, Mirpur Colony, Pathankot, Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.4.1998	1828	
46962	Gupta, Taruna	Sh. Ravi Kumar Gupta	H.No. 509, J.P. Nagar, Jalandhar City	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	24.04.2008	3208	
46963	Gupta, Vandana	Sh. S.P. Gupta	132A, Aggar Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.8.1998	1923	
46964	Gupta, Vany	D/o Sh. Tarshem Lai Gupta	H.J. 710, Bhai, Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.7.2000	2294	
46965	Gupta, Varinder Kumar	S/O Shri N.S. Gupta	S.C.F. No. 18, Sector 27-C, Chandigarh	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	26/08/1986	921	
46966	Gupta, Vikas	Sh. Varinder Kumar Gupta	H.No. B-V-498, Shastri Nagar, Malerkotla, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	10.5.2000	2265	
46967	Gupta, Vipin Kumar	Sh. Subhash Chander Gupta	H. No. 167, Alam Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	2/5/1995	1462	

46968	Gurjar Hans Raj	S. Nand Lal Gurjar	Vill - Pal, Post - Bhanpura Kalan, Vaya Amer, City- Jaipur Dist. Jaipur	BHMS	May-2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5102		
46969	Gyaneshwar	Sh. Dwarika Singh	S/O Sh. Dwarika Singh, Moh. Patel Nagar P.O.R.P.S.-Barbigha Dist.-Shekhpura, Bihar-811101 2.C/O-Smt. Nirmala Sinha, Moh. Krishnapuri P.O.R.P.S. Bihar Sharif, Dist-Nalanda, Bihar-803104	B.H.M.S	2002	B.A., Bihar University	Bihar Board	05.05.03	27247		CCH-2586
46970	Gypta, Shally	D/o Sh. Tarsem Lal Gupta	Church Road, Civil Lines, Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	20.12.1999	2180		
46971	H. Johnson Meitel	Late H. Joykumar Singh	a) Wangkei Tokpam Leikai, Imphal East, Manipur b) C/o Principal, NEHMC & Hospital, Vivek Vihar, Itanagar A.P. Ph.-9856060295 (M) 9858112642(M)	BHMS	10.02.2009	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	9.03.2009	111		
46972	Hamid, Shaik Abdul	Sh. Shaik Abdul Aziz	H.No. B-6327, Inside Sher Wanjigate Meerkotta 148 023 Dist. Sangur (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	20/11/1990	1219		
46973	Hande Vinod Sitarani	Sh. Sitarani Haribhau Hande	Mathoshree Niwas, F-65, Near Cokhile School, Sec-12, Kharghar, Navi Mumbai	BHMS	2008	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council Mumbai	18.12.08	47007		CCH-2703
46974	Handique Debeswar		Vill Soladhara P.O.-Silasaku Dist-Sibsagar, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.01.87	203		
46975	Handique Megha		Vill-Palaguri P.O.-Kapaheara Dist-Nagaon (Assam)	D.H.M.S.	1976	Bihar University	Assam	10.06.81	62		
46976	Handique Rana,		Vill-Deka Gaon P.O.-Pulibor Jorhat-6, Assam	D.H.M.S.	Jun-87	University of Bihar	Assam	18.03.98	684		
46977	Hans Santosh Kumari	W/o Sat Pal Hans	151/24, Jagdish Colony, Rohtak	DHMS	Jun-85	Council of Homoe. Punjab	Haryana	28.04.93	5582-A		
46978	Hans Satya Pal	Rattan Lal Hans	101/2/23 DLF, Colony Opp Dayal Nursing Home Rohtak	DHMS	Apr-81	University of Bihar Muzaffarpur	Haryana	14.08.07	5804-A		
46979	Haque Inamul		Vill-Alihanguri P.O.-Alihanguri via Junia 782124, Dist-Dhemaji, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.99	727		
46980	Haque Khairul		Vill-Sapara (Bijoy Nagar) P.O.-Sarpara 781122 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.05.99	489		

46981	Haque Muzammil	Vill-Balidanga P.O.- Bhuraigan Dist-Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.03.98	540	
46982	Harchand, Shivani	D/o Sh. Kultar Singh Harchand	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	2.11.2000	2388	
46983	Hari Om	1) # 1738-A Sector - 6 U.E. Karnal 2) 51/8 Ram Nagar Karnal	DHMS	1992	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	6.04.95	5627- A	BHMS Dec - 2003 Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot
46984	Harjeet Pal	VPO Channu, Teh. Mukatsar, Dist. Faridkot(Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	6/12/1993	1367	
46985	Harjit Pal	Adrash Speaking Institute, Back Side uttam Chand Dharamshala Near Jahaipul Hissar	DHMS	Apr-92	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	4.10.04	5715- A	
46986	Harjoika Jiten	Ekarani P.O.-Ekarani Via Borholla Dist - Jorhat Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.09-84	75	
46987	Hassanuzzama n Hussain Md.	Vill-Fakiranjihar Part II P.O.-Barkanda-783348 Dist- Dhubri Assam	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.10.06	964	
46988	Hatwar Marjusha Suresh Chandra	1)C/o S.R. Hatwar, Ballalashwar Apts, 58/101, Rameshwari ring Road, Renuka Vihar, Nagpur - 440027 (M.S.) 2)Positive Homoeo. Clinic, Shiva Ji Nagar, Shop No-G- 3, Mahadulla Koradi, Nagpur.-441111. C/O-Rupeswar Hazarika Bihpuria Town P.O.- Bihpuria 784161 Dist- Lakhimpur, Assam Usha Nagar P.O.-Tezpur, 784001 Dist-Sonitpur Assam Vill-Ujani Raja Bari P.O.- Nakachan 785365 Dist- Jorhat, Assam	BHMS	2000	Nagpur University Nagpur	Maharashtra Council Mumbai	16.5.2000	30368	CCH -2712
46989	Hazarika Jintumoni		B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	16.10.06	961	
46990	Hazarika Nabyajyoti		B.H.M.S	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	29.03.08	1036	
46991	Hazarika Ranjit		B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	30.10.06	973	
46992	Hazonica Mohan	No.1 Jobai Pathar P.O.- Bihapur Dist-North Laximpur, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.87	266	

46993	Hazorika Bikash Kumar	Vill. Bisava Chook P.O. - Purangutam, 782141 Dist. Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.10.86	171	
46994	Hazorika Bulbuli	Vill. Karanga hazorka gaon P.O. - Karanga 785008 Dist. Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.05.98	701	
46995	Hazorika Dipak Kumar	Vill. Budhipur P.O. - Laghin Tinali 782441 Dist. Karbianglong Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.2000	743	
46996	Hazorika Marylin	House No. 5 Bakul Nagar West Boragaon P.O. - Gotanagar 781023 Dist. Kamrup, Assam	B.H.M.S.	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	26.03.08	1034	
46997	Hazra Anirban Sh. Haran Hazra	Village - Bellary, Post office - Nalpur P.S. Sankrail, Dist. Howrah, State W.B. - 711310	B.H.M.S.	2007	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	8.5.07	26623	CCH-2653
46998	Hem Raj Dwana Ram	H.No. 19-A Block 197 Jyoti Park Baldev Nagar Gali No.12 Gurgaon	B.H.M.S.	May, 2004	Rajasthan University, Jaipur	Haryana	2.06.2006	5762- A	
46999	Hemali D/o Sh. Ranjil Lal Batra	H.No. 14082, Garesha Basti, BHATINDA (Pb.)	D.H.M.S.	1999	PUNJAB	Punjab	18.8.2000	2326	
47000	Hemlata Sh. Amar Singh	H.No. 163, Phase-XI, Mohali, TEH. Kharar Distt Ropar (Pb.)	D.H.M.S.	1996	PUNJAB	Punjab	11.9.1998	1947	
47001	Hima Bindu Ponniam	H.No. 37-12-24 NGGO'S colony Kapparada, Visakhapatnam -530007	B.H.M.S.	2000	N.T.R. University of H. S. Vijayawada	Andhra Board	20.6.2000	5759	CCH-2648
47002	Hissaria Sh. Vinod Hissaria Shweta	House NO. 340, Near Bhagat Singh Chowk, City Hanuman garh Dist. Hanuman garh.	B.H.M.S.	Jan 2007	JNRV. University , Udaipur	Rajasthan	15.01.2009	5175	
47003	Hiteshi, Ritesh Kumar	H.No. 9505, Joshi Nagar, Badi Haibowai Ludhiana	B.H.M.S.	May - June 2004	BFUHS	Punjab	04.12.2008	3289	
47004	Horne Born Lanong	Sohkha Mission Compound, PO Dawki J/S/O Mr. P. Hosai Village Kaimai, P.O. Khonsa, Dist. Tirap, A.P.	B.H.M.S.	Jan-07	Dibrugarh University, Assam	Meghalaya	5.2.2007	267	
47005	Hosai, Satwang Mr. P. Hosai	b) S/o Mr. P. Hosai, C/o Mr. Jowang Hosai, Near I.B. Khonsa, P.O. Khonsa, Tirap Dist. A.P. Ph.9436633971 / 9862916737	B.H.M.S.	15.07.2008	University of Calcutta National Institute of Homoeopathy (N.H.) Sall Lake City Kolkata- 106	Arunachal Pradesh	19.08.2008	100	

47006	Hossain MD. Sakhawat	MD. Zainul Abedin Hossain	1) Vill. & P.O. Dallugram, P.S. Kaliachak, Dist., Meda, W.B.-732201 2) J.L.N. H.M. College, P.O. Limda Tal, Wagodia Dist Vadodara, Pin-391760 Gujrat	BHMS	1999	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	5.08.99	22525				CCH -2633
47007	Hossain Jakir		Vill-Hamiakumar P.O.- Balkuchi 781126 Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.11.2001	821				
47008	Hossain Mahatab		Amagunkhat P.O.-Melamati via Titabor Dist-Jornai, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.08.85	169				
47009	Hukam Chand	S/O Sh. Joti Ram	C/O Sh. Milkhi Ram Suraj Bhan (Commission Agents) Gidderbaha, Teh. Muktsar Faridkot (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	16/12/1987	1034				
47010	Hundal Sukhdev Singh	Mal Singh	VPO : Jagnalera Dist:- Sirsa	DHMS	Sep-82	Council of Homoe. System of Med. Punjab	Haryana	27.09.94	5594- A				
47011	Hundal, Sukhdev Singh	Sh. Mai Singh Hundal	H.I.G. 680/Phase-9, S.A.S Nagar Mohali, Teh. Kharar Dist Ropar (Pb)	D.H.M.S.	1982	PUNJAB	Punjab	13/05/1992	1287				
47012	Hussain Ahmed		Adabari P.O.-Adabari 781126 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.04.2002	848				
47013	Hussain Imran		Vill-Baligaon P.O.-Baligaon 782044 Dist-Nagaon Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.10.2000	753				
47014	Hussain Ismail		C/O Na-Khuti Vill-Na-Khuti Bazar 782446 Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.05.99	539				
47015	Hussain Jahangir		Vill-Karalkhati P.O.- Pathman Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.11.2001	819				
47016	Hussain Jakir		Vill-Bihampur (Khalilea) P.O.-Mularkuchi Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Sep-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.12.99	741				

47017	Hussain Md. Azam	1. Moh. Alaf Gani, Shwetha, Post-Lalbagh, Dist-Darbhanga 846004 2 T.H.M. Homeopathic Clinic Shivdhara Chowk, Darbhanga	B.H.M.S.	2001	B.B.A. Bihar University	Bihar Board	29.08.01	26700	CCH-2583
47018	Hussain Rajul	Vill-Soulmani P.O.-Siedal 781121 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.99	725	
47019	Hussain Zakaria	Vill-Hatimuria P.O.- Morabari 782126 Dist- Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Sep-98	West Bengal Council	Assam	20.03.2001	789	
47020	Ibanyla Sohtun, Dr.R. Kharkongor	Lumiaboti Nongthymmai	B.H.M.S.	Jun-06	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	1.9.2006	263	
47021	Ifat Aara	444 Sector-22-A Chandigarh	B.H.M.S.	Apr-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	27.08.07	5805-A	
47022	Inrul Md. Dewan	S/o Dewan Abdur Samad P.N.G.B. Road, Opp. Pawan Bhandar Sanitpur- Guwahati-9	B.H.M.S.	May-04	B.V.D. University Pune	Assam	19.05.2006	922	
47023	Inderjeet Singh Rana	Vill. Magralla, P.O. Dina Nagar, Dist. Gurdaspur	D.H.M.S.	2000	PUNJAB	Punjab	05.03.2001 01.12.2008	2455	BHMS Gr. Deg. May-June 2004 BFUHS
47024	Indira Wati	D-1/A-8 Lodhi Colony New Delhi	D.H.M.S.	1983	PUNJAB	Punjab	3/11/1987	1011	
47025	Indu	H No. 62-C, Basti Gobindgarh, Moga Distt Faridkot (Pb) 1) M.S. Anil cloth Emporium Mohindergarh	D.H.M.S.	1990	PUNJAB	Punjab	15/7/1992	1306	
47026	Indu Eala	2) Aggarwal Homoeo Centre Near Nai Sani Sabha College Road Mohindergarh	B.H.M.S.	Dec-96	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	11.03.02	5687-A	
47027	Indu Sulja	H No. 10133, Ranjod Park, Shankaracharya Nagar, Halbawal Kalan Ludhiana	D.H.M.S.	1999	PUNJAB	Punjab	12.03.2001 07.09.2007	2479	BHMS Gr. Deg. 2003 BFUHS
47028	Ingle Pravin Arun	301, Ashish Mahal, Chinchpada Road, Kalyae (E)	B.H.M.S.	2008	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council, Mumbai	19.12.08	47047	CCH-2684
47029	Islam Aminul	C/O Aktanz Zaman Vill- Salbar, P.O.-Hekama 783348 via Bilaspura Dist- Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.04.99	419	

47030	Islam Anwar	C/O-Md. Ali Vill-Kuchimara P.O.-Mankachar 783131 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	5.12.2000	775	
47031	Islam Hadi Husnul	Kalifuddin Road Sonitpur Guwahati-9	D.H.M.S.	Apr-81	Bihar University	Assam	01.04.81	67	
47032	Islam Khairul	Vill-Amchata P.O.-Barkalla Serso 783330 Dist-Dhubri, Assam	B.H.M.S.	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.11.06	989	
47033	Islam Moldul	Vill-Bengerbitha P.O.-Kalapani Dist-Dhubri, Assam	B.H.M.S.	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	03.04.08	1054	
47034	Islam Rafiqul	C/O-Lokman Ali Roopnagar Near Civil Hospital P.O.-Jhagrahar Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.08.03	875	
47035	Islam Reyajul	C/O-Lete Haidar Ali Vill-Malikuchi P.O.-Nalban 781335 Dist-Nalban, Assam	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.10.2002	861	
47036	Islam Safikul	Vill-Adabari Part-I P.O.-Sagochara Dist-Dhubri, Assam	B.H.M.S.	Dec-04	Dibrugarh University	Assam	10.06.08	1076	
47037	Islam Sahidul	Vill-Batamari P.O.-Baikatia Dist-Nagaon Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.08.07	1010	
47038	Islam Samsul	Barchapan P.O.-Moirabari Dist-Morigaon Assam	D.H.M.S.	March 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.09.2002	856	
47039	Israr Ahmed	1/7A/4, J.K. Ghosh Road, Belgachia, Kolkata - 700037, (W.B)	BHMS	2007	University of Burdwan	W.B. Council Calcutta	13.12.07	26864	CCH-2696
47040	J. H.H. Kurbah (L.) D.S. Lyngdoh	Upper Nongthymmai, Shillong	DHMS	Apr-84	Board of Homoeopathic Medicine Guwahati, Assam	Meghalaya	8.3.1985	171	
47041	Jadon Monu Singh	4- Ka -11, Housing Board, Shastri Nagar, City- Jaipur Dist- Jaipur 1) H.No 476 Sector 7 Urban Estate Gurgaon.	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5100	
47042	Jagga, Promila	2) Govt. homoeopathic Dispensary Sector-IV, U.E. Gurgaon	DHMS	Dec.1974	Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi.	Haryana	28.04.93	5575- A	
47043	Jaggi, Amarpreet Kaur	H.No.221 Professors Colony Gobindpur Road, Yamuna Nagar.	DHMS	1999	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab Chandigarh	Haryana	2.06.2006	5761- A	

47044	Jagjit Singh Thind	Sh. Sucha Singh	II No. 2219/1 (New 9027) Durga Puri, Halibowal Kalan, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNAB	6.3.1998	1808	
47045	Jahidul Islam		Vill-Pota P.O.-Majgaon 781313 via Simulgun Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Assam	29.08.2001	814	
47046	Jai Prakash	Mandrup Singh	VPO, Chandni Distt. - Bhiwani	DHMS	Aug-87	Haryana	16.06.88	5447-A	
47047	Jain Deepthi	Sh. Rajendra Kumar	30 - Mahaveer Nagar, Heeran Magan, Sector No- 4, City-Udaipur Dist- Udaipur	BHMS	Jan.2007	Rajasthan	3.12.2008	5152	
47048	Jain Nishant	Sh. Narendra Kumar Jain	370- Bajrang Nagar, Police Line Road, City-Kota Dist- Kota	BHMS	Jan.2007	Rajasthan	20.08.2008	5061	
47049	Jain Shikha	Sh. Pankaj Jain	Kotharyon Ki Pole, Opp Nursery, Kudaewara city- Sagwar Dist. Dungarpur (Raj.)	BHMS	Jan.2007	Rajasthan	10.10.2008	5125	
47050	Jain Shweta	Sh. Ashok Kumar Jain	302/12, Jawahar Nagar, Jacob Pura, Gurgaon - 122001	BHMS	2008	Delhi Board	11.4.08	OO3615	CCH-2705
47051	Jain Manisha	Sh. Raj Kumar Jain	Near Adhinath Temple, Runja Bazar, City- Shalraparan Dist- Shalwar. (Raj.)	BHMS	May.2007	Rajasthan	8.10.2008	5083	
47052	Jain Megha	Sh. Rameshwer Prasad Jain	7- Shiv Colony, Behind Hero Honda Showroom, City- Banswara Dist- Banswara	BHMS	May.2007	Rajasthan	10.10.2008	5066	
47053	Jain Priyanka	Sh. Ramesh Kumar Jain	A-20, Kirti Nagar, Tonk Road, City-Jaipur Dist- Jaipur (Raj.)	BHMS	May.2007	Rajasthan	10.10.2008	5119	
47054	Jain Priyanka	Sh. N.C. Jain	430 - Panchratn Complex, City Fatehpur Dist- Udaipur (Raj.)	BHMS	Oct/Nov. 2003	BRKT University, Bhopal	28.1.2009	5187	
47055	Jain Raina	Sh. Jai Kumar Jain	688 Shastri Nagar, Opp Police quarters, Dadaban City- Kot Dist- Kota	BHMS	July, 2006	Rajasthan University	5.12.2007	4958	
47056	Jain Raj Kumar	Sh. Shanti Lal Jain	27 - Eklung Colony, HN, Sector- 3, City-Udaipur Dist - Udaipur	BHMS	2002	Vikram University Ujjain	15.01.2009	5181	
47057	Jain Rubal	W/o Sanjay Jain	# 245 Kurari Moh: Katka Distt:- Panchkula	DHMS	1995	Council Of Homoso. System of Med. Punjab	19.05.04	5710-A	
47058	Jain Sapna	W/o Ashish Jain	3660 to 3662 Near Kali Bari Mandir, Ambala Cantt	BHMS	Dec-05	Baba Fand University of Health Sciences, Fandkot	23.03.09	5855-A	
47059	Jain Smita	Sh. Suresh Chandra Jain	7/1, Kanai Dhar Lane, Kolkata-700012	BHMS	2006	University of Calcutta	29.12.06	26438	CCH-2623

47060	Jain Vinita	Sh. R. C. Jain	B-183 Vaishali Nagar, City- Jaipur, Dist- Jaipur.	BHMS	Oct. 2003	Barkatulla University.	Rajasthan	19.03.2007	4824		
47061	Jain, Alka	Sh. Darshan Lal Jain	H.No. 1264, St. No. 7, Thapar Street Dares Road, Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3055		
47062	Jain, Anun Kumar	Sh. Verinder Kumar	Shop No. 4, G.S. Market, Janakpuri, Industrial Area, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	2.1.1997	1682		
47063	Jain, Dorry	Sh. Rakesh Kumar Jain	M/S LC K.M., Jain Grain Market Banga Distt: Newanshahar(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	30.05.2008	3241		
47064	Jain, Gaurav	Sh. Sumnder Pal Jain	1437, Urban Vihar Phase-I, P.O. Model Town, Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2872		
47065	Jain, Jinesh	Sh. Sat Pal Jain	Jainson Sale Corporation, 821, Industrial Area-B, Ludhiana (Punjab)	DHMS	Aug. /Sept 1983	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	07.05.1985	796		
47066	Jain, Lok Ashish	Sh. Swarn Kumar Jain	Model Town Banga Distt Jalandhar (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	27/11/1995	1557		
47067	Jain, Minakshi	D/o Sh. Darshan Lal Jain	Jan Street, Zira, Distt. Ferozpur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	3.7.2000	2270		
47068	Jain, Monica	Sh. Shub Kumar Jain W/o Sh. Ashish Jain	Gandhi Nagar, Banga, Distt. Nawanshahar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	11.9.1998	1946		
47069	Jain, Naresh Kumar	S/O Sh. Tarseem Lal Jain	2042 Rishi Mohalla Nawar Shahar Doaba-144514 Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	4/11/1986	938		
47070	Jain, Nirasha	Sh. Jinender Kumar Jain	C/O Jaitra Hospital, Budhiada, Distt. Mansa	BHMS	May - June 2007	BFUHS	Punjab	08.10.2008	3279		
47071	Jain, Nitin	Sh. Surinderpal Singh	Gulab Medical Hall, Bazar Saralan, P O Chaura Bazar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	3.5.2000	2246		
47072	Jain, Parul	Sh. Mohinder Kumar Jain	H.No. 1932/38, St No. 2 Sumnder Nagar, Shiv Puri Ludhiana (Pb)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	14.01.2005	2819		
47073	Jain, Pooja	D/o Sh. Surinder Kumar Jain	B-12, H.NO. 1642 Moti Bazar, Malerkotla, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	31.8.1999	2129		
47074	Jain, Rajeev	Sh. Santosh Kumar Jain	L.I.G. 26, Sec. 32, Samrai Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	9.12.1999	2176		
47075	Jain, Rashmi	D/o Sh. Om Parkash Jain	B-III, 1052, Subash Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	02.03.1998	1799		
47076	Jain, Ritu	Sh. Jagdish Parsed Jain	154, Ward No. Dabpura Mohalla Dera Bassi, Distt: Patiala (Pb)	BHMS	2001	CHSM, Punjab	Punjab	19.05.2004	2695		
47077	Jain, Rubal	Sh. Om Parkash Gupta W/o Sh. Sanjay Jain	B-1/3748, Mohinder Ganj Rajpura Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	16.10.1996	1667		
47078	Jain, Sumil	Sh. Hitesh Kumar Jain	17 Manshia Colony, Patiala	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	01.08.2003	2643		
47079	Jain, Vikram	Sh. Kaushal Kumar Jain	H.No. 16989, Aggarwal Colony, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	4.8.1999	2104		

47080	Jakiya Jahan,	Sh. Mansoor Ali	621, Ra. Gagar, Shastri Nagar, City, Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5099	
47081	Jakota, Vivek	Sh. Juginder Pal Jalota	Civil Hospital Colony Gurdaspur (Pb.) C/O N. Angum Jamii Home	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	30.6.1997	1712	
47082	Jamir Molung, Sungha		Evangelist, Songkumen P.O., Baptist Church Mokok Chang 798601 Nagaland	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	22.11.06	984	
47083	Janak Raj	Sh. Babu Ram	Near Model School, Patiala Road Basti, Gopal Nagar, Sunam, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	20.7.1998	1875	
47084	Jasel Malir	D/O Sh. Bhagat Ram	V.P.O. Mahipur Teh. Ganshankar Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	5/2/1986	871	
47085	Jasmin Nagar	Sh. Bhupinder Pal Singh	H.No. 3059, Sector-27 D, Chandigarh	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	21.04.2008	3205	
47086	Jasmine Parhar	Sh. Balbir Singh	V.P.O. Kalra, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	4.9.1998	1937	
47087	Jaspreet	Sh. Gurmukh Singh	H.No. 1094/1, Sector-39 B, Chandigarh	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	28.04.2008	3212	
47088	Jasvir Singh Lal	Sh. Ajit Singh	V.P.O. Kahma Teh. Nawanshahr Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	14/2/1991	1237	
47089	Jaswal, Gurdhar Singh	Sh. Mohinder Singh Jaswal	H.No. 517 Roop Nagar Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	16/05/1990	1201	
47090	Jat Madhu Lata	Sh. Amer Singh Jat	C/o Shri Bhim Singh, Dargi Parda, City Bayana Distt. Bharatpur.	BHMS	Nov 2006	Rajasthan University,	Rajasthan	10.12.2007	4978	
47091	Jaya	Sh. O.P. Sharma W/o Sh. Sunil Laroia	H.No. 400/III A, Mohali TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	3.11.1997	1724	
47092	Jayanta Bora		Vill-Bangaon P.O.- Rambhola via Dhekial 785621 Distt-Golaghat Assam	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	04.02.08	1017	
47093	Jayanta Chackraborty		Pandu, Guwahati Guwahati-12	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.04.85	139	
47094	Jeevan Jot	Sh. Jai Krishan	Jyoti Model Ser. Sec. School Kotkapura Distt. Ferozkot(Pb)	BHMS	May - June 2007	BFUHS	Punjab	18.09.2008	3277	
47095	Jha Amar Nath	Sh. Surya Narayan Jha	1) Deep Clinic, C-277 Near A-114, SIS Nagar, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 2) New Homoeo Sadan Chatti Road, Raj Nagar, Distt-Madhubani	D.H.M.S.	1979	Bihar University	Bihar Board	02.12.80	18903	CCH-2579

47096	Jha Ashish Kumar	Sh. Vidya Nath Jha	1) 110-B, M. Pocket, Sarita Vihar, New Delhi - 110076, 2) Vill. Bishanpur Seoram (Beside Thana) P.O. & P.S. Balua Bazar, Dist. Supaul Bihar - 854339,	BHMS	2007	J.R.N. Rajasthan Deemed Vidyapeeth University Udaipur.	Bihar Board	15.5.07	28282	CCH - 2700
47097	Jha Bijoy Kumar		Vill-Rangia P.O.-Rangia Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.04	903	
47098	Jha Rudra Nand	Sarab Narain Jha	Satish Homoe. Clinic Near BMR Public School, Neharpar New Khari Road, Bharat Colony, Old Faridabad	DMS	May-73	Bihar State Board Of Homoe. Med. Patna	Haryana	28.01.1998	5658- A	
47099	Jhunjhi, Angad	Sh. B.M. Jhunjhi	28-A, Rishi Nagar, Main Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	09.06.1998	1852	
47100	Jhoothawat Manesh Kumar Jain	Sh. Chandra Pal Jain Jhoothawat	Nichia Bazar, Palwalo ki Gali, Dhariyawad City-Dhanyawad Dist-Pratapgarh	BHMS	Jan, 2007	JRNRV, Deemed University Udaipur	Rajasthan	15.07.2008	5037	
47101	Jimo Avika. P.		C/O-Nibto P. Jumi Vill- Chekiye P.O.-Chekiye 797002 Dist-Dimapur, Nagaland	B.H.M.S	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	19.01.07	997	
47102	Jindal, Anju	D/o Sh. Sukhdev Rai	H.NO. 3231, St. No. 4, Court Road, Mehna Chowk, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	15.3.2000	2239	
47103	Jindal, Arpana	D/o Sh. J.L. Jindal	H.I.G. 203, Sec. 71, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	9.8.2000	2317	
47104	Jindal, Deepika	Sh. Vijay Kumar Jindal	585-B Aggar Nagar Ludhiana (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	11/2/1993	1342	
47105	Jindal, Monika	D/O Sh. J.P. Jindal	H. No. 27 Sector 22-A Chandigarh-160022	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	22/09/1987	1001	
47106	Jindal, Rajiv Kumar	Sh. Kamal Krishan Jindal	Jindia Nivas, Jind Road, Sangrur (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	8/8/1996	1612	
47107	Jindal, Rajni	D/o Sh. Ram Saroop	Civil Hospital, Maur Mandi, TEH. Talwandi Saboo, Distt. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	19.8.1999	2118	
47108	Jindal, Shekher	Sh. Narinder Kumar	Nrinder Poultery Farm Kharar, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	20/03/1995	1451	
47109	Jindal, Yash Pal Singh	Sh. Bachan Lal Jindal	H No 2975 Namdev Nagar Bhalindia (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	5/8/1996	1605	
47110	Jindal, Kamaldeep	Sh. Mangal Jindal	H.No. 13349, St. No. 7, Namdev Marg Bahiana(Pb)	BHMS	May - June 2005	BFU-S	Punjab	30.05.2007	3117	
47111	Jindal, Anju	D/O Sh. K.K. Jindal	Alma Ram Colony Near P.W.D., Resthouse, Nabha, Distt. Patiala(Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	16/08/1994	1387	

47112	Jita Baruah	Vill. Tarajan Najira Road P.O. Jorhat-1 Dist-Jorhat Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.05.88	279	
47113	Johat, Naninder Kaur	1116 Teacher Colony Zira Road, Moga	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	20.03.2001 03.03.2005	2477	BHMS Gr Deg. May - June 2003 BFUHS
47114	John G. Jaysee	P.O. Tankore, City- Jhunjhunu Dist- Jhunjhunu (Raj.)	BHMS	May 2007	Raj. University, Jaipur	Rajasthan	5.2.2009	5192	
47115	John Lalimpua	a) P.O. Kulikawn, Aizawl, Mizoram -796001 (Near Police Outpost) Ph-0389-231725 b) Village-New Yumchum, P.O.P. S. Mao, Dist. Changlang -792122, A.P.	BHMS	4.02.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	18.12.08	103	
47116	Jongsam Hensam	b) P.O. & P. S. Itanagar Chinpu, Forest Cooperation, Itanagar- 791111	BHMS	17.01.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	13.08.2008	82	
47117	Josan, Chetandeep Singh	H.No. 194, Diamond Avenue Majitha Road, P.O. Khanna Nagar Amritsar	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3071	
47118	Joseph K.T.	Channan, Golaghat P.O. +Dist-Golaghat, Assam 785621	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.01.2000	449	
47119	Joshi Gish Chandra	Near Joshi Gatta City- Jhunjhunu, Dist- Jhunjhunu.	BHMS	May 2007	Raj. University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5087	
47120	Joshi Heena	Jawahar Colony Near Han, Mandir City-Garhi Dist. Banswara	BHMS	Oct/Nov. 2005	Bharati Vidyapeeth Pune	Rajasthan	11.06.2008	5025	
47121	Joshi Kapil	Post office, City- Bikaner Dist. Bikaner	BHMS	July 2006	Rajasthan University,	Rajasthan	10.12.2007	4973	
47122	Joshi Renu	212 - A - Gayatri Nagar - B, Maharani Farm, Durgapura City- Jaipur, Dist- Jaipur	BHMS	July 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	5.12.2007	4968	
47123	Joshi, Aman	H.No. 175, Phase IV Mohali, TEH. Khara, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1881	
47124	Joshi, Bhavana	H.No. 179, Shatri Nagar, Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2877	
47125	Joshi, Dona	B-15/186 Pandora Mohalla Nawanshahr(Pb)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	19.06.2007	3123	
47126	Joshi, Gaurav	S.C.F.-11-B, 1st Floor New Defence Colony, Zirapur, Distt. Mohali	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3011	

47127	Joshi, Roopam	D/O Sh. Mahavir Prasad Joshi	Orbit Tower, Kailash Chowk, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	22.1.2001	2420	
47128	Joy Sapana	Sh. C. D. Joy Kutty	Qr.No. 78 - PWD Gali City-Dungarpur, Dist-Dungarpur, (Haryana)	BHMS	Jan-2006	Rajasthan	24.07.2007	4858	
47129	Judge, Ishwar Pal	D/O Sh. Surjit Singh	H.No. 99, Sector 17, Panchkula Distt, Ambala (Haryana)	DHMS	1985	Punjab	10/4/1987	976	
47130	Juneja Munish Kumar	Mohan Kumar Juneja	1) Shop No. 2-B Jat Dharamshala Opp. Old Power House Hissar 2) Kothi No T-15 (A) Rly Colony, Bathinda	DHMS	Apr-84	Haryana	18.03.86	5358-A	
47131	Juneja Sakshi	Sh. Ashwani Kumar Juneja	38, P-Block Sn Ganga Nagar (Rajasthan)-335001	BHMS	2007	Rajasthan Board, Jaipur.	6 10.07	4937	CCH -2681
47132	Juneja, Rekha	Sh. Charan Dass Juneja	Model Town St. 8 Sita Road Abohar	BHMS	2005	Punjab	23.05.2007	3102	
47133	Jyoti	Sh. Subash Chander	H.No. 5535/2b-34, Haibowal Kalan, Ludhiana	BHMS	2005	Punjab	23.04.2007	3094	
47134	Jyotsna	Sh. Dev Raj	H.No. 265, Ward No 7, Banta Singh Colony, Dasuya, Distt. Hoshiarpur	BHMS	2005	Punjab	23.04.2007	3089	
47135	K. Rajamanickam	Sh. M. Kandasamy	22/L-2, C.P. Kanniah Street, Rasipuram, Namakkal, Dist. -637408	D.H.M.S.	1986	Tamil Nadu H.M. Council	13.11.87	345	CCH -2619
47136	Kachari Gonindra Chandra		Vill-North Bezbhagi P.O.-Dalong ghat Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Assam	18.05.87	246	
47137	Kadaba, Rao Jyothi	D/O Sh. K. Jagannath Rao	32, Hemresha V.P. Road, Mulund West Bombay-400080(Maharashtra State)	DHMS	1987	Punjab	4/9/1989	1167	
47138	Kadaria Seikh Ahmed Ali		Vill-Babur Alga P.O.-Panban-783349 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Assam	02.07.04	905	
47139	Kadir Abdul		Vill-South Bagarigun P.O.-Juna Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Assam	18.02.87	205	
47140	Kalranjit	D/O Sh. Lakhbir singh Dhilon	Bhagwan Pura, Sugarmil, Dhuri, Dist. Sangur (Pb.)	DHMS	1989	Punjab	18.5.2000	2264	
47141	Kakati Anirudha		Vill-Nij Barala P.O.-Amdah Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Assam	24.05.99	611	

47142	Kakka Pallavi Sh. B. K. Kakkar	H.No. 20, Shastri Colony, City Raising Nagar, Dist- Sri Ganga Nagar.	BHMS	May 2005	Baba Farid University Pb.	Rajasthan	2.07.2007	4841	
47143	Kakoti Bipul Chandra	Vill-Newdewditygaon P.O.- Hazorkigaon Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.01.86	170	
47144	Kalasy, Minky D/o Sh. Inderjit Singh Kalasy	H.No. 591, 3B-1, Sec. 60, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	13.1.2000	2188	
47145	Kalia Anju Sh. Brahmjeet Kalia	1) H No. 2702/38-C, Chandigarh - 160036	DHMS	1995	Punjab Council Chandigarh.	Punjab Council	23.8.95	1526-A	BHMS (Graded) 2000 Punjab Council, Chandigarh.
47146	Kalia, Arvind Kumar	B-6/878, Gindwad Road, Tam Taran, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	14.7.1998	1868	
47147	Kalia, Ram Kumar	Vill. Kansal, Teh Kharar Distt. Mohali (Pb.)	DHMS	Jun-91	BIHAR UNIV MUZAFFARPUR	Punjab	15.04.2002	2592	
47148	Kalia, Vishav Daman	V.P.O. Sultanpur Lodhi, Distt. Kapurthala	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	13.10.2006	3067	
47149	Kalita Aswani Kumar	Vill-Rupdiga P.O.-Helana Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.11.99	626	
47150	Kalita Bhadreswar	Vill-Mugeria P.O.-Palsala Dist Borpeta Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.05.98	607	
47151	Kalita Bipin Chandra	Vill-Maharani P.O.- Baghmara Bazar Dist- Borpeta Assam	D.H.M.S.	Apr-85	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.07.87	180	
47152	Kalita Geetanjali	Vill-Dekapara P.O.-Azara Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-02	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.09.03	878	
47153	Kalita Harakanta	Vill-Sichoth P.O.-Boko Dist- Kamrup Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.04.03	868	
47154	Kalita Hemen	Vill-Navapur P.O.-Boko 781123 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Apr-94	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.03.98	676	

CCH-2643

47155	Kalita Jitendra	Vill-Khashidipila P.O.- Diplichowka Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	B.H.S.M. Assam	Assam	20.12.84	115	
47156	Kalita Laxman Kumar	Vill-Laktimpur A-Block P.O.- Nikashi-781372 Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.11.2001	820	
47157	Kalita Manorama	C/O-Upendra Ch. Kalita Silpukhuri Guwahati-03	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.04.98	617	
47158	Kalita Nabin Chandra	Modarguri Kalita gaon P.O.- Jamuguri Pauch Ali, Dist- Dhemaji, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.01.99	716	
47159	Kalita Nayanmoni	Rangia Ward No-3 P.O.- Rangia 781354 Dist- Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.07.2001	801	
47160	Kalita Prahalad	Vill-Dakuchi P.O.- Nagarbera Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.03.2001	790	
47161	Kalita Sanatan	Vill-Dhakaunia P.O.- Dhakaunia Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.09.2001	659	
47162	Kalita Sankardev	Vill-Hakra, Boko P.O.- Hakra Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	148	
47163	Kalita Soneswar	Vill-Chinaki Path Nankel Basti Guwahati-24	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.10.87	200	
47164	Kalley, Seema	H.No. 293, Guri Nanakpura, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	5.9.2000	2346	
47165	Kalonia, Rakhi	Sudesh Homoeo Clinic Set Kartar Nagar Market Jalandhar	BHMS	2006	Punjab University Chd	Punjab	08.10.2008	3278	
47166	Kalra Himesh	21-A, Gobind Colony, Rajpura, Dist. Patiala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.9.1998	1966	
47167	Kalra, Gurvinder Singh	H.No. 2036, Sec. 71, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Roopar (PB.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	19.8.1999	2117	
47168	Kalra, Meenakshi	H.No. 301, Kidwai Nagar Ludhiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	11/5/1995	1475	

47169	Kaira, Radha Krishan	Sh. Pyara Lal Kaira	C/O Kaira Printing Press 14 Panchy Dhamshala, Shri Ganga Nagar (Rajasthan)	DHMS	1984	PUNJAB	9/1/1985	854	
47170	Kaira, Ravneet	Sh. M.S. Kaira	B-XX 2022, Krishna Nagar Ludhiana (Pb.)	D.H.M.S	1985	PUNJAB	27/08/1996	1635	
47171	Kaira, Satish Kumar	Sh. Kartar Chand Kaira	Bagha Bazar Jalalabadw Teh. Fazilka Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1988	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	9/2/1989	1138	
47172	Kalsi, Gurmeet Kaur	W/O Sh Jagdish Kalsi	H. No. 1734-B-XX New Prem Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	7/6/1996	1598	
47173	Kalsi, Sandeep	D/O Sh. Narinder Singh Kalsi	93, New Officers Colony, Patiala. (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	13.10.1998	1976	
47174	Kamal Kanti	S.R. Jindal	Manoj Kulir Courts Colony Sirsa	DHMS	1989	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	22.07.91	5547- A	
47175	Kamal Kanti	S/O Sh. S.R. Jindal	C/O R.K. Sharma, H No. 31 Kaki Pind Ram Nagar P.O. Dakochia, Distt Jalandhar (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	4/1/1991	1229	
47176	Kamal Preet	Sh. Parminder Singh	45 Green Avenue, Mogga Vill. Bain, P.O. Arhal, Teh. Renu Shimla	DHMS	1999	PUNJAB	20.03.2001	2481	
47177	Kamal Raj	Sh. Rama Nand	New Lalpat Nagar Model Town Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	Punjab Homoeo council	4.02.89	57- A	
47178	Kamal, Preet	Sh. Joginder Singh	Moh. Roop Nagar, Gali No 8, Hoshapur	DHMS	1996	PUNJAB	1 1 1997	1680	
47179	Kamaljit Kaur	Sh. Chaman Lal Jassal	Julelal Colony, St. No. 3, Fazilka(Pb.)	BHMS	2004	BFUHS	17.04.2006	3023	
47180	Kamboj, Aman	Sh. Bai Dev Krishan	M.C. Road, Banur, Distt. Patiala	BHMS	Nov - Dec 2006	BFUHS	26.08.2008	3256	
47181	Kamboj, Sharanjit Kaur	Sh. Gurbakhsh Singh	a) Village - Deogo Kamki P.O./P. Si Kamba, Distt. West Siang Aalo, AP Ph 9856102907 (M) 03763261265 b) C/o Principal NEHMC & H Vivek Vihar, Itanagar	BHMS	27.06.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	13.08.2008	81	
47182	Kamki, Permin	Sh. Kenpe Kamki	1) # 551 Sector - 6, Panchkula 2) SCF 261 Sector - 16, Panchkula	BHMS	1986	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	27.09.94	5595- A	
47183	Kandari Sumati	W/O R.K. Gupta	H.No. 181/6 Mohalla Kang Chandigarh Road Samrala Ludhiana(Pb.)	BHMS	May - June 2006	BFUHS	01.01.2008	3157	
47184	Kang, Marjit Singh	Sh. Surinderjit Singh Kang	H No. 797, Punjab Mata Nagar, Ludhiana (Pb.)	BHMS	1990	PUNJAB	13/05/1992	1285	
47185	Kansai, Sangeeta	D/O Sh. Mohan Lal Kansai	H. No. 3108, Neem Wala Chowk, Teh. Kharar Distt. Ropar(Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	21/06/1995	1495	
47186	Kant, Shashi	Sh. Nand Lal	214/1 Civil Hospital Road Jalalabad (West) Distt Ferozpur	DHMS	2000	PUNJAB	09.08.2001	2535	
47187	Kant, Vresh	Sh. Gurbax Lal		DHMS					

47188	Kanwar, Shikha	D/o Sh. Ramesh Kanwar	319-C, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	5.9.2000	2349		
47189	Kapahi, Rekha	Sh. A. B. Kapahi	H.No. 643, Haibowal Kalan, Durga Pur, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	16.10.1996	1665		
47190	Kapila, Manu	Sh. Pawan Kapila	Capital Color Lab Opp. Indra Auto Sales Near Bus Stand Patiala	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	05.03.2001	2459		
47191	Kapoor Adli	Sh. Pradeep Kapoor	C/o Hemant Joshi F/15 Haslinapur, Kankroli City-Kankroli Dist-Rajasthan	BHMS	Jan. 2006	JRNE-AJ D. University, Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4875		CCH - 2884
47192	Kapoor Jaskaran	W/o DR. Sudhir Kapoor	17 Kailash Nagar Model Town Ambala City	DHMS	1991	Council of Homeo. System of Med. Punjab	Haryana	28.11.94	5615- A		
47193	Kapoor, Ashoo	Sh. Subhash Chander Kapoor	B-1.1244, Chhawani Mohalla Ludhiana (Pb)	D.H.M.S	1995	PUNJAB	Punjab	27/08/1996	1637		
47194	Kapoor, Geeta	D/O Sh. Brahm Dutt Kapoor	18, Owners Court, Near Strand Cinema Colaba, Bombay-400005(Ms)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	29/05/1989	1163		
47195	Kaple Prachi	Sh. Arun M. Kolaskar,	H-7/4, Shakar Vihar, Near Manipalpur, Delhi Cantt. Delhi,	BHMS	1997	Nagpur University Nagpur	Maharashtra Council, of Homoeopathic Mumbai	12.7.99	28981		CCH -2642
47196	Kapur, Amit	Sh. Prince Kumar Kapur	H.No. 491, Passi Nagar Pakhowal Road Ludhiana(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	02.04.2008	3186		
47197	Kapur, Nidhi	D/o Sh. Arun Kumar Kapur	Nirmal Kuthi, 19-A, Mochbool Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	21.10.1998	2150		
47198	Kar Rajib		Kalimohan Road, Tarapur Sichear-3	D.H.M.S	Jun-95	West Bengal Council	Assam	14.07.08	1089		
47199	Kar Shamali (Chackroborty)		C/O Dr.D. c Kar P.O.-Vill-Datta pukur Dist-24,Paranga West Bengal	D.H.M.S	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.05.85	159		
47200	Karain K. Cajee	J.B. Syngai	C/o Jwatbor Singh Cajee, Mavis Dunn Road Mawkhar, Shillong	DHMS	Aug-92	Board of Homoeopathic Medicine, Guwahati, Assam	Meghalaya	27.04.2005	255		
47201	Karmakar Bhugendra		Vill-Kekun P.O.-Kekun Dist-Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	11.05.87	231		
47202	Kas Dev	S/O Sh. Ram Chand	H.No. 72/14 Mata Rani Khanna, Dist- Ludhiana (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	6/4/1988	1059		
47203	Kasana, Abhishek	S.S. Kasana	H.No.321, Sector-31, Faridabad	BHMS	June,2005	Baba Farid University, Faridkot.	Haryana	7.12.2006	5777- A		
47204	Kasat Sunita	Sh. Harish Kumar Kasat	Lakshmi Kunj, Sharda Marg, Infront of N.C.C. Office City- Ajmer Dist- Ajmer.	DHMS	Oct,1993	Maharashtra C.H. Mumbai.	Rajasthan	2.03.2007	4819		

47205	Kashmir Bhinder	D/o Sh. Mohan Singh	C/o S.S. Beasley, Hg-1641, Phase IX, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	30.7.1999	2098
47206	Kasim Lata	D/o Sh. Madan Lal	Adarsh Colony Opp Samadhi Khana Ludhiana (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	9/6/1994	1379
47207	Kataria Ankur	Prem Pal Kalania	108 Block C Sirsa, Haryana	BHMS	Jan-07	JRNRV Deemed Uni. Udaipur	Haryana	27.11.08	5844-A
47208	Katyal, Nidhi Bala	Sh. Bikkrajit Katyal	4759, Bhigun Jagroon Distt Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	9/1/1996	1572
47209	Kaur Amandeep	Sh. Surinder Pal Singh	B-22 / B-2, Shiv Nagar Beni park City, Jaipur. Distt. Jaipur.	BHMS	April 2005	Punjab University	Rajasthan	19.05.2007	4835
47210	Kaur Rajwinder	Sh. S. Bachhar Singh	C/o Anril Singh V Sohra Wala, P.O. Budharwalli, City The Sadul Shaha Distt. Sri Ganaga nagar	DHMS	Nov/Dec.1997	CHSM, Punjab	Rajasthan	28.06.2008	5031
47211	Kaur Amarveer	D/o Mohinder Singh	Prabhat Medical Hall, Railway Station, Kosli Distt. Rewari	BHMS	Jun-04	Baba Farid University of Health Science Faridkot	Haryana	14.10.05	5736-A
47212	Kaur Gurpreet	W/o Aman Deep Singh	VPO : Sant Nagar, Distt:- Sirsa	BHMS	Apr-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	23.05.08	5831-A
47213	Kaur Jaspinder	Sh. S. Kuldeep Singh	3 - 1-29, Jawahar Nagar, City / Distt- Sri Ganganagar	BHMS	May. 2005	Baba Farid University Pb.	Rajasthan	22.0.2007	4837
47214	Kaur Manpreet	W/o Jaswinder Pal Singh	H.No.404 Sector-14 UE Kamal	DHMS	April - 2000	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	2.11.04	5720-A
47215	Kaur, Navpreet	D/o Sh. Jagjit Singh	430,Phase-III-B-I, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	28.9.1998	1972
47216	Kaur, Adarsh Pal	Sh. Baldev Singh Dhillon	V.P.O. Bhinder, TEH. Baba Bakala, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	18.3.1998	1837
47217	Kaur, Aman Amtoj	Sh. Manminder Pal Singh	H.No. 155-A Model Town Ext. Ludhiana	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	04.10.2001	2550
47218	Kaur, Amandeep	Sh. Ranjit Singh	600-E, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	16.12.1997	1755
47219	Kaur, Amandeep	Sh. Piara Singh	V.P.O. Nawan Pind, TEH. & Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	22.10.1998	1981
47220	Kaur, Amandeep	D/o Sh. Harbel Singh	H.No. 1118, St. No. 11, Gurbax Colony Patiala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	25.10.1999	2163
47221	Kaur, Amandeep	D/o Sh. Jang Singh Brar	Vill Kofha Guru, P.O. Bhagta, TEH. Phul, Distt. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	20.4.2000	2249
47222	Kaur, Amandeep	D/o Sh. Gurbarkash Singh	Vill. Thala, P.O. Dyalpura, TEH. Phillour, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	9.8.2000	2316
47223	Kaur, Amandeep	D/o Sh. Bhag Singh	E.J. 288, Phagwara Gate, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	24.8.2000	2331

47224	Kaur, Amanpreet	Sh. Jasbinder Singh Dhillon	V.P.O. Farour, Tehs. Khemano Distt Farehgarh. Sahib(Pb)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	03.12.2001	2568
47225	Kaur, Amanpreet	Sh. Kartar Singh	Kothi No. 248, Phase-1 Urban Estate, Durga Road Ludhiana (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	20/08/1996	1623
47226	Kaur, Amanpreet	D/o Sh. Kuldeep Singh	V.P.O. Jeobala, TEH. Tarn Taran, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	18.6.1999	2043
47227	Kaur, Amanpreet	D/o Sh. Tejpal Singh	S.A. Gurdwara Saheedan, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	8.9.2000	2356
47228	Kaur, Amanpreet	Sh. Ranjit Singh	Mohalla Mahikhana Street No.2, Faridkot.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	31.01.2006	2978
47229	Kaur, Amanpreet	Sh. Iktar Singh	H.No. 18/16, Moh. Kang. Chandigarh Road Samrala Distt. Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3100
47230	Kaur, Amanpreet	Sh. Jaspal Singh	C/O Dr. Ranbir Singh V.P.O. Fatehpur Rajpudan Distt. Amritsar Sahib(Pb)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	29.06.2007	3137
47231	Kaur, Amanpreet	Sh. Bhagwant Singh	BX-516, State Bank Colony, Batala Distt. Gurdaspur (Pb)	BHMS	Jan-95	BANGLORE UNI.	Punjab	09.10.2004	2778
47232	Kaur, Amanpreet	Sh. Hira Singh	77-A, Model Town Ext Ludhiana(Pb)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	14.01.2005	2818
47233	Kaur, Amanpreet	D/O Sh. Sarjit Singh	44-C, Dr. S.F. Kichlu, Nagar Ludhiana (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	23/07/1987	981
47234	Kaur, Amanpreet	D/O Sh. Narinder Singh W/O Sh. Davinderpal Singh	Krishan Bagh Colony, Gali No 6, Sangrur (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	10/5/1996	1583
47235	Kaur, Amanpreet	D/o Sh. Jaswinder Singh	H.No. 202, Passi Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	4.1.2001	2404
47236	Kaur, Amanpreet	Sh. Mehar Singh	H.No. 6588, B.R.S. Nagar Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	26.09.2006	3058
47237	Kaur, Amanpreet	D/o Sh. Kulwant Singh	V.P.O. Harsha Chhina, TEH. Ajnala, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2152
47238	Kaur, Amanpreet	D/o Sh. Ajab Singh	H.No. 775XXVIII, St. No 3, Punjab Mata Nagar, Model Town, Ludhiana. (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	13.10.1998	1978
47239	Kaur, Amanpreet	Sh. Gurdarshan Singh	H.No. 7390, Blind Rajindra Govt. College Bhatinda	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	18.03.2004	2666
47240	Kaur, Amanpreet	Sh. Mohinder Singh	Gurpalsad Point Pakhowal Road Near Canal Bridge Ludhiana (Pb)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	07.07.2005	2894
47241	Kaur, Anjaldeep	D/o Sh. Kuldeep Singh	H.No. 261/2, Takia Rahim Shah, Patiala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	14.7.2000	2298
47242	Kaur, Anjanjit	Sh. Balwinder Singh	Dhru Road, Raikot Distt Ludhiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	17/01/1996	1576
47243	Kaur, Anuwinder	Sh. Bakhsish Singh	H.No. 875, Urban Estate Ph-II, Jamalpur, Ludhiana	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	12.09.2006	3040

47244	Kaur, Aranjit	D/O Sh. Gurdur Singh	V.P.O. Kolhi Abi, Teh. Muktsar, Distt. Fardkot (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	11/5/1995	1476	
47245	Kaur, Arjanpreet	Sh. Sukwant Singh Kaura	H No. 243 Dasant Avenue, Amritsar (Pb.)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	23.03.2005	2851	
47246	Kaur, Arundeep	D/O Sh. Harbhajan Singh	Sl. No. 3, S.A.S. Nagar, Near New Bus Stand, Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	26.8.1999	2128	
47247	Kaur, Arvinder	D/O Sh. Santokh Singh	H. No. 582, Moha Singh Nagar, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	7/12/1993	1369	
47248	Kaur, Arvinder	D/O Sh. Man Singh	H. No. 1230 Phase-5, S.A.S. Nagar Mohali, Teh. Khairat, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	28/12/1993	1372	
47249	Kaur, Arvinder	D/O Sh. Sukhdev Singh	530, Block 1, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	30.12.1999	2181	
47250	Kaur, Ashdeep	D/O Sh. Gurcharan Singh	H.NO. 99, Ward No. 25, Mala Rani Khanna, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	21.7.2000	2304	
47251	Kaur, Atamjit	D/O Sh. Ajmer Singh	W-4789, Civil Lines, Moga, Distt. Fardkot (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	18.9.2000	2364	
47252	Kaur, Avneet	D/O Sh. Gopal Singh	H.NO. 12, Kishan Garh Colony PO Golden Temple, Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	23.9.1999	2138	BHMS Gr. Deg. May - June 2004 BFUHS
47253	Kaur, Avneet	Sh. Hira Singh	B-XXXIV 463, Chander Nagar Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	18.04.2001 14.08.2005	2500	
47254	Kaur, Baljeet	Sh. Roop Singh	H. No. 1757/29-A, Sl. No. 9-A, Hira Bagn Jagroan Distt. Ludhiana	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	20.05.2008	3233	
47255	Kaur, Baljinder	D/O Sh. Surjit Singh	V.P.O. Jandiala Guru, Near Shekh Gate, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.7.1999	2091	
47256	Kaur, Baljinder	D/O Sh. Santokh Singh	D-65, Defence Colony Ranjit Avenue, Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	26.8.1999	2125	
47257	Kaur, Balwinder	D/O Sh. Arjun Singh	VPO Balad Kalan Teh. Bhawanigarh Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	8/7/1991	1254	
47258	Kaur, Bhagwant	Sh. Arjun Singh	Dashmesh Nagar, Kaberwal Road Dhuri, Tehs. Malerkotla, Distt. Sangrur	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.03.2001 12.12.2008	2488	BHMS Gr. Deg. May - June 2003 BFUHS
47259	Kaur, Bhavneet	Sh. Sukhvinder Singh Kahlon	Shaheed Udharn Singh Nagar, Behind Truck Union Palankot Distt. Gurdaspur (Pb.)	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3069	
47260	Kaur, Bhupinder	D/O Alma Singh	Near Water Works Ward No. 16 Kotkapura Teh. & Distt. Fardkot (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	2/12/1987	1032	
47261	Kaur, Bhupinder	D/O Sh. Tarlok Singh	No. 221 East Mohan Nagar Industrial Area Amritsar (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	1/12/1988	1094	

47262	Kaur, Bhupinder	D/o Sh. Jagtar Singh	H.No. 164/4, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	2.6.1999	2037	
47263	Kaur, Bhupinder	D/o Sh. Prem Singh	H.No. B-7/334, Jammu Basti, Abohar, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	24.4.2000	2252	
47264	Kaur, Bhupinder	D/o Sh. Surmakh Singh	V.P.O. Dhalela, TEH. Phillaur, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	24.1.2001	2430	
47265	Kaur, Bhupinderpal	Sh. Shubeg Singh	Ward No. 9 State Bank Colony Makhu Teh. Zira, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	2001	CHSM, Punjab	Punjab	09.10.2004	2779	
47266	Kaur, BINDER MEET	Sh. Kaser Singh	V.P.O. Threke, Teh & Distt. Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.03.2002	2484	
47267	Kaur, Charandeep	Sh. Kulwant Singh	H.No. 1215, Phase-Xi, Mohali	BHMS	May - June 2003	BFUHS	Punjab	10.11.2004	2796	
47268	Kaur, Charanjeet	D/o Sh. Baldev Singh	Dharmpura Colony, 94/III, Batala, Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.10.1998	1986	
47269	Kaur, Charanjit	Sh. Gurnam Singh	H.No. 9707, St No. 8, Bhagwan Chowk, Janta Nagar, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	17.04.2006	3025	
47270	Kaur, Charanpreet	D/o Sh.P. S. Khanna	17-Harpura Road, Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	11.9.1998	1954	
47271	Kaur, Daljeet	Sh. Niranjn Singh	K.No. 471, Phase IX, SAS NAGAR, Mahali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	23.12.1997	1763	
47272	Kaur, Daljeet	D/o Sh. Narinder Singh	H.No. 2465 (Near 2999), B-3, Plot No. 78, Rajpura Town, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	28.8.2000	2335	
47273	Kaur, Daljeet	D/o Sh. Baldev Singh	Hajura Kapura Colony, Near Gurudwara, Barnala Road, BHATINDA	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	30.8.2000	2341	
47274	Kaur, Daljeet	Sh. Barinder Singh	S.C.F. 29, Phase 7, Mohali (Pb.)	BHMS	April-May 1998	UNI. PUNE	Punjab	21.07.2008	3248	
47275	Kaur, Daljit	W/O Sh. Khushal Singh	Vill. Pandwala P.O. Mubarakpur, Teh. Rajpura Distt. Patiala	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	20/08/1996	1632	
47276	Kaur, Dalwinder	Sh. Harjit Singh	11251, St. 5 Parlap Nagar Meller G. Anj Ludhiana	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	23.05.2007	3105	
47277	Kaur, Damneet	Sh. Narinder Pal Singh	H.No. 2084/1 Fateh Ganj Samrala Road Ludhiana	D.H.M.S.	1998	PUNJAB	Punjab	26.06.2001 13.08.2007	2519	BHMS Gr. Deg. May - June 2004 BFUHS
47278	Kaur, Davinder	D/O Sh. Jhanda Singh	H.No. 438/XII Hanuman Chowk Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	8/9/1987	989	
47279	Kaur, Davinder	D/o Sh. Gurbachan Singh	2018/V-26, Street FaTEH Abadian, Near Baba Alai, Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	25.1.2000	2191	
47280	Kaur, Deepjot	Sh. Gurnam Singh	Markier Processing Plant, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	24.4.1998	1833	
47281	Kaur, Deepjot	D/o Sh. Ranjit Singh	H.No. 651, Phase 1, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.5.1999	2032	
47282	Kaur, Devinder	Sh. Anoop Singh	Vill Their Urban, Estate Phase 1 P.O. Punjabi University, Patiala	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3013	

47283	Kaur, Dildeep	Sh. Baldev Singh	H No. 658 Phase 3B1 Mohali	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2937
47284	Kaur, Diljeet	D/O Sh. Mohinder Singh	H No. 1792, Gali No. 6, Nai Basti BHATINDA (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	18.8.2000	2324
47285	Kaur, Dupinder	Sh. Satwinder Singh	H No. 760/V6 Gali Loharan Chowk Lashman Sal Amritsar	BHMS	May - June 2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2932
47286	Kaur, Ekjot	Sh. Gurmit Singh	H No. 1469 Sector-42-B Chandigarh	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	09.11.2005	2965
47287	Kaur, Gagandeep	D/O Sh. Gurmeet Singh W/O Sh. Harjinder Singh	H No. 4375 Kirti Natar, Jamalpur Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	22/02/1990	1194
47288	Kaur, Gagandeep	Sh. Pirthipal Singh	H No. 1263/E, Adarsh Nagar, Naya Goan, P.O. Nadha, Teh. Kharar Distt. Mohali	BHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	02.06.2004	2697
47289	Kaur, Gagandeep	Sh. Tara Singh Toor	C/O Sh. Joginder Singh, Vill. Cheema Teh. Malerkotla Distt. Sangrur (Pb.)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	16.08.2004	2747
47290	Kaur, Gurbir	Sh. Darbara Singh Dhillon	B/7, New Cantt. Road, Distt. Faridkot (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	31.12.1997	1765
47291	Kaur, Gurpreet	Sh. Daljit Singh	H No. 255, Phase 1, SAS NAGAR, Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	7.1.1998	1772
47292	Kaur, Gupinder	LI Sh. Gurdarshan Singh	161, Kamla Nernu Colony, Bhatinda (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	23.12.1997	1762
47293	Kaur, Gurbinder	D/O Sh. Swarnjit Singh	H No. 83, Adarsh Colony, Barwal Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	24.9.1998	1962
47294	Kaur, Gurbir	D/O Sh. Harjit Singh	I.O.W. Railway Station Phagwara Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	30/11/1988	1101
47295	Kaur, Gurdarshan	D/O Sh. Gurbakash Singh	H No. 631-B(H.I.G.) Phase I, Mohali Teh. Kharar Distt. Ropar	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	29/09/1994	1412
47296	Kaur, Gurinder	D/O Sh. Devinder Singh	H No. 610, R. Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	17/07/1995	1515
47297	Kaur, Gurinder	Sh. Kamail Singh	H No. 953 Baba Gajja Jain Colony Molt Nagar Ludhiana	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	08.08.2001	2536
47298	Kaur, Gurjinder	D/O Sh. Mehal Singh W/O Sh. Nirmal Singh	Vill & P.O. Manakpur Teh. Rajpura Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	26/12/1986	964
47299	Kaur, Gurjeet	D/O Sh. Ranjit Singh	V.P.O. Sahnewal, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.2.2001	2450
47300	Kaur, Gurman Preet	W/O Rajpreet Singh	H No. 232/2, Ward No. 10, Opp. Ganeiwala Theatre, Sirsa Road, Rania Distt. Sirsa	BHMS	Nov. 2003	Baba Farid University, Faridkot	Haryana	6.12.2006	5775-A
47301	Kaur, Gurmeet	D/O Sh. Ram Lal	H No. 572, Phase IV Mohali, Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	14/09/1988	1078
47302	Kaur, Gurmeet	D/O Sh. Gajinder Singh	572-A Ranjit Avenir, Amritsar (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	6/3/1995	1435
47303	Kaur, Gurpreet	Sh. Kamail Singh	# 607, Giani Jai Singh Nagar, Ropar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	07.06.2006	3028

47304	Kaur, Gurpreet	Sh. Sahib Singh	Near Main Gate D.A.V. Girls Sr. Sec. School Road, Mour Distt. Muktsar.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	02.02.2006	2992	
47305	Kaur, Gurpreet	D/O Sh. Mohinder Singh	H.No. 3211, Near Civil Lines Hospital Machhiwara, Teh. Samrala, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	4/2/1993	1337	
47306	Kaur, Gurpreet	W/O Sh. Karwarjit Singh	H.No. 230/B/8, Naya Mohalla, Ludhiana (Pb.)	BHMS	1983	DELHI BOARD	Punjab	13/08/1996	1617	
47307	Kaur, Gurpreet	Sh. Gurmeet Singh	Behrampura Zimidar, Village Amanpur, Ropar (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	10.1.1997	1665	
47308	Kaur, Gurpreet	Sh. Ravinder Singh	B-1/98/14, Champa Street, Opp. Police Lines, Civil Lines, Ludhiana	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.8.1998	1922	
47309	Kaur, Gurpreet	D/O Sh. Avtar Singh	H.No. 173, Phase III-A, Mohali, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	22.6.1999	2046	
47310	Kaur, Gurpreet	D/O Sh. Narinder Singh	Bakhawar Engg. Works G.T. Road, Goraya, Distt. Jalandhar (Pb.)	- DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	4.2.2000	2208	
47311	Kaur, Gurpreet	D/O Sh. Charan Singh	H.No. 2326, Krishan Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	10.3.2000	2237	
47312	Kaur, Gurpreet	D/O Sh. Raghubir Singh	55-A, Model House, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	5.9.2000	2344	
47313	Kaur, Gurpreet	D/O Sh. Palwinder Singh	K.No. 1, Prabhu Simran Kendra, Chothi Jawadli, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	25.9.2000	2368	
47314	Kaur, Gurpreet	Sh. Ajit Singh	V.P.O. Rahon Mohalla Aranhali, Distt. Nawanshahr (Pb.)	BHMS	May-June 2003	BFUHS	Punjab	03.03.2005	2632	
47315	Kaur, Gurpreet	Sh. Baljinder Singh	3091, Sector -71, S.A.S. Mohali	BHMS	Nov-Dec 2003	BFUHS	Punjab	12.04.2005	2861	
47316	Kaur, Gurpreet	Sh. Jit Singh	H.No. 1605, St. 4, Guru Nanak Colony, Block-A Gill Canal, Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3054	
47317	Kaur, Gurpreet	Sh. Harnak Singh	H.No. 687-F, Punjab School Education Board Residence Complex Sector, 68, Mohali (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	09.04.2008	3199	
47318	Kaur, Gurpreet	Sh. Dalip Singh	H.No. 19819, Ait Road, St. No. 20, Bhatinda (Pb.)	BHMS	2008	BFUHS	Punjab	20.05.2008	3231	
47319	Kaur, Gurpreet	Sh. Baljeet Singh Thapar	H.No. 1742, Sector 32-A, Chd Road, Ludhiana (Pb.)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	30.05.2008	3236	
47320	Kaur, Gurpreet	Sh. Babu Ram	H.No. 260, Kamla Nehru Nagar, Bhatinda	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3053	
47321	Kaur, Gursharanjeet	D/O Sh. Harjinder Singh	VPO: Harsa Chhina (Sabaijpur) Teh. Anala, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	22/11/1993	1364	
47322	Kaur, Gursimrat pal	Sh. Pirthi Pal Singh	V.P.O. Khabba Rai Puttan, Via Mehta Chowk, Amritsar (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	16.10.1996	1663	
47323	Kaur, Gurveen	D/O Sh. Surjit Singh	H. No. 292-C, Rattan Nagar, Tripura, Distt Patiala (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	12/7/1995	1514	

47324	Kaur, Gurninder	Sh. Surjit Singh	V.P.O. Panjara, Via Anoha TEH. Garmshankar, Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	17.6.1998	1857	
47325	Kaur, Gurninder	Sh. Isher Singh	H.No. 181, Raja Garden, P.O. Basti Bawa, Jalandhar	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	03.01.2007	3083	
47326	Kaur, Gurwinder	Sh. Banta Singh	87/Ludhiana Near P.S.E.B Kohara Road, Sahnewal, Distt. Ludhiana	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	07.07.2005	2880	
47327	Kaur, Hardish	D/O Sh. Sunder Singh	H. No. 60, Link Colony, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	25/1995	1460	
47328	Kaur, Harinder	D/O Sh. Gurbax Singh	H.No. 19, Town Ludhiana(Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	11/5/1995	1474	
47329	Kaur, Harinder	Sh. Dilbagh Singh W/o P. S. Pandher Singh	2W No. 12 Opp. Town Hall Ahmedgarh (Sangur) Pb.	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	24.10.1996	1669	
47330	Kaur, Harinder	Sh. Darshan Singh	H.No. 257/3, Basti Sheikh, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.1.1998	1782	
47331	Kaur, Harjeet	D/O Sh. Sampuran Singh	C/O Mrs. Sawant Negi, I/O Thapar Guest House, Patiala (PB)	DHMS	1999	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	17.12.1998	2016	
47332	Kaur, Harjeet	Sh. Gurdial Singh	H.N.E.K.-202/8 Phagwara Gate Jalandhar.	BHMS	2002	BFUHS	Punjab	02.02.2006	2989	
47333	Kaur, Harjinder	Sh. Ajit Singh	Vill. Khajala, P.O. Tanikka, Teh. Baba Bakala Distt. Amritsar	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	01.09.2008	3267	
47334	Kaur, Harmanpreet	Sh. Ajit Singh	H.No. 270-A, Shastri Nagar Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	24/02/1997	1691	
47335	Kaur, Harmeen	D/O Sh. Surinderpal Singh	280. E-Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	15.3.2000	2238	BHMS Gr. Deg 2003 BFUHS
47336	Kaur, Harpeet	Sh. Harjeet Singh	6820, Count Road, Muktsar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.03.2001 16.05.2005	2489	
47337	Kaur, Harpinder	Lt. Sh. Ajit Singh	Vill. Singawal, PO Dina Nagar, TEH. & Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	7.1.1998	1769	
47338	Kaur, Harpinder	Sh. Ajit Singh	Panj Peer Nagar St. No. 5 Abohar Distt Ferozepur	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2871	
47339	Kaur, Harpreet	D/O Sh. Dula Singh	H. No. 144 Phase II Mohali Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	12/12/1988	1179	
47340	Kaur, Harpreet	Sh. Gurbachan Singh	Marwaha Niwas, 106, South Model Gram, Near Model Gram, Railway Station, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	24.2.1998	1798	
47341	Kaur, Harpreet	D/O Sh. Surinder Singh	353-D, B.R.S. Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	28.9.1998	1971	
47342	Kaur, Harpreet	D/O Sh. Nirmal Singh	Preet Bhawan, Kohara Road, Sahnewal, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	19.1.2000	2194	
47343	Kaur, Harpreet	D/O Sh. Naib Singh	V.P.O. Sohana, TEH. Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2413	

47344	Kaur, Harpreet	D/o Sh. Darshan Singh (Pb.)	V.P.O. Ghulal, TEH. Samrala, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2414
47345	Kaur, Harpreet	D/o Sh. Ragbir Singh	31-B, Sargodha Colony, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	24.1.2001	2434
47346	Kaur, Harpreet	Sh. Kashmir Singh	A-2432, Moh. Nanaksar, Tam Taran.	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	25.07.2001	2530
47347	Kaur, Harpreet	Sh. Nachattar Singh	V.P.O. Gharuan Teh, Kharar Distt. Ropar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3000
47348	Kaur, Harpreet Shailly	Sh. Daljit Singh	E-355, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.7.1998	1905
47349	Kaur, Harsharan	D/o Sh. Jaspal Singh	H.I.G. 203, Sec. 71, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.8.2000	2328
47350	Kaur, Harsimran	Sh. Ranbir Singh Chahal	B-34, 11342 Pavitar Nagar, Gori Market, Haibowal Kalan, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2943
47351	Kaur, Harveen	D/O Sh. Harcharan Singh	H.No. 209 Sector 16-A Chandigarh	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	12/12/1989	1178
47352	Kaur, Harvinder	Sh. Kuldeep Singh	H. No. H.M. 317, Jamalpur Colony Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	27/11/1995	1558
47353	Kaur, Inderjit	D/o Sh. Ajit Singh	#1005/2, Punjab Mala Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.5.2000	2244
47354	Kaur, Inderjit	Sh. Resham Singh	V.P.O. Sikri, Teh. Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Pb.)	D.H.M.S.	2001	CHSM Punjab	Punjab	28.08.2008	3264
47355	Kaur, Inderpal	Late. Sh. Ajit Singh	H.No. 90, Ajit Nagar, Sultanwind, Amritsar (Pb.)	DHMS	1997	WEST BENGAL	Punjab	24.03.2006	3014
47356	Kaur, Inderpreet	Sh. Baldev Singh	9712, M.S. Colony, Old Cantt, Patiala	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	09.04.2008	3201
47357	Kaur, Jagdeep	Sh. Mohinder Singh	H. No. 850-C Urban Estate Phase II, Focal Point Bhatinda (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	16/08/1996	1653
47358	Kaur, Jagdip	D/O Sh. Kartar Singh Sodhi	37-Raghubir Nagar, Patiala (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	27/05/1992	1290
47359	Kaur, Jagdish	D/O Sh. Balwant Singh	119/4-A, Punjab Mala Nagar, B-36, Pakhowal Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	26/05/1995	1486
47360	Kaur, Jagjit	D/O Sh. Gurdev Singh	H.No. 123, W.No. 7, Ram Piant Street, Mansa (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	4/2/1993	1334
47361	Kaur, Jagjit	D/o Sh. Jagdeep Singh	23-C, Gurdev Nagar, Behind Malhar Palace, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	18.8.1999	2115
47362	Kaur, Jagmeet	D/O Sh. Amrik Singh	165-1 Block, Bhai Randhir Nagar, Ludhiana (Pb.)	BHMS	1988	DELHI BOARD	Punjab	6/12/1993	1370
47363	Kaur, Jaginder	D/o Sh. Darbara Singh	468/8, Kakrawal Road, Dhuri, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	7.7.1999	2064
47364	Kaur, Jas	D/O Sh. Har Chand Singh	Vill. Bhokra P.O. Goniara Mandi Teh. & Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	27/06/1986	907

47365	Kaur, Jasmeet	D/o Sh. Surjit Singh	373, New Azad Nagar, Sultanwind Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	26.8.1999	2122	
47366	Kaur, Jasneel	Sh. Swaran Singh	VPO, Thakarewallah, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	06.07.2001	2524	
47367	Kaur, Jasvinder	D/o Sh. Dharama Singh	Vill Naina, P.O. Ugani, TEH, Rajpura, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	13.10.1998	1977	
47368	Kaur, Jaspreet	Sh. Zora Singh	Vill & P.O. Dhikwan Kalan Distt. Faridkot (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	02.04.2008	3187	
47369	Kaur, Jaspreet	Sh. Baldev Singh	H.No. 129, Aman Nagar, Near Bus Stand, Malout (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	03.04.2008	3191	
47370	Kaur, Jasvinder	Sh. Swinder Singh Anand	1) C-228, 11nd Floor, Vivek Vihar Delhi-110095. 2) A-42, Jhilmil Colony, Delhi-110055	LCEH	1985	Court of Examiners, Bombay	Bombay Board	7.4.86	13940	CCH-2610
47371	Kaur, Jasvinder	Sh. Sukhminder Singh	H.No. 115, Sec-71, Mohali	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	26.02.2004	2664	
47372	Kaur, Jasvir	D/o Sh. Balcar Singh	Mehal Mubarak Colony, Dhuri Road, Sangrur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	6.11.2000	2379	
47373	Kaur, Jasvinder	D/O Sh. Iqbal Singh	H.No. 59-C, Udhham Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	25/04/1995	1457	
47374	Kaur, Jasvinder	Sh. Chranjit Singh	Ashtal Near State Bank of India, H.No. B-47/06, Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	10.2.1998	1793	
47375	Kaur, Jasvinder	Sh. Rajinder Singh	3780/2 Jagjit Nagar Pakho Wai Road Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.05.2007	3104	
47376	Kaur, Jatinder	D/O Sh. Mahan Suingh	345 Model Town Hostiarpur (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	23/11/1987	1027	
47377	Kaur, Jatinder	W/O Sh. Jagpreet Singh Bahi	H.No. 132-B Model Town Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	16/07/1996	1609	
47378	Kaur, Jatinderpal	D/o Sh. Pritam Singh	H.No. 3364, Sec. 71, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	7.2.2000	2213	
47379	Kaur, Jawinder	Sh. Kulwant Singh	Dashmesh Colony, Cinema Road, PO Sunam, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	3.2.1998	1785	
47380	Kaur, Jinderjit	Sh. Gian Singh	H.N. 181, Giani Zail Singh Nagar, Ropar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	22.09.2005	2911	
47381	Kaur, Joginder	D/o Sh. Harbhajan Singh	K.No. 790, Phase 3 B-1, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	5.7.1999	2060	
47382	Kaur, Kamal Preet	D/O Sh. Kirpal Singh	37/10 Back Side Water Ward 1, Khanna, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	4/11/1992	1326	
47383	Kaur, Kamaljeet	Sh. Anokh Singh	Shaheed Udhham Singh Nagar, K.No. 60 Gali No. 3, Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	19.2.1998	1794	
47384	Kaur, Kamaljeet	D/o Sh. Gulzar Singh	V.P.O. Katani Kalan, TEH. & Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	6.1.2000	2183	

47385	Kaur, Kamaljit	Sh. Swaran Singh	Usha Dealer, Sikhon Mohalla, Suttanpur Lodhi Ndistt Kapurthala (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	13/03/1996	1583
47386	Kaur, Kamalpreet	Sh. Sawran Singh	K.No. 180, D-Block Ranjeet Avenue Amritsar (Pb.)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	05.04.2005	2859
47387	Kaur, Kanwaljit	D/o Sh. Harminder Singh	181, A-Shastri Nagar, P.O. Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2158
47388	Kaur, Kanwardip	Sh. Gurbax Singh	J-553/64, Bhai Randhir Singh Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	Dec-82	PUNJAB	Punjab	28.06.2007	3132
47389	Kaur, Karampreet	D/o Sh. Malkiat Singh	Villi. Dasaundha Singh Walia, P.O. Manki, TEH. Maierkotla, Distt. Sangrur.	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	15.9.1998	1959
47390	Kaur, Karmjeet	Sh. Bikker Singh	V.P.O. Daudhar Teh. Distt. Moga (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	16/07/1996	1610
47391	Kaur, Kavranchan	D/o Sh. Mohinder Singh	V.P.O. Chogawan, TEH. Ajnala, Distt. Amritsar (PB)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	1.2.1999	2015
47392	Kaur, Kawalpreet	Sh. Amrit Singh	Vishal Colony, H.No. 538/13, Gali No. 2, Patti, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	7.1.1998	1770
47393	Kaur, Kirandeep	D/O Sh. Teja Singh Bhullar	Street No. 11-Power House Road, Bhatinda (Pb.) 151001	DHMS	1982	PUNJAB	Punjab	11/9/1995	1532
47394	Kaur, Kirandeep	D/o Sh. Teja Singh	Power House Road, St. No 11, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1992	Punjab	Punjab	18.5.2000	2287
47395	Kaur, Kiranpreet	Sh. Hardial Singh	H.No. 147, Phase-VI, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	27.03.2003	2616
47396	Kaur, Kiranpreet	Sh. Sukhdev Singh	Noordi Bazar, Taran Taran	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3092
47397	Kaur, Kuldeep	D/O Sh. Anokh Singh	Guru Teg Bahadur Nagar Gali No. 4, Bhatinda (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	21/06/1995	1498
47398	Kaur, Kuldeep	Sh. Gurnant Singh	Kabul Shah Khuban, P.O. Khua Khara, Teh Fazilka, Distt. Ferozepur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3047
47399	Kaur, Kuljeet	D/o Sh. Rajinder Singh	Ajit Road, St. No. 11, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	30.3.1999	2025
47400	Kaur, Lakhwinder	Sh. Darshan Singh	#1834, Phase-V, Mohali	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	19.11.2003	2650
47401	Kaur, Manav Preet	D/o Sh. Gurbakash Singh	H.No. B02/524, Sandhu Nivas, Jandiala Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	8.12.2000	2401
47402	Kaur, Mandeep	D/o Sh. Dev Singh	Guru Kashi Nagar, Talwandi Sabo, Distt. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	29.8.2000	2338
47403	Kaur, Mandeep	D/o Sh. Udhham Singh	Villi. Walipur Kalan, PO Bhatia Dua, TEH. Jagroan, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	9.2.2001	2449
47404	Kaur, Mandeep	D/O Gurcharn Singh Bedi	V.P.O. Aur Distt. Nawar Shahar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	09.10.2001	2556
47405	Kaur, Mandeep	Sh. Khazan Singh	H.No. 2544, Phase-2, Urban Estate Patiala	BHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	30.04.2004	2689

47406	Kaur, Mandeep	Sh. Baldev Singh Thind	New Sharn Nagar, P.O. Bhai Randhir Singh Nagar, Block Ludhiana(Pb.)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	03.01.2005	2815	
47407	Kaur, Mandeep	Sh. Bhupinder Singh	Near Packa Darwaza Sahnewal Distt. Ludhiana	BHMS	2002	BFUHS	Punjab	07.07.2005	2882	
47408	Kaur, Mandeep	Sh. Sumnder Singh	Vill Mastgarh, P.O. Mullanpur, Tehs. Khara Distt. Mohali	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3076	
47409	Kaur, Mandeep	Sh. Kulwinder Singh	V.P.O. Behak Gujran, Teh. Zira, Distt. Ferozepur(Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	26.03.2008	3173	
47410	Kaur, Mandeep	Sh. Kabul Singh	H.No. B-565, Preet Colony, Tam Taran	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	26.03.2008	3175	
47411	Kaur, Mangarjit	D/O Sh. Sudarshan Singh	E.H. 190, Civil Lines, Jalandhar City (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	8/5/1993	1470	
47412	Kaur, Maninder	Sh. Jasmeel Singh	161/2 G-Atam Nagar, Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	20.11.2004	2803	
47413	Kaur, Maninder Jeet	D/O Sh. Iqbal Singh Virk W/O Sh. Charan Jeev Singh Kaur	3-C Model Town Paliola (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	25/01/1991	1234	
47414	Kaur, Maninderjit	Sh. Charanjit Singh Ahtawalia	F-180, Rose Avenue, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1882	
47415	Kaur, Maninderjit	D/O Sh. Harbans Singh	V.P.O. Bhuneheri, TEH. & Distt. Paliola (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	30.7.1999	2095	
47416	Kaur, Manjeet	Sh. Gurdial Singh	Ward No. 4, Patti, Distt. Amritsar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	15.03.2004	2474	
47417	Kaur, Manjeet	Sh. Jagmali Singh	K.No. 584, Phase-I, S.A.S Nagar Mohali	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2870	
47418	Kaur, Manjinder	D/O Sh. Charanjit Singh Sandhu	H.No. 4321-A, Gali No. 3, Ranjit Pura, Puliagar, Amritsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	6.3.2000	2233	
47419	Kaur, Manjinder Pal	Sh. Parmjeet Singh	V.P.O. Rahon, Mohalla Tellan Di Ganti Near Gurdwara Singh Sabha Teh & Distt. Nawanshahr(Pb.)	BHMS	May - June 2003	BFUHS	Punjab	03.03.2005	2831	
47420	Kaur, Manjit	Sh. Harbhajan Singh	043, Old Jawahar Nagar, Ladwall Road, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	31.12.1997	1768	
47421	Kaur, Manjit	D/O Sh. Harbhajan Singh	Street Old Post Office, Near Nirmal Palace, Sujanpur, TEH. Pathankot (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.9.2000	2357	
47422	Kaur, Manmeet	D/O Sh. Amarjit Singh Bagga	H.M. 561, Phase 7, Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	1.2.2001	2440	
47423	Kaur, Manpreet	Sh. Nirmal Singh Bhellar	Patti Assung, H.No. 425, Moga (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.8.1998	1924	
47424	Kaur, Manpreet	D/O Sh. Piara Singh	Vill. Lal Kalan, P.O. Kubba, TEH. Samrala, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	11.9.1998	1951	
47425	Kaur, Manpreet	Sh. Pritpal Singh	H.No. 84, Kichlu Nagar Ludhiana	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	05.03.2001	2458	BHMS Gr. Deg. May - June 2003 BFUHS
47426	Kaur, Manpreet	Sh. Gurdial Singh	Street No Abohar, Distt Ferozpur	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	22.03.2001 02.12.2008	2487	

47427	Kaur, Manpreet Sh. Amarjit Singh	Jullhar Nagar Near Grewal Chowk Malankotta Distt. Sangrur(Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	01.01.2003 02.02.2006	2573	BHMS Gr. Deg. 2004 BFHS
47428	Kaur, Manpreet Sh. Sukhdev Singh	Vill. Multanwal P.O. Batala Distt. Gurdaspur	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	07.07.2005	2886	
47429	Kaur, Manpreet Sh. Sukhjot Singh	Homeo pharmacy O/S Bus Stand Batala Distt. Gurdaspur	BHMS	May - June 2004	BFUHS	Punjab	09.11.2005	2964	
47430	Kaur, Manpreet Sh. W/O Sh. Bhupinder Singh	C/O Harbhajan Singh Manager Sheri Darbar Sahib, Sheri Amritsar Sahib(Pb.)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3130	
47431	Kaur, Manwinder	V.P.O. Chhapar, TEH & Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	28.9.1998	1988	
47432	Kaur, Mukhtiar Sh. Parkash Singh	Vill. Shekhpur, P.O. Bela, Tehs. Chamkaur Sahib, Distt. Ropar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3073	
47433	Kaur, Narinder D/o Sh. Dalbir Singh	V.P.O. Tnohian, TEH. Baba Bakala, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	3.5.2000	2257	
47434	Kaur, Narinder Sh. Amar Singh	H.No. 1888, Gill Road, Moga	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	25.08.2003	2644	
47435	Kaur, Navdeep D/O Dh. Sham Sher Singh	H. No. 993, Punjab Mala Nagar, Pakrowal Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	8/6/1995	1492	
47436	Kaur, Navdeep Sh. Didar Singh	H.No. 3582, Sector-60, S.A.S. Nagar Mohali	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2875	
47437	Kaur, Navdeep Sh. Labh Singh	H.No. 14796, St. No. 7/4, Adarsh Nagar, Bhatinda(Pb.)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	20.05.2008	3232	
47438	Kaur, Navjeet D/o Sh. Jagdish Singh	C/o Sh. Avtar Singh, K.No. 622, Phase III-B-I, Mohali (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.10.1998	1988	
47439	Kaur, Navjeet D/o Sh. Sarjit Singh	V.P.O. Ghulial, TEH. Samrala, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.8.1999	2132	
47440	Kaur, Navjit Sh. Manjit Singh	Dukh Nivaran Homoeo Clinic, Preet Vihar Chowk Meeran Court Khreabad Road Amritsar	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3072	
47441	Kaur, Navjot Sh. Sukhdev Singh	31, Indira Colony, Opp. Mini Secretariate, Hoshiarpur	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2945	
47442	Kaur, Navkiran Sh. Niranjan Singh	H.No. 1665, St. No. 1, Adarsh Nagar Court Road, Baranali(Pb.)	BHMS	May - June 2006	BFUHS	Punjab	12.09.2007	3151	
47443	Kaur, Navneet D/o Sh. Nirmok Singh	Vill. Grewal, TEH. & Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	4.7.2000	2284	
47444	Kaur, Navneet D/o Sh. Baldev Singh	H.No. B-XX 3293, Gurdev Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2419	
47445	Kaur, Navneet Sh. Naminder Singh	H.No. 2726/A, Gandhi Nagar Banga Distt. Nawanshahar (Pb.)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	30.05.2008	3240	
47446	Kaur, Neeru Preet Sh. Sawinder Singh	G.No. 3B, Opp. SOM Court, Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	4.6.1998	1850	

47447	Kaur, Nirmaldeep	sh. Kuldeep Singh	Moh. Dimond Avenue Majitha Road P.O. Khanna Nagar Amritsar (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	19.10.2001	2560
47448	Kaur, Nupinder	Sh. Hem Raj Singh	H.No. 321, Guru Teg Bahadur Sector 70, Mohali (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1906
47449	Kaur, Paramdeep	Sh. Jaswant Singh	# 2369, Phase 10, Mohali	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	03.07.2007	2457
47450	Kaur, Paramdeep	Sh. Pripal Singh	H.No. 483, B-Xix, Pali Nivas Raj Guru Street Civil Lines Ludhiana (Pb.)	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	19.06.2007	3122
47451	Kaur, Paramjeet	Sh. Harbans Singh	H.No. 6076, St. No. 2, Daba Road, Simla Puri, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1891
47452	Kaur, Paramjeet	Priyam Singh	H.No. 6392, Street No. 6, Hargobind Nagar, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2950
47453	Kaur, Paramjit	Sh. Balwant Singh	VPO, Malasian Nakodar Distt Jalandhar	DMS	Jun-80	WEST BENGAL CALCUTTA	Punjab	24.01.2001	2490
47454	Kaur, Pardeep	D/o Sh. Darshan Singh	Patli, Abu Ki, V.P.O. Rauba, TEH. & Distt Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	23.9.1999	2139
47455	Kaur, Pardeep	D/o Sh. Bhajan Singh	Vill. Mehal Khurd, PO Mehal Kalan, TEH. Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	17.10.2000	2372
47456	Kaur, Parminder	Sh. Tarlok Singh	14-Satguru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1913
47457	Kaur, Parminder	D/o Sh. Rattan Singh	18, Bhawan Nagar, Gali Gurdwara, Majitha Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	20.7.1999	2073
47458	Kaur, Parminder	D/o Sh. Amarjit Singh	V.P.O. Fatehgarh Korotang, TEH. & Distt. Moga (Pb.)	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2418
47459	Kaur, Parminder	Sh. Tara Singh	VPO, Sherpur Dona Teh. Sultanpur Lodhi Distt Kapurthala	D.H.M.S	1999	PUNJAB	Punjab	09.05.2001	2503
47460	Kaur, Parminder	Sh. Surinder Singh	51-R, Gopal Nagar Gurukul Road Bathinda	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	31.01.2006	2980
47461	Kaur, Parminder	Sh. Saranjeet Singh	H.No. 2040/1, Sec-47-C, Chandigarh	BHMS	Nov - Dec 2004	BFUHS	Punjab	17.04.2006	3017
47462	Kaur, Parmjit	Sh. Munsha Singh	V.P.O. Tibba Tehs. Sultanpur Lodhi Distt Kapurthala (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	07.02.2002	2585
47463	Kaur, Parveen	Sh. Parminder Singh	Gandhi Nagar, Ferozepur City (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	3.9.1998	1941
47464	Kaur, Parvez	D/o Sh. Inderjit Singh	B-36, H.No. 407, Sunet Road, Punjab Malita Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	30.9.1999	2141
47465	Kaur, Parvinder	Sh. Amrit Pal Singh	G-91, Green Park Colony, Sirhind Road, Patiala (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	30/01/1996	1577
47466	Kaur, Parvinder	Sh. Gajinder Singh	H.No. 572-A, Ranjit Avenue Amritsar (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	26/06/1996	1600
47467	Kaur, Parvinder	Sh. Kirpal Singh	H.No. 870 St. No. 1, Chowk 6th Abohar	DHMS	1982	PUNJAB	Punjab	07.12.2005	2972

47468	Kaur, Parvinder	Sh. Pri Pal Singh	H.No. 539/136, Gali No. 7, Gobind Nagar, Basti Jadhewal Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	13.10.2006	3066
47469	Kaur, Parvinder	Sh. Bhupinder Singh	No. 34-B, Sargodha Colony Near Pakhowal Road, Ludhiana(Pb.)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	15.05.2008	3220
47470	Kaur, Parvinder Paul	Sh. Mannohan Singh	Moh. Behallew Wala, Sirhind, Distt Patiala (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	31/05/1990	1205
47471	Kaur, Pavnit	Sh. Satwant Singh	H.No. 290, Phase II, SAS NAGAR, Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	2.12.1997	1747
47472	Kaur, Poonam Preet	D/o Sh. Daljit Singh	Kothi No. 1, Damind Ali Majitha Road Bye Pass, Amritsar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	13.9.1999	2131
47473	Kaur, Prabhjot	D/O Sh. Amarjit Singh	H.No. 296, Sector 15-A, Chandigarh (U.T.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	5/4/1988	1056
47474	Kaur, Prabhjot	D/O Sh. Charanjit Singh	E.S.130, Makhlum Pura, Jalandhar (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	17/07/1995	1516
47475	Kaur, Prabhjot	Sh. Balbir Singh	96, Charan Bagh, Patiala	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	11.05.2001	2506
47476	Kaur, Prabhjot	Sh. Harjinder Singh	St. No. 4, Osho Ashyenvad Green Avenue, Opp. Krishna Farms Fardkot(Pb)	BHMS	May - June 2006	BFUHS	Punjab	30.08.2007	3145
47477	Kaur, Preetinderjit	D/o Sh. Waryam Singh	H.No. 239, Street No. 5, Nirmal Nagar, Durgri, PO Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	27.4.1999	2029
47478	Kaur, Preetinderjit	Sh. Inderjit Singh	19-B, Gobind Colony, Rajpura Town, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.5.1998	1849
47479	Kaur, Rajbir	D/o Sh. Avtar Singh	H.No. B-1/1229, Street No. 4, Kabir Nagar, Near D.A.V. College, Jalandhar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	20.10.2000	2377
47480	Kaur, Rajdeep	D/o Sh. Ajmer Singh	V.P.O. Bhadaur, TEH. Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	31.1.2001	2442
47481	Kaur, Rajinder	D/O Sh. Hamek Singh	Vili Purba, P.O. Bagali Kalan, Teh. Samrala, Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	14/3/1995	1444
47482	Kaur, Rajinder	Sh. Joginder Singh	V.P.O. Rahton, Moh. Ghatti Tullan, Teh & Distt. Nawanshahr	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	09.11.2005	2961
47483	Kaur, Rajinder	Sh. Hardev Singh	Village Dhamouli P.O. Rajpura Distt. Patiala	BHMS	2002	BFUHS	Punjab	02.02.2006	2990
47484	Kaur, Rajinder	Sh. Darshan Singh	Royal Homoeo Pharmacy, Gill Road, Dashmesh Nagar, Near Scooter Market, Ludhiana	BHMS	Nov - Dec 2006	BFUHS	Punjab	27.11.2008	3286
47485	Kaur, Rajinderbir	D/O Sh. Kashmir Singh	C/O Satish And Ish(P) Ltd. Sama, P.O. Malikpur, Teh. Patankot Distt Gurdaspur (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	25/10/1994	1414
47486	Kaur, Rajneesh	Sh. Shingara Singh	262 Opp P.S.E.B. Kailpur Road Mullapur, Distt. Ludhiana.	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	08.09.2005	2908

47487	Kaur, Rajneet	Sh. Surinder Singh	H.No. 14804, Bhagwan Nagar Market Maliganj, Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	03.01.2007	3081
47488	Kaur, Rajwinder	Sh. Girdheep Singh	V.P.O. Gholia Kalan, Teh Bagha Purana, Distt. Moga	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2959
47489	Kaur, Rajwinder	Sh. Bakwinder Singh	Near Dera Angla, Tapa Distt. Barnala(Pb.)	BHMS	Nov - Dec 2006	BFUHS	Punjab	26.08.2008	3259
47490	Kaur, Rakwinder	D/o Sh. Kawajjit Singh	No. 741, Phase IV, Mohali, TEH. Khara, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.11.2000	2397
47491	Kaur, Ramandeep	Sh. Harpal Singh	HJ 717 Housing Board Colony B Rs. Nagar Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3007
47492	Kaur, Ramandeep	Sh. Jasdev Singh	H.No. 92, New Raj Guru Nagar P.O. Threokay, Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	26.09.2006	3064
47493	Kaur, Raminderjit	D/o Sh. Rattan Singh	V.P.O. Umar, TEH. Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	4.12.1998	1997
47494	Kaur, Ranjeet	D/O Sh. Joginder Singh	H. No. 189173 House Red, Phase X, S.A.S. Nagar, Mohali(Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	4/7/1995	1506
47495	Kaur, Rattan Deep	Sh. Haminder Singh	H.No. 181-A, Shastri Nagar, Model Town, Ludhiana(Pb.)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	30.05.2008	3237
47496	Kaur, Ravinder	D/O Sh. Gurcharan Singh	General Drug House, Cinema Road, Marisa Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	23/11/1987	1026
47497	Kaur, Ravinder	Sh. Joginder Singh	H-321, Jamalpur Colony, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	27.7.1998	1904
47498	Kaur, Ravinderpal	Sh. Sukha Singh	H.No. 186, M.C.Road, Banur Distt. Patiala(Pb.)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	18.08.2006	3249
47499	Kaur, Ravneet	Sh. Surjan Singh	Hira Mahal Colony, Near White House Nabha, Distt. Patiala	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	04.04.2003	2621
47500	Kaur, Ravneet	Sh. Surinder Mohan Singh	H.No. 971, Phase-XI, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	11.07.2003	2642
47501	Kaur, Ripandeep	Sh. Jagjit Singh Barar	Sudhar, P.O. KC, Sudhar, TEH. Rakot, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	25.7.1998	1929
47502	Kaur, Roopinder	D/o Sh. Takhat Singh	45, Sri Nivas Colony, Fassy Road, Patiala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	4.5.2000	2255
47503	Kaur, Rupinder	Sh. Jagmail Singh	H. No. 1748/16 Shakti Nagar, Gali No. 4 Kacha Malik Road Jagraon, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	8/1/1996	1570
47504	Kaur, Rupinder	D/o Sh. Chiranjiv Singh	Dogar Basti, H.No. B-XI, Faridkot (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	22.6.1999	2049
47505	Kaur, Rupinder	D/o Sh. Avtar Singh	H.No. 56, Street No. 1A/3, Guru Nanak Nagar, Patiala (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	27.7.1999	2090
47506	Kaur, Rupinder	D/o Sh. Darshan Singh	Kohti No. 441, Phase I, Mohali (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2422
47507	Kaur, Rupinderjit	Sh. Jang Singh Gill	Vill. Falaund Kalan, P.O. Bhogwal, TEH. Maierkotia Distt. Sangur (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	28.8.1998	1934

47508	Kaur, Rupinderjit	D/o Sh. Darshan Singh Sandhu	V.P.O. Bahaminiwala, TEH. Patti, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	20.5.1999	2030	
47509	Kaur, Rupinderpreet	D/o Sh. Mann Singh Sandhu	H.No. 540, St. No. 7, Sunder Nagri, Abohar, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2155	
47510	Kaur, Sandeep	W/o Sh. Anvinder Singh	H.No. 1459, Halibowal Kalan, Rajindra Street, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	1.10.1996	1658	
47511	Kaur, Sandeep	D/o Sh. Sukhna Singh	H.No. 1347-G, Guru Teg Bahadur Complex, Sec. 70, Mohali, Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	17.2.2000	2223	
47512	Kaur, Sandeep	D/o Sh. Santokh Singh	E-108, Ranjeet Ave. Civil Lines, Amritsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	29.8.2000	2337	
47513	Kaur, Sandeep	D/o Sh. Santa Singh	Third Hospital, Moga Road, Shahkot, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	6.12.2000	2398	
47514	Kaur, Sandeep	D/o Sh. Avtar Singh Pahwa	H.No. 1768, Phase 7, Mohali, TEH. Khairat, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2424	
47515	Kaur, Sanyog Deep	D/O Sh. Pritam Singh	44 Professors Colony Agar Nagar-1, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	16/03/1995	1449	
47516	Kaur, Sarbjit Kaur Alias Swarnjit	Sh. Niranjan Singh	Chinese Accpunt Centre & Homeopathic Centre Sd 135, Phase 7 Mohali Teh. Khairat Distt Ropar (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFARPUR	Punjab	22/11/1995	1554	
47517	Kaur, Sarbjit	D/o Mannmohan Singh	353-R, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2154	
47518	Kaur, Sarbjit	D/O Sh. P. S. Chhabra	B-213, Model Town Extension Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	5/4/1989	1150	
47519	Kaur, Sarbjit	D/O Sh. Harpal Singh	Vill Mianpur, P.O. Mianpur, Distt Ropar(Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	28/02/1995	1433	
47520	Kaur, Sarbjit	D/O Sh. Rollu Singh	74-Narotum Nagar Khanna Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	14/03/1995	1446	
47521	Kaur, Sarbjit	Sh. Baljit Singh	C/O. Studio Movie Mahal, Railway Road Doraha Teh Payal, Distt. Ludhiana	BHMS	Nov - Dec 2006	BFUHS	Punjab	28.08.2008	3263	
47522	Kaur, Sarupjit	D/o Sh. Shabeg Singh	Vill. Makhu, TEH. Zeera, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	24.8.1999	2120	
47523	Kaur, Sarvdeep	D/O Sh. Amar Singh	H.No. 2835, Phase-7, S.A.S. Nagar Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	26/2/1993	1346	
47524	Kaur, Sarvjeet	D/O Sh. Sukhdev Singh	C/O T.S. Kular(P.C.S.) S.D.M. Bhatalinda (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	8/5/1995	1467	
47525	Kaur, Satbir	D/O Sh. Darshan Singh	Vill Bhuro Postage Sleem Tabri-34, Teh. & Distt Ludhiana (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	2/2/1993	1333	
47526	Kaur, Satinder	D/o Sh. Gurbachan Singh	Nanakar Gali, Major Singh Ubo Ke Wali, Tam Taran, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.7.1999	2083	
47527	Kaur, Satinder	D/o Sh. Amarjit Singh	C/o Harjit Book Depot, Main Road, Banga, Distt. Nawanshahar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	11.4.2000	2245	

47528	Kaur, Sahnani	Sh. Harbans Singh	V.P.O. Kairon, Patti, Distt. Amritsar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	13.03.2001 14.09.2005	2469	BHMS Gr Deg. May June 2004 BFUHS
47529	Kaur, Salpal Kaur Alias Ms Simarpreet	D/O Sh. M.S. Pannu	H. No. 1048 Phase 3bii, S.A.S Nagar Mohali, Teh. Kharar Distt Ropar (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	8/1/1996	1569	
47530	Kaur, Salwinder	Sh. Kantar Singh	Mullan Pur Mandi Sant Nursing Home P.O. Mullanpur Dakha Distt. Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.05.2007	3106	
47531	Kaur, Sharanjeet	Sh. Baljeet Singh	V.P.O. Zaffarwal Distt Gurdasspur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3001	
47532	Kaur, Sharanjit	Sh. Gurtej Singh	K.No. 186, Hira Singh Nagar, Kotakpura, Distt. Ferozkot	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	17.04.2006	3022	
47533	Kaur, Sharanjit	Sh. Harjinder Singh	Adarsh Nagar St. 7, Goniana Road Bathinda	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3101	
47534	Kaur, Sharmbir	D/O Sh. Harbhajan Singh	Guru Mehar Polary Farm Saler, Patiala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	25.7.2000	2311	
47535	Kaur, Shavinder Pal	Sh. Har Chand Singh	Vill. Bhokra P.O. Goniana Mandi Teh. & Distt. Bathinda (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	27/1986	908	
47536	Kaur, Shubh Preet	Sh. Santh Singh	V.P.O. Fatehbad Khadoor Sahib Distt Amritsar	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	30.05.2001	2512	
47537	Kaur, Simar Deep	Sh. Kulbir Singh	H.No. 1914-A/18, Gopal Nagar, Gali No.1, Majitha Road, Amritsar	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	22.03.2001	2486	
47538	Kaur, Simarjit	Sh. Surjit Singh	Mandi Road Guru Bazar Sultanpur Lodhi Distt Kapurthala	D.H.M.S.	1999	PUNJAB	Punjab	09.05.2001 16.05.2003	2504	BHMS Gr Deg. Nov-Dec 2003 BFUHS
47539	Kaur, Simarjit	Sh. Tarvinder Singh	H.No. 2133, Type-II, Dmiv Colony Patiala(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	24.03.2008	3172	
47540	Kaur, Simerjeet	Sh. Maluk Singh	H.No. 333, St. No. 3 New Suraj Nagar, Aboar Distt. Ferozepur	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	04.12.2003 14.09.2005	2654	BHMS Gr Deg. 2003 BFUHS
47541	Kaur, Simranjit	D/O Sh. Devinder Singh	5, Sangam Market, Opp. TEH.sit, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	25.10.1999	2161	
47542	Kaur, Sonpal	Sh. Karam Singh	Mattu House St. No. 19, Ajit Road, Bathinda	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	26.08.2006	3061	
47543	Kaur, Sukhbir	Lata. Sh. Rajinder Singh	3487, Bahadur Nagar S.W. Road, Amritsar	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	27/08/1996	1638	
47544	Kaur, Sukhdeep	Sh. Hamek Singh	V.P.O. Chakian Teh. Morinda Distt Ropar(Pb)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2868	
47545	Kaur, Sukhjeet	D/O Sh. Baldev Singh	V.P.O. Dehar Fatpur, Teh. Batala, Distt Gurdaspur(Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	11/9/1995	1531	
47546	Kaur, Sukhjeet	Sh. Harjit Singh	H.No. 3084, Sector-50-D, B.J. Enclave Chandigarh	BHMS	Dec-06	Punjab University Chd.	Punjab	03.12.2008	3288	
47547	Kaur, Sukhjet	D/O Sh. Tarlochan Singh	2163/13, Ch. Mana Singh, Golden Temple, Amritsar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	21.11.2000	2396	

	Kaur, Sukhjinder	Sh. Balwant Singh	H.No. 10/2 St. No. 4 Fard Nagar, Jodhpur Basti, Ludhiana	DHMS	2002	CHSM , Punjab	Punjab	30.04.2004 29.06.2006	BHMS Gr. Deg. 2005 BFUHS
47548	Kaur, Sukhjinder	D/o Sh. Balwant Singh	B-5/136, Ganga Singh Nagar, Jandiala Road, Tam Tarn (Amritsar)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	2072	
47549	Kaur, Sukhjinder	Sh. Joginder Singh	H. No. 153, New Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	1611	
47550	Kaur, Sukhjinder	D/O Sh. Krishan Partap Singh	2 Bhagat Singh Colony, Feroze Pur City(Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	1385	
47551	Kaur, Sukhjinder	D/O Sh. Balwant Singh	V.P.O Kattian Walidholi Teh. Malout, Distt. Faridkot (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	1472	
47552	Kaur, Sukhjinder	D/O Sh. Balbir Singh	V.P.O. Uggoke Teh. Barnala Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	1175	
47553	Kaur, Sukhjinder	Sh. Gopal Singh	35-A, Inder Nagar, Opp Milk Plant, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	1928	
47554	Kaur, Suman Deep	Sh. Jagmail Singh	V.P.O Pakhowal, Teh Raikot, Distt: Ludhiana(Pb)	BHMS	2008	BFUHS	Punjab	3238	
47555	Kaur, Sumandeep	D/o Sh.Ajinder Singh	Vill Mehta, P.O Mehta Chowk, TEH. Baba Bakala, Distt. Amritsar (PB)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	2019	
47556	Kaur, Sumeet	Sh. Harjit Singh Anand	H.No. 3445, Sec 71, Mohali, Tej Khara, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	1846	
47557	Kaur, Surinder	D/O Sh. Jaspal Singh	H.No. 775 Phase-IV Mohali Teh. Khara Distt. Ropar(Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	869	
47558	Kaur, Surinder	Sh. Shingara Singh	H.No. B.S. 37/42, Inside Banai Gate, Ferozepur City (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	1676	
47559	Kaur, Sunjeet	Sh. Avtar Singh	H.No. 318-C Model Town, Extn. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	1823	
47560	Kaur, Talwinder	Sh. Manjit Singh	H.No. 907, MIG, Jamsapur Colony, P.O. Jamsapur, Ludhiana(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	3176	
47561	Kaur, Taranjit	Sh. Arjinder Singh	3-A, Guru Nanak Nagar, Model Town, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	1804	
47562	Kaur, Tejinder	Sh. Jasbir Singh	321-A, Model Town Ext. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	1796	
47563	Kaur, Tejinder	D/o Sh. Harbens Singh	H.No. 78, Hera Singh Road, Ghumar Mandi, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	2175	
47564	Kaur, Tejinder	D/o Sh. Ranjit Singh	B-XX-1130, Gurdev Nagar, Ludhiana (Pb.)	D.H.M.S.	1979	PUNJAB	Punjab	2282	
47565	Kaur, Tripat	D/o Sh. Jatinder Singh	Panser House, Machhiwara Road, Samrala, Distt. Ludhiana (PB)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	2022	
47566	Kaur, Harneerat	D/o Sh. Pritam Singh	Takia Rahim Shah, O.P. Barnala, Distt. Barnala (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	2205	

47568	Kaur, Varinder Pal	Sh. Kuldeep Singh	H.No. 15/93, Street No. 3 Shri Chander Colony Road Tarn Taran (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	9FUHS	Punjab	03.04.2008	3190	
47569	Kaur, Vandertail	Sh. Parmjit Singh	11 Bhansingh Colony Fardkot	DHMS	1996	PUNJAB-3	Punjab	20.7.1998	1888	
47570	Kaur, Vikram Jit	Sh. Sukhminder Singh	H.No. HM 91, SAS Nagar Mohali, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	15.6.1998	1855	
47571	Kaur, Vishavjit	D/o Sh. Shabag Singh	V.P.O. Makhu, Near Railway Station, Teh. Zira, Distt. Ferozpur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.9.2000	2351	
47572	Kausha Rajneesh Kumar	Sh. P. C. Kaushal	Flat No.10, Block No. 8, housing Board Colony, Sapruon Solan.	BHMS	2008	Baba Fand Univ of H. Sc. Fardkot (Pb.)	H.P.	22.04.08	185-A	
47573	Kaushal Kamini	Sh. Chaman Lal	1) H.No. 64, Sharma Endave, Loligarh Road, Zirakpur, Dist. Mohali (Punjab) 2) H.No. GF-62, C/o K.C. Mittal, Nivadita kunj, R.K. Puram, Sec-10, New Delhi 110022	BHMS	2008	Punjab University	Punjab Council Chandigarh.	9.5.08	OO3214-A	CCH-2668
47574	Kaushal, Rajesh	Sh. Raghu Nath Rai	Q.No. 40, Gate No. 3, P.A.P. Lines, Jalandhar Cantt. (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	2.2.2000	2201	
47575	Kaushal, Rohini	Sh. Subhash Sharma	H.No. 4349, B-1, Sham Nagar, Rajpura Distt. Patiala(Pb.)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	20.05.2008	3244	
47576	Kaushal, Vikas	Sh. Vijay Kaushal	C/o Naresh Pura Mohalla, Bassi Pathanam Distt. FaTEHgarh Sahib (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	13.1.2000	2189	
47577	Kaushik Mahesh Chand	Niwaran Chand Kaushik	# 2217/14 Jawahar Colony Air Force Road NIT Fardabad	DHMS	Aug-82	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	14.11.94	5807-A	
47578	Kaushik Sanjay Kumar	Krishan Chander Sharma	Sharma Hospital Uklana Mandi Hissar	DHMS	Aug-87	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	25.06.90	5535-A	
47579	Kaushik Satyendra	Sh. D. P. Sharma	425- Kalewa Nagar, New Sanganer Road, City-Jaipur Distt. Jaipur (Raj.)	BHMS	May, 2007	Raj. University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5117	
47580	Kavita	Sh. Ved Parkash Dudeja	H.No. 1312, Sector -70, Mohali	BHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	02.06.2004	2699	
47581	Kavita	Sh. Sohan Lal Juneja	659 - Vinoba Basti, City- Sri Ganganagar Distt. Sri Ganganagar (Raj.)	DHMS	1993	Coun. Of Homoeo. Sy. Of Med. Chdr.	Rajasthan	9.03.2012	5200	
47582	Kawatra, Harish	Sh. Priyam Lal Kawatra	H.No. 2052 Ambedkar Nagar Samrala Raod Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.05.2001	2510	
47583	Kenthottal Provakaran		Rowrah Health Clinic Nela Tirunelveli, P.O. Jorhat 785005 Distt. Jorhat, Assam	D.H.M.S	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.03.98	329	

47594	Khanlari Deva Narayan	Sh. Nimai Choudhan Khamrui	Vill-Dupani Gaon P.O.-Nilai Pukhuri Dist-Sivasagar, Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.08.98	407			
47585	Khamrui Nikhil	Sh. Nimai Choudhan Khamrui	Vill & P.O. Mansuka, Dist Midnapur (w)	BHMS	2006	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	9.3.07	26578			CCH-2650
47586	Khan Abdul Awal		C/O-Abdul Kudduch Khan Vill-Nagapara P.O.-Fakirgang 783330 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.08.2001	810			
47587	Khan Asma	Sh. Sabir Ali Khan	C/o Sayed Ragique Ahmed House No.54 Mohalia Chiragan City-Udaipur Dist-Udaipur	BHMS	May, 2006	Barkatulla University, Bhopal	Rajasthan	27.05.2008	5022			
47588	Khan Forman Ali		Vill-Tukrapur P.O.-Tukrapur 781137 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.09.2002	859			
47589	Khan Najir Ahmed		Vill-Khalimati P.O.-Lakwa Dist- Sibsagar, Assam	D.H.M.S.	1977	Bihar University	Assam	28.03.80	50			
47590	Khan Sabah	Sh. Abdul salim Khan	126, Ganesh Nagar (Paheda) Union Road, Pipal street Opp Mahavir Thesis, City-Udaipur Dist-Udaipur (Raj.)	BHMS	Jan, 2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5064			
47591	Khan Sahajan Ali		Vill-Jahurpam P.O.-Jahurpam 781314 Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.02.2002	844			
47592	Khan Sahjahan Ali		Vill-Kawaimari Block No.12 P.O.-Naligaon 781352 Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.04.2002	847			
47593	Khandel Wal Phiyanka	Sh. R.C. Khandel wal	431 -A, Talwandi City-Kota Dist- Kota	BHMS	Jan 2006	JRNRAJ D. University Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4870			
47594	Khandel Wal Yogesh	Sh. D.R. Khandel Wal	2-Kh-8 Kamla Nehru Nagar, Ajmer Road, City Jaipur, Dist Jaipur	BHMS	July, 2006	Raj University	Rajasthan	4.02.2008	4993			
47595	Khandel wal Anjana	Sh. R.C. Khandel Wal	C/o DR/ Kamal Khandelwal 69/A Kirti Nagar, Tonk Road, City- Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	Jan, 2006	Bharati Vidyapeeth, Pune	Rajasthan	6.10.2008	5080			
47596	Khandelwal Praveen	Sh. Ramesh Chand Khandelwal	F-129, Swaraj Path, ramnagar, EXT. Sodala City- Jaipur Dist- Jaipur (Raj.)	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5112			

47597	Khandewal Rameshwar Dutt	Badiu Ram	1) 339/20 Kailash Nagar, Colony Sadhopur RD. Opp. ITI Sonapat 2) Homoeo Clinic Opp Model Town, PO -8 Marla, Sonapat Chandigarh	DHMS	Oct-74	Bihar State Board Of Homoeo. Med. Patna	Haryana	28.01.1998	5659-A
47598	Khandewal, Nancy	Sh. Vinod Kumar Khardeval	H.No. 3525, Sector 35-D, Chandigarh	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	18.3.1997	1695
47599	Khanna Umesh Kant	Inder Sain Khanna	1) 1026/11 Professor Colony, Dhand Road, Kaithal 2) Khanna Homoeo. Clinic T.H. Road Near Old Subzi Mandi Kaithal	DHMS	1973	Bihar State Board Of Homoeo. Med. Patna	Haryana	28.04.93	5581-A
47600	Khanna, Anita	Sh. Ashok Kumar	H.No. 737 Subash Nagar Dutt Road Moga	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2919
47601	Khanna, Amna	D/o Sh. Ashok Kumar Khanna	H.No. 39-C, New Lal Kothi Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	7.8.2000	2312
47602	Khanna, Ashu	K C Khanna	H.No. 187, Sector-18 Panchkula	DHMS	1989	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab	Haryana	27.05.1991	5543-A
47603	Khanna, Marnia	D/o Sh. M.L. Khanna W/o Sh. Amit Malhotra (Pb.)	Getwal Homoeo Dispensary, Gait No. 6 Patel Nagar, Abohar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	25.11.1998	1994
47604	Khanna, Vikram	Sh. Inder Pal Khanna	New Subash Nagar H.No. 11473, St.No. 10, Basti Jodhewal Ludhiana(Pb)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	26.02.2002	2591
47605	Khanum Rumi Rafiamani		Nayanpur, Ganeshguni Dispur, Guwahati-6	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.10.01	485
47606	Kharbada, Hardeep Kumar	Sh. Alma Swarup Kharbada	H. No. H.E.41, Phase 1, Mohali, Distt Ropar (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	7/12/1990	1222
47607	Khatoon Samira		Relax Aids Old Circuit House Road P.O.+Dist- Jorhat-1, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.10.86	201
47608	Khatrri Jaidev	Sh. Ram Chand Gyanani	38/336, Rajat Path, Mansarovar City, Jaipur Dist. Jaipur (Raj.)	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	5.03.2009	5196
47609	Khosla, Anshoo	D/O Sh. Ved Parkash Khosla	H.No. 123/15 Mohalla Mata Rani, Near Jeeta Singh Tubwell, Teh. Khanna, Distt Ludhiana(Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	4/9/1992	1317
47610	Khosla, Nisha	Sh. Amrit Lal Khosla	C/O Sh. Chana Singh H.No. 143 Sec.20-A Chandigarh	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	02.02.2006	2993

47611	Khound Ajoy Kumar	Vill - Dergaon, Khoundpur P.O.-Dergaon, 786614, Dist.-Golaghat, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.2005	912	
47612	Khullar, Shweta	Mohalla Jattan Wala, Vig Street, Zirra Distt. Ferozepur.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	31.01.2006	2987	
47613	Khungar Anjana	42 F Block City / Dist - S'n Ganganagar.	BHMS	May, 2005	Baba Farid University, Pb	Rajasthan	22.0.2007	4838	
47614	Khurana, Jalinder	H.No. 400, B-XII, Street Hamam Dass Jail Road Field Ganj, Ludhiana	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	18/04/1996	1590	
47615	Khurana, Preeti	H.No. 762, Sector 7, Panchkula (Hr.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	17.7.1998	1873	
47616	Khushipreet Aujla	H.No. 41, Phase VI, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	14.7.1998	1867	
47617	Kiriti Lal	Dr. K. Sandal, Sandal Homoeopathic Clinic, Cemite Bazar, Kartar Pur, Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	10/11/1994	1420	
47618	Kiriti Lal Sandal	V&P O.Dara, Amb, Una	DHMS	1991	Punjab Homoeo council	H.P.	11.09.02	129-A	
47619	Kiran Bala	99/ A New Colony, Patwal	BHMS (GDC)	Dec-03	Baba Farid University Fardkot	Haryana	16.04.08	5818-A	
47620	Kochar, Vimal	Mandi Kesri Singhpura Teh. Karanpur Distt. Ganga Nagar (Rajasthan)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	4/9/1987	988	
47621	Kohli, Archana	H.No. B-36-264, Vikas Nagar Model Town Ludhiana(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	30.05.2008	3242	
47622	Kohli, Harcharan Singh	32-A, Basant Avenue Amritsar (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	2/9/1996	1643	
47623	Kohli, Puneet Kumar	Pindi Street Ludhiana (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	9/1/1989	1105	
47624	Kohli, Seema	H.No. 11070 Santosh Nagar Halbowal Kanan, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	31.01.2006	2983	
47625	Kokoti Girindra	Kinlabar Majuli P.O.- Kamalabari Distt-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.01.87	204	
47626	Kokoti Himangshu Kumar	Vill-Khatrapia Battan P.O.- Chamata Distt Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.08.2002	852	
47627	Konwar Ruchi	Bangapukhuri West Nall - Jorhat P.O. + Dist - Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.08-84	79	

47628	Konwar Sangma	Vill-Nilai Pukhuri Teachers Colony P.O. Nilai Pukhuri 785671 Dist-Sivsagar Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	07.10.06	950	
47629	Kopruva Balin	Vill-Rajban Gaon P.O. - Barhola Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.07.98	394	
47630	Kothari Mireesh	Sh. Goverdhan Kothari 192, Mohan Colony, City-Banswara Dist- Banswara	BHMS	Sep 2005	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4861	
47631	Koti, Sonika	Sh. Hari Chand Koti H.No. HL-195, Phase II, Mohali, TEH. Kharar, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.8.1998	1932	
47632	Krishnan Baldev	Sh. Chanan Ram C/O Kamboj Nursing Home Near Old Biji Ghar Jalalabad(West) Distt Ferozpur (Pb)	DHMS	Jun-87	BIHAR UNIV. MUZAFFARPUR	Punjab	20.12.2001	2572	
47633	Kritika	Sh. Ashok Kumar Sharma 74, Hariom Nagar, EXT. City- Jodhpur. Dist- Jodhpur	BHMS	Jan.2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4897	
47634	Kudduch Abdul	C/O-Md. Rushan Ali Vill-Jelena gaon P.O.-Nali Gaon Dist-Borpela, Assam	B.H.M.S	Dec-05	Dibrugarh University	Assam	21.02.07	1000	
47635	Kukar, Deepak Kumar	Sh. Vishwa Nath Kukar H.No. 2455 Co-Operative Bank Fazilka Distt. Ferozepur (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	1/12/1988	1089	
47636	Kukar, Parul	Sh. Umesh Chand H.No. 544 Ravindere Marg Fazilka Distt. Ferozepur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2922	
47637	Kukereja, Lokesh Kumar	Sh. Krishan Lal Kukereja H.No.K-169, Shivatik Nagar B.H.E.L. P.O. Ranipur Teh. Distt. Hardwar	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	8/12/1995	1559	
47638	Kuldip Raj	Sh. Tilak Raj Mohalla Seenpura, Kapurthala(Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	24/07/1995	1518	
47639	Kuljit Singh	Sh. Davinder Singh V.P.O. Mukandpur, TEH. Banga, Distt. Nawanshahr (Pb.)	DHMS	1986	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	17.11.1997	1731	
47640	Kulratdeep	D/o Sh. Gulzar Singh Vill. Tibba, P.O. Tibba, TEH. Sultanpur Lodhi, Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	26.5.1999	2033	
47641	Kumar, Mukesh	Sh. Mohan Lal Vill. & Post Netewalia City-Sri Ganga Nagar, Distt. Sri Ganga Nagar	BHMS	Nov 2005	Raj University	Rajasthan	21.04.2008	5016	
47642	Kumar, Cholendra	Sh. Dharamveer Sharma H.NO 717, Krishna Puri, Muzaffar Nagar -251001 (U.P.)	B.H.M.S.	2005	Baba Farid University H. Sciences, Faridkot, Punjab	U.P. Board Lucknow	12.7.07	28024	CCH-2589
47643	Kumar Puja	Sh. B.S. Kumar 1) HIG-200, Sector-72, Mohali -160071, 2) House No C-14, South Extn Part-I, New Delhi,	BHMS	2007	Punjab Council Chandigarh	Punjab Council	11.9.07	3150-A	CCH-2644

47644	Kumar Rajeev	Sh. Manohar Lal	K.C. Road Barnala (Pb)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	08.02.2002	2588	
47645	Kumar Amarendra		Lowkhoo Road P.O., Halbargaon Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Jul-89	Bihar University	Assam	04.07.88	111	
47646	Kumar Anil	Sh. Baldev Singh	V.P.O. Chadiyar, Baljnah Kangra	BHMS	1993	Rajasthan Homoeo Board	H.P.	01.03.96	88-A	
47647	Kumar Avnish	Sh. Ranjit Singh	V.P.O. Badnagar, Teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur.	BHMS	2005	Baba Farid Univ. (of H. Sc. Fandkot (Pb)	H.P.	01.11.06	167-A	
47648	Kumar Bhuvaneshwar		Viji-Balsatra P.O.-Balsatra Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.03.98	563	
47649	Kumar Brij Bhushan	Sh. H.C. Kumar	1-A, Ugar Road, Dohradun	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	07.08.1985	808	
47650	Kumar Devinder	Sh. Sudama Ram	Sharma homoeo Clinic Shanti Bhawan, Summer Hill, Shimla-5	BHMS	2005	University of Calcutta (W.B)	H.P.	20.02.07	170-A	
47651	Kumar Lalit	Shiv Charan Goyal	1)Privati Gali, Goyal Industries, G.T.Road Patwal 2) Shop NO-26 Sector-7 Faridabad	DHMS	Mar, 1987	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	18.12.1989	5528-A	
47652	Kumar Naveen	Sri Ganesh Modi	C/o. Dr. A. K. Nirala, Naya Gaon, D.D.T. Road, Jamsalpur, Munger B)Modi Tola Al P.O. PS. Amarpur, Dist. Banka, Bihar-813101	B.H.M.S.	2008	B.B.A. Bihar University	Bihar Board	1.4.08	28517	CCH -2596
47653	Kumar Pramod	Sh. Jagdish Singh	At Suggi, P.O. Unga, P.S. Madanpur, Dist. Aurangabad, -824208	BHMS	2007	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta Bihar Board	17.4.07 9.5.07	26608 28195	CCH -2640
47654	Kumar Sanjay	Sh. M. K. Verma	1)Ex-3, 49-D, Shatabdi Vihar, sec-52, Noida, (U.P.) 2) Sumitra Hospital, Sec- 35, Noida, U.P.	BHMS	2007	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Karnataka Board	4.12.07	-A-9235	CCH -2680
47655	Kumar Sushil	Sh. R.K. Sharma	147, Ward No. 10, Ram Nagar, Hamirpur. Plot No. 72, Jagmath puri, Kalwar Road, Jhotwar City- Jaipur Dist- Jaipur	DHMS	1999	Punjab Homoeo council	H.P.	7.11.01	122-A	
47656	Kumar Vishal	Sh. Ashok Kumar	65- Poonam Vihar Colony, Jagatpura City- Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	2005	Agra University	Rajasthan	23.05.2008	5019	
47657	Kumar Vivekanand	Sh. S.N. Mandal	H.No. 168, Green Park, Near Bus Stand, Jalandhar City (Pb)	BHMS	Dec. 1988	University of Calcutta	Rajasthan	26.08.2008	5071	
47658	Kumar, Vijay	Sh. Anant Ram	H. No. 43, Topkhana, Opp Ucha Vohra, Near Anardana Chowk, Patiala (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	19/11/1983	1362	
47659	Kumar, Adhar	Sh. Manohar Lal		DHMS	1982	PUNJAB	Punjab	26/5/1995	1483	

47660	Kumar, Anil	Sh. Vindo Kumar	38-A, Moti Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	11.10.1999	2146	
47661	Kumar, Anil	S/O Sh. Ved Parkash	H. No. 2536 Mohalla Avdhan Near Phool Chakkar, Ropar (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	21/12/1987	1038	
47662	Kumar, Anil	S/O Sh. Ram Pal	C/O M/S Deepak Electronics, Opp. Sunil Teh. Atr Abhar, Teh. Fazilka, Distt. Ferozepur (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	17/08/1988	1073	
47663	Kumar, Anil	Sh. Ganesh Lal	Near Kundan Place, Abohar, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	10.3.2000	2272	
47664	Kumar, Anil	Sh. Brij Pal Singh	C/O Sh. Lakhbeer Chand Manan, Gali No. 2 Sh. Chandra Colony, Near Bajwa Art Press, Ten Taran	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3049	
47665	Kumar, Arvind	L. Sh. G.P. Dass Malhotra	12-D Nimbua Bala, Dehradun (U.P.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	19/04/1989	1152	
47666	Kumar, Arvind	Sh. Tarsem Lal	P.O. Lambra, Teh. & Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	16.3.2000	2240	
47667	Kumar, Ashok	S/O Sh. Madan Gopal	H. No. 1309/6 Sewak Pura Kalsian Road, Ludhiana (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	3/9/1987	986	
47668	Kumar, Ashok	Sh. Dharam Chand	Near Mansa Devi Temple Satnampura Distt. Kapurthala (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	14/02/1989	1111	
47669	Kumar, Ashok	Sh. Sat Pal	H. No. 176 New Town-3 Distt. Moga Distt. Faridkot (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	13/05/1992	1284	
47670	Kumar, Ashok	Sh. Bai Mukand	V.P.O. Joughen, Teh. Raikot, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	29.9.1998	1973	
47671	Kumar, Ashutosh	Sh. B.C. Pal Sharma	22-B, Dashmesh Nagar, Pattala (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	20/04/1993	1348	
47672	Kumar, Ashwani	Sh. Om Prakash	H. No. 635, Near Sabzi Mandi, Jalandhar west, Tehs. Fazilka, Distt. Ferozepur	DHMS	Dec. 1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	14.11.1985	849	
47673	Kumar, Ashwani	S/O Sh. Madan Lal	V.P.O. Shahpur, Teh. Phillaur Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	10/8/1987	983	
47674	Kumar, Baljit	Sh. Ram Chand	Bazar Kulan Moh. Bahadurpur Hoshiarpur (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	28/10/1986	942	
47675	Kumar, Balwinder	Sh. Dharam Pal Rattan	By Vill Bhadrul Thuha P.O. Amloh Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	14/02/1989	1113	
47676	Kumar, Balwinder	Sh. Brij Lal	H. No. 2632/71, Street No. 12 Dashmesh Nagar Ludhiana	D.H.M.S.	2000	PUNJAB	Punjab	22.06.2001 Nov - Dec 2003	2521	BHMS Gr. Deg. Nov - Dec 2003 BFUHS
47677	Kumar, Beant	Sh. Nohar Chand	H. No. 236, Mahantra Wali Gali, Jawahra Road, Mansa Distt. Bhatinda (Pb)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	29/08/1990	1213	

47678	Kumar, Brijnesh	Sh. Ram Lal Nangia	5196, Urban Estate, Phase-2, Patiala (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	25/06/1992	1304	
47679	Kumar, Deepak	Sh. Varinder Kumar	Shanti Homoeo Medical Centre Kumbra, Sector 68, Mohali (Pb)	BHMS	2006	Punjab University Chd.	Punjab	01.08.2008	3266	
47680	Kumar, Gulbahar	Sh. Kulwant Rai	Vill. Neelion Kalan P.O. Ghulal Teh. Samrala, Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	10/2/1989	1109	
47681	Kumar, Harish	L. Sh. Kewal Krishan	H.No. 6142, St. No. 21, Nawab Kori, Amritsar (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	15/09/1988	1081	
47682	Kumar, Harish	Sh. Om Parkash	H.No. 90 Phase-7, Mohali Teh. Kharar Distt. Ropar	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	21/02/1989	1125	
47683	Kumar, Harmesh	S/O Paras Ram	Near Malout Gate Mandi Harji Ram Teh. Muktsar Distt. Faridkot (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	13/08/1987	984	
47684	Kumar, Harsh	Sh. Laxmi Narain	H. No. 1036, Rajpura Town Ship, Rajpura Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	20/01/1989	1106	
47685	Kumar, Hitesh	Sh. Hans Raj	413-A, Gopal Nagar, Majitha Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1885	
47686	Kumar, Jagseer	Sh. Maghi Ram	Railway Street, V.P.O. Tapa, TEH Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.9.1998	1967	
47687	Kumar, Jatinder	Amar Lal	Satguru Homoeo. Home, Itakkar Basti, Fatehabad (Haryana)	BHMS	Jun-93	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	28.10.1996	5635-A	
47688	Kumar, Krishan	Sh. C.L. Sharma	V.P.O. Mubarkpur Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala No. 3911 Pt. Jai Dayal	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	20.03.2003	2610	
47689	Kumar, Kuldeep	Sh. Sunder Kumar	Street Muktsar Fandkot (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	5/4/1989	1151	
47690	Kumar, Manoj	Sh. Ram Chand	85, Tipri Town, Patiala (Punjab)	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	31.05.1985	797	
47691	Kumar, Manoj	Sh. Kuklip Lal	No. 1667-Lt Sector 3, T/T Ship Hoshiarpur (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	8/1/1996	1571	
47692	Kumar, Manoj	Sh. Om Parkash	C/O Amar Nath Madan Lal Karyana Marohant, Near Grain Market, Khanna Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	13/03/1996	1585	
47693	Kumar, Meenakshi	Sh. Subhash Chander Kumar	M/S Sheri Ganesh Engg. Company Railway Road Phagwara, Distt. Kapurthala	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3005	
47694	Kumar, Mukesh	Sh. Krishan Kumar	B.I.V.S. 1753 Purana Bazar Ludhiana (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	18/6/1986	905	
47695	Kumar, Naresh	Sh. Kulwant Rai	Yograj Pharmacy, Sadar Bazar, Dhanaula, Distt. Barnala	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	10.07.1985	800	
47696	Kumar, Naresh	Sh. Jaswant Rai	Vill. Chak Swaran Nath, P.O. Chhandran, Distt. Ludhiana	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	13.09.1985	834	
47697	Kumar, Naresh	Sh. Harbans Dev D/O Sh. Jagah Das	H.No. Na 115 Kishanpura Jalandhar City (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	17/02/1989	1121	

47698	Kumar, Naresh	Sh. Ved Parkash	Anaj Mandi Road, Dhuri, Teh. Dhuri, Distt Sangrur (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	24/07/1995	1521
47699	Kumar, Narinder	Sh. Prem Nath	Near Geeta Bhawan, Tapa Mondi Distt Sangrur (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	16/03/1995	1471
47700	Kumar, Naveen	Sh. R.S. Nag	Dr. Batra Posive Health Clinic S.O. 45-46 Sector-8-C, Chandigarh	BHMS	2002	B.R.A. UNI. AGRA	Punjab	15.09.2008	3272
47701	Kumar, Pankaj	Sh. Anant Ram	Dutti Road, Behind Kalidhar Gurudwara, Moga (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	17.11.1999	2172
47702	Kumar, Pardeep	Sh. Surinder Kumar Jain	Mohalla Bruchran, Near Istri Sat Sant, Nawar Shahr V.P.O. Jodhan, Police Station Mansuran, Teh. & Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	1/10/1996	1654
47703	Kumar, Pardeep	Sh. Om Prakash	Vill & P.O. Denlon, Teh. & Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	7.5.1998	1848
47704	Kumar, Pardeep	Sh. Nasib Chand	H.No. 125, Ward No 2, Samrala, Distt Ludhiana (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY MUZAFARPUR	Punjab	13.9.2000	2382
47705	Kumar, Parjeet	Sh. Shyam Sunder	Gali No 9, Snadhi Road, Khanna 147401 Distt Ludhiana (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	26/03/1987	975
47706	Kumar, Parminder	Sh. Ram Rattam	Gautam Bahwan, Pai Gate, Pundri Teh. Kailthal Distt Kurukshetra (Haryana)	DHMS	1986-89	PUNJAB	Punjab	6/8/1991	1261
47707	Kumar, Parmod	Sh. Om Parkash	Kaimpura Bazar Ludhiana	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	4/11/1987	1016
47708	Kumar, Parmod	Sh. Manmohan Kumar	H.No. 501, Neem Wala Chowk Near Subhani Building, Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.05.2005	2869
47709	Kumar, Pawan	Sh. Telu Ram	Singla Electronics Near Railway Station Bucho Mandi Distt. Bhatinda (Pb.)	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3003
47710	Kumar, Praveen	Sh. Mulkh Raj	H. No. 2009/12 Gali Nareh, Khan Katra Khagana, Amritsar (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	10/11/1986	948
47711	Kumar, Pushpinder	Sh. Dhan Paul Singh	H. No. 1585, Nai Abadi, Teh. Abohar Distt Ferozepur (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	15/09/1992	1322
47712	Kumar, Rajesh	S/O Sh. Haqiqat Rai	H.No. D/A 533 Indira Colony Pathankot Distt Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	21/06/1995	1502
47713	Kumar, Rajesh	S/O Sh. Rattan Chand	V.P.O. Dorangla, Teh. & Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	29/09/1987	1006
47714	Kumar, Rajesh	Sh. J.P. Kashyap	H. No. 19, Bank Colony, Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	1/7/1988	1067
47715	Kumar, Rajesh	Sh. Gian Chand	H.No. 3527/1, St. No. 9, Chet Singh Nagar, Gill Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	17/08/1994	1394
47716	Kumar, Rajesh	Sh. Satish Kumar	H.No. 1472, Street No.3 Bhagwan Nagar Dholewal Chowk Ludhiana	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	12.8.1999	2113
47717	Kumar, Rajesh	Sh. Satish Kumar	H.No. 1472, Street No.3 Bhagwan Nagar Dholewal Chowk Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2624

47738	Kumar, Rohas	Sh. Kashmiri Lal	H.No. 952 BXI Fateh, Ganj Samrala Road Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	1/12/1988	1092	
47739	Kumar, Sandeep	Sh. Jas Pal	V.P.O. Mullian Wali Teh. Kherabad Road Amritsar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2921	
47740	Kumar, Sandeep	Sh. Bijendra Singh	Gali No.2 Sri Chandra Colony, Near Bajwa Art Press, Chabbal Road, Taran Tam	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3042	
47741	Kumar, Sandip	Sh. Sunderpal	H. No. 1590, Simla Puri, Street No 6, Gill Road, Ludhiana(Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	26/05/1995	1488	
47742	Kumar, Sanjay	Sh. Om Parkash	H.No. 502, W.No. 15, Bank Colony, Behind Lady Hospital, Khanna, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	2.2.2000	2202	
47743	Kumar, Sanjeev	Sh. Sushil Kumar	V.P.O. Baghpur, Teh. & Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	24/04/1989	1156	
47744	Kumar, Sanjeev	Sh. Lal Chand Sharma	VPO Chudani Kalan, Teh. Khanna Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	2/4/1992	1273	
47745	Kumar, Sanjeev	Sh. Sal Paul Bansal	10, Circular Road, Abohar, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1879	
47746	Kumar, Sanjeev	Sh. Buli Ram	Arp Homoeopathic Clinic And Maternity Hospital Ram Bagh Road Barnala.	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	08.08.2002	2601	
47747	Kumar, Satish	Sh. Vir Chand	C/O Rajan Saw Mills. Akasur Road Moga Distt. Faridkot (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	10/11/1986	949	
47748	Kumar, Satish	S/O Sh. Tarlok Nath	H.No. 318 Sector 35-A Chandigarh	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	13/02/1989	1120	
47749	Kumar, Satish	Sh. Keshva Anand	H. No. 120, Mohalla Chalotra, P. O. Banga Teh. Nawanshahar, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	10/11/1994	1419	
47750	Kumar, Shaiv	Sh. Jagan Nath	H.No. 88, Tilak Nagar, Gidderbaha, TEH. Muktsar, Distt. Faridkot (Pb.)	DHMS	1991	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	21.4.1997	1701	
47751	Kumar, Sukhdev	Sh. Tek Chand Sharma	Purana Bazar, Kotlapura, Distt. Faridkot (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	10/11/1994	1421	
47752	Kumar, Sunil	Sh. Prem Parkash	8397, Lakkar Bazar, Moh. Gawala, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	30.5.1997	1709	
47753	Kumar, Sunil	Sh. Ved Parkash Verma	3-College Road, Fawara Chowk, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	2.4.1998	1819	
47754	Kumar, Sunil	Sh. Inder Kumar	H.No. 20771, Shripun, Jullian Wali Gali, Mali, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	30.4.1998	1832	
47755	Kumar, Suresh	Sh. Kashi Nath	H.No.82, Ziraipur, TEH Kharar,Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	4.9.1998	1940	
47756	Kumar, Sushil	Sh. Pa:shotam Dass Jain	V.P.O. Bhikhi Teh Mansa Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	23/01/1986	862	

47718	Kumar, Rajesh	Sh. Prem Nath	Vill. Sidhwan P.O. Noor Mahal Teh. Phillour & Distt. Jalandhar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	17.04.2006	3020	
47719	Kumar, Rajinder	Sh. Kashmin Lal Saluja City (Pb)	Rajan Clinic Basti Dandimandan Jalandhar City (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	3/2/1989	1108	
47720	Kumar, Rajinder	Sh. Milkhi Ram	St. No. 10 Nai Abadi Last Chowk, Abotah Distt. Ferozepur	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	13/03/1996	1586	
47721	Kumar, Rajinder	Sh. Kasturi Lal	H.No. 1, G.T.B Nagar Nakodar Distt. Jalandhar	D.H.M.S.	1999	PUNJAB	Punjab	12.04.2001 27.08.08	2501	BHMS Gr. Deg May - June 2003 BFUHS
47722	Kumar, Rajinder	Sh. Kewal Krishan	V.P.O. Bt. Pind Teh. Nakodar Distt. Jalandhar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2940	
47723	Kumar, Rajiv	Sh. Mohan Lal	H.No. 1611-A, Sector-35-B, Chandigarh	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	26.07.1985	802	
47724	Kumar, Rajnish	Sh. Partap Chand	H.No. B-6/59, Satgur Nagar, Nawanshahar (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	6.11.1996	1672	
47725	Kumar, Rakesh	Rej Kumar	418, Pharian Street, Bhadra Bazar, Sirsa, 1250	BHMS (G.D.C.)	June 2004	Baba Farid University Fardkot	Haryana	30.03.2006	5755-A	
47726	Kumar, Rakesh	S/O Sh. Vishuddhya Nand Upadhyay	Vill. Bhandaro P.O. Jagatbela, Teh. Sadar Distt. Gorakhpur (U.P.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	3/12/1987	1033	
47727	Kumar, Rakesh	S/O Sh. Behani Lal	Ward No. 4 Opp Durga Mandir Gaddar Baba Teh. Muktsar Distt. Fardkot (Pb.) - 152101	DHMS	Jun-87	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR.	Punjab	26/02/1990	1195	
47728	Kumar, Rakesh	Sh. Surinder Pal	H.No. 556, Kot Alamgir, Jail Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	5.11.1996	1673	
47729	Kumar, Rakesh	Sh. Madan Lal	14-D, Thermal Colony, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	20.4.2000	2248	
47730	Kumar, Rakesh	Sh. Raj Kumar	C/o Parshotam Dass, Old Suraj Nagar St. No. 4, Abotah Distt. Ferozepur (Pb)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	6.2.2001	2445	
47731	Kumar, Rakesh	Sh. Hans Raj Hans	1614 Phase-7, Mohali (Pb)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	04.01.2002	2574	
47732	Kumar, Ramesh	S/O Sh. Salig Ram	H.No. 5111 Samadrigate Manimajra Chandigarh	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	28/09/1987	1004	
47733	Kumar, Ramesh	S/O Sh. Pallu Ram	Secretary Fruit Store Opp. New Bus Stand Kalkapura Distt. Fardkot	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	16/02/1989	1117	
47734	Kumar, Ranbir	Sh. Prem Parkash	V.P.O. Sowadali Kalan Teh. Jagraon Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	31/01/1986	865	
47735	Kumar, Ravinder	S/O Sh. Devi Sharan	Moh Thara V.P.O. Tibber Distt. Gurdaspur (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	10/11/1986	946	
47736	Kumar, Rejneesh	Sh. Santokh Raj	K.No. 1541, Phase-V, Mohak, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	4.9.1998	1938	
47737	Kumar, Rjneesh	Sh. Harbans Lal	H.No. 1026, New Model House, Jalandhar City (Pb)	BHMS	Nov-Dec 2005	BFUHS	Punjab	28.03.2008	3183	

		Sah Dev Singh	1) 893 Sector 23 Sonapat. 276, Adarsh Nagar, Near Gandhi Chowk, Sonapat	DHMS	Jan, 1988	State Homoeopathic Council M.P. (Bhopal)	Haryana	3.01.2006	5743-A	
47757	Kumar, Tejendra									
47758	Kumar, Umesh	Sh. Vialati Ram	H.No. BXIX 362 Hiras Singh Road Near Ghumar Mandi Ludhiana (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	26/11/1986	954	
47759	Kumar, Vijay	Sh. Sai Krishan	Nanak Nagri H.No. 1, Abohar Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	21/12/1987	1040	
47760	Kumar, Vijay	Sh. Nagar Mal	V.P.O. Ghalata Teh. Pathankot Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	22/12/1988	1099	
47761	Kumar, Vijay	Sh. Tarsem Lal	B-X/900 Santokh Pura Hoshiarpur Road Jalandhar (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFARPUR	Punjab	15/11/1995	1551	
47762	Kumar, Vijay	Sh. Ram Chand	Janseva Homoeo Dispansary V.P.O. Kaleke, Distt Barnala	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2925	
47763	Kumar, Viney	Sh. Hans Raj	176, Railway Road Bhogpur Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	7/4/1986	884	
47764	Kumar, Vinod	Sh. Hans Raj	H. No. 11, ward No 7, Dhuri, Tekhs. Malerkotla, Distt. Sangrur	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	13.08.1985	817	
47765	Kumar, Vinod	Sh. Sunder Dass	Anand Clinic, New Deep Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	29/06/1988	1065	
47766	Kumar, Vinod	Sh. Sukh Lal	29-D Model Town Near Radha Krishna Mandir, Patiala(Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	22/11/1993	1366	
47767	Kumar, Vinod	Sh. Prabh Dayal	Zirakpur, PO Sohana, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	10.2.1988	1792	
47768	Kumar, Vinod	Sh. Sukhdev	H.No. 722, Phase-IV, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	25.03.2003	2615	
47769	Kumar, Vinod	Sh. Seeki Nandan	V.P.O. Kakra, Tehs & Distt. Sangrur	DHMS	1981	CHSM Punjab	Punjab	04.12.2008	3290	
47770	Kumar, Vivek	Sh. Raj Kumar	Near Rani Jhasi Chowk, Raikot Road, TEH. Jagraon, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	15.12.1997	1751	
47771	Kumar, Yadvinder	Sh. Shivi Ram	Street No. 3 Near Ganga Oil Mill, Mansa (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	26.03.2008	3177	
47772	Kumar, Yogesh	Sh. Sat Pal Sharma	741/B, Guru Nanak Colony, Patti, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAE	Punjab	23.7.1999	2086	
47773	Kumar,Yatindr a	Sh. Girver Singh	Saggu Market, Shop No.26, Opp. Pindori Hospital Mulianapora, Teh. Dakhia Distt. Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3079	
47774	Kumari Suchitra	Mr. B.N. San	Sec-VI -A Qtr No. 3412, B.S. City, Jharkhand - 827006	BHMS	2007	University of Burdwan	W.B. Council Calcutta	10.9.07	26786	CCH -2663
47775	Kumari Manju		C/O:A.D.E.O. Kuru Kumel Camp Ziro Arunachal Pradesh	B.H.M.S	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	12.10.06	957	

47776	Kumari, Asha (Maiden Name)	D/O Sh. Anand Kumar W/O Sh. U.K. Khanna	E-H 221, Ladowali Road Jalandhar City 144001(Pb.)	BMS	1979	Kanpur University	Punjab	2/4/1992	1276	
47777	Kumari, Kalpana	Sh. Jaswant Lal	H.No. 54, Avtar Nagar Threeke Chowk Ferozepur Road Ludhiana.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2917	
47778	Kumari, Kiran	D/O Sh. Joginder Pal	H. No. 22 Mohalla No 14, Sadar Bazar, Jalandhar Cantt. (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	14/12/1990	1225	
47779	Kumari, Meena	Sh. Raj Kapoor	Mohalla Arfe Wala, 13/45, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	1.1.1997	1678	
47780	Kumari, Meena	Sh. Madan Lal Bhardwaj	H.No. 61/74, Sheedhan Road Mahipur, Tehs. Garshankar Distt. Hoshiarpur	DHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	17.06.2004	2723	
47781	Kumari, Parveen	D/O Sh. Lekh Raj	C/o Kamboj Nursing Home, Shaheed Udam Singh Marg, Jalandhar, FZR (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	31.1.2000	2436	
47782	Kumari, Rajesh	Lt. Sh. Diwan Chand	C/o Dr. H.R. Kapoor, 163, Model Town, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	19.02.1998	1803	
47783	Kumari, Reena	D/O Sh. Kanwar Iqbal Singh	H. No. 102, Green Park, Jalandhar City (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	15/09/1994	1410	
47784	Kumari, Sarita	D/O Sh. Manohar Lal	C/O Chief Pharmacist Civil Hospital Zira, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	15/05/1986	894	
47785	Kumari, Savita	Sh. Avinash Chander	Mohalla Kumra Cottage, Old Hospital, Krishan Nagar, Kapurthala	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	2.1.1997	1683	
47786	Kumari, Veena	Sh. Paras Ram	Moh. Panasarian W No 10, Garshankar, Distt Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	1/10/1996	1656	
47787	Kumawat Kapil Kumar	Sh. Laxmi Narayan Kumawat	40- Mitra Colony, Ram Nagar, Sodala, City-Jaipur Distt. Jaipur	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5098	
47788	Kumawat Arvind Kumar	Sh. Ram Chandra Kumawat	V & P - Hingonia City- Jobner Distt. Jaipur.	BHMS	July 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	10.12.2007	4972	
47789	Kumra, Jagmohan	Sh. Madan Kishore Kumra	Kumra Cottage Old Hospital Teh. & Distt Kapurthala (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	13/03/1996	1584	
47790	Kundra, Sonia	Sh. Ulfat Rai Kundra	H.No. 1118, Phase-III B-II/ S.A.S Nagar Mohali Teh. Khair Distt Ropar (Pb.)	D.H.M.S.	1995	PUNJAB	Punjab	20/08/1996	1625	
47791	Kundu Ambika Kundu	Sh. Amulya Ratan Kundu	430, P.K. Guha Road, Dum Dum Cantt. Kolkata -700028	BHMS	2003	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	28.7.03	25081	CCH -2632
47792	Kundu Bikash		M. Azad Road P.O. +Distt- Nagaon Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.11.84	98	

47783	Kupur, Marwein Pynkthaw	Sh. Parmanent Stone Syiem	a) Upper Lansonallane Jaiaw, 3rd St. Joseph Dispensary Shillong - 793001, East Khasi Hills b) C/o Principal NEHMC & H Vivek Vihar, Itanagar.	BHMS	8.07.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	13.08.2008	87		
47784	Kushah Jalius H. Heston		Lundemthing Shillong P.O. Shillong 793021 Meghalaya	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	17.04.85	130		
47785	Labana Naresh Kumar Deepak Kumar	Sh. Labana Deepak Kumar	Manisha Clinic, Infant of Herohonda Show room City, Sajjangam, Dist- Baraswara.	BHMS	April, 2002	Saurashtra University,	2.07.2007	4843		
47786	Ladar Vinu	W/o Rajinder Ladare	A-74 Avas Vikas Colony Old Near Shiva ji Park Delhi Road Saharanpur (U.P.)	BHMS	Dec 2004	Baba Farid University, Faridkot.	6.10.2006	5771-A		
47787	Ladha Anju	Sh. P.K. Ladha	E-28, Bank Colony, Murpura Scheme, City - Jaipur Dist- Jaipur.	BHMS	May, 2007	University of Raj Jaipur,	15.12.2008	5162		
47788	Lahakar Pulak		Vita-Piambur Hat Balaji P.O., Pitambar Hat Balaji (Rangia) Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Aug-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	28.09.2001	817		
47789	Lahoti Vishal	Sh. Suresh Chandra Lahoti	Hatai Mohalla, VPO- Kuraj, City-Rajsamand Dist- Rajsamand	BHMS	Jan, 2007	JRNKV, University, Udaipur	26.07.2008	5053		
47800	Lakhaj Desai Dhiraaj	Sh. Desai Lakhaj	Gurat Hospital, Bhatkada Road, City- Sirohi Dist- Sirohi,	BHMS	Aug 2004	HNGU Patan (GT)	18.12.2008	5167		
47801	Lakhanpal Rajeev	Sh. H.L. Sharma	V&P O Ambota, Teh Amb, Distt. Una, C/o Ramkumar Godara, Near New Water Tank Subedar's Well City- Sardarshahar Dist- Churu, (Raj.)	BHMS (Graded Degree)	2000	Punjab Homoeo council	15.06.01	118-A		
47802	Lakshmi Dara	Sh. M.R. Chaudhary	C/o Ramkumar Godara, Near New Water Tank Subedar's Well City- Sardarshahar Dist- Churu, (Raj.)	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur.	10.10.2008	5093		
47803	Lalwani Prasanna	Sh. Ashok R Lalwani	28 / A Mahabalipuram Near Basil School, Tandajia Road, City Baroda Dist Baroda	BHMS	Jan, 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	25.07.2007	4880		
47804	Lamkang, (Ms.) Subila Shilshi	Sh. Thambal Shilshi Lamkang	a) C/o Thambal Shilshi Lamkang, Purum Pantha Vill, Chandel Dist, Manipur- 795103 b) C/o Principal, NEHMC & Hospital, Vivek Vihar, Itanagar A.P. Ph 9436094853, 9436745900 & 9856108338	BHMS	28.07.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	19.08.2008	97		
47805	Langhu Maya		Vill-Panchi P.O.-Chandel 795127 Manipur	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	16.03.07	1003		

47806	Laskar Abdus Sarkar	Vill-Nabin Sanapur P.O., Kaibari Bazar Dist-Cachar, Assam	D.H.M.S	July-83	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.12.86	197	
47807	Laskar Najrul Islam	Vill-Kanchanpur Haikhandi P.O.-Narainpur Dist-Hailakandi, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	155	
47808	Laskar Pulen Chandra	C/O-Majumdar Medical Store Doboka P.O.-Doboka Dist-Nagaon Assam	O.H.M.S	Mar-96	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.99	728	
47809	Laskar Shamsul Haque	Vill-Nayanpur-1 P.O.- Chandpur West Dist. Cachar, Assam	D.M.S.	Sep-86	West Bengal Council	Assam	24.05.88	301	
47810	Larka, Deepa	C/o Bombay Cloth House, Main Bazar, Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1743	
47811	Lavin Der Nath Sharma	Bassi Road Defence Bandh, Sirhind Mandi, Dist. Patiala (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	12/2/1988	1046	
47812	Laxmi Rani	H No. 921 W. No. 6 Near Public Club Mandi Dabwali Dist. Sirsa (Haryana)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	2/12/1987	1031	
47813	Leena Chitkara Sh. Manohar Lal	C/345, Behind Grain Market, Sahnewal Dist. Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3077	
47814	Lego, (Ms.) Beauty	a) D/o Shri K. Lego, CDDSE, Upper Siang, Village Banskota P.O. Pasighat, pin-791102, Dist. East Sing A.P. b) CHC - Jengging, Dist. Upper Siang, A.P. Ph. 9436177716 / 0360- 2224490	BHMS	17.03.2008	Calcutta University Arunachal Pradesh		18.12.08	102	
47815	Limbachiya Dhiren Kumar	C/o Sona Suryavanshi, 67, New Keshav Nagar, City- Udaipur Dist.-Udaipur,	BHMS	Jan, 2006	JRNRAJ, D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4862	
47816	Linson Dhar	Jowai Homeopathic Disp. Jowai Civil Hospital	DHMS	Apr-84	Board of Homeopathic Medicine, Guwahati, Assam	Meghalaya	8.3.1985	170	
47817	Llewellyne Dhar Sutinga	C/o G.L. Roy Villa Nongshilliang, Nongthymmai Shillong	BHMS	Nov-07	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	1.02.2008	271	

47818	Lochan Kamal	Sh. D.D. Sharma	1) Deval J-55, Shivalik Nagar, BHIL Hardwar, Ultra khand 2) Dev Homoeo. Clinic 46/68 n St No-16, East Azad Nagar, Delhi-51.	BHMS	1989	University of Rajasthan	Rajasthan Board, Jaipur	24.9.99	4092	CCH -2641
47819	Lohan Muhi Ram		Vill-Lohongao Majuli P.O. Ratanpur Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.01.89	315	
47820	loharka Sangita	Mr. Lakshman Lal Loharka	Mittal Distributors, S.B. Gorai Road, Near Gorai Menson/Asansol, W.B.	BHMS	2007	Bharti Vidyapeeth (Deemed) University, Pune.	Maharashtra Council Mumbai W.B. Council Calcutta	16.1.08 28.3.08	44361 27048	CCH -2702
47821	Lomi, (Ms.) Jumpti	Sh. Nyape Lomi	a) Qtr No-56 Type -III 'A' Sector Near Raj Bhawan, Itanagar. b) Smti. Tumen Lomi Section Officer, U.D. Branch A.P. Secretariate Itanagar.	BHMS	17.01.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	13.08.2008	83	
47822	Loomba, Mamta	D/o Sh. Rakesh Kumar Loomba	H. No. 355, Phase CII, Mohali, TEH. Khara, Distt. Rooper (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	22.6.1999	2047	
47823	Loley, Swaran Singh	Sh. Dharam Singh	Vill Zirakh P.O. Lehla Teh. & Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1983	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR.	Punjab	16/05/1986	898	
47824	Lovepreet Lovely	D/o Sh. Baljit Singh	Moh. Shah Sultan, Sultanpur Lodhi, Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	4.8.1999	2103	
47825	Lumba, Aushi	Sh. Sustil Kumar Lumba	H.No. 229-L, Model Town Ludhiana	BHMS	2004 May - June 2004	BFUHS	Punjab	09.11.2005	2967	
47826	Luthra, Anu	Sh. Suresh Luthra	H.No. 26202, Sector-32-A, Chandigarh	DHMS	1998	BFUHS	Punjab	24.01.2008	3162	
47827	Luthra, Nazam	D/o Sh. Arun Rao Luthra	95, JUHAR SINGH AVENUE AIR PORT ROAD, AMRITSAR	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	30.7.1999	2096	
47828	Mackler, Amrit Kaur	Sh. Lal Singh Mackler	H.No. 1461, Phase-II, Urban Estate, Dugri Road, Ludhiana	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	19.11.2003	2652	BHMS Gr. Deg. 2004 BFHUS
47829	Madaan, Sumeena	Sh. Om Parkash Madaan	Near New Shiv Mandir Khaliwara Gate, Phagwara, Distt. Kapurthala	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	03.04.2001 03.08.2005	2495	
47830	Madan, Divya	D/o Sh. M.L. Madan	243-A, Sewak Colony, Patiala (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	16.7.1999	2082	
47831	Madan, Meenu	Sh. Hari Krishan Madan	No.16, Contractor Colony, Nangal Township, Tehs. Anandpur Sahib, Distt. Rooper	DHMS	1986	CHSM Punjab	Punjab	18.11.2008	3285	
47832	Madan, Nitu	Sh. Om Parash Madan	H.No. 1685, Sector-40-B, Chandigarh	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	17.07.2008	3247	

47833	Madhu Bala	W/c Devinder Singh	14 New Ramesh Nagar, Tehsil, Camp Panipat	DHMS	1982	Council of Homeo. Punjab	Haryana	14.11.94	5605- A	
47834	Mahajan, Abha	D/o Sh. Balvir Mahajan	H. No. 961 Phase-X, Mohali, TEH. Khari, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	22.10.1998	1983	
47835	Mahajan Arvind	egklu	V.P.O. Jhab Kara, TEH. & Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	24.8.2000	2330	
47836	Mahajan, Deepak Kumar	Sh. Ram Krishan Mahajan	Arjan Gali Awankhi Gate Dina Nagar Teh. Pathankot Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1985	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	9/7/1986	909	
47837	Mahajan, Hitesh	Sh. Yashpal Mahajan	235G, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	21.7.2000	2303	
47838	Mahajan, Munish	Sh. Sushil Kumar Mahajan	H.No. 50-B, Shanti Nagar, Model Town, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	17.04.2006	3024	
47839	Mahajan, Rajesh	Sh. Yog Raj	26-C Kichlu Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	2/9/1994	1401	
47840	Mahajan, Renu Bala	Sh. Raj Pal Mahajan	Q.No. 920, Sector-IV, R.K. Puram, New Delhi	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	16.10.1985	847	
47841	Mahan Tarun	Rakesh Mahan	185 Sector-23 Gurgaon	BHMS	Dec-06	Baba Farid University Faridkot	Haryana	28.07.08	5834- A	
47842	Mahanta Labanya		C/O L.N Mahanta Chitraikaha Chhologe Industry A.T. Road Near Bhowdar Bridge P.O. +Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.11.86	190	
47843	Mahanjan Garima	Sh. J.S. Mahantan	Hawluck Grange Cottage, Khalini, Shimla-2	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur (Raj)	H.P.	06.08.08	201- A	
47844	Maharaj, Hareesh Kumar	Mr. N.K. Maharaj	a) C/o Mr. N.K. Maharaj Vill & P.O. Sangi, Dist. Madhubani Bihar b) RCC-2/01, H. Sector, KVIC, Complex, P.O. R.K. Mission Itanagar-791113 ph.09862292555	BHMS	7.08.2007	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	19.08.2008	92	
47845	Mahanishi Archana	Sh. Panna Lal Mahanishi	Street No. 10, Nai Abadi, City- Hanumangarh Dist- Hanumangarh.	BHMS	Nov- Dec.2004	BFU, Faridkot (PB)	Rajasthan	22.07.2008	5047	
47846	Mahanishi Ashutosh	Sh. Panna Lal Sharma	Street No. 10, Nai Abadi, City- Hanumangarh Dist- Hanumangarh.	BHMS	Nov- Dec 2003	BFU, Faridkot (PB)	Rajasthan	22.07.2008	5045	
47847	Mahna, Ashee	D/O Sh. Shamsheer Singh Mahna	H. No. 1029, Iii-B-2 Mohali (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	28/02/1995	1432	
47848	Mahrotra Neha,	Sh. Vinlesh Kumar Mahrotra	1) 10/11, B.T.P.S. Staff Colony, Badarpur, New Delhi -110044, 2) 104-B, Hari Nagar, Ashram- New Delhi.	BHMS	2007	G.G. Singh I.P. University Delhi.	Delhi Board	22.5.07	003539	CCH-2698

47849	Maini, Shelly	D/o Sh. D.K. Maini	H.No. 1587/1, Durga Puri, Habawal, Kalan, P.O. Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	D.H.M.S.	1998	PUNJAB	Punjab	3.8.1999	2102	
47850	Majumdar Brajendra Kumar		Vill-Mungenta P.O. - Mungenta 781325 Dist-Borpetta, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.98	605	
47851	Majumdar Sanjib		Doha Bora Road Jorhat P.O. - Jorhat-1 Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Sep-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.09.99	735	
47852	Majumdar Subrata		c/o Rani Parbati Hotel A.T. Road P.O. - Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.09-84	80	
47853	Makkar, Gaganpreet Kaur	D/o Sh. Amarjit Singh Makkar	Bo. BXX 3245, Gali No. 6, Gurdev Nagar, Ludhiana (Pb.)	*DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	31.1.2001	2438	
47854	Malakar Susanta		Malakar Homoeo Pharmacy S.C.Road, Alhgaon, P.O.-Guwahati-1 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.03.98	380	
47855	Malhan, Sanklap	Sh. Som Nath Malhan	Guru Teg Bahadur Nagar, St. No. 2, Near Raju Ki Chakki, Chandigarh Road, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3012	
47856	Malhan, Suman	D/o Sh. Jagdish Lal Malhan	H.No. 497-B-XII, Kamran Road Kalidhar Gurdwara, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	12.8.1999	2114	
47857	Malhotra, Dimple	D/o Sh. C.P. Malhotra	H.No. H.L. 517, Phase 9, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	2.2.2000	2204	
47858	Malhotra, Geeta	Sh. V.P. Malhotra	768, Model Town, Near Arya Samaj Temple, Panipat (Hry.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	1.1.1997	1677	
47859	Malhotra, Jaspreet Singh	Sh. Gurdial Singh Malhotra	648, Phase 6, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	5.7.2000	2274	
47860	Malhotra, Nidhi	Sh. Vijay Kumar	S-45, MIG Flats, I.T. Colony, Dashmesh Nagar, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2956	
47861	Malhotra, Sanjiv	Sh. Thakur Dass	Saita Bazar, Malerkotla, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	25.8.1998	1918	
47862	Malhotra, Surdeep	Sh. Subhash Krishan Malhotra	H. No. BXU/60, Prem Nagar, Phagwara, Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	16.10.1996	1664	
47863	Malhotra, Yogesh	Sh. Raj Malhotra	B-1 1541, Chirawli Mohalla Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	16.08.2001	2541	

47864	Malik Aloka	C/o-Purna Chandra Mall in Reserve Bank of India Panjabari, Guwahati-1	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.11.2000	764	
47865	Malik Deepthi	C/O-Sri Minnal Das Vill- Bahbanipur P.O.- Bhabanipur 781352 Dist- Barpeta, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.02.04	891	
47866	Malik Astha	D/o B.B. Malik	BHMS	Dec-06	Punjab University, Chandigarh	Haryana	20.05.08	5825- A	
47867	Malik Meeru	Sh. Hari Krishan	DHMS	1992	Punjab Homoeo council	H.P.	24.08.98	103- A	
47868	Malik, Anita	Sh. S.K. Malik	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	15.5.1998	1836	
47869	Malik, Kunal Kirti	Sh. Virender Kumar Malik	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	10.03.2008	3167	
47870	Malik, Manish	Sh. S.C. Malik	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.7.1998	1897	
47871	Malik, Mohit	Sh. S.P. Malik	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	22.05.2008	3235	
47872	Malik, Parveen Singh	Sh. Ved Parkash Malik Abohar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	15.03.2001	2471	
47873	Mallick Bijoy Chandra	Bholanath Road Lower Kodmoni P.O.-Dibrugarh- 1 Dist-Dibrugarh, Assam	D.H.M.S	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.12.98	388	
47874	Mallick Pritish Ranjan	Mallick Clinic, Babupara P.O.-Borpeta Road Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.07.98	416	
47875	Mamta Rani	B-XXXIV, 2777, Rajesh Nagar, Haibowal Kalan, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	23.7.1999	2087	
47876	Man Mohan	Opp Ica Factory, Una Road, Hoshiarpur(Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	2/6/1994	1378	
47877	Manav, Mamta	HIG 835, Phase II, Mohali, TEH. Kharrar, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	10.6.1999	2041	
47878	Manchanda Kashmiri Lal	B-11-954, Gujran Mohalla Rohtak-124001	DHMS	Jun-79	Council of Homoeo- System of Med. Punjab	Haryana	28.04.93	5573- A	
47879	Mandal Santosh Kumar	J/3, Govt. Housing Estate, 20, H.K. Satt lane, Kolkata, 700050	B.H.M.S	2008	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	18.6.08	27121	CCH-2615
47880	Mandal Badal Chandra	Bishnupur Main Road Guwahati-16	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.05.85	134	

47881	Mandai Kajol		Vill. Dakshin Bhamoraguri P.O. Ambagan Dist. Nagaoon, Assam	B.H.M.S	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	7.10.2006	944		
47882	Mandai Sanjib Kumar	Sh. Karick Chandra Mandai	Vill. Baraya, P.O. Majda Dist. Burdwan, W.B. 713512	BHMS	2006	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	24.3.06	26159		CCH -2628
47883	Mangia Ramesh	Garpat Ram	C/o Mangia Clinic PO:- Pinangwan Distt:- Gurgaon	DHMS	Aug-86	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	28.04.93	5577- A		
47884	Mangia, Sat Parkash	Sh. Birbhan Mangia	Ram Pura Phul Near (K.N. Model School) Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	8/5/1995	1468		
47885	Maniklaia Puran Chand	Sohan Lal Maniklaia	VPO Behi Tehsil : Lawni Distt. Bhivani	DHMS	Jul-77	University of Bihar Muzaffarpur	Haryana	7.09.81	2920- A		
47886	Maninder Paul Singh Ranchhawa	Sh. Nidhan Singh	338/13, Housing Board, Solani	DHMS	1980	Punjab Homoeo council	H.P.	21.03.05	150- A		
47887	Manisha	Sh. Krishan Lal Saini	H.No. 17-A, Ranjeel Avenue Anritsar (Pb.)	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	13.08.2007	3144		
47888	Mann, Anarjot Kaur	Sh. Gurcheet Singh	H.No. 1637, L.T-3 Sector- 3, Talwara Distt Hoshiarpur.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	02.02.2006	2988		
47889	Mann, Hardeep Singh	Sh. J.S. Mann	88/62, Garden Colony, Near Sekhon Farm, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1987	STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY, MADHYA PRADESH	Punjab	24.2.2000	2229		
47890	Mann, Mandeep	Sh. Dalip Singh Mann	Near Aam Khas Bagh, Bassi Road, Sirhind, Distt Fatehgarh Sahib	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	03.04.2003	2619		
47891	Mann, Navjot Kaur	Sh. Ajmer Singh Mann	H.No. 232, Nandi Colony Khanna Distt. Ludhiana	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	07.07.2005	2885		
47892	Manocha Madhu	D/o Jagdish Chander	# 313/ 20 Parkap Gate, Kaithal	DHMS	Jul-81	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	23.02.98	5664- A		
47893	Manoj Kumar	Des Raj	Pruthi Medical Centre Budhakhara Gate Ukiana Mandi Hissar	BHMS	Jun-04	Baba Farid University of Health Science Faridkot	Haryana	14.10.05	5735- A		
47894	Manoj Kumar	Amar Singh	1) Ramakvas Po Rambas Distt:- Bhiwari	BHMS	Nov-06	Bharati Vidyapeeth University, Pune,	Haryana	1.05.08	5822- A		
47895	Manubha	D/o Sh. Nareesh Chand Sharma	2) Homoe. Clinic Shop No. 22 Sector-29 Faridabad	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	1.7.1999	2056		
47896	Masand Vinay	Sh. S.S. Masand	H.No. 1403, B-Tank, Patiala (Pb.)	BHMS	2002	Rajiv Gandhi Univ. of Health Sciences, Bangalore	H.P.	20.05.04	145- A		
47897	Masih Farzind	Sh. Kamail Masih	Vill. Tarda, P.O. Rajpur, Palampur, Kangra.	DHMS	1980	Punjab Homoeo council	H.P.	21.12.04	147- A		
47898	Matharoo, Jaspal Singh	Sh. Kewal Singh	Solan H.M. College, Chambaghat, Solan. 36, Sat Karar Nagar, P.O. Model Town, Jalandhar (Pb.)	D.M.S.	1978	W Bangal,	Punjab	16.7.1999	2075		

47899	Mathur Amit	Sh. Koushal Kishore Mathur	Pikal Bro Teh. r's Budding Near Salasar Bus Stand, Idga Road City- Sikar Dist- Sikar.	BHMS	Jan. 2005	Raj. University, Jaipur	Rajasthan	3.07.2007	4848	
47900	Maurya Hari Nandan Singh	Sh. Chandra Bhushan Singh Maurya	Mohalia - Katra post Mohan Dist, Unnao, U.P.	BHMS	2003	Dr. B.R.A. University Agra	U.P. Board Lucknow	19.03.03	25904	CCH-2672
47901	Mazumdar, Kamal Bikash	Sh. N.B. Mazumdar	a) Near Arunachal Sangha, P.O. Rajarbagh, Dist- Tripura (South) Tripura- 799120 b) C/o the Dawnlit Post, T.T. Marg, Bank Tinali, Itanagar-791111, A.P. Ph- 9436093408 / 9436258491	BHMS	31.07.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	19.08.2008	98	
47902	Mid. Aslam Shadmani	Li. Md. Suleman Ansari	C/O Dr. G. Rabbani, At- P.O. Bhowra Bazar, Bhowra, Dist-Dharwad, Jharkhand-828302	B.H.M.S.	2001	B.B.A. Bihar University	Bihar Board	24.06.02	26946	CCH-2588
47903	Medhi Bipul Chandra		Vill-Chakamtai P.O.-Hajo Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.04.99	474	
47904	Medhi Chandan Kumar		Vill-Chetigaon P.O.-North Laxmipur 787005 Dist- Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.11.2000	769	
47905	Medhi Dilip Kumar		Vill-Kushal Nagar P.O.- Haibogaon-782002 Dist- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.11.03	883	
47906	Medhi Krishna Kanta		Vill-Bare Gaon P.O.- Sarbhog Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.07.98	492	
47907	Meena Chhaya Gopal Lal	Sh. Gopal Lal Meena	34- sattadhar Society, Muktanand Marg, Chalavapi City- Dist- Valsad	BHMS	Mar. 2006	VNSGU, Surat	Rajasthan	11.06.2008	5028	
47908	Meena Manorama	Sh. Matrumal Meena	C- 212, Mahesh Nagar, Tonk Road, City- Jaipur Dist- Jaipur (Raj.)	BHMS	May 2007	Raj. University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5116	
47909	Meena Mukesh Kumar	Sh. Chandan Lal Meena	G- 45 Tripathi Nagar, Jagatpura City- Jaipur, Dist- Jaipur.	BHMS	Jan. 2006	JRNRJ.D. University, Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4901	
47910	Meena Mukesh Kumar	Sh. Uma Shanker Meena	Vill Dagniya City-The. Sangod Dist-Kota.	BHMS	Jan. 2007	JRNRV, Deemed University, Udaipur	Rajasthan	15.07.2008	5041	
47911	Meena Om Prakash	Sh. Shankar Lal Meena	Subhash colony, City- Todaraisingh Dist- Tonk	BHMS	Sep. 2005	JRNRJ.D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4854	

47912	Meena Praveen	Sh. Prabhu Dayal Meena	III - 156, A-G Colony, Bajaj Nagar, City, Jaipur, Dist. Jaipur.	BHMS	July, 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	5.12.2007	4959	
47913	Meena Rani	Sh. Inder Raj	C/O Sharma Engg Works Mansa (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	20/08/1996	1633	
47914	Meenakshi	Sh. Gurnam Das	Dhagshai Cloth House Dharapur, Solan.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur. (Raj)	H.P.	6.08.85	206-A	
47915	Meghwal Renuka	Sh. Ram Avtar Meghwal	71/126, Ganesh Marg, Vidyadhar Nagar, City, Jaipur Dist. Jaipur.	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5104	
47916	Mehendraratta, Shalija	D/O Sh. S K Mehendraratta	Vill. Phulawai, PO Model Town, TEH. & Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	8.7.1999	2066	
47917	Mehendru, Manoj	Late Sh. Madan Lal Mehendru	Box-47, Rose Endrav E Civil Line, Div No 5, Ludhiana (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	8/5/1995	1469	
47918	Mehndraratta, Sumita	D/O Sh. Suraj Parkash Mehndraratta	23-Jawahar Nagar Delhi-6	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	6/11/1987	1015	
47919	Mehra Nimisha	W/o Vikrant Mehra	144 Sector-21 Panchkula	BHMS	Apr-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	27.08.07	5809-A	
47920	Mehra Vinay Kumar	Sh. Vijay Prakash Mehra	44 Jai Bhawani Nagar, Khalipur City - Jaipur Dist. Jaipur	BHMS	Aug-04	Raj. University, Jaipur.	Rajasthan	3.07.2007	4850	
47921	Mehrotra Anurag	Mr. Prem Nath Mehrotra	C/O Naresh Khawal, D-149/2, Near Adarsh Public School, Sangam Vihar, New Delhi-110062	BHMS	2007	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Karnataka Board	12.10.07	A-9131	CCH-2683
47922	Mehra Ruchi	Sh. Amba Lal Mehra	18 / 124 Padma Kuteer Indira Market, City-Kota Dist. Kota	BHMS	July, 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	4.02.2008	4990	
47923	Mehra Chander Brushan	K.D. Mehra	1) 434 Aggarwal Colony Sirsa 2) Circular Road Rori Gate Sirsa	DHMS	Aug-87	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	20.12.94	5617-A	
47924	Mehra Harish	Alam Parkash	13 Mutani Colony Band Gate Sirsa	BHMS	Nov-03	Baba Farid University of Health Sciences, Fardkot.	Haryana	6.07.05	5731-A	
47925	Mehra, Ashwani Kumar	Sh. Ram Murti Mehra	Vill: Mehon, P.O. Devigarh, Teh: Patiala, Distt. Oathala (Pb)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	29/05/1995	1493	
47926	Mehra Inderjit	D/O Sh. Anant Ram Mehra	Near Purana Bassiana, Adda Rajkot Distt Ludhiana (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	19/07/1994	1390	
47927	Mehra, Kamal	D/O Sh. Rajinder Paul Mehra	A.S. Block, Ward No. 14, Dhuri, Distt. Sangur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	3.8.1999	2099	
47928	Mehra, Meenu	Sh. Krishan Lal Mehra	Central Town, Sector-2, Hosharpur (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	19.3.1997	1696	
47929	Mehra, Sanjeev	Sh. Rajpal Mehra	No. 19, Green Park, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	9.8.2000	2319	
47930	Mehra, Simmi	Sh. Raj Kumar Mehra	57-A, Tagore Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	29.6.1998	1861	

47931	Menaria Pritesh, Sh. Sohan Lal Menaria	304, Ma Kripa Bhawan, Near, Pathwan, Panero KI Madn City, Udaipur Dist. Udaipur	BHMS	Jan 2007	JRNRV, Deemed University, Udaipur	Rajasthan	28.06.2008	5035	
47932	Midha Ravinder Kumar	Dharam Chand Midha VPO, Dhankot Dist.:- Gurgaon	DHMS	1981	Council of Homoeo System of Med. Punjab	Haryana	12.08.88	5453-A	
47933	Midha, Punit	66331, New Hargobind Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	15.6.1998	1856	
47934	Miglani, Rajni	H.No. 1946/6, St. No. 2, Shiv Puri, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	29.8.2000	2339	
47935	Minhas, Harpal Singh	H.No. 1166, Purani Abadi, Ganga Nagar (Rajasthan)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	21/4/1988	1061	
47936	Mini	H.No. 2193, Sector-32-A, Urban Estate Chandigarh Road, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	17.04.2006	3018	
47937	Mishra Vibha	1) Patwa Wadi, Ward No. 10, Sarangpur, Raigarh, (M.P.) 2) 23-24, Krishna kanta Extn. Laxmi Nagar, Delhi-92.	BHMS	2005	Devi Ahilya University, Indore,	M.P. Council Bhopal	31.12.05	14641	CCH -2675
47938	Mishra Alok	50/8 East Nehru Nagar, Bhilai, Dist-Durg, Chattisgarh	B.H.M.S.	2005	Barkatullah University, Bhopal	M.P. Council Bhopal	16.06.05	14423	CCH -2578
47939	Mishra Ambresh Kumar	New Colony, Jwalamukhi, Umaria, Dist, Umeria, (M.P.)-484661	B.H.M.S.	2006	Vikram University, Ujjain	M.P. Council Bhopal	30.3.07	15039	CCH -2613
47940	Mishra Charu	E-475, Pink House, Bank Colony, Mudipura Scheme, City- Jaipur Dist - Jaipur.	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	8.10.2008	5085	
47941	Mishra Nishant Rameshwar	Mishra Medical Agency, G.T. Road, Saidabad, Alahabad, (U.P.)-221508	B.H.M.S.	2007	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council, Mumbai	17.12.07	44102	CCH -2676
47942	Mishra Rakeshyam	Mishra Homoeo Clinic Borpeta Main Road- P.O. Borpeta Road 781315 Dist- Borpeta, Assam	D.H.M.S.	May-83	Bihar University	Assam	19.05.2006	921	
47943	Mishra Salish Kumar	Vill. & Post - Hastera, City- VIA - Govindgarh Distt- Jaipur. (Raj.)	BHMS	Jan, 2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5058	
47944	Mishra, Satish	46, Alam Nagar, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	10.3.2000	2236	
47945	Mishra, Suresh	H.No. 2615, Phase 7, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar. (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	16.7.1999	2080	
47946	Miss Dworlyne K Rasswal	Nonglang Mawkyrwat	DHMS	Apr-84	Assam Board of Homoeopathic Medicine	Meghalaya	8.3.1985	142	

47947	Miss Manju Handa (Maiden Name) Mrs. Manju Atter (Married Name)	D/O Sh. B. K. Handa W/O Sh. P. C. Attar	C/O Master Kuldeep Singh Baywa V.P.O. Parol, Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	20/08/1992	1314		
47948	Miss Manju Verma (Maiden Name) Mrs. Manju Gupta (Married Name)	D/O Sh. Dharam Verma W/O Sh. Varinder Gupta	C/O Universal Trade Uniks Cold Storage & Ice Factory Bassi Pathana Patiala (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	22/04/1991	1242		
47949	Miss Shaloo Modi (Maiden Name) Mrs. Shalin Goel (Married Name)	D/O Sh. S. K. Modi W/O Sh. Sanjay Goel	436/6, Krishna Nagar, Ludhiana (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	15/09/1994	1408		
47950	Miss Suminder Grover (Maiden Name) Mrs. Surinder Arora (Married Name)	D/O Sh. Balwant Singh Grover W/O Sh. Varinderjit Singh	502, Lachmiansar Chowk, Amritsar (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	2/6/1989	1164		
47951	Miss Madhu Sharma (Maiden Name) Mrs. Madhu Kaushik (Married Name)	D/O Sh. R. P. Sharma W/O Sh. Satish Kaushik	Kaushik Clinic, Mubarkpur Teh. Rajpura Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	5/5/1992	1281		
47952	Missy Mohan	Sh. Andaji	At Post Sara, The Gudamalani city-Barmer Distt.	BHMS	Aug. 2006	North Gujarat University	Rajasthan	31.03.2008	5010		
47953	Mitra Moni		Vill-Rupahi P. O.-Rupahi Distt-Nagaon, Assam	D. H. M. S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.09.2003	879		
47954	Mittal Preeti	Sh. Vinod Kumar Mittal	950, New Rly. Colony, Road No. 1 Raittem (M.P.) 457001	B. H. M. S.	2007	Vikram University, Ujjain	M.P. Council Bhopal	10.4.08	15655		CCH-2612
47955	Mittal Charan Dass	Kasturi Lal	Homoe. Home 82-Red Cross Market Rly. Road Hissar	DHMS	1981	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	19.05.04	5711-A		
47956	Mittal Neerja	W/o Sameer Madan	1122/12 Gali No. 4 Shanti Nagar, Opp. 3rd Gate Kurukshetra University Kurukshetra	DHMS	1995	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	11.09.08	5839-A		
47957	Mittal Menu	Sh. Bhagwant Kumar	H No. 62 Model Town Bathinda (Pb)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	07.11.2001	2566		
47958	Mittal, Neelika	Sh. Pawan Mittal	Moh. Mahi Khanna, St. No. 2, Faridkot (Pb)	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	26.08.2008	3257		
47959	Mittal, Shaveta	Sh. Ashok Kumar Mittal	Barnala Engg. Store Near Bus Stand Bathinda	BHMS	May - June 2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2931		

47960	Mitu, Meakin	Sh. Din Dyal Mittu	10-D, Sunder Nagar, Basti Jodhpuri, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	17.10.2000	2374	
47961	Modak Dipak Kumar		Satgaon, Guwahati-27 Dist Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.05.99	511	
47962	Modak Niladri Sankar	Dr Gokul Chandra Modak	Town & Post, Arambagh, Dist-Hooghly State, W.B.-712601	B.H.M.S.	2003	University of Burdwan	W.B. Calcutta	12.10.04	25511	CCH-2571
47963	Modgil Rupinder	Sh. Jivam Kumar	345/1, Nanak Puri, Miller Gunj, Ludhiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	24/07/1995	1519	
47964	Mohajer, Elham	S/O Sh. Ghodrath Ullah Mohajer	Vill. & P.O Kansal Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	12/2/1990	1189	
47965	Mohan Nayanmoni		Vill-No. 1 Deogharia P.O.-Aghunibari via Bamunbari 786613 Dist-Dibrugarh, Assam	B.H.M.S.	Jan-04	Dibrugarh University	Assam	07.10.06	949	
47966	Mohd. Akhtar	Sh. Abdul Gadoor	Moh Chohatta, Meierkotta, Distt Sangrur (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	10/11/1994	1423	
47967	Mohd. Arshad	Sh. Liaqat Ali	H.No. 163, St. No. 3, Moh. Beniwalla Outside, Kalon Gate, Meierkotta Distt. Sangrur	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	21.04.2008	3203	
47968	Mohd. Ramzan Thind	Sh. Mohd. Yusuf	H. No. 803, Near Purana Arbi School, Jamalpura	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	8/1/1996	1588	
47969	Mohd. Salaudin	sh. Mohd. Tahir Ali	C/o P.B. Sodhi, 512 Agarsen Nagar, 1st Floor, City-Sri Ganga Nagar, Distt. Sri Ganga Nagar	BHMS	1993-94	BHSM, Delhi,	Rajasthan	11.06.2008	5026	
47970	Mohindru Hima	Sh. Avinash Mohindru	Ganga Niwas, Set No.6, Sanjauli, Shimla-171006	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur (Raj)	H.P.	11.07.08	197-A	
47971	Molla Md. Chanowar		Vill-Khandarkar P.O.-Jarabari Dist-Borpela, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.07.98	622	
47972	Mondal Shyamali	Sh. Nalini Ranjan Mondal	Vill. & P.O. Daudpur Distt. Sandesh Khali, W.B.-743611	BHMS	2008	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	21.2.08	26917	CCH-2666
47973	Mondal Abani Kanta		Vill-Panigaon A.T. Road P.O.-Panigaon Distt-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.05.87	207	
47974	Mondal Abdul Khalek		Vill-Goraimari P.O.-Goraimari via Bini Distt-Kokrajhar, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.05.85	141	

47975	Mondal Aneuddin		Vill-Chondurtes Char P.O.- Chondurtes Char Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Aug-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.06.2000	744	
47976	Mondal Anup Kumar		Vill-Gaikhowa P.O.- Golakganj Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.98	533	
47977	Mondal Babul		Vill-Dakhin Bhomora Guri P.O.-Nagaon-782120 Dist- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.02.04	594	
47978	Mondal Brindaban		Mondal Homoeo Hall Kailbari, P.O.-Chamaria Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.04.2001	791	
47979	Monga Vinit	Shyam Sunder Monga	# 599 Gali Tallanwali Sirsa	DHMS	1999	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	11.03.02	5686- A	
47980	Monga, Bharati	D/o Sh. Ram Parkash Monga	81/1, Model Gram, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2412	
47981	Monga, Deepak	Sh. Y K Monga	H.No. 1428, Phase 3-B.II, Mohali, TEH. Kharar, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.7.2000	2292	
47982	Monga, Narinder Kumar	Kanshi Ram Monga	H.No-8, Sector-10 Panchkula	DHS	1988	Homoeopathic Board Delhi	Haryana	7.07.2005	5733- A	
47983	Monga, Priyanka	Sh. Balbir Monga	HJ-636, Housing Board Colony, B.R.S. Nagar, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2941	
47984	Mostafa Golam		Vill. Amchala P.O. Borkala Sersow 783330 Dist. - Dhubri Assam	B.H.M.S	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	05.03.08	1020	
47985	Mrs. Angeles Pdianghun Biah	(L) Earnest B Diengdoh	Nongshilliang Nongthymmai, Shillong -14	BHMS	Feb-05	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Banglore	Meghalaya	11.5.2005	259	
47986	Mrs. Effieda Khapian	Telmingstar Wanwar	Riatsamthiah Bl-6, Shillong	BHMS	Apr-06	Calcutta University	Meghalaya	27.4.2006	261	
47987	Mrs. Manjeet Kaur (Maiden Name) Mrs. Manjeet Sidhu (Married Name)	D/O Sh. Uddham Singh W/O Sh. Nirmal Singh (Pb)	S. Hamam Singh Memorial Dispensary, Malout Teh., Mukatsar Distt. Faridkot (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	4/9/1989	1168	

47988	Mrs. Tasso Anya	Sh. Tasso Laling	a) Village, Hari, P.O./P.S. Ziro, Lower Subansiri (A.P.) PH-9612320604 (M) b) E-Sector, No 265, Naharlagun, Dist. Papum Pare (A.P.)	BHMS	10.02.2009	Gaicutta University, Arunachal Pradesh	13.03.2009	114	
47989	Ms Navneet (Maiden Name) Navneet Khurana (Married Name)	W/O Sh. Anireev Singh Khurana	H No B-VII-427 Mohalla Mullana Shakoor Near Book Market Ludhiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	25/10/1995	1549	
47990	Ms. Angam Regina Devi	Sh. Angom Iboh Singh	a) Phayeng Makha Leikai, Imphal West-I, Manipur, b) C/o Principal NEHMC & H Vivek Vihar, Itanagar Ph. 9436237098	BHMS	27.06.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	14.08.2008	88	
47991	Ms. Bidyabati Morangtham	Sh. M. Kumar Singh	a) Mayanglanging Makha Leikai, P.O. Lamsang, Pin No. 795146. b) Gita Clinic, Governor Road, Imphal.	BHMS	31.07.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	19.08.2008	95	
47992	Ms. Geetika Dhawan	Sh. Vijay Kumar Dhawan	St. No - 5, Anand Nagar Near Railway Crossing Faridkot Road, Kotkapura (PB)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	13.08.07	3141	
47993	Ms. Gem Meri	Sh. Gem Teri	a) Kudh Vill. P.O./P.S. Kimin, Dist. Papum Pare, A.P. b) C/o Gymphri Cottage, C-Sector, Naharlagun, A.P. Ph-9436092003	BHMS	28.07.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	19.08.2008	93	
47994	Ms. Hage Oniya	Sh. Hage Talo	a) Hari Village, P.O./P.S. Ziro, Lower Subansiri, A.P. b) C/o Dr. Hage Tabyo, ODHS, DHS Office, Naharlagun, Ph-9662709528 (M)	BHMS	Dec.2008	NTR University of Health Science, Vijawada, Andhra Pradesh	5.02.2009	105	
47995	Ms. Ngurang Henuma	Lete Ngurang Talo	a). Senki Park, P.O. Itanagar, A.P. b) North Eastern Homoeopathy Medical College and Hospital Vivek Vihar, Itanagar, A.P.	BHMS	10.01.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	19.08.2008	94	

47996	Ms. Pushpinder Grewal (maiden Name) Mrs. Pushpinder K. Singh (Married Name)	D/o Sh. S.S. Grewal W/o Sh. Kuldeep Singh Mohali (Punjab)	H. No. 1785 Phase VII, Mohali (Punjab)	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	10.01.1985	789	
47997	Ms. Renuka Rani (Maiden Name) alias Mrs. Rupinder Kaur (Married Name)	D/o Sh. Raj Pal W/o Sh. Pritpal Singh	20-S. Canal Colony, Gidderbaha, Tehs. Muktsar, Distt. Ferozkot	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	08.10.1985	845	
47998	Mukesh Kumar	Rajinder Singh	Archana Nursing Home Hathin Distt. - Fardabad	GHMS	1983	Kanpur University Kanpur	Haryana	22.09.88	5462-A	
47999	Mukharjee Amab	Sh. Haradhan Mukharjee	C/o Ratan Singh, Anand Mangal Complex - D - 137, Basant Marg, Bani Park City- Jaipur Distt. Jaipur.	BHMS	2002	University of Calcutta.	Rajasthan	30.01.2008	4984	
48000	Mukheja, Sumta	D/o Sh. Hem Raj Mukheja	11/S. Swaran, Vihar, Vikas Colony Enclave, Patiala (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	27.7.1999	2089	
48001	Muneetinder Mander	Sh. Surinder Singh	H.No.4511-A Sec.70, Mohali	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	12.11.2005	2970	
48002	Muneja, Manita	D/o Sh. Krishan Lal Muneja	H.NO. 238, Near Post Office, Jalalabad (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.2.2000	2227	
48003	Mythily K. Stella Kanagaraj	Late Mr. R.A. Kanagaraj	C-11, Panchsheel Enclave GEN. Tito Marg, Near Chirag Delhi Fly over, New Delhi-17.	BHMS	2004	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Kamataka	Karnataka Board	3.11.04	- A-8224	CCH -2652
48004	Nagi, Deep Kamal	Sh. Raghubir Singh Nagi	C/O Jagdeep Kaur H No. 339, Sector-15, Dashmesh Nagar Kharar, Jhunjian Road, Distt. Mohali(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	03.04.2008	3192	
48005	Nagpal, Kavita	D/o Sh. Faqir Chand Nagpal	St. No. 1, Balbir Basti, Fardkot (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	3.5.2000	2256	
48006	Nagpal, Pankaj	Sh. Kasturi Lal Nagpal	718, Power Colony, Ropar (PB)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	7.1.1999	2005	
48007	Nagpal, Vikas	S/O Sh. Smt Niwas Nagpal	Nagpal Market Fazilka Distt. Ferozepur(Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	29/09/1986	926	
48008	Nair, Sukumaran	Sh. L. Chellappan Pillai	H. No. 352, Phase-3-B-1 Mohali, Distt Ropar (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	20/07/1993	1355	
48009	Najib Baksh		R.K. Chowdhury Road P.O. Rupah Bhaurumukhn Guwahati-9	D.H.M.S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.02.04	830	
48010	Najot	Sh. Surinder Singh	V.P.O. Kale Sanghian Distt. Kapurthala	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2926	
48011	Nama Radhna	Sh. C.L. Nama	H.No.151 - A, Talwandi, City- Kota Distt. Kota	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5122	
48012	Namita	Sh. Ashok Kumar Arora	H.No. 1665, Namak Mandi Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3097	

48013	Nancy	Sh. Jai Dinesh Prasad Mehta	D.D.A. MIG Flat No.403, Sector-3, Pocket-16, Dwarka, New Delhi-110045	BHMS	2008	Bharati Vidyapeeth University, Pune,	Maharashtra Council, Mumbai	5.1.09	47248	CCH-2709
48014	Nandi Chitta Ranjan		Subhas Path Kokrajhar P.O.-Kokrajhar Dist.-Kokrajhar, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.01.89	303	
48015	Nandita	Sh. Sudesh Sharma	H. No. 1146, Harnam Nagar, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	1.1.1997	1681	
48016	Narah Luken		Vill-Sankarpur, Jorhat P.O.-Engineering College Dist.-Jorhat Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.02.2002	842	
48017	Narang, Navjeet	Sh. Dyal Singh Narang	B-1-645/1-A Kundan Puri, Civil Lines Ludhiana (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	2/2/1993	1331	
48018	Narang, Pooja	Sh. Sudeshan Narang	47, Maya Nagar, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.8.1998	1925	
48019	Naroola, Sukhleen Kaur	Sh. Jasbir Singh Naroola	144, Dashmesh Colony, Zirakpur Mohali	BHMS	May-June 2003	BFUHS	Punjab	20.11.2004	2805	
48020	Naryal, Madan Singh	Sh. Keshri Singh	Naryal Homoeopathic Clinic Gundwara Building, Opp. Teh. Abohar 152116 Distt Ferozepur (Pb)	DHMS	1976	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	7/12/1990	1223	
48021	Nath Anup Kumar		South Haiborgaon P.O.-Sathi Radhika Road Dist.-Haiborgaon-2, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.04.96	687	
48022	Nath Anup Kumar		C/O-Manik Nath Vill-Kushiar Bori 785621 P.O.-Dist-Colaghat Assam	B.H.M.S.	Dec-04	Dibrugarh University	Assam	28.03.08	1035	
48023	Nath Bijoy Krishna		VILL-Bhalukman P.O.-Bhalukmani thali Dist.-Nagaon, Assam	D.M.S.	Jun-73	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Assam	28.03.80	53	
48024	Nath Binoy Kumar		Vill-Malara (Jogatdia) P.O.-Mondakata Dist-Kamrup Assam	B.H.M.S.	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.11.06	985	
48025	Nath Durgeswar		Vill-Swer Modar P.O.-Bihpuria Dist-Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.87	268	
48026	Nath Girish Chandra		Vill-Dalang Ghat P.O.-Dlong Ghat Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	1.07.98	345	

48027	Nath Hara Gobinda	Vill-Bathan P.O. Shrihati 781103 via Swaikuch Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.03.98	681	
48028	Nath Hirendra Kr.	Santinagar, Kahlipara Guwahati-19	D.H.M.S.	Jan-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.03.87	227	
48029	Nath Jayanta Kumar	Shyama Prasad Road Lala Ward No.-1 P.O.-Lala 786163 Dist-Hailakandi, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.02.89	334	
48030	Nath Junu	Vill-Bahana Nath Gaon P.O.-Bahana Dist-Jorhat Assam	D.H.M.S.	Nov-95	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.07.98	705	
48031	Nath Khagen Chandra	Vill-Barunbari P.O.-Kayakuchi Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.09.87	281	
48032	Nath Kumari Marni	C/O-Late Bistu Ram Nath Vill-Sonaguri P.O.-Raniganj Dhubri Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.12.2001	832	
48033	Nath Phanindra	Vill-Rampur P.O. Sarbhog 781317 Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.02.2000	606	
48034	Nath Ranjit Kumar	Vill-Pub Bharbhagia P.O.-Charibahi Dist-Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.04.98	688	
48035	Nath Shyamal	Vill-Gossai patty P.O.-Dhing Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.09.87	280	
48036	Nath Nabajyoti	C/O Kanthiram Nath Vill-Pub Borbhagia, P.O.-Caharibhai Dist-Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.03.98	672	
48037	Navjol	Arya Nagar, Behind Kaika Mandir Fazilka, Distt. Ferozpur.	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	15.03.2005	2476	
48038	Navneet Kumar Sh. Meharban Singh	Moh. Bishanpura Kanthi, Moradabad	BHMS	Jan, 2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	26.07.2008	5054	
48039	Nayak Mahesh Prasad	65- Poonam Vihar Colony, Jagatpura City- Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	May 2004	University of Calcutta	Rajasthan	26.08.2008	5072	

48040	Nayar, Seema	D/O Sh. M.L. Nayar	H. No. 86, Zail Singh Colony, Ropar (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	12/7/1995	1509
48041	Nayyar, Amit	Sh. Anriti Nayyar	1101/5-B, Tagore Nagar, Opp. Income Tax Colony, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.6.1998	1860
48042	Nayyar, Deepthi	Sh. Ashok Nayyar	Moh. Saingarh Behind Power House, Pathankot (Pb.)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	20.02.2008	3164
48043	Nayyar, Sanjeev	Sh. G.R. Nayyar	Teacher Colony Kni, Newam Shahr Dist. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	29/12/1994	1425
48044	Neelam	D/O Sh. Harbans Singh	C-562 Phase-4 Mohalin, Ropar (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	28/02/1995	1434
48045	Neenu Prashar	Sh. Suresh Kumar Prashar	H.No. 265, St. No. 2, New Joginder Nagar, P.O. P.A.P., Jalandhar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2951
48046	Neetu	D/O Sh. Kewal Singh	353/5, Dr. Hira Singh Road, Chumar Mandi, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	27.5.1999	2036
48047	Neetu	Sh. Ram Kumar Meena	II / I - Gandhi Nagar, City Jaipur Dist. Jaipur	BHMS	Jan. 2007	GGSI University Delhi	Rajasthan	15.01.2009	5180
48048	Neetu Sukhija	D/O Sh. Ramesh Sukhija	H.No. 501, Phase IV, Mohali, TEH. Kharar, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	18.6.1999	2042
48049	Negi Anuj	Sh. S.D. Negi	Rashata, VFO. Jibhi, Teh. Banjar, Dist. Kullu	BHMS	2008	Barkatullah Univ. Bhopal (MP)	H.P.	24.11.08	217- A
48050	Negi Vinod Kumar	Sh. G.S. Negi	VPO Kibla, Teh. Sangla, Dist. Kinnaur	BHMS	2004	Rajiv Gandhi Univ. of H. Sr. Karnata	H.P.	16.08.05	153- A
48051	Neha Soni	Sh. Subh Darshan	7 New Friends Colony Back Side Secred Heart School Amritsar (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	28.03.2008	3181
48052	Neog Bipul Kumar		Vill. Kashikata P.O. - Bihpuria Dist-North Laxmipur, Assam	D.H.M.S	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.05.88	270
48053	Neog Jintu		Vill. Teok Jogudar Sonagaon P.O.-Teok Dist-Jorhat Assam	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	30.10.06	975
48054	Neog Pranab Kumar		Vill-Nulani P.O. - Borhapathar Dist-Dibrugarh, Assam	D.H.M.S	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.10.98	612
48055	Nerwal, Jasbir Kaur	D/O Sh. Surjeet Singh Nerwal	Remedy Homoeo Clinic, Matur, Mohali, TEH. Kharar (Ropar)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.6.1999	2044
48056	Ngangban Jerry		Vill-Yaiskul Moirangkhom Sanakhwaynam Cominapound Imphal 795001 Manipur	B.H.M.S	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	06.06.08	1068

48057	Ngemu, Samtu	Sh. Samngam Ngemu	a) Changiang Town P.O.P. S. Changiang Pin- 792120, A.P. b) C/o Samnem Ngemu, Under Secretary (Part Affairs) Civil Secretariate (A.P.)	BHMS	27.06.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	13.08.2008	86	.
48058	Nidhi	Sh. Vikranjit Verma	H.No. 3829, Durgapur, Halibowal Kalan Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.08.2006	3037	
48059	Nidhika Vansil	Sh. Vimal Kumar	Naya Bazar, Tarn Taran (Pb)	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3004	
48060	Nijhawan Sonika	Sh. Suresh Nijhawan	H.No. 81 - Income Tax Colony, Ram Nagaria Road, Jagatpura City Dist- Jaipur	BHMS	2005	Raj University	Rajasthan	11.06.2008	5029	
48061	Nikhat Bano	Sh. Mohd. Nasimuddin	1 - Parshvathi Colony, Vashty Nagar, City Ajmer Dist. Ajmer	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4860	
48062	Nim Priyanka	Sh. M.P. Nim	Type - IV, Sector - 2, Quarter No. 1, CPWD Colony, Nirman Vihar - 1, City, Vidyaadhar Nagar Dist- Jaipur	BHMS	Jan. 2007	GGSI University Delhi	Rajasthan	15.01.2009	5178	
48063	Nirankar, Manju	Sh. Gurcharan Singh	No. 1-2 B Vainik Market, Gun House Balaia Distt: Gurdaspur (Pb)	BHMS	May - June 2003	BFUHS	Punjab	18.06.2007	3129	
48064	Nirban Shobha Jai Singh	Sh. Jaisingh Nirban	VPO Antroli Khurd City- Tehsil - Degana Dist- Nagaur (Raj)	BHMS	Nov/Dec. 2006	M.U. of H.Science Nask.	Rajasthan	2.12.2008	5149	
48065	Nogen Kalita		Vill-Arjuntun P.O.-Arjuntun 785640 Dist-Sivsagar Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.12.2002	866	
48066	Nongthaw (Mrs) Badahunshisha	Mrs. P. Nongthaw	Kenches Trace, Laban, Shillong - 4	BHMS	Mar-06	Dibrugarh University, Assam	Meghalaya	27.4.2006	260	
48067	Nonita	D/o Sh. Balbir Rai	H.No. 1746, Phase V, Mohali (Pb)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	18.9.2000	2363	
48068	Nousheen	D/o Sh. Ayaz Ali Khan	Mohalla Chowk Algan, Maler Kotla, Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	4.4.2000	2243	
48069	Nusrat Parveen	M.D. Mohiuddin	C/o Pappu Medical Hall, Moh. Alapatti, P.O. D. M.C. Dist. Darbhanga, Bihar-846003	B.H.M.S.	2006	B.B.A. Bihar University Muzaffarpur	Bihar Board	12.10.06	27833	CCH -2614
48070	O.P. Satiya	B.D. Satiya	Satiya Nursing Home, Saroj Road, Panipat	M.F. (Hom)	Mar-88	The Faculty of Homoeopathy London	Haryana	19.10.05	5738- A	
48071	Obero, Rakhee	D/o Sh. D.N. Oberoi	66-FF, Sant Ishar Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	5.11.1998	1989	
48072	Om Parkash	Sh. Joginder Kumar	95, Shahpur Road, Patankot, Distt (Gurdaspur)(Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	5/9/1994	1402	

48073	Om Parkash	Sh. Purnam Ram	H No 18826 St No 5, Basant Vihar Colony, Teh. S. Distt Bhatinda (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	20/08/1996	1629	
48074	Om Parkash	Sukh Dev	Teekri Brahman Tensil Palwal Distt. Faridabad	DHMS	Sep. 1985	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur,	Haryana	09.10.1985	5351-A	
48075	Onkar Nath	S/O Sh. Sohan Lal	H.No. 3381, Mehna Chowk Bhatinda	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	17/12/1987	1036	
48076	Pabin, (Ms.) Yalek	Sh. Talom Pabin	a) Village-Bogne, P.O.P.S. Kaying, Distt West Siang, A.P. b) C/o Taling Pabin, Deputy Director, Higher & Technical Education, Itanagar, A.P.	BHMS	7.12.2007	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	5.02.2009	104	
48077	Padam, Jasbir Singh	Sh. Sant Singh Padam	667, Homoeo House, Dashmesh Nagar, Melerkotla, Sangrur (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	4/2/1993	1335	
48078	Pahwa Sachin	Ram Kishan Pahwa	26 Urban Estate - 2 Hissar	BHMS	Dec-05	Baba Farid University Faridkot	Haryana	7.02.08	5815-A	
48079	Pahwa, Deepthi	O/o Sh. R.D. Pahwa	53-B, Parkash Nagar, Model Town, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.7.2000	2290	
48080	Pahwa, Geeta	D/O Om Parkash Pahwa	B-108 Mayapuri Phase-1 New Delhi-110064	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	14/03/1989	1142	
48081	Pahwa, Gurnit	Sh. H.S. Pahwa	H No. 1527, Phase X Mohali, TEH. Khairat, Distt. Rupar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.8.1998	1911	
48082	Pal Arundam	Sh. Sachidananda Pal	1) Qtr No.-B-27, Sector-8, H.F.C Colony, P.O. Haldia Town Ship, Distt(E) Midnapur -721607 2) C/o Sachidananda Pal, Vill. Machan, P.O. Madhabpur, Distt. Midnapur (e)	BHMS	2004	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	26.7.04	25420	CCH -2636
48083	Pal Sujit	Dr. Bhagabati Pal	C/o. Staff Quarter, D.K.M.M., Homoeo Medical College, Guru Ganesh Nagar, Behind Bibi Ka Maqbara, Aurangabad -431004	BHMS	1998	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	17.3.98	21487	CCH -2624
48084	Pal, Sangeeta	Sh. Gurdev Chand Pal	Lucky Real Estate Panj Peer Road, Vill Garha, P.O. Phillaur, Distt Jalandhar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2948	
48085	Palak Ragendra		Vill-Kekurghakua Khana P.O.-Kekuri via Dhakuakhana Distt- N Laxmipur, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.05.85	151	

48086	Paliwal Lokesh	Sh. Madhav Lal Paliwal	VIII - Samtal, Tehsil - Gogunda, City - Udaipur Dist. - Udaipur (Raj.)	BHMS	June 2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	7.11.2008	5131	
48087	Palia Ashis Paul		Bhajinka Market Christian Basti G.S. Road Dist. - Bopeta, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.02.99	721	
48088	Palia, Jyoti	Sh. Bhinder Singh Palia	H.No. 3850, Neeta Street, Mehra Chowk, Bhatinda(Pb)	BHMS	Nov - Dec 2004	BFUHS	Punjab	01.09.2008	3268	
48089	Pandey Shailendra	Sh. S. K. Pandey	S/o Sh.S. K. Pandey H.No. 8/1908, Anand Nagar, Katra Basti (U.P.) - 272001	BHMS	2003	Dr. B.R.A. University Agra	U.P. Board Lucknow	20.10.3	26516	CCH -2693
48090	Pandey Arvind Kumar	Sh. H.M. Pandey	1) 618-Type-IV, Laxmi Bai Nagar, New Delhi-110023 2) G-37, Vardhman Mayur Market, Mayur Vihar, Ph-III, Delhi-110096	B.H.M.S.	2007	Guru Gobind Singh I.P. University, Delhi	Delhi Board	10.05.07	3511	CCH -2572
48091	Pandey Manoj Kumar		C/O-Chandra Bhushan Pandey Vill-Nuriapatty, Dhubri 783301 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.11.2000	767	
48092	Pandhi, Anupama	D/O Sh. Sat Paul Pandhi	H.No. 3075 Sector 38-D, Chan Digari, P.O. 1) At Ravindra Pally, P.O. Inda Kharagpur, Dt. Midnapore,	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	16/09/1987	997	
48093	Pandit Monalisha	Dr. B.B. Pandit	2) Birsha Nagar, zone No-9, Holding No-7, Cross Road-3, Jamshedpur - 831004.	BHMS	2001	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	12.7.01	23802	CCH -2655
48094	Pandit Kaushik Kumar		S.M. Road P.O.-Nagaon Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.04.88	292	
48095	Pandit Madan Mohan		Milon Nagar bye lane 4 Laiganeh Guwahati-34	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.06.87	240	
48096	Pandit Radha Raman		Jamuna Homoeo Clinic Near Kail Mondir, Otalbakra Laiganeh, Guwahati-34	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.05.98	660	
48097	Pandya Akanksha	Sh. Dattatray Pandya	VPO- Kushalgarh City-Banswara Dist- Banswara	BHMS	Jan.2007	Vikram University Ujjain	Rajasthan	7.11.2008	5136	

48098	Panen Vikas	Sh. Rajendra Kumar Paneri	Jawas Bus Stand , Near Dr Kapil Dev Hospital , City-Kherwara Dist- Udaipur.	BHMS	Jan, 2007	JRN RV, University Udaipur	Rajasthan	18.12.2008	5166	
48099	Panggam, David	Shri Dojeng Panggam	a) Sawmill Area , P.O. Pasighat Dist. East Slang A.P.-791102 b) C/o T. Tamuk , J.E. (P.H.E.D.), Polo Colony, Naharlagun, A.P. Ph. 03602248788, 9436044105	BHMS	Jul-07	NTR University of Health Science, Vijawada, Andhra Pradesh	Arunachal Pradesh	31.7.2007	73	
48100	Parishla Naveen	Sh. S.R. Panishta	H. No. 199, Ward No. 3, Adarsh Nagar , Pounta Saheb, Simour.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur, (Raj)	H.P.	2.09.08	210- A	
48101	Pannu, Gurdial Singh	Sh. Bahwan Singh Pannu	V.P.O. Khusrupur Dist. Jalandhar (Pb)	DHB	1981	M.P. BHOPAL	Punjab	26/05/1986	901	
48102	Pannu, Sandeep	Sh. Gurnam Singh Pannu	V.P.O. Tung Pain, Batala Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	22.1.1998	1778	
48103	Panwar Poonam	Sh. H.S. Panwar	Hari Bhawan , Red Cross Road, Sunny Side , Solan.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur, (Raj)	H.P.	5.11.08	214- A	
48104	Panwar Prabal Kumar	Sh. Ramesh Kumar Panwar	Near Gresh Mandir, Gali NO. 4, Hanuman Hathia, City- Bikaner Dist- Bikaner	BHMS	Nov/ Dec. 2005	Baba Farid University, Pb.	Rajasthan	6.06.2007	4840	
48105	Parbhakar, Manisha	Sh. Vijay Parbhakar	V.P.O. Brahmin Majra P.O. Sirhind, Dist. Fatehgarh Sahib (Pb)	BHMS	Nov-Dec 2005	BFUHS	Punjab	22.08.2008	3252	
48106	Pareek Rastimi	Sh. Devendra Pareek	In Front of water Tank , Dabok, City-Dabok Dist- Udaipur	BHMS	Jan, 2007	JRN RV, University Udaipur	Rajasthan	28.08.2008	5076	
48107	Pareek Trivikram	SH. Yashpal Pareek	Old Line, Mohalla Sutharon City, Gangashahar Dist. Bikaner	BHMS	Jan, 2006	JRN RAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	26.07.2007	4886	
48108	Panhar Gaurav Sh Subhash Panhar		C/o Shri R.K. Panhar, H.No.-237 D , Near Old Pump House, Kundan Nagar, City- Ajmer Dist. Ajmer	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5106	
48109	Parmar Chitra	W/o Vikram Singh	4-B 51 GH-92 Sector-20 Panchkula	BHMS	2007	Punjab University Chandigarh	Haryana	8.05.09	5864- A	CCH -2737
48110	Parmar Vivek	Sh. R.S. Parmar	Vill. Jajoli, P.O. Jalari Nadauri, Hamirpur.	BHMS	2005	Baba Farid Univ. of H. Sc. Fardkot (PB)	H.P.	01.11.06	188- A	
48111	Parsholam Lal	Sh. Raj Kumar Vashist	Mohalla Bhai Ka, Sunam Distt Sangrur (Pb)	DHMS	1985	BIHAR UNIVERSITY MUZA-FARPUR	Punjab	22/04/1991	1241	
48112	Parveen, Shenaz	Sh. Mohd. Ramzan	Back Side, Baitay Hospital, Malerkotla, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.8.1998	1933	

48113	Patricha, Sonia	D/o Sh. K.L. Pasricha W/o Sh. Jatinder Khurana	Kucha Hanuman Das Street, H. No 400, Fieldgani, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	28.10.1998	1987	
48114	Pasija, Sushma	D/O Sh. Ramji Dass Pasija	H.No. 1017 Sector 11-C, Chandigarh	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	21/8/1987	985	
48115	Pathania, Vijay Singh	Sh. Hardas Singh Pathania	Vill Kanwan, P.O. Parmanand, Tehs Pathankot, Distt. Gudaspur (Punjab)	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	19.04.1985	795	
48116	Patel Punam	Sh. Gautam S. Patel	40-B, Nimalia Ghat Street, Kolkata-700006.	BHMS	2008	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	29.2.08	26960	CCH -2679
48117	Patel Babu Lal	Sh. Jayanti Bhi Patel	At Patel Farm Po Ajari Teh. Pindwara City- Pindwara Distt- Sirahi	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ. D. University, Udaipur	Rajasthan	26.07.2007	4887	
48118	Patel Hitesh Kumar Natwar Lal	Sh. Patel Natwar Lal	At & P.O. Galodiya the Kheda Brahma City-Sabar Kantha Dist-Sabar Kantha	BHMS	Jan. 2007	JRNRV, Deemed University, Udaipur	Rajasthan	22.07.2008	5044	
48119	Patel Kamlesh	Sh. Patel Ramanbhai	Liladhar Clinic, Padar Road, Mandar, City The Reodar Dist- Sirahi(Raj)	DHMS	Oct. 2003	C.O.H. Medicine Ahmadabad	Rajasthan	3.12.2008	5154	
48120	Patel Kunadia Narattam		Vill- Gandhigram, Junagadh Oppo. Amarapoli A.P.F/ Gujarat- 362001	D.H.M.S.	Dec-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.2005	913	
48121	Patel Rajnikant	Sh. Patel Ramesh Bhai	State Bank Gali, Swaroopganj, The- Pindwara, City- Sirahi Dist- Sirahi (Raj.)	BHMS	Jan. 2004	H.N. Gujarat University.	Rajasthan	10.10.2008	5126	
48122	Patel Uttam Kumar Pranlal Bhai	Sh. Pranlal Bhai	C/o Sona Suryavanshi, 87, New Keshav Nagar, City- Udaipur Distt- Udaipur.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ. D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4865	
48123	Patel Varsha Babubhai	Sh. Vastaram Babubhai Patel	1)B-16, TejKiran Soc ram Mandir Road, Vile Parle (East) Mumbai -400057 2)Cupid Clinic, Near Ram Krishna Hospital Linking road, Kher West, Mumbai- 52	BHMS	2002	Hemchandra North Gujarat University, patan	Gujarat Council	19.8.03	G-6290	CCH -2668
48124	Pathak (Mrs) Shewla	Shri. R.C. Pathak	EAC Complex Upper Shillong	BHMS	Sep-06	University Of Rajasthan	Meghalaya	4.7.2006	262	
48125	Pathak, Yogini S.	W/o Prof Rajeev Pathak	H.No. 281, Sector-17, Panchkula.	DHMS	1983	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab	Haryana	7.12.2006	5781- A	
48126	Pathania Satya Jit	Baljeet Singh Pathania	Mohr. Jatwara Near Chopal Sonapat	DHMS	Aug-88	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	28.01.97	5556- A	
48127	Pathania, Suman	Sh. O.P. Pathania	C/o Sh. Rattan Chand, Prof. Colony St. No. 2, Sirhind, Distt. FATEHgarh (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1738	

48128	Pathria, Monika Sh. R.K. Patharia	H.No. 15, Phase IV, Mohali, TEH Kharar, Distt Ropar (Pb.)	D.H.M.S.	1996	PUNJAB	1927	
48129	Patidar, Naresh Sh. Jeevan Ram Patidar	Vill & Post Daduka Teh Garhi City, Banswara Dist. Banswara.	B.H.M.S.	Jan-2006	Rajasthan	4893	
48130	Pattanaik, Sh. Hata Kishore Pattanaik	Vill Barasahi, P.O. Pubusahi, Dist. Khurda Orissa -752005	B.H.M.S.	1992	Orissa Board	C/1660	OCH-2711
48131	Pattanaik, Sh. Satya Narayan Pattanaik	R.V. Homoeo Medical College, Dist. Udaipur	B.H.M.S.	June-96	Uttarakhand University, Orissa	4834	
48132	Patwary Hari Charan	Vill-Dora-Kahara P.O.-Dora Kahara 781101 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	880	
48133	Patwary Karuna Kantia	Satgaon, Guwahati-27 Dist Kamrup, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	496	
48134	Paul Swapan Paul	1) Vill. Betpuli (N) P.O. Maslandapur, P.S. Habra, Dist North, 24, Parganas, Pin- 743289.	B.H.M.S.	2000	University of Calcutta	23066	CCH-2629
48135	Paul Ananda	C/O-Suresh Chandra Paul Vill-Saptagram P.O.-Saptagram 783337 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	784	
48136	Paul Bidhan Bhushan	Vill-Gobind Para west P.O. Gobind Para via Kathigarth Dist-Cachar, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	314	
48137	Paul Bidyut	Vill-Dhalai Bazar P.O. Dhalai Bazar Dist-Cachar-8, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	587	
48138	Paul Narayan Chandra	D.K. Road (Panchmani) P.O.-Dhubri 783301 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Mar-82	University of Bihar	700	
48139	Paul Pran Krishna	C/O Dr. Niren Saikia Memorial Homoeo Clinic Bokakhat Word No-1-785612 Dist-Golaghat Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	100	
48140	Paul Subrananda	C/O-Subhash Ch. Paul Vill-Sapatgram P.O.-Sapatgram 78337 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	772	
48141	Paul Supama	C/O-Ex-Police Line Back of Income Tax Office P.O.-Tezpur Dist-Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Sep-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	896	

48142	Paul, Meenakshi	D/o Sh. Purshotam Paul	B-1/42, New Market, G.T. Road, Goraya, TEH Phollour, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	11.7.2000	2300	
48143	Paul, Shreshtha	Sh. Purushottam Paul	B-1/451, New Market, Post Office, Goraya, TEH Phollour, Dist. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.4.1998	1826	
48144	Paulson M Sangma	A.P. Joseph	AIR Ctr. Pohseh, Shillong	BHMS	Jan-07	Dibrugarh University, Assam	Meghalaya	5.2.2007	268	
48145	Pegu Biswajoyti		Vill-Amolapatty P.O.-Gamukha Dist-Dhemaji, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.10.2000	747	
48146	Pegu Mamoni		C/O-Mr. Goutam Kumar Pegu Vill-Ukhamati P.O.-Ukhamati Dist-Dhemaji, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.07.2001	802	
48147	Pegu Pulin Kumar		Chiram Devathar Gram P.O.-Modobill (Majuli) Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Sep-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.06.04	900	
48148	Phukan Ananta		Vill-Mohapura Khat P.O.-Tengapukhuri 786321 Dist-Sivasagar, Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.09.2001	508	
48149	Phukan Giridhar		Vill-Bengena Khosa R.K.D. Road, Golaghat P.O.-Dist-Golaghat, 785621 Assam	D.H.M.S.	Mar-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.07.07	1008	
48150	Phukan Kakoti		Vill-Barbang, Patshala P.O.-Barbang Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.11.84	132	
48151	Phul, Puneet K.	Sh. P.S. Phul	H.No. 39 Shanti Park Near Aggar Nagar Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	09.11.2005	2968	
48152	Phulinder Preet	D/O Sh. Jaswant Singh Chadha	H.No. 186/8 Mohalla Dogran Gali No 4 Patiala (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	29/01/1986	866	
48153	Phull Parveen Kumar	Sh. Kundan Lal Phull	Naya Bazaar Sunam Mandi Sunam Dist. Sangrur (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	20/03.1986	880	
48154	Pioneer Rani	Dinath Warji	Pokkitch Nongthymli, Shillong	DHMS	Oct-88	Assam Board of Homoeopathic Medicine	Meghalaya	30.7.2004	254	
48155	Polong Sonjit		S/O-Joy Nath Polong Vill-Chania Pathar P.O.-Melamati 785632 Dist-Jorhat, Assam	B.H.M.S.	Dec-05	Dibrugarh University	Assam	21.02.07	999	
48156	Ponil Preet	Sh. Pritam Chand	Vill: Danewala (Dabwali Road) Malout Distt: Muktsar (Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	27.03.2008	3179	

48157	Pooja Rani	D/o Sh. Mohinder Kumar	M/s Puran Chand Ullam Chand Cloth Merchant, Ramnagar, TEH. Talwandi Saboo, Distt. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	3.3.2000	2232	
48158	Poonam	Sh. Dharam Pal Sethi	Androon Bazar, Pathankot, Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.3.1998	1815	
48159	Poonam	Sh. Hari Ram	173/2 Lachhman Nagar, Miller Ganj, Ludhiana (Pb.)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	20.11.2004	2804	
48160	Poonam	Sh. Tarsem Singh	10/97, Opp. Gali Babu Mal Singh, Circular Road, Tern Taran	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3080	
48161	Poonam Prashar	Sh. Manohar Lal	H. No. 246, HIG, Phase II, Mohali, TEH. Khairat, Distt. Rohtak (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	11.9.1998	1948	BHMS Gr. Deg. 2000 Punjab
48162	Poonam Rani	Sh. Ramesh Kumar	H. No. 574, Sanjay Gandhi Colony, Ludhiana	DHMS	1995	CHSM Punjab	Punjab	12.03.2001 27.11.2002	2463	
48163	Poswal Kartar Singh	Amar Singh	Vill. Kailash PO:- Teekri Distt:-Karnal	DHMS	Sep-84	Council of Homeo System of Med Punjab	Haryana	21.06.89	5499-A	
48164	Powrei Nilabrat		Vill. Karani P.O.:-Tewaripul, 784175 Distt:-Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.12.86	208	
48165	Pradhan Amalendu	Late Sh. Nikhunjia Behan Pradhan	1) 487, Rabindra sarai, Kolkata, 700005 2) Vill & P.O. Serkhandhak, P.S. Khajuri Distt. Purb medini pur	DMS	1980	W.B. Council Calcutta & University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	6.2.81	7681	CCH -2622
48166	Pradhan Ashoke Kumar	Late Sh. Pulin Behari Pradhan	487, Rabindra Sarani, Kolkata-5	DMS	1978	W.B. Council Calcutta	W.B. Council Calcutta	10.6.80	6787	BHMS 1986 University of Calcutta
48167	Prajapati Ravindra	Sh. Kajod Ma Kumhar	13- Ram Nagar Colony, Mansingh Pura, Tonk Road, city- Jaipur Distt- Jaipur	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5096	
48168	Prajapati Vibhor	Sh. Vasudev Prajapati	17/581, C. Choupasni Housing Board City- Jodhpur, Distt. Jodhpur,	BHMS	July, 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	5.12.2007	4966	
48169	Prakash Vinod	Sh. Chiranjee Lal Srivastava	Near Gandhi School, Namak katara City- Bharatpur Distt- Bharatpur	BMS	1982	Agra University	Rajasthan	20.03.2008	5008	
48170	Prakash Vijay	Sh. Gian Prakash	V.P.O. Shahkot, The. Nakodar, Distt. Jalandhar	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	07.08.1985	811	
48171	Pranjit Singh		Darsan Homoeo Pharmacy A.T. Road Haiborgaon P.O.:-Distt-Nagaon Assam	D.H.M.S.	Mar-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.02.04	893	

48172	Prasad Manish D. Mahabir Prasad	B-1/1, Pratika Apts. Domuhani, P.O. Sonari, Jamshedpur, Jharkhand - 831011	BHMS	2007	University of Burdwan	W.B. Council Calcutta	10.9.07	26787	CCH -2864
48173	Prasad Gaya	Govt. Homoe. Dispensary Kheri Kalan P.O.:- Rathwas Distt:- Gurgaon	BMS	Dec-75	State Board of Homoeo (Lucknow)(UP)	Haryana	28.04.93	5571- A	
48174	Prasad Harekrishna	VIII-Merapani P.O.- Merapani via Frokating Distt:- Golaghat, Assam	D.H.M.S.	Jun-78	University of Bihar	Assam	17.08.98	711	
48175	Prasad Ramanuj	1) At Sonpurwa, P.O.- Gerhwa-822114, Jharkhand 2) Babu Market, Gerhwa, Jharkhand	B.H.M.S.	2001	B.B.A. Bihar University	Bihar Board	22.10.03	27427	CCH -2580
48176	Prasad, (Ms.) Archana	a) Sirsiya, P.O. Sasamusa, Distt. Gopalganj, Bihar b) C/o Mr. R. Prasad, Qtr No. 03, Type III Forest Colony Near Youth Hostel 'A' Sector, Nahariagun A.P. Ph.-9436232817 / 9436253623	BHMS	28.07.2008	Rajiv Gandhi University Anunachal Pradesh	Anunachal Pradesh	19.08.2008	96	
48177	Prashar Nisha	1302 Sector - 2, Panchkula	DHMS	1998	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	7.03.07	5791- A	
48178	Prashar, Rajinder	177-B PNFC, Colony Naya Nangal, Teh. Anandpur Sahib Distt. Ropar (Pb)	DHMS	1981	PUNJAB	Punjab	30/01/1989	1107	
48179	Pratap Guru Singh Rekhi	Ward No. -9 Barwala Distt:- Hissar	DHMS	Mar-90	Raj. Board of Homoeo. Medi Jaipur	Haryana	28.04.93	5572- A	
48180	Pratibha Sharma	3 - B - 7, Mahaveer Nagar, Extension City- Kota Distt- Kota. (Raj.)	BHMS	May 2007	Raj University Jaipur	Rajasthan	5.03.2009	5199	
48181	Pratima	B-II-1551, Kucha Seth Sant Das Clock, Tower, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	15.9.1998	1957	
48182	Preet Kanwal Yadav	V.P.O. Dholan, TEH. Jagraon, Distt Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	9.11.1999	2166	
48183	Priti	# 599 Gali Tallanwall Sirsa	DHMS	Mar-99	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	25.01.02	5885- A	
48184	Priti Bhatia	HM-172 Roop Nagar P.O. Kalra Karam Singh Amritsar.	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	09.11.2005	2962	
48185	Priya	C/O Sh. Mohinder Pratap Sareen, Bhuchan Mohalla, Navan Shahar	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	19.11.2003	2651	

48186	Priyanka	Sh. Prem Chand	K.No. 2612, Phase XI, SAS Nagar, Mohali	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	21.4.1998	1820
48187	Promila	Sh. Anand Mattu	H. No. 2504, Bhai Randhir Singh Nagar Ludhiana	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	17/03/1997	1694
48188	Pruthi Harpreet Singh	H. S. Pruthi	# 966 Sector - 9 Panchkula	DHMS	1995	CHSM Punjab	Haryana	13.01.97	5640- A
48189	Pruthi, Maggie	Sh. Y.K. Pruthi	C/o Advocate Gurbax Rai Prithi, Gali No. 8, Abohar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	30.7.1998	1899
48190	Punam Dab Odiya	W/o Dr. Pratap Dabodiya	VPO. Kalyana Tehsil CH. Dadri Dist.- Bhiwani	BHMS	Oct-03	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Haryana	21.01.09	5851- A
48191	Pundhir Kamal Pratap Singh	Sh. Krishan Veer Singh	135, - Ranjeet Nagar, Khalipura Jhotwara, City-Jaipur Dist. Jaipur.	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5088
48192	Punj, Bharat	Sh. Karam Chand Puri	H.No. 834 Phase 2, Jamalpur Urban Estate Ludhiana	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	05.09.2002	2602
48193	Purn, Perminder	Sh. Harjinder Singh Purn	258/C, Rajguru Nagar, Ferozpur Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	7.1.1998	1771
48194	Puri Reema	Sh. Rajinder Pal Puri	878 / 1 -Ward No -13, Mahaveer Colony, Purni Abadi, city- Si Ganganagar, Dist- Sri Ganganagar.	BHMS	2005	Baba Farid University, Punjab.	Rajasthan	2.07.2007	4846
48195	Puri, Deepti	D/o Sh. N N Puri	No. 308/2, Major Sham Singh Road, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2416
48196	Purkayastha Arun Kr. Das		Sarda Lodge, Ulubari Guwahati 07	D.H.M.S	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	11.04.85	126
48197	Purkayastha Dipankar		Thana Road Margaria P.O. Margaria Dist. Tinsukia Assam	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.06.2000	494
48198	Purkayastha Manjula		Nulapally, Dhauleswar P.O. Agartala, 795007 Tripura	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.12.84	105
48199	Purohit Tushar	Sh. Ram Prakash Purohit	S / 41, Parasram Nagar, Dher Ka Balaaji.	BHMS	July 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	10.12.2007	4976
48200	Qureshi Mohammad MoINUDDIN	Sh. Aminuddin Qureshi	Post Kasian city- Bhiwara Dist- Bhiwara	D.H.B.	1978	State Council MP	Rajasthan	11.06.2008	5027
48201	Rabha Dhananjay		Vill-Andheri Jull P.O. Rani Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.04.98	580

CCH - 2756

48202	Rabha Munindra	C/o-Kameswar Rabha Vill- Palaha para P.O.-Singara 781135 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.07.2001	665	
48203	Rachina Rana	H.No. 2017/S.K Shivpuri Krishana Street No. 2, Ludhiana	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	13.06.2000	2514	
48204	Radhaya Sharm	H.N. 307 Dayal Nagar Ghumar Mandi Civil Lines-3 Ludhiana (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	31/01/1986	864	
48205	Raghav Deepthi	948 - A Sector -29 Faridabad	BHMS	Apr-08	Punjab University, Chandigarh	Haryana	23.05.08	5830- A	
48206	Raghuvarshi Gaurav	192 - Krishna Nagar, City Bharat pur Dist. Bharat pur	BHMS	Aug.2006	RGU of HS, Karnataka	Rajasthan	7.11.2008	5137	
48207	Rahaman Arifur	C/O Abdur Rahaman Vill- Balagaon P.O.-Rangia 781354 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.03.98	674	
48208	Rahaman Azizur	Vill-Silukhuri P.O.- Silukhuri 782123 Dist- Mongaon, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.06.2001	796	
48209	Rahaman Jahidur	s/O-Janab ALI Sarkar Vill- Anchala P.O.-Salkata Bazar Dist-Dhubri, Assam	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	16.01.07	993	
48210	Rahaman Mahabubur	Vill-Joypur, Goalpara P.O.- Joypur Bazar Dist- Goalpara, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	11.06.85	146	
48211	Rahaman Mahabubur	Vill-P.O.-Balagaon 781319 Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	april 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.06.08	1075	
48212	Rahaman Mohibur S.K.	Vill-Tarajan P.O.-Tarajan via Khowgan Dist- Dibrugarh, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.12.86	222	
48213	Rahamn Lufur	Vill-Niz Barujhar P.O.- Kauripukhari Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Jan-82	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.04.2000	541	
48214	Rahaja, Devinder	H.No. 10456, St. No. 5, Bhagwan Chowk, Janta Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	17.10.2000	2375	
48215	Rahaja, Sabina	28-B, Shastri Nagar, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	26.8.1999	2126	
48216	Rahul Rupal	Sadar Bazaar Bamala,(Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	18.02.2002	2569	

48217	Raj Tripti	Sh. Rama Shish Rai	Qtr. No. 169, Police Colony Idgah Road, Sarda Bazar, New Delhi-110006.	BHMS	2006	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council Mumbai	6.10.07	43719	CCH-2695
48218	Raj Anurish Kumar	Dr. Suresh Rai	Vill. & Post Lahuar, P.S. Zamania, Dist. Ghazipur-232329 (U.P.)	BHMS	2008	J.R.N. Rajasthan Vidyapeeth University Udaipur	Bihar Board	27.06.08	28712	CCH-2717
48219	Raj Asha	Sh. Shyam Sunder Rai	6-P-6, Mahaveer Nagar, EXT. Basant Vihar, City-Kota Dist. Kota	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5105	
48220	Raj Chand	Sh. Yash Pal	Moh. Kohiana Nur Mahal Teh. Phillaur Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	10/11/1988	1087	
48221	Raj Annpal Singh	Sh. Balbir Singh Rai	H. No. 337, Talwandi Gate, Rajkot Distt. Luchiana (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	10/11/1994	1422	
48222	Raj Gurmeet Singh	Sh. Kashmeer Singh Rai	Roma Nursing Home & Computerized Homoeo Hospital Mandi Lahuka Teh. Fazilka, Distt. Ferozepur	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	10.03.2008	3168	
48223	Raj Sandeep Kaur	Sh. Surinder Pal Singh Rai	H.No. 20473, St. No. 28, Ajit Road Bhatinda(Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	09.04.2008	3198	
48224	Raj Sat Pal	Sh. Sidhu Ram	V.P.O. Chak Budho Ke, TEH. Jallalabad Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.2.1998	1813	
48225	Raj Jatinder Kumar	Sh. Ashok Kumar Raina	C/o Sh. S.N. Raina H.No. 4/448, Arya Smaj Block, Dhuni, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	15.9.1999	2133	
48226	Raj Amandeep Kaur	D/o Sh. Bhupinder Singh Riat	531-A, Model Town, Ext. Luchiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	4.7.2000	2283	
48227	Raj Kumar	Shiv Karan	Vill. Nagla Joglan P.O. Seekri Distt.-Faridabad	DHMS	Aug-87	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	16.03.89	5490-A	
48228	Raj Kumar	Sh. Rameshwar Dass	C/O Raj Attachi House, H.No. 10130/2 Ajanta Nagar Luchiana	BHMS	May-June 2005	BFUHS	Punjab	21.06.2007	3133	
48229	Raj Tilok		Vill. Kralan P.O. Parole Dist. Kathua, (J&K)	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.02.2006	920	
48230	Rajeev Lakhpal	Sh. Hardatt Lal Sharma	H.No. 460/5, Banshi Nagar, Near Railway Station, Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	17.11.1997	1732	
48231	Rajib Kumar Baruah		Vill. Phukan Gaon P.O. - Sivsagar Distt.-Sivsagar, Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.05.98	420	
48232	Rajinder Kumar	Hari Om Gupta	1) H.NO-551 Sector - 6, Panchkula 2) SCF 261 Sector-16, Panchkula	DHMS	1986	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	14.11.94	5506-A	

48233	Rajinder Kumar	Raghubir Singh	C/o Rana Clinic W.No. - 5, Famukh Nagar, Distt.- Gurgaon	DHMS	Jun-79	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	23.02.98	5666- A	
48234	Rajinder Mahandru	Sh. Gurbachan Singh	Najia Bazar Noor Mahal Jalandhar (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	25/10/1995	1550	
48235	Rajinder Parshad Lohan	Rattan Singh	H.No.2104-B,Ue Near Jat Dharamshala Jind	DHMS	Feb. 1989	University of Bihar Muzaffarpur	Haryana	19.09.1991	5550- A	
48236	Rajita Pandhi	W/o Mohit Dhawan	# 1583/4 Nadi Mohalla Near Prem Mandir Ambala City	BHMS (G.D.C.)	Jun-04	Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot	Haryana	25.07.06	5766- A	
48237	Rajkumar Debajit		Ananda Nagar, Sixmile Khannapara, Guwahati-22 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Nov-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.04.98	692	
48238	Rajkumar Ajoy		Na-ali Jorhat P.O.-Jorhat Dist-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.05.87	241	
48239	Rajkumar Debojyoti		Na-ali oppo-to Jorhat College P.O.-Jorhat Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.03.99	729	
48240	Rajkumar Pradip		Sardamoni Lane College Road P.O.-Silchar Dist- Cachar, Assam	D.H.M.S.	Dec-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.03.87	228	
48241	Rajneet	Sh. Mohinder Singh	Ashok Kumar C/O Fair Deat Cloth Palace, Shop No.4 Sector-11, Naya Nangai, Anandpur Sahib Dist. Ropar (Pb)	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3075	
48242	Rajni	Sh. Bharat Bhushan	H.No. 1286, Waed No. 4, Adampur, Dist Jalandhar	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3095	
48243	Rajpurohit Ruchita	Sh. Chandra Shekhar Rajpurohit	Near maheshwari Bhawan, Swamion Ka Mohalla city- Bikaner Dist.- Bikaner.	BHMS	Jan.2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4872	
48244	Rajput chander Kala	Sh. Batak Ram Rajput	1) B-42, Jeevan Park, Ultam Nagar, New Delhi,- 110059 2) Vill. Dharbrahma, P.O. Bhunti Ten. Arki, Dist, Solani, Himachal Pradesh - 173221	BHMS	2008	J.R.N. Rajasthan Vidyapeeth University Udaipur.	Council of H.S. OF Medicine, H.P Shimla	8.8.08	203- A	CCH-2637
48245	Rajput Ravi Ramchandra	Sh. Ramchandra Rajput	C/o Sona Suryavanshi, 67, New Keshav Nagar, City- Udaipur Dist.- Udaipur.	BHMS	Jan.2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4864	

48246	Rajput Ruchi	Sh. Vijay Paul Singh	Solan Homoeopathic Medical College & Hospital, Kumharhatti, Solan.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur, (Raj)	H.P.	5.11.08	215-A	
48247	Rajput Kuldeepak	Sh. Ashok Kumar Rajput	H.No. 37, Phase VI, Sec. 56, Mohali, Teh. Khairat, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	7.2.2000	2212	
48248	Rakesh Kiran	Sh. Ram Narain Kiran	V.P.O. Prabhuvalla Teh. & Distt. Hissar (Haryana)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	21/05/1986	900	
48249	Rakesh Kumar	J.C. Nagpal	#175 Ward NO - 2 Tilak Colony Perawa (Kurukshetra)	DHMS	Aug-87	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur.	Haryana	30.08.89	5519-A	
48250	Rajni, Pardeep Kumar	Sh. Ved Prakash Kumar	B-23, H.No. 5639, St. No. 8, New Shivaji Nagar, Ludhiana	DHMS	Dec. 1984	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	26.08.1985	823	
48251	Ram Chand	S/O Sh. Daulat Ram	V.P.O. Bhang Chan Teh. Muktsam Distt. Fardkot(Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	10/8/1987	982	
48252	Ram Kishor	Sh. Poona Ram	C/o Arjun Ram, Senior Teacher, Near Vishnu Bai Niketan School, Sanjay, City- Nagaur Dist- Nagaur,	BHMS	Aug. 2004	Rajasthan University,	Rajasthan	2.03.2007	4817	
48253	Ram Rachipai	Sh. Harbans Lal	V.P.O. Julajan Teh. Khanna Distt. Ludhiana(Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	31/01/1986	868	
48254	Rama Kishor	Sh. Raghu Nath Singh Pachahara	Pachahara Gali, Old Anaj Mandi, City- Bhusawar Distt. Bharatpur	BHMS	Feb. Mar. 2007	R.G.U.O.H.S. Banglore.	Rajasthan	3.12.2008	5157	
48255	Raman Jot	D/o Sh. Karamjit Rishi	C/o Dr. Chajju Hospital, Dr. Chajju Street No. 327, Malerkotla (Sargur)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	6.8.1999	2107	
48256	Ramanand Bishwajeet	Sh. Bhushan Kumar Choudhary	1) C/o Sri Bhushan Kumar Choudhary (Suppeng), Opp. C.F.R. Lal Bungalow, Nr. J.L. Nehru School, Jealgora, P.O. Patherdih, Dist. Dhanbad, Jharkhand- 828119	B.H.M.S.	2008	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	29.2.08	26552	CCH -2599
48257	Ramandeep	Sh. Malkiat Singh	H.No. 402, Janta Nagar, Dhuri, Distt. Sangrur	BHMS	Nov-Dec 2005	BFUHS	Punjab	26.02.2008	3169	
48258	Ramesh Kumar	Sh. Satram	H.No. -23, Sudharan Ka Bass, VII-14 A.D.P.O. - Pugal, The. - Pugal, City - Bikaner Distt. Bikaner.	BHMS	May, 2007	Raj. University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5113	CCH -2740
48259	Raminder Deep	D/o Sh. J.S. Ahluwalia	78 C-Model Town, Phagwara, Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	12.1.2000	2184	
48260	Raminder Sini	Sh. Amar Parkash	Air Bazar Near Janta Middle School, Sunam, Distt. Sangrur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2947	
48261	Rampal, Priya	Sh. Naninder Kumar Rampal	H.No. 112-A1 Rani Ka Bagh Amritsar	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	09.11.2005	2969	
48262	Rana Partap	Sh. Darshan Lal	VPO, Fatehabad, Khadoor Sahib Distt. Amritsar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	30.05.2001	2511	

48263	Rana Sandip Kumar	Sh. J.S. Rana	Vill Pantehar, P.O. Patti, Palampur, Kangra.	BHMS	2004	Rajiv Gandhi Univ. of H.Sc. Karnatka.	H.P.	16.08.05	152-A	
48264	Rana Sreedal	Sh. P.B. Ravan	Vill. Pantehar, P.O. Patti, Palampur, Kangra.	BHMS	2008	Rajiv Gandhi Univ. of H.Sc. Karnatka.	H.P.	22.04.08	187-A	
48265	Rana, Anil Kumar	Sh. Randhir Singh Rana	Moh. Rajan, H.NO. B-4/61, Newan Shahar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	28.9.1999	2140	
48266	Rana, Ashwani Kumar	Sh. Rikhi Chand Rana	Vill. Aluna P.O. Basanpura (Pb.) Teh. Rajpura Distt. Patiala	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	31/05/1990	1204	
48267	Rana, Asiwani Kumar	Sh. Banarsi Dass	H.No. 1002 6-K2 Gali No 7 Bal Singh Nagar, P.O. Basti Jodhpur Ludhiana (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	27/05/1992	1291	
48268	Rana, Seema	Sh. N.C. Rana	H.No. 372, Phase II, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.8.1998	1926	
48269	Randhawa, Manjeet Kaur	W/o Sh. Tej Pal Singh Randhawa	Rangaria Chowk, Moga Ropar (Pb.)	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	07.10.1985	841	
48270	Rani Changriwal	Sh. Nana Lal	C/O Shri Shiv Shakti Clinic, Near Khetpal Temple, Ward No-23 City Rawatasar, Distt. Hanumangarh (BHMS	May, 2007	University of Raj Jaipur.	Rajasthan	10.12.2008	5160	
48271	Rani Manita	Sh. Shakti Singh	VPO. Jawali, Kangra.	DHMS	1998	Punjab Homoeo council	H.P.	17.08.02	126-A	
48272	Rani, Ashu	D/O Sh. Ramesh Chander	C/O Sh. R.C. Malhotra 3436 Street Lahorian Jagraon Distt Ludhiana (Pb)	DHMS	1981	PUNJAB	Punjab	4/8/1992	1312	
48273	Rani, Monika	D/O Sh. Raj Kumar	H.No. 96-D, Raj Guru Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	11.1.2000	2182	
48274	Rani, Sunita	D/O Sh. Chaman Lal	H. No., 8 Preet Nagar, Ferozepur (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	29/05/1995	1491	
48275	Ranu, Paramjeet Singh	Sh. Sajjan Singh Ranu	Near Tawandi Gate, Main Bazar Raikot Teh. Jagraon Distt Ludhiana (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	25/01/1991	1236	
48276	Rao Ramesh	Sh. Sardar Singh	Jai Mukund Dharam Kata Near Railway Station, City- Chirawa Distt- Jhunjhunu.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4869	
48277	Rasbihari Chackroborty		Lachlinegar P.O., Huj Rangaghar Via Haiborgaon Distt-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.07.98	443	
48278	Rashmi	Sh. Suresh Atrey	H.No. 102, Parlap Colony Model Gram Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2923	

48279	Rastogi Sapan Dr. R.P. Rastogi	1) Sunhari Masjid, Farukabad (U.P.) 2) Gayatri Homoeo. Clinic, 1/44, Avas Vikas Farukabad 3) Gayatri Homoeo. Clinic Lohai Road, Farukabad - U.P. -209625.	BHMS	2007	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council, Mumbai	20.12.07	44141	CCH-2662
48280	Rasul Md. Golam	Vill-Pachnipara P.O., Bongapara Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.03.98	624	
48281	Rathjee, Jaswant Singh	H.No. 3025, Sector 22-D, Chandigarh	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	24/04/1989	1158	
48282	Rathore Vrandaban Singh	Vill-Kauwatanda P.O., Kauwatanda Dist-Manipur (U.P.)	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.10.98	450(-A)	
48283	Rathore Rashmi	192 - Ranjeet Nagar, Khaitipura City- Jaipur Dist- Jaipur /	BHMS	April, 2008	GGSIU, Delhi.	Rajasthan	26.08.2008	5074	
48284	Rathore Kamleendra Singh	93- 94 - B, N.B. Nagar Ist Dhaui Ji Bari Pratap Nagar, City- Udaipur, Dist- Udaipur/	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4859	
48285	Rathour, Dalip Singh	Vill Naita gaon, Tehs. Nada, Distt. Mohali	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	30.08.1985	828	
48286	Rattan, Rajesh	92, Guru Amardas Market Khariha Distt Ludhiana (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	29/03/1989	1145	
48287	Raturi Poonam	Flat no 2 Gokul Apartment Shakti Nagar, City- Udaipur, Dist- Udaipur.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4879	
48288	Rauf Arti Purushottam	1) C/o Punushottam Raut, 15, Road no -10, Bajrang Nagar, Nagpur -27, 2)C/o Nand Kishor Larhe, 123, populer Society, Wadi Naka -10, Amravati Road Nagpur. 3) Anterbharti H.M. college Dhaba	BHMS	2000	Nagpur University, Nagpur	Maharashtra Council, Mumbai	15.3.2001	31448	CCH-2657
48289	Ravi Kant	H. No. 382, Phase-1, S.A.S. Nagar, Mohali, Teh. Distt Roopar (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	25/06/1992	1303	

48290	Ravinder Kumar	Tara Chand	876 Prem Nagar Yamuna Nagar	DHMS	1981	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	16.03.89	5489-A		
48291	Rawal Virendra Pal Singh	Sh. Pancham Singh Rawat	29, Satyam Moof Chand Khari Colony, Sendra Road, Govindpura, City-Beawar Dist.-Ajmer.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4867		
48292	Reema	Sh. Khem Raj Tiwari	Railway Road, Sultanpur Lodhi, Dist. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.11.1997	1734		
48293	Reenu	Sh. Subhash Chander	3, Jawahar Nagar, Moga (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	5/11/1996	1671		
48294	Reetika	Sh. R.K. Mittal	B-36/202 Vikas Nagar Pakhowal Road Ludhiana(Pb)	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	19.06.2007	3121		
48295	Reetu Raj,	Sh. Rajendra Kumar	1) H.No. B-II/74, Bagh Colony, Tapa, Dist. Barnala 2) H.No. 10547/6, Old Anaj Mandi, Ambala City-134003 3) National Homoeo. Railway Road, Ambala City-134003	BHMS	2004	Baba Fand University H. Sciences, Fandkot,	Punjab Council Chandigarh.	30.4.4	2683-A		CCH-2691
48296	Regan Ramananda		VIII-Adikalia P.O.-Jamuguri Panch Ali 787057 Dist-Dhemaji, Assam	B.H.M.S	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	21.11.06	980		
48297	Rehan, Vikas	Sh. Subash Chander Rehan	Batala Homoeo Clinic, Circuit Road, Opp. D. Ravinder Singh Hospital Batala (Pb)	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	25.08.2008	3255		
48298	Rejesh Solat	Sh. Prem Chand	H.No. B-XXVIII-1295, Punjab Matral Nagar, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	03.03.1998	1801		
48299	Rekha	Sh. Ravinder Singh	H.No. 1236, Phase V, SAS NAGAR, Mohali, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	7.1.1998	1774		
48300	Rekha Rani	Sh. Rameshwar Dass Kaushal	H.No. 826, Phase IV, SAS Nagar, TEH. Kharar, Dist. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	19.5.1998	1842		
48301	Renu Prabha	W/o H.K. Gupta	1041 New Housing Board Colony Karnal	DHMS	Dec-75	Board of Homoeo. System of Medicine, Delhi.	Haryana	2.01.02	5684-A		
48302	Riba, (Ms.) Mongam	Sh. Rimo Riba	a) Liru Village P.O.P.S. Likabali, Dist. West Saing Arunachal Pradesh b) DE' Green Cottage, C-Sector Itanagar-791111, Ph.9436248889 /9436220086	BHMS	27.06.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	13.08.2008	85		

48303	Riya Ali	C/O Abdul Halim Bittupan Path, Nalbana Oppo M.N.R. Junior College Hatigaon, Guwahati-38	B.H.M.S	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	23.10.06	972
48304	Rishi Ravindra	B.L. Rishi 425/5 Mohan Nagar Kurukshetra	DHMS	1985	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	24.08.92	5558-A
48305	Rishi Varun	Dr. K.D. Rishi 5/1 Shivaji Nagar, Gurgaon	DHMS	1993	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	31.01.95	5621-A
48306	Rishi, Seema	D/O Sh. Kuldeep Kumar Rishi V.P.O. Bhadaur, TEH Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.10.2000	2370
48307	Ritu	W/o Ashok Kumar # MIG 260 Housing Board Colony Kaika	DHMS	1998	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	28.01.03	5698-A
48308	Ritu	Sh. O.P. Setia MIG, 77, Sector-4, Panwano, Distt. Solan	DHMS	1998	Punjab Homoeo council	H.P.	23.08.02	128-A
48309	Ritu Rani	D/O Sh. Hem Raj Nirdosh 12A/170, Moh. Shivpuri, Dhuri, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	22.6.1999	2048
48310	Ritula	D/O Sh. Sunder Lal Garg C/O Sh. S.N. Raina H.No. 4/448, Arya Smaj Block, Dhuri, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	15.9.1999	2134
48311	Rob Abdul	Vill-Minothonga Hirta P.O.- Imphal East, Manipur	D.H.M.S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.09.03	876
48312	Robina Shah	H.No. 1123, Harnam Nagar, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.9.1998	1965
48313	Roy Bithi	C/O Dr. Ashok Sharma - A- 171, Vaishali Nagar, City- Jaipur Dist. Jaipur	BHMS	Nov 2005	Goa University Goa	Rajasthan	15.01.2009	5169
48314	Roy Bimal Chandra	Vill-Hathipukhuria P.O.- Hatipukhuria 782125 Distt- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Sep-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.06.04	897
48315	Roy Bimalendra	Vill-Sonitpur P.O.-Sonitpur 784176 Distt-Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.12.86	218
48316	Roy Chandan Kumar Saha	China Patty, Nagaon P.O.-Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.09.86	179
48317	Roy Kabeni Krishna	Vill-Velkoba P.O.-Kachari Hat 783334 Distt-Dhubri Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.11.2002	862

48318	Roy Meera		Vill-Kaithalmari P.O.- Kaithalmari Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.04.88	288		
48319	Roy Nirmal Chandra		Vill-Jarabari P.O.- Bongaipara Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.11.86	187		
48320	Roy Pangasapabam Sujitra		Vill-Laipham Khunou P.O.- Lamlong 795010 Dist- Imphal, Manipur	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.99	558		
48321	Roy Ranjit		Vill-Hari Hira Gaon P.O.+Dist-Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.04.98	689		
48322	Roy Sabyasanchi		Laxmi Charan Road P.O.+Dist-Karimganja, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.11.86	192		
48323	Roy Soumen	Sh. Monoranzen Roy	C/o Dr. Nanda Dulal Roy, Debendra Niloy P.O. Bidhangan, P.s. Rabindra Nagar, Kolkata - 700066, (W.B.)	BHMS	2008	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	22.7.08	27288		CCH -2654
48324	Roy Subir Ranjan		C/o Satya Ranjan Roy Main Road Hojai P.O.-Hojai Dist- Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.08.85	164		
48325	Roy Sujata		M.C. Road Bijni P.O.-Bijni 783390 Dist-Bongaigaon Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.05.98	702		
48326	Roy Tannima		C/o-Tushar Kanti Roy Baripara Maligaon Guwahati-12	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.10.2000	746		
48327	Rubal	D/o Sh. Sham Lai	Govt. Sen. Sec. School, Tapa, TEH. Barnala, Dist. Sangrur (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	28.8.2000	2334		
48328	Ruchica Gour	Sh. Sham Sharma	678, Dayal Nagar, Near Chunar Mandi Ludhiana (Pb.)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	16.03.2005	2841		
48329	Rudra Sekhar		C/O-Narendra Nath Rudra Borak Homoeo Polyclinic Moranhat P.O.-Moranhat 786670 Dist-Sivsagar, Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.09.87	242		
48330	Rupinder Kaur Grewal	D/o Sh. Karam Singh	V.P.O. Talwandi Rai, TEH. Raikot Dist. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	14.2.2000	2219		

48331	Rusya Shobha	Late Sh. Prabhu Dayal Rusiya	Mr. Krishna Kumar Rusiya, Herihar Road, Haripur - 471111, Dist. Chhatarpur (M.P.)	B.H.M.S.	2005	Dr. Han Singh Gaur University, Sagar (M.P.)	M.P. Council Bhopal	22.12.07	15519	CCH-2607
48332	S. K. Afanik Shajamal		Vill-Lalmohaner Alga P.O.-Aswan Kundi 783331 Dist. Dhubri, Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	7.10.2006	945	
48333	S. K. Anwar Hussain		Vill+P.O.-Asankandi Dist. Dhubri, Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	26.03.07	1004	
48334	Sabhan Munindra Kumar		Vill-Niz Sarabari P.O.-Deodhan ghat Dist. Darrang, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.08.87	267	
48335	Sabinoy Das Gupta		Rail Qr.no.DS/S(P) Guwahati-12	D.H.M.S.	Jul-83	B.H.S.M. Assam	Assam	20.12.84	116	
48336	Sachar, Shinu	Sh. Vasudev Sachar	K.No.1221, Sector-42-B, Chandigarh	BHMS	May - June 2003	BFUHS	Punjab	01.01.2008	3160	
48337	Sachdev, Anu	D/O Sh. Om Parkash	H. No. 2485/6, Kamla Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	17/07/1995	1517	
48338	Sachdeva Varinder	Sham Lal Sachdeva	C/o Rajinder Sachdeva, Aggarwal Colony # 462 Street No- 8 Behind Hanuman Mandir, Sirsa	BHMS	Nov-03	Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot	Haryana	7.07.05	5732- A	
48339	Sachdeva, Anjana	D/O Sh. C.P. Sachdeva	841, Sarabha Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	4.7.2000	2285	
48340	Sachdeva, Arti	Sh. Bihari Lal Sachdeva	H.No. 749, Juneja Street, Fazilka, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1880	
48341	Sachdeva, Kapil	Sh. Kirpal Ram Sachdeva	H.No. 229, St. No. 4, Upkar Nagar, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.5.2000	2261	
48342	Sachdeva, Veena	D/O Sh. Jagdish Parshad Sachdeva	C/o Sohan Lal Mongra, Ashram Phirosh Vill, Lambi Thana Wali, Distt Muktsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	18.8.2000	2325	
48343	Sachdeva, Vipin	Sh. Gurbachan Singh Sachdeva	H.NO. HE-206, Phase V, SAS NAGAR, Mohali, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	15.12.1997	1752	
48344	Sadhu, Shruti	D/O Sh. S D Sadhu	H.NO. 597, Phase I, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.7.1999	2084	
48345	Sagar Vidya	Ram Kishan	Near Rly. Station Devi Nagar Gohana Distt.-Sonapat	BHMS	Jan 2000	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	13.05.02	5690- A	
48346	Sagar, Vidya	Sh. Veti Bhushan	H.No. 74, Harbans Nagar Jalandhar City	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	12/9/1996	1650	

48347	Sah Krishna Nandan	Sh. Manjees Lal Sah.	1) Satguru Telecom, Laxmi Narayan Mandir, Lal Bagh, Azadpur Delhi-33, 2) House No.383, Burani Village, Delhi-84 3) N-9C/ 132, T. Huts, Lal Bagh, Delhi,	BHMS	1985	University of Bihar	Bihar Board	28.5.86	22118	CCH-2651
48348	Saha Dipak Kumar		C/O-Biraj Mohan Saha Vill.-Melaghar P.O.-Melaghar Dist TRIPURA West, Tripura	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.11.99	464	
48349	Saha Pradiip Kumar		Kalibari Road, Goalpara P.O.-Goalpara 783101 Dist-Goalpara, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.07.98	638	
48350	Saha Samir Baran		Vill.-Jamunamukh P.O.-Jamunamukh 782428 Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.07.98	647	
48351	Saha Susanta		C/O-Dr. Pares Chandra Saha Vill-Pub para Jatia Bhagara P.O.-Silergaon 781381 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.09.2002	857	
48352	Saha Swapan Kumar		Oppo to Post Office P.O.-Charali-784176 Dist-Sonitpur, Assam	D.M.S.	Jun-76	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Assam	28.03.80	49	
48353	Sahdev, Shruti	Sh. Gopal Sahdev	#135, Bank Colony, Una Road, Near Sadhu Ashram, Hoshiarpur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2953	
48354	Sahin Sayeda Sabira		C/o-Sayed Misbahul Hussain Babupatty Near Bajaj Showroom Sivsagar 785640 Dist-Sivsagar, Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	10.10.06	953	
48355	Sahni Deepak	Dr. Tej Paul Sahni	335 Sector-4 Panchkula	BHMS	Dec-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	9.05.08	5826-A	
48356	Sahni Mona	W/o Deepak Sahni	335 Sector-4 Panchkula	BHMS	Dec-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	16.05.08	5827-A	
48357	Sahni, Kirti Vardhan	Sh. Govind Ram Sahni	129-A Block Cd. Viasakha Enclave, Pritampura New Delhi-110034	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	18/10/1988	1086	
48358	Sahoo Swapan Kumar		S.J.N. Homoeo College Panjabani Guwahati-37	D.M.S.	Jun-76	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Assam	04.09.83	74	

48359	Sahotra Sunil	Sh. S. K. Sahotra	V.P.O. Gawardoo, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur, 1) C/o Jawahar Lal Sahu, Vill. Natima, P.O. Gurma, Bhemal Distt. Paschim Midnapur, W.B. 721517	B.H.M.S.	2008	Maharashtra Univ. of H.Sc. Nashik	H.P.	29.12.08	220-A	
48360	Sahu Uttam Kumar	Sh. Jawahar Lal Sahu	2) Vill. Patpur, P.O. Derkhauti P.S. Barsole, Distt. East Singhbhum- 832101	B.H.M.S.	2006	University of Burdwan	W.B. Council Calcutta	4.8.06	26310	CCH-2609
48361	Saikia Anupam		C/O-Sri Ratneswar Saikia Vill-Khowang Sonowal Village P.O.-Khowanghat Distt-Dibrugarh 786676 Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	03.11.07	1014	
48362	Saikia Babita		Vill-Jalgaon P.O.- Halborgaon Distt-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-01	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.09.2002	855	
48363	Saikia Baishista Ram		South Sarania Uluberi Guwahati-7	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.05.85	129	
48364	Saikia Chandra Kanta		Vill-Sarukacharigaon p.o.- Borholla Distt-Jorhat Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.09.84	77	
48365	Saikia Dipak Kumar		Vill Bhatemara Gaon P.O.- Parbolia, Jorhat-6-10 Distt- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.87	199	
48366	Saikia Dipankar		Manwary Patti, Golaghat Ward No 1 P.O.-Golaghat Distt-Golaghat, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.12.2001	838	
48367	Saikia Dityamoni		C/O-Phondhar Saikia Vill- Keutimati gaon P.O.-Jorht- 1 Distt-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Nov-95	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.07.98	706	
48368	Saikia Ghana Kanta		Vill-Balajan P.O.-Rangajan via Titabor Distt-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Sep-88	Bihar University	Assam	23.03.93	600	
48369	Saikia Jiban Chandra		Vill-Teila Pahukata P.O.- Uriagaon Distt-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.07.2003	870	
48370	Saikia Moniktha		Near Kmalbari Namghar P.O.-Dulajjan Distt- Dibrugarh Assam	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	12.06.08	1083	

48371	Saikia Pranidhar	VIII - Charaliddoni P.O. - Madhupur 784164 Dist- Laximpur Assam	D.H.M.S	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	5.02.2005	911	
48372	Saikia Pradip	Jonaki Nagar, Golaghat 785621 Dist-Golaghat, Assam	D.H.M.S	Sep-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.08.99	734	
48373	Saikia Probin Kumar	VIII-Karangakhat P.O.-Na- Ali Dhekiajuli Jorhat-9 Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Apr 84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.09.87	278	
48374	Saikia Sanjib Lochan	Guwahati Homoeopathic Medical College Suraj Nagar Kahilpara, Guwahati- 19	D.H.M.S	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.09.84	91	
48375	Saikia Shikha Rani	C/O-Atul Saikia Vill-Jalani Dibru Dewar P.O Dullajan Dist-Dibrugarh, Assam	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	23.10.06	971	
48376	Saikia Anupam Sh. Raineswar Saikia	a)C/O Mr. Ratneswar saikia, Khowang Sonowal Village, P.O. Khowang Ghat Dist. Dibrugarh, Assam b)PHC Kimiyong P.O., Kimiyong, Dist. Changlang, A.P.	BHMS	13.12.2005	Dibrugarh University	Arunachal Pradesh	5.02.2009	107	
48377	Saima Anees	C/o Sharma Bros., 14-15, Durga Path, Ambabari city- Jaipur Dist. Jaipur.	BHMS	Jan, 2005	Rajasthan University,	Rajasthan	10.12.2007	4980	
48378	Saini Chamandeep	Mohalla, Garusar, Una	BHMS	2008	Maharashtra Univ. of H.Sc. Nashik	H.P.	2.09.08	209-A	
48379	Saini Gayatri	C/o Mrs. Anuja Sharma, B-9 New Colony, Panch Batti City-Jaipur, Dist. Jaipur	BHMS	July, 2006	Raj University	Rajasthan	11.06.2008	5024	
48380	Saini Mukesh	2147 - Opp. Gangori Gate Gangori Bazar, City- Jaipur Dist. Jaipur	BHMS	July, 2006	Rajasthan University,	Rajasthan	4.02.2008	4988	
48381	Saini, Alka	C/O Dr. Harbans Kaur Railway Road Nawar Sahar, Distt. Jalandhar A(Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	23/12/1986	961	
48382	Saini, Alpina	Guru Teg Bahadur Nagar, Opp. J.C.T. Mills, Phagwara, Kapurthala (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	6/3/1995	1436	
48383	Saini, Gurpreet Kaur	H.No. 2845, Phase VII Mohali, Teh. Kharar, Distt Ropar (Pb)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	17.7.1998	1872	

48384	Saini, Inderpreet	D/o Sh. Inderjit Singh Saini	H.No. 1069, Phase X, S.A.S. Nagar, Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	31.1.2001	2439	
48385	Saini, Monica	Sh. Harji Lal Saini	H.No. 2953/2 Sec. 47-C Chandigarh	BHMS	2004	PUNJAB	12.11.2005	2971	
48386	Saini, Parmjit	D/O Sh. Avtar Singh	Vill Fateh Pur P.O. Bulowai, Distt. Hoshiarpur(Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	12/7/1994	1513	
48387	Saini, Sonia	Sh. Bachina Ram Saini	412, Phase-II, Mohali	BHMS	2003	PUNJAB	16.08.2004	2746	
48388	Salodia Praveen Kumar	Sh. Madan Lal Salodia	C-324, Mahesh Nagar, Jaipur, City-Jaipur / Distt. Jaipur.	BHMS	Jan.2007	Rajasthan	28.06.2008	5033	
48389	Saluja, Ravjeet Singh	Sh. Prilam Singh Saluja	H.No. 26, Phase 1, Urban Estate, Dugri, Ludhiana(Pb.)	BHMS	Oct-05	PUNJAB	03.08.2008	3269	
48390	Salvi Kishan Lal	SH. Shanker Lal Salvi	216 A-C Class, Pratap Nagar, City-Udaipur Distt. Udaipur.	BHMS	Jan.2006	Rajasthan	26.07.2007	4882	
48391	Salvia	Sh. Avtar Narain Chopra	New Deep Nagar, Civil Lines, H.No. 19, St. No. 1, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	27.1.1998	1781	
48392	Salwan, Manoj Kumar	Sh. S. K. Salwan	Morinda Sugar Mills Ltd. Morinda, Distt. Ropar	DHMS	Aug. /Sept. 1983	PUNJAB	25.03.1985	791	
48393	Sama Bikash		Sarna Homoeo Clinic J.B. Road P.O.-Jorhat-1 Distt. Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Mar-90	Assam	02.09.98	451	
48394	Samanta Indrajit	Sh. Pasupati Samanta	C/o P. Samanta, Rly. Qr. 462/1, South Side, P.O. Kharagpur Pin-721301, Keshav Kunj, 382-Teachers Colony, Ambamata Scheme, City-Udaipur, Distt. Udaipur.	BHMS	2006	W.B. Council Calcutta	11.1.07	26516	CCH-2687
48395	Samar Laveena	Sh. Rajendera Singh Samar		BHMS	Jan.2007	Rajasthan	20.08.2008	5059	
48396	Samar Sallen		Vill Karanga Brahmin gaon P.O.-Karanga, Jorhat-8 Distt-Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Assam	24.09-84	81	
48397	Samerr	Sh. Janak Raj	Vill Hauze Khas P.O. Chimane Wala, Teh. Fazilka, Distt Ferozepur.	DHMS	1999	PUNJAB	12.04.2001	2498	
48398	Samra, Navraj Singh	Sh. Charanjit Singh Samra	Vill Salempura, P.O. Sidhwan Bet, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana	BHMS	Nov-Dec 2006	PUNJAB	26.08.2008	3261	
48399	Samta	D/o Sh. Dilbagh Rai Tanaja	H.No. 37/5, Post Office Street, Doraha, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	21.7.2000	2305	
48400	Sandeep	Sh. Man Singh	V & P - Dobra, VIA -Piani, City-line - Chirawa, Distt-Jhunjhunu (Raj.)	BHMS	Jan.2007	Rajasthan	20.08.2008	5067	
48401	Sandhu, Ajmer Singh	Sh. Baldev Singh	Nika Pasa, V.P.O. Sarhali Kalan, TEH. Tam Tam, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	16.2.2000	2220	

48402	Sandhu, Baljit Singh	Sh. Santokh Singh	V.P.O. Kot Mit Singh, Teh. & Distt. Amritsar (Pb.)	DMS	1975	W.B.	Punjab	2.7.1988	1862	
48403	Sandhu, Gurninder Singh	Sh. Gur Avtar Singh Sandhu	Vill. Tung Bala P.O. Khana Nagar Teh. & Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	24/12/1986	962	
48404	Sandhu, Gurpreet kaur	D/o Sh. Jagdev Singh	1367/1, G.T.B. Camp, Sector 70, Mohali, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	10.11.2000	2390	
48405	Sandhu, Noorinder Singh	Sh. Bhupinder Singh	Sandhu Homoeo Store Near Old Court Road Nawan Shar	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3109	
48406	Sandhu, Rupinderjeet Kaur	Sh. Sukhdev Singh Sandhu	S.C.O. 37, Phase-IX, Mohali	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	02.09.2004	2760	
48407	Sangeeta	W/o Rakesh Kumar	V.P.O. Abub Shahar Distt.- Sirsa	BHMS	May-99	Karnataka University	Haryana	20.06.07	5800- A	
48408	Sanjay	Sh. Yadram	Vill. & Post Sangtera, Teh. Koptuli city- Jaipur, Distt. Jaipur	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4876	
48409	Sanjay Kumar	Jagpal Singh	119 D-II Street 7045, Sanjay Colony Sec.23F Fardabad	BHMS	2006	JNRV Deemed Uni. Udaipur	Haryana	27.11.08	5847- A	
48410	Sanjeev Gautam	Sh. Telu Am	V.P.O. Dohetia Teh. Anandpur Sahib Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1988	RAJASTHAN BOARD JAIPUR,	Punjab	9/3/1989	1135	
48411	Sanjiv	S/O Sh. Sudarshan Dev	H. No. H-608, Phase-J Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	16/06/1988	1062	
48412	Sankhyani Niti	Sh. R.L. Sharma	Shiva Niketan, Palace Road, Solan.	BHMS	2007	Punjab University.	H.P.	06.05.08	192- A	
48413	Sapna Kiran-	Sh. Darshan Kumar	H.M. 114, Jamaipur Colony, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2957	
48414	Sapra Prachi	Sh. Subhash Sapra	4/ 6 Aravali Vihar, Kala Kua City-Awar Distt-Awar	BHMS	July, 2006	Raj University	Rajasthan	31.03.2008	5011	
48415	Sarang Rajat Kumar	Sh. Gajendra Nath Sarangi	(A) A/P.O. Pankapat / Via. Rahama, Distt. Cuttack, Pin 754142 (B) Maa Homoeo. Clinic, Madhuban Cabin Market, Paradeep Port, Distt. Cuttack -754142 (Orissa)	B.H.M.S.	1995	Berhampur University	Orissa Board	3.12.01	C-1074	CCH-2592
48416	Sardana, Pooja	D/o Sh. Shiv Datt Sardana	H.No. 1532, Phase 3-B2, Mohali, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	3.3.2000	2231	
48417	Sareen, Deepak	Sh. Brahm Dev Sareen	Kucha Ditt Singh Street, Moh. Khan Janchian, H.No. 32773, Amrit Bazar, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	20.5.1998	1838	
48418	Sareen, Shwani	D/o Sh. Satish Sareen	H.No. 581, Phase IV, Mohali, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	13.1.2000	2187	

48419	Sargiyani Basanta Kumar	C/O Nandowar Sargiyani Vill-Rheoguri P.O. Barpali Inah Dist-Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.05.98	698
48420	Sarika	Sh. Ragunath Garg H.No. 122, Veer Colony, Bhatinda(Pb.)	B.H.M.S.	Nov-Dec 2005	BFUHS	Punjab	22.08.2008	3250
48421	Sarka	Sh. Bimal Kumar H.No. 61-R, Model Town Hoshiarpur(Pb.)	B.H.M.S.	May-June 2005	BFUHS	Punjab	22.08.2008	3253
48422	Sarin, Bindia	Sh. S.K. Sarin 60-R, Model Town, Ludhiana	B.H.M.S.	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3090
48423	Sarita Rani	Sh. Prem Chand Singla 14 Aman Colony, Near 22 No. Phatak Patiala (Pb.)	D.H.M.S.	1996	PUNJAB	Punjab	16.12.1997	1758
48424	Sarita Rani	Sh. Mohan Lal R-892, Paras Ram Nagar, Bhatinda (Pb.)	D.H.M.S.	1996	PUNJAB	Punjab	21.1.1998	1780
48425	Sarita Yunnam	C/O Dr. Pranab Samra Health Clinic Homoeo Oppo. Dispur College Caneshguri, Guwahati-6 C/O-R. Sarkar Reid Telegraph Sptd. Srinagar Colony Station Road P.O.-Dist-Karimgang Assam	B.H.M.S.	Feb-01	Calcutta University	Assam	30.01.2006	918
48426	Sarkar Anup		D.H.M.S.	May-94	West Bengal Council	Assam	26.06.2001	798
48427	Sarkar Hari Pada	Ramnagar Ganjali Road P.O.-Ramnagar Dist- Tripura West	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.12.98	365
48428	Sarkar Harinarayan	Sarkar Homoeo P.O.- Haiborgaon Dist-Nagaon, Assam	D.M.S.	1969	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Assam	06.07.71	33
48429	Sarkar Joyndoli	Vill-Goleghati Basti P.O.- Hojai Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.05.99	541
48430	Sarkar Madan Mohan	Assam Homoeo Clinic Jagiroad P.O.-Jagiroad 782410 Dist-Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.03.98	675
48431	Sarkar Nalini Kanta	H.P. Homoeo Clinic Kachari Road P.O.-Dist-Morigaon- S Assam	D.M.S.	Jun-86	West Bengal Council	Assam	03.08.93	529
48432	Sarkar Nilima	C/O-Mr. Nababrata Sen Vill- Selaimari P.O.-Khoirabari 784582 Dist-Darrang Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.11.2002	864
48433	Sarkar Praneshi	Vill-Khapaidenga P.O.- Mularkuchi 786133 Dist- Cooch Behar, W.B.	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.01.2000	581

48434	Sarkar Sahidur Islam	S/O Late Hazziabul Jabbar Sarkar Vill. Dharamsala 783325 Dist-Dibrugarh, Assam	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	21.11.06	978	
48435	Sarkar Subhendu	Snaddarpatty Haliborgaon P.O.-Haliborgaon-2 Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	May-94	West Bengal Council	Assam	07.09.99	738	
48436	Sarkar Supata Dey	C/O-Sunil Sarkar Bhaskar Nagar P.O.-Birnova Nagar Guwahati-18	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	31.10.2000	760	
48437	Sarkar Susama	Lalganesh Odabakra C/O-Dr. P.B.Sarkar Guwahati-34	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.12.86	217	
48438	Sarkar Susil Kumar	Vill-Nivelarbhita P.O.-Karguri 781307 Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.07.2002	850	
48439	Sarma Abokesh	Sarbhog Town Ward 4 P.O. Sarbhog Dist-Borpeta Assam	D.H.M.S.	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.07.98	709	
48440	Sarma Bhupali	C/O-Sri R.C. Sarma Rly Qr. No.10518 East Gola Nagar Maligaon Guwahati-11	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.12.2001	826	
48441	Sarma Biju Kumar	Tangla Town Ward No-4 P.O.-Tangla 784521 Dist-Darrang Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.06.2001	795	
48442	Sarma Bikash Kumar	Vill-Kanimara P.O.-Bhaluki Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.11.2000	765	
48443	Sarma Bipul	Vill-Panbari P.O.-Barajoi-781369 Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.02.99	722	
48444	Sarma Debendra Bhusan	Vill-Bamunkana P.O.-Ballecha Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.09.87	254	
48445	Sarma Dhiraj	Vill-Gandhia P.O.-Gandhiya 781304 Dist-Nalbari Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.03.2002	846	

48446	Sarma Dibyayoti	C/O-Madhu Nath Sarma Vill Lech 781351 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.11.2000	770	
48447	Sarma Dipankar	Anunachal Path, Zoo Road Tinali, Bamunimaidam Guwahati-22	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	27.11.2001	824	
48448	Sarma Gunen	C/o-Dr. Kanak Chandra Sarma Fatashi G.S. Colony Guwahati-9	D.H.M.S.	Oct-02	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.08.03	873	
48449	Sarma Indu Bhushan	Assam Homoeo Research L.N.B. Road P.O.- Mongaldoi Dist-Darrang	D.M.S.	Dec-75	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Assam	23.03.80	51	
48450	Sarma Jagendra Nath	Vill-Makhbaha P.O.- Makhbaha Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Jan-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.04.87	229	
48451	Sarma Janundan	Vill-Charai maria P.O.- Moulgaon 785101 Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	08.11.2000	766	
48452	Sarma Jayanta Kumar	Vill-Gureswar P.O.- Gureswar 781366 Dist- Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.06.98	643	
48453	Sarma Jayanta Kumar	Vill-Banjala P.O.-Tongla 784521 Dist-Darrang Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.11.2000	771	
48454	Sarma Kishore	Damodar Homoeo Clinic Rajgarh Road, Bhanganagar Guwahati-7	B.H.M.S.	May-04	University of Calcutta	Assam	13.06.07	1007	
48455	Sarma Laxhi Kinkar	Vill-Mathurapur, Tihu P.O.- Tihu, 781371 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.12.2001	830	
48456	Sarma Lohit	Vill-Machupur P.O.- Biswanath Chariali Dist- Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.12.98	578	
48457	Sarma Manoj Kumar	Bidhyapur, Lane No 3, Nalbari P.O.-Nalbari 781335 Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	18.10.2000	750	

48458	Sarma Mukut Chandra	Vill-Gundhiya P.O.- Gundhiya 781304 Dist- Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.11.2000	773	
48459	Sarma Naba Kumar	Chenikuthi (Hill Side) P.O.- Chenikuthi Guwahati, Dist- Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.12.87	256	
48460	Sarma Om Prakash	New Anolapatty Dr. B. Baruah Road P.O.-Nagaon- 1 Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.01.2001	837	
48461	Sarma Pradipta Kr.	Vill-Gingia P.O.-Gingia Dist- Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Jan-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.05.87	230	
48462	Sarma Pranab	C/O Tarun Ch Sharma College of Veterinary Science Khanpara Guwahati-22	D.H.M.S.	Apr-84	B.H.S.M. Assam	Assam	09.4.85	119	
48463	Sarma Prithwiraj	Vill-Mohanpur P.O.- Mohanpur Dist-Hailakandi Assam	D.H.M.S.	Mar-03	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	28.01.04	887	
48464	Sarma Promod Chandra	Vill-Kamachal Silpukhuri Guwahati-3 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	10.06.98	506	
48465	Sarma Ratul	C/O-Jonali Tarzan Kakoti Gaon P.O.-Jorhat-1 Dist- Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.01.99	397	
48466	Sarma Sallen	C/O-Sri Tarun Sarma Baghobori, Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.03.99	724	
48467	Sarma Shrayama Prasad	Vill-Chamata P.O.-Paschim Chamata Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.05.88	287	
48468	Sarma Surendra Prasad	Gariba Rai-ka-dera P.O.- Sheopor Diar-277001 Dist- Bailia (U.P.)	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.01.99	403	
48469	Sarma Suresh Chandra	Ganesh Nagar, Baisthia P.O.-Bettola, Guwahati-28	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.06.99	395	

48470	Sarma Utpal	Vill-Baghjap P.O.-Jagi Bha Kaigaon 782411 Dist- Morigaon, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.10.2000	752	
48471	Sarma Utpal	Damodar Nagar Loxhara P.O.-Sukuchi Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.11.2000	761	
48472	Sarmah Biswanath	Rangia Tinai P.O.-Rangia- 781354 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.12.84	112	
48473	Sarmah Dulal Deb	Vill-Tekaputi P.O.-Kabirati Dist-Darrang, Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.02.02	418	
48474	Sarmah Manu Bhai	Sarma Homoeo Clinic Beltola, Guwahati-28	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.11.84	93	
48475	Sarmah Mritgen Kumar	Vill-Rahadhar Birkala P.O.- Patisala Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.07.2001	804	
48476	Sarmah Rajeswar Dev	Vill-Madhyam Khanda North Guwahati, Guwahati 30	D.H.M.S.	Jul-83	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.10.84	86	
48477	Saroj Bala	Mohan Homoeo. Clinic Rly Road, A./ City	DHMS	1989	CHSM Punjab	Haryana	5.03.97	5647-A	
48478	Saroj Devi	Homoeo. Home 62-Red Cross Market Rly. Road Hissar	DHMS	1985	Council Of Homoeop. System of Med. Punjab	Haryana	19.05.04	5712-A	
48479	Sat Pal	790/26 West Ram Nagar, Gaffi NO-2, Sonapat	BHMS	Aug-88	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	15.04.02	5689-A	
48480	Satiya, Rahan	V.P.O. Lohiankhas, TEH, Shahkot, Dist. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	8.9.2000	2358	
48481	Satinder Mohan Sh. Harnam Singh	607/3 Khalsa Mohalla Distt Patiala (Pb)	DHMS	1985-87	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	1/3/1994	1376	
48482	Satyavama Konsam	Vill-Khurai Konsam Laikai P.O.-Lemlong 795001 Distt Imphal East, Manipur	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.05.07	1005	

48483	Satyawan Palav Rajesh	Sh. Mr. Palav Satyawan Madan	1) Ram Jaaki Niwas A&P Blivas, Taluka Malwan, Dist. Sindh Durga, Pin- 416606, Maharashtra 2) Sabnis Homoeo. Clinic, Kulkarni Galli, Corner, Near Radio Complex Belgaum - 590001, Karnataka	BHMS	2005	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore	Karnataka Board	14.7.05	A-8383	CCH-2658
48484	Savita	Sh. Subash Chander Khosla	H.No. 1517, Sector-32, Chandigarh Road, Jamalpur Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.05.2006	3026	
48485	Savita Rani	D/o Sh. Madan Lal	C/o M/s Khushal Chand Madan Lal Karyana Merchants, Bagga Bazar, Jalalabad (W) Distt. Ferozpur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	10.11.2000	2435	
48486	Sawhney Navneet Kaur	Sh. H.S. Sawhney	H.No. 162, Chaman Bagh Patiala	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	19.11.2003	2649	
48487	Saxena Deepi	Shri Dinesh Saxena	H.No. 5807 -A/ 38, West Chandigarh	BHMS	2005	Punjab University	Council of H.S. Of Medicine U.T Chandigarh	29.9.05	86- A	CCH-2656
48488	Saxena Mayun	Sh. Rama Kant Saxena	657, Mahaveer Nagar, city- Kota Dist- Kota	BHMS	Jan. 2007	JRNRV, Deemed University, Udaipur	Rajasthan	15.07.2008	5042	
48489	Saxena Swati	Dr. Vijay Saxena	1) A/B /24-B, LIG Flats, Krishna Apartments, Paschim Vihar, New Delhi- 110063 2) WZ-23, Jwala Han Market, Paschim Vihar, New Delhi-110063	BHMS	2007	Jiwaji University Gwalior (M.P)	Delhi Board	9.08.08	003747	CCH-2674
48490	Saxena Parul	D/o A.K. Saxena	H.No. 2033 Sector-8, Pandabad	BHMS	Apr-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	27.08.07	5808- A	
48491	Saxena Sonal	Dr. Ram Kumar Saxena	1) A-181, Kandriya Vihar, Sec-56, Gurgaon, Haryana 2) II-62, Gandhi Nagar, Jaipur.	BHMS	2008	University of Rajasthan, Jaipur	Rajasthan Board, Jaipur.	10.10.08	5121	CCH-2688
48492	Saynia Jaypal Singh	Sh. Ranjit Singh Sayania	At Patel Farm Po Ajan Teh Pindwara City, Pindwara Dist- Sirghi	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D University Udaipur	Rajasthan	26.07.2007	4888	
48493	Seedhar Lalit K.	S.L. Seedhar	1) # 806 Sector-16 Panchkula 2) Flat No- 4-B GH-16 Mansa Devi Complex Sec- 15 Panchkula	DHMS	1986	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	20.12.01	5682- A	
48494	Seekar, Shipra	D/o Sh. K.L. Seekar	H.No. 8, Aman Park, Raj Guru Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	25.10.1999	2165	
48495	Seema	Sh. Balbir Chand	Or. No. 2 Civil Hospital Ludhiana, (Pb)	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	30.01.2002	2582	

48496	Seema Manjral	D/O Sh. Kewal Krishan	St No 6, Sindhu Nagar, Abohar (52116) (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	8/5/1995	1464	
48497	Seema Rani	D/O Sh. Tarsem Chand	St No. 2, Opp. Line Mangat Singh's Home, Kohar Singh Colony, Khanna, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	6.11.2000	2362	
48498	Seema Rani	Sh. Roop Chand Gupta	B-VII-665 Lakkar Bazar Ludhiana (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	15.01.2002	2577	
48499	Sehgal Preeti	Mr. Swarn Sehgal	1) C/o Mr. Rajiv Khanna, Khanna Lodge, UCO Bank Building, Mandi No. 1 Abohar, Distt. Ferozabad (Pb.) 2) Flat No. 14, Lahna Singh Market, Malka Ganj, Delhi-110007	BHMS	2004	Punjab Council Chandigarh	3.01.05	2812-A	CCH-2714
48500	Sehgal, Aarti	D/O Sh. R K Sehgal	113-F, Kitchlu Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	5.9.2000	2348	
48501	Sehgal, Dinesh	Sh. Maharaj Krishan Sehgal	Main Bazar (Gandhi Chowk), Patankot, Distt. Gurdaspur	DHMS	Dec.-1984	Punjab	29.08.1985	825	
48502	Sehgal, Meenakshi	W/o Dinesh Sehgal	1) 2-3, Preet Nagar, Ambala, Cantt. 2) Sanjivani Homoeo, Clinic, Nicholson RD A/C	BHMS (G.D.C)	June, 2004	Haryana	30.03.2006	5754-A	
48503	Sehgal, Sarabjeet Singh	Sh. Inderjit Singh Sehgal	H No. 138, W.No. 24, Near Mala Rani Park, Khanna, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	2.2.2000	2200	
48504	Sernaz	Sh. Mohamad Shafiq	Near Jagpal Palace, Malerkotla Road, Raikot Distt. Ludhiana (Pb.)	BHMS	May - June 2007	Punjab	01.01.2008	3159	
48505	Selkh Md. Assadurazzaman		Vill-Santipur P.O., Harsingman-783135 Distt. Dhubri, Assam	B.H.M.S	Aug-05	Assam	21.11.06	979	
48506	Sekhoni, Suraj Partap Singh	Sh. Ragbir Singh Sekhoni	S.J.S. Avenue Link Road Gumtal Distt. Amritsar	D.H.M.S	2000	PUNJAB	11.09.2001 14.09.2005	2546	BHMS Gr. Deg. Nov - Dec 2003 BFUHS
48507	Sen Abhijit	Sh. Hrishikesh Sen	P-11, Co-op Colony, P.O. Bahara, 24, Panganes (North), W.B. Pin-760118	B.H.M.S.	1993	Calcutta University	22.1.93	18070	
48508	Sen Dilip Kumar		S.S. Road Fancy Bazar Guwahati-1 Distt. Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	26.03.98	544	
48509	Senapati Dhiren Chandra		Engineering College Road Jorhat, P.O. Distt. Jorhat Pin-785007	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	16.05.85	145	

48510	Serdeisha Kharmawphlag	(L) A.A. Nongrum	Mawlai Nongmali, Shillong	BHMS	Dec-04	Calcutta University	Meghalaya	5.10.2006	265	
48511	Sethi Ravinder	D/o R.S. Sethi	561 Sector-4, Panchkula	BHMS	Dec-06	Punjab University (Chandigarh)	Haryana	1.05.08	5823-A	
48512	Sethi, Chandini	Sh. Vinod Sethi	437-L, Model Town, Patiala(Pb)	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3118	
48513	Sethi, Sapana	Sh. A.K. Sethi	B-34, 3996, P.O. Street Durga Pur Ludhiana(Pb)	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	27.02.2005	2825	
48514	Sethi Monika	Sh. Mani ram Setia	109 - L Block , City- Sri Ganganagar, Dist. Sri	BHMS	Jan-2002	Baba Farid Univ. of Pb.	Rajasthan	24.04.2007	4829	
48515	Sethi, Monika	Sh. Mani Ram Setia	Ganganagar, H.No. 229, Veer Colony, Bhalinda	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	16.03.2004	2668	
48516	Sethi, Ritu	D/o Sh O P Sethi	C/o Puja Nursing Home, Rama Mandir, TEH. & Distt. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	1.7.1999	2054	
48517	Shabnam	D/C Sh. Harbhajan Singh	H.No. 3099, Phase VII Moral Distt Ropar(Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	2/5/1995	1463	
48518	Shabnam	Sh. Javed Massey	H.No. 1425, Phase 3-B II, SAS NAGAR, Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	4.2.1998	1787	
48519	Shabnam	Sh. Rattan Chand	Prof. Colony, St. No. 2, P.O. Simind Mandi, TEH. & Distt. FATEH gari Sahib	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	19.5.1996	1840	
48520	Shah Dhaval Suresh Bhai	Sh. Suresh Bhai Vadi Lal Shah.	Suvida Hospital , Opp New Bus Stand , Post- Pantapur, City- Teh. Gadhi Dist- Banswara	BHMS	July, 2004	Sardar Patel Univ. Gujrat,	Rajasthan	24.04.2007	4831	
48521	Shah Jahangir		Vill-kehiku P.O.-Imphal B.P.O.-Kshirgao 795001 Imphal East, Manipur	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.05.98	590	
48522	Shakdipiya Yashasvi	Sh. B.L. Sharma	Kanta Khatunva Colony, City-Bikaner Dist-Bikaner	BHMS	Oct.2006	Bharati Vidyapeeth, Pune	Rajasthan	1.05.2008	5018	
48523	Shakuntla Rani	W/o Surender Singh	Shakun Homoeo. Clinic , Near PNB Main Bazar, Bhuna Distt.-Fatehabad	DHMS	1999	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab.	Haryana	29.11.2006	5774-A	
48524	Shalini	Sh. Shiv Charan	House No.12, Gandhi Nagar, Purani Mata Than Road, Punjab City- Jodhpur Dist. Jodhpur.	BHMS	May,2007	Raj University	Rajasthan	8.10.2008	5081	CCH - 2734
48525	Shalini Dang	D/o Sh. Anar Nath Deep	H. No. 329, B Block, Dashmesh Nagar, Naya Graon, TEH. Kharar (Ropar) Pb.	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	11.9.1998	1952	
48526	Sham Lal	Sh. Sushawa Barn	Chak Mochan Wala, P.O. Chubaya, Tehs. Fazika Distt. Ferozepur (Punjab)	DHMS	Aug. /Sept.1983	CHSM Punjab (Chandigarh)	Punjab	13.06.1985	798	
48527	Shaminder Pal	Ram Gopal	Migliani Homoeo. Clinic Colony Road Mandi Dabwali Sirsa	BHMS (DDC)	Dec-05	Baba Farid University Fandkot	Haryana	13.11.07	5813-A	

48528	Shamsuddin Abdul Kalam	National Homoeo Clinic Haigaon Charai Guwahati-6	D.H.M.S.	Oct-74	Bihar University	Assam	10.06.81	63	
48529	Shankar Tej Kant	Daya Ram Shankar U-60/34-35, DLF City, Phase-II Gurgaon.	BHMS	May 2003	Vikram University, Ujjain	Haryana	6.12.2006	5776-A	
48530	Shankar Kripa	Nanak Chand Palla No 3 P.O. Anar Nagar, Dist. Faridabad	BHMS	Feb 1997	Delhi University, Delhi	Haryana	29.11.2006	5773-A	
48531	Sharda, Shalini	D/o Sh. Anil Kumar 79-B, Kitchlu Nagar, Jodhpura (PB)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	7.1.1999	2003	
48532	Shakti Pal	H No. 985, St. No. 7/3, Harcharan Nagar Samrala Chowk, Ludhiana (PB)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	29.04.2008	3209	
48533	Sharma Amit Kumar	VPO. Choda, The Bansur, City-Anwar Dist. Alwar	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5118	
48534	Sharma Anshita	B-922, MIG DDA - Flats, East of Loni Road, Shahdara, Delhi-110093	BHMS	2008	Punjab University of Chandigarh	Delhi Board	17.7.08	003761	CCH-2713
48535	Sharma Anu	C-155, Teh. rmal Colony, Sakalpur, City- Kota Dist. Kota	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4891	
48536	Sharma Anuradha	6- C- 5, Mahaveer Nagar Ilird City-Kota Dist- Kota	BHMS	2007	JNRV, Deemed University Udaipur	Rajasthan	22.07.2008	5049	
48537	Sharma Ashok	Ward No 17, Santi Nagar, Devipura, Industrial Area City- Sikar Dist- Sikar	BHMS	Jan. 2005	Rajasthan University	Rajasthan	2.03.2007	4818	
48538	Sharma Garima	C/o Puspendra Kumar Sharma City- Beawar Khas Dist- Almer	BHMS	May 2007	Raj University Jaipur	Rajasthan	26.11.2008	5143	
48539	Sharma Hitesh	75- Parnadray Marg Chen Bhawan, Chandpole City- Udaipur Dist- Udaipur	BHMS	Jan. 2007	JNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5062	
48540	Sharma Jayant	Ganesh Bhawan, Opp. M.B. College City- Udaipur Dist- Udaipur	BHMS	Jan. 2007	JNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5070	
48541	Sharma Lavanya	3- Gulab road, Saraswari Kutumb, Near P.W.D. Office, City- Udaipur Dist- Udaipur (Raj.)	BHMS	Jan. 2007	JNRV, University Udaipur	Rajasthan	10.10.2008	5128	
48542	Sharma Madhusudan	1) 169, Nehru nagar, Railway Road, Roorkee- 247667 (Uttarakhand)	GHMS	1984	Kanpur University	U.P. Board Lucknow	12.1.84	17275	CCH-2692
48543	Sharma Mahaveer Prasad	2) C/o Shri Ishwar Datta Sharma, 708, Chao Mandi, Roorkee, Saharanpur (U.K.) * Apna Ghar" P. NO. - 30, Jai Kishan Colony, Tonk Fatak, City -Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	June 2007	JNRV, University Udaipur	Rajasthan	15.01.2009	5173	

48544	Sharma Nisha	Sh. Ghan Shyam Sharma	Q. NO. 14, Khandu Colony, Police Line City, Banswara Dist. Banswara.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D University, Udaipur.	Rajasthan	31.07.2007	4894	
48545	Sharma Pradeep Kumar	Banadur Singh	Ward No.-9 Azad Colony Near Atta Chaki Lower Karani kaika Distt. Panchkula	DHMS	1986	Council of Homoeo Punjab	Haryana	25.06.90	5538- A	
48546	Sharma Rajesh Kumar	Sh. Bidhi Chand Sharma	Near G.P.O. old Phulera, City- Jaipur Dist- Jaipur.	BHMS	2003	University of Calcutta	Rajasthan	30.01.2008	4983	
48547	Sharma Rakhee	Sh. Ramesh Chandra Sharma	Infront Of Dayanand Ashram, Road No. 8 Rati Talai city - Banswara Dist- Banswara.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D University, Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4898	
48548	Sharma Ruchira	Sh. R.P. Sharma	A- 321, Triwani Nagar, Gopal Pura By -Pass, Jaipur (Rajasthan)	BHMS	2008	University of Rajasthan, Jaipur	Rajasthan Board, Jaipur.	10.10.08	5090	CCH -2680
48549	Sharma Satish Kumar	Rameshwar Dass	VPO: Landhani Sukhlambani Dist. Hissar	DHMS	Sep-87	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur	Haryana	12.08.88	5454- A	
48550	Sharma Sunita	Sh. Ramesh Chandra Sharma	21/228 M.L.A. Quarters, Kaveri Path, Mansarovar City- Jaipur Dist- Jaipur.	BHMS	May, 2007	Raj University Jaipur	Rajasthan	26.11.2008	5146	
48551	Sharma Asmita	Sh. Ram Swroop Sharma	K- 13, Ram Mandir Marg, Jawahar Nagar, City- Kota Dist- Kota(Raj.)	BHMS	May, 2007	Raj University Jaipur	Rajasthan	5.03.2008	5195	
48552	Sharma Anil	Tek Chand Sharma	94 M.C. Colony Hissar	DHMS	1999	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	29.09.03	5705- A	
48553	Sharma Anuradha	W/o Shallinder Sharma	1013 Sector-2 Panchkula	DHMS	1999	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	4.08.03	5702- A	
48554	Sharma Arun	Sh. Kailash Chand Sharma	03, Ashok Vihar, Tizara Road, Opp: Petrol Pump City- Alwar Dist- Alwar.	BHMS	July, 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	5.12.2007	4961	CCH -2768
48555	Sharma Ashmita	Sh. O.D. Sharma	VPO. Majhera, Teh. Baijnath Dist. Kangra.	BHMS	2005	University of Calcutta (W.B)	H.P.	21.02.07	172- A	
48556	Sharma Ashwani	Sh. Om Prakash Sharma	1192 - Barkat Nagar, Tonk Phalak. City-Jaipur Dist- Jaipur.	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5091	
48557	Sharma Bhagi Rath	Dep Karan Sharma	2986 New Housing Board Sector-13 Bhiwani-127021	DHMS	1981	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur	Haryana	6.01.09	5850- A	
48558	Sharma Biswajit		Swasti Homoeo Clinic Gobardhan Bazar P.O. Chandrapur 781150 Dist- Kamrup Assam	D.H.M.S.	Mar-85	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	16.12.86	213	
48559	Sharma Deepika	D/o A.R. Sharma	1385 Sector-21 Panchkula	BHMS	Apr-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	27.08.07	5807- A	
48560	Sharma Gagandip	Sh. Lakhvir Singh	Sanjay Studio, Mohan Colony, Ganj Bazar, Solan.	DHMS	2000	BR. Ambedk. Univ. Muzafarpur, Bihar.	H.P.	18.07.05	151- A	

48561	Sharma Gautam	Sh. Jagdish Chandra Sharma	36 / 376 Mehta Kuva, Loha Khan City, Ajmer Dist- Ajmer	BHMS	Jan. 2006	Raj. University, Jaipur	Rajasthan	3.07.2007	4849	
48562	Sharma Jai Dev	S.P. Sharma	2121/ IV Raghunath puri, Tej Road, Near ISI Hospital, Yamuna Nagar.	BHMS	Jul-88	Board of Homoeo System Med. Delhi	Haryana	30.06.04	5713- A	
48563	Sharma Jai Krishan	Sh. Banwari Lal Sharma	VIII. Rampura Kakrali Post Goverdhan Pura Teh. Rajgarh, City- Alwar, Dist. Alwar.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4895	
48564	Sharma Jaya	W/o Jai Dev Sharma	2121/ IV Raghunath puri, Tejji Road, Near ISI Hospital, Yamuna Nagar.	BHMS	1993	Board of Homoeo System Med. Delhi	Haryana	30.06.04	5714- A	
48565	Sharma Mahak	Sh. Krishan Gopal Sharma	103, - B-Block, Sector-14, Hiran Magn City- Udaipur, Dist- Udaipur.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4866	
48566	Sharma Mamta	Sh. Han Prasad Perwal	H.No. - 254, Sector- 7 A, City- Fardabad Dist- Fardabad (Haryana)	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	28.1.2009	5183	CCH - 2732
48567	Sharma Manisha	W/o Vinod Kumar	935/21 Prem Nagar, Rohtak	BHMS	Aug-98	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	29.09.03	5703- A	
48568	Sharma Mohit	Sh. Sudesh Kumar Sharma	H.NO. 1- G - 40, Mahaveer Nagar, Vistar Yojna City- Kota Dist- Kota.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4868	
48569	Sharma Monika	W/o Sunil Dutt Sharma	C/o Dr. N.D. Sharma Inside Barsi Gate Opp. Pandkula Dharmsala Hansi Distt- Hissar	DHMS	1999	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	4.10.04	5716- A	
48570	Sharma Monika	Sh. Suresh Sharma	C/o Shri Govind Narayan Sharma 212- A Gayatri Nagar - B Maharani Farm City- DungaPura Dist- Jaipur.	BHMS	July, 2006	Rajasthan University.	Rajasthan	5.12.2007	4964	
48571	Sharma Niharika	Sh. L.C. Sharma	31-32, Sunder Nagar, Civil Lines, City- Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5107	
48572	Sharma Nikunj	D/o M.L. Sharma	16 Jagat Colony, Bhiwani	BHMS	Jan-06	JRNRP Deemed Uni. Udaipur	Haryana	27.08.07	5806- A	
48573	Sharma Nikunj	Sh. Manohar Lal Sharma	C/o Dr. H.R. Verma B-Block IV th Floor 16 Gandhi Nagar, city- Jaipur, Dist- Jaipur.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4857	
48574	Sharma Payal	Sh. Hansraj Sharma	A-202 Vidyal Nagar, Queens Road, Ajmer Road, City- Jaipur, Dist- Jaipur	BHMS	July, 2006	Rajasthan University	Rajasthan	5.12.2007	4963	
48575	Sharma Pooja	Sh. R.K. Sharma	T.R. Sharma house, Near Satsang Bhawan, Pirmogh Road, Una	BHMS (Direct Degree)	2002	Baba Fand Univ Punjab.	H.P.	18.03.04	142- A	
48576	Sharma Poonam	Sh. Chander Kant Sharma	92, Bank Colony, City- Sri Ganganagar Dist- Sri Ganganagar.	BHMS	Nov/Dec. 2006	BFUOHC, Fardkot.	Rajasthan	17.11.2008	5140	
48577	Sharma Pradeep Kumar	Sh. Bahadur Singh	Solan Homoeopathic Medical College, Chambaghat, Solan.	DHMS	1987	Punjab Homoeo council	H.P.	06.11.03	135- A	

48578	Sharma Priya	Dr. Ravi Sharma	C-4/151, Yamuna Nagar, City, Delhi Dist. Delhi-53	BHMS	Jan 2007	Guru Govind Singh Univ. Delhi.	Rajasthan	7.11.2008	5135	
48579	Sharma Promila	W/o P.C. Sharma	T-263 Phase II New Palam Vihar Gurgaon	DHB	Jun-75	Board of Homoeo; System of med. M.P.	Haryana	28.12.82	3489- A	
48580	Sharma Rajiv Kumar	Sh. D.D. Sharma	Solan Homoeopathic Medical College, Chambaghat, Solan.	DHMS	1997	Punjab Homoeo council	H.P.	06.11.03	138- A	
48581	Sharma Ram Kumar	Hem Chand Sharma	Vill. Jajru PO, Ballabgarh Distt. Fardabad	DHMS	Jul-85	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur.	Haryana	2.09.86	5375- A	
48582	Sharma Ramesh Chand	Sh. Nanag Ram Sharma	4000 - E Behind Gota Factory, Surajpole Bazar, City, Jaipur, Dist. Jaipur.	BHMS	Jan 2006	Raj. University, Jaipur.	Rajasthan	11.07.2007	4853	
48583	Sharma Rangya		Vill-Kakopathar P.O.- Kakopathar Dist-Tinsukia Assam	D.H.M.S.	Apr-80	Bihar University Jaipur	Assam	16.09.92	517	
48584	Sharma Ranjna	Sh. Ashok Kumar Sharma	139 - S.P.M. Nagar, Opp. Saint Paul Public School, City, Bharatpur Dist- Bharatpur	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	3.12.2008	5155	
48585	Sharma Sanjib		Green Heritage Charitable Homoeo Dispensary, R.P. Road Ganeshguri, Near Ganesh Mondir Guwahati-6	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.02.04	889	
48586	Sharma Satish Chand	Chander Shekhar Sharma	1) 7/41 Dedraj Street Gate Jind 2) Naman Homoeo. Clinic Safidon Gate Jind	BHMS	Aug-97	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	6.02.06	5746- A	
48587	Sharma Shail	Sh. M.L. Sharma	Dewan Bagh, Nagrola Bhagwan, (Kawari Laressar) Kangra.	BHMS	2004	Baba Fand of health Sciences, Punjab	H.P.	21.03.05	149- A	
48588	Sharma Sharda	Sh. Ashok Kumar Sharma	Plot No. 7 Vikas Colony Goda Pher Circle Behind Raipur Hostel, City, Alwar Dist. Alwar.	BHMS	July, 2006	Raj University	Rajasthan	4.02.2008	4992	
48589	Sharma Shekhar Chandra	Sh. Ramesh Chandra Sharma	Vill. Post Bhanwar garh, Teh. Kishan Gang City- Baran Dist- Baran	BHMS	July, 2006	Rajasthan University	Rajasthan	5.12.2007	4965	
48590	Sharma Sonia	Sh. G.C. Sharma	Vill. Mahyana, P.O. Sarjaul Distt. Shimla	BHMS	2001	Punjab Homoeo council	H.P.	2.06.03	134- A	
48591	Sharma Sugam	Sh. K.K. Sharma	Mahajan Niwas, Behind Prashar Clinic, Near D.C. Office, Solan.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur, (Raj)	H.P.	9.9.08	211- A	
48592	Sharma Surendra Kumar	Sh. Radhey Shyam Sharma	H.No 103, Balrapara, Kethunipole, Shreepura City, Kota Dist.Kota.	BHMS	Jan, 2007	JRN RV, University Udaipur	Rajasthan	26.07.2008	5052	
48593	Sharma Suresh	D/o J.P. Sharma	# 262 Sector - 9 Panchkula	DHMS	1980	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	21.12.01	5683- A	

48594	Sharma Surya Prakash	Sh. Nityanand Sharma	P. No. 2, Krishna Vihar Colony Opp New Sabjmandi-Ajmer Road, Sodala City, Jaipur, Dist.-Jaipur.	BHMS	Jan. 2005	Raj. University	Rajasthan	31.03.2008	5012	
48595	Sharma Uma Dutt	Sh. B. R. Sharma	Sharma Clinic, The Mall, Solan.	DHMS	1979	Punjab Homoeo council	H.P.	17.06.02	127-A	
48596	Sharma Vibha	Sh. K. K. Sharma	Sinrol Road, Garden No. 17-18, City-Mhow Dist.-Mhow.	BHMS	Mar. April, 2005	DAU, Indore	Rajasthan	17.11.2008	5141	
48597	Sharma Vikas	Suraj Prakash Sharma	# 1290, sector-21-B Chandigarh	DHMS	1994	CHSM Punjab	Haryana	5.03.97	5650-A	
48598	Sharma Vivek	Sh. Suresh Sharma	Sharda Memorial Clinic, Pawla City-Jaipur Dist.-Jaipur.	BHMS	Dec. 2004	D.A. University Indore	Rajasthan	15.01.2009	5171	
48599	Sharma, Alok	Sh. Jai Parkash Sharma	H.No. 645/64, J Block Birs Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	15.01.2002	2578	
48600	Sharma, Amit N	Sh. Nikhu Ram Sharma	5204, Old Habowal, Near Jyoti Lal Dhaba, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	10.5.2000	2260	
48601	Sharma, Amita	Sh. Dharam Pal Sharma	H.No. 443, I.B. Enclave Sector 49, Chandigarh	BHMS	2006	Punjab University Chd.	Punjab	18.08.2008	3275	CCH - 2769
48602	Sharma, Anamika	Sh. Yash Paul Sharma	6-B, Vishal Bhawan, St. No. 1, Vijay Nagar, Batala Road, Anritsar(Pb)	DHMS	2002	CHSM, Punjab	Punjab	09.07.2004	2730	
48603	Sharma, Anchal	D/o Sh. Arvind Sharma	Partap Nagar, Quadran. TEH. Batala, Dist. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	1.2.2000	2196	
48604	Sharma, Anil	Sh. Tek Chand Sharma	B-1-1375, Ram Nagar, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	28.2.2000	2230	
48605	Sharma, Anil Kumar	Sh. Sohan Lal Sharma	35/B, Basant Vihar, Jalandhar City - 3 (Punjab)	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	26.02.1985	790	
48606	Sharma, Anil Kumar	Sh. Sat Pal Bhardwaj	87-T-3 Shahpur Khandit Ship Teh. Pathan Kot Dist. Gurdaspur (Pb)	DHMS	Jun-87	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	23/02/1989	1131	
48607	Sharma, Anita	D/O Sh. Gian Chand Sharma	3/92, Bagh Gali, P.O. Mogra, Dist. Ferozkot	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	13/3/1995	1439	
48608	Sharma, Anju	D/O Sh. Davinder Kumar	C/O Sh. D.K. Sharma, 5 Sunami Gate Near Modi College, Patiala (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	3/8/1992	1311	
48609	Sharma, Anju	Sh. Daulat Ram Sharma	4-A/7, Model Town, Patiala	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	19.11.2003	2646	
48610	Sharma, Anupama	Sh. Rattan Lal Sharma	H.No. B-11-1151, Kalyan Nagar, Ludhiana (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	9/1/1996	1574	
48611	Sharma, Anupama	Sh. Banasri Lal	Bat Singh Nagar St No 7, P.O. Basti, Jodhpur, Ludhiana (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	2/9/1996	1646	
48612	Sharma, Archana	D/O Sh. Rishikesh Sharma	H. No. 4727 Mohalla Bhogean P.O. Jagraon, Dist. Ludhiana(Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	25/04/1995	1454	
48613	Sharma, Arun Nikku Ram	Sh. Nikku Ram	H.No. 834, S33 Habowal Kalan, Ludhiana(Pb)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	23.07.2002	2599	
48614	Sharma, Asha	Sh. Ishwar Chand	5, Is Crossing, Abohar Dist., Ferozepur	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.10.2001	2557	

48615	Sharma, Ashok Kumar	Sh. Ram Rakha Mal Sharma	27 Racecourse Road Amritsar (Pb.)	DHMS *	1976	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	8/10/1991	1263	
48616	Sharma, Ashwani Kumar	Sh. Dawarka Dass	V.P.O. Lohian Khas, Teh. Shahtkot, Dist. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	7.1.1998	1775	
48617	Sharma, Babila	Sh. Sat Paul	Baggha Bazar, Jalandhar (West) Fazilka Distt Ferozpur.	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	28.03.2001	2491	BHMS Gr. Deg. 2003 BFUHS
48618	Sharma, Daljit	Sh. Ram Chand	H. No. 33-B, Inder Nagar Opp. Milk Plant Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	2/1/1996	1564	
48619	Sharma, Deepika	Sh. Sudershan Kumar	Vill. Depur, P.O. Datarpur, Teh. Mukerian, Distt. Hoshiarpur	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3099	
48620	Sharma, Dushyant	Sh. Ramesh Chand Sharma	Bhan Singh Colony, St. No. 2, Faridkot	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	26.09.2006	3060	
48621	Sharma, Harsh	Sh. Sarv Mitter Sharma	Qazi Mandi, Near Railway Godam, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.11.1997	1727	
48622	Sharma, Heena	Sh. K.K. Sharma	H.No. 850, Phase VII, SAS Nagar, Mohali (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.7.1998	1896	
48623	Sharma, Jalinder	Sh. Surinder Nath Sharma	H.No. 28, Geeta Colony, Tejpora, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.4.1988	1825	
48624	Sharma, Joginder Nath	Gurdas Mal	A/814/11, Sharda Nagar, Jalandhar Road, Ambala	DHS	1967	Board of Homoeo. System of Medicine, Delhi	Haryana	24.09.2002	5694-A	
48625	Sharma, Kavita Sharma Alias Pooja	D/O Sh. Mohan Lal Sharma W/O Sh. O.P. Sharma	H.No. 1328, Sharma Niwas Jagraon, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	28/08/1990	1212	
48626	Sharma, Kavita Sharma Alias Pooja	D/O Sh. Mohan Lal Sharma W/O Sh. O.P. Sharma	H.No. 2328, Sharma Niwas, Chungi No. 5, Jagraon, Distt. Ludhiana	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	13.05.2003	2634	
48627	Sharma, Kusam	W/O Sh. Ajay Sharma	Vill. & P.O. Baja Khanna, Distt. Faridkot (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	22/12/1986	959	
48628	Sharma, Lakshmi	Sh. T.R. Sharma	H.No. 2053, Phase VII, Mohali, Tej. Khara, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	19.5.1998	1844	
48629	Sharma, Manisha	Sh. Y.P. Sharma	H.No. 871, Phase VII, SAS NAGAR, Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	7.1.1998	1773	
48630	Sharma, Manojit Lal	S/O Sh. Jagan Nath Sharma	H.No. G-5 Sarabha Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	22/09/1987	1002	
48631	Sharma, Manu	D/O Sh. V.K. Sharma	3-C, A.W. Nagai, Township Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	2.11.2000	2389	
48632	Sharma, Minakshi	D/O Sh. P.D. Sharma	G-61, Kitchu Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	11/9/1985	1535	
48633	Sharma, Monica	Sh. P.K. Sharma	C/O Sh. Mui Raj Sharma, Vakla Bazar, Ashok Nagar, Hoshiarpur.	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	20.03.2003	2611	

48634	Sharma, Monika	D/o Sh. Harbans Lal	H No. 3398/9, Gali Calcuttan, Ki Sulfard, Lohani Gate, Amritsar (Pb.)	DHMS	1993	PUNJAB	12.6.1999	2110	
48635	Sharma, Monika	D/o Sh. Rudher Chand Sharma	1264, Phase 3-B-II, Mohali, TEH, Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	7.7.2000	2293	
48636	Sharma, Monika	D/o Sh. Parashotam Singla	Opp. Kali Mata Mandir, Minocha Colony, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	25.7.2000	2309	
48637	Sharma, Monika	D/o Sh. Sudesh Kamal Sharma	Dodan Street, Fandkot (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	30.8.2000	2342	
48638	Sharma, Nandinder kumar	Sh. Nand Lal	Eka Nagar, Chhotia Han Pura, PO Jwala Floor Mills, Amritsar (Pb.)	DHMS	1988	Bihar University	21.4.1999	2026	
48639	Sharma, Neeraj	Sh. Sat Parkash	H. No. 1577, Sec-23-D, Chandigarh	DHMS	Dec. 1984	CHSM Punjab Chandigarh	13.08.1985	818	
48640	Sharma, Nish	Sh. Raj Kumar Sharma	H. No. 1208 Phase-5, Mohali, Distt Ropar (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	11/5/1992	1282	
48641	Sharma, Nidhi	D/o Sh. Rakesh Kumar Sharma	V.P.O. Bassi Gulam Hussan, Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	10.5.2000	2259	
48642	Sharma, Nidhi	Sh. R.P. Sharma	H.No. 108, Jyoti Nagar Coolis Road Jalandhar(Pb)	BHMS	May - June 2006	BFUHS	20.09.2007	3153	
48643	Sharma, Pankaj	Sh. Manohar Lal Sharma	H. No. B-12/313, St. No. 4, Near Jagat Pura, Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	10.10.1996	1662	
48644	Sharma, Pooja	Sh. Yash Paul Sharma	H.No. 2040/12-A Shiv Puri Road Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	03.04.2001	2496	
48645	Sharma, Pronila	D/o Sh. Baldev Krishan Sharma	Pritam Nagar, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	22.9.1999	2136	
48646	Sharma, Rajeev Kumar	Sh. D.D. Sharma	Moh. Nagar, Talwara, Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	29.9.1998	1974	
48647	Sharma, Rajinder Kumar	Sh. Sudha Ram Dutt Sharma	H.No. 1104 B-III Subash Nagar Ludhiana-141008 (Pb)	DHMS	1983	PUNJAB	1/8/1986	913	
48648	Sharma, Ramita	D/o Sh. Satpaul sharma	B-XX 2664, Gurdev Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	21.7.2000	2302	
48649	Sharma, Rashmi	Sh. Krishan Kumar Sharma	H. No. 1658, Hobbowal Kalan, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	16.12.1997	1756	
48650	Sharma, Reena	D/O Sh. Sudershan	H. No. 1628, Sector 18 D, Chandigarh	DHMS	1987	PUNJAB	16/02/1989	1119	
48651	Sharma, Richa	D/o Sh. Veninder Kumar Sharma	No. 251, Ajeet Nagar, Patiala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	31.1.2001	2441	
48652	Sharma, Ritu	Sh. Harbhagwan Sharma	B-7/209, Nai Abadi, Phillaur, Distt: Jalandhar(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	21.04.2008	3204	
48653	Sharma, Rohit	Sh. Salish Chander	H.No. 335, Adarsh Colony, Prem Nagar, Patiala	BHMS	2004	BFUHS	24.10.2005	2942	
48654	Sharma, Sanjay Kumar	Sh. Jugal Kishore Sharma	H No 648 Guni Hargobind Nagar, P.O. & Teh. Phagwara Distt Kapurthala	DHMS	1995	PUNJAB	20/08/1996	1631	
48655	Sharma, Sanjeev	Sh. Bhim Raj Sharma	159-B, Gopal Nagar, Majitha Road Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	31.12.1997	1754	

48656	Sharma, Sanjeev	Sh. Bhaskra Nand Sharma	C/O Vyas Hospital Gita Bhawan Road Sunam Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	21/03/1986	878	
48657	Sharma, Sanita	D/o Sh. Kailash Chand Sharma	H.M. 20, P.H.B. Colony, Jarnalpur, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	16.7.1999	2087	
48658	Sharma, Saru	Sh. Ramesh Kumar	H.No. 181/7-B, New Alam Nagar, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	30.06.2006	3030	
48659	Sharma, Seema	W/o Sh. Parmjeet Singh	H.No. 105, Near Bank Fatak, Namdev Nagar, Moga (Pb.)	DHMS	1994	W.B.	3.7.1997	1713	
48660	Sharma, Shailendra Kumar	Sh. Tarsem Kumar Sharma	V.P.O. Lairo, TEH. Rajpura, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	22.1.2001	2426	
48661	Sharma, Shashi	Sh. Prem Parkash Sharma	C/o Ravinder Singh Dtingra, H.No. 1236, Phase V, Mohali (Ropar) Pb.	DHMS	1996	PUNJAB	20.7.1998	1886	
48662	Sharma, Shijiv Dutt	S/O Sh. Ved Ram Sharma	H.No. 749, Brahmputri, Nimeerul (U.P.)	DHMS	1987	PUNJAB	31/08/1988	1075	
48663	Sharma, Sikky	Sh. B.K. Sharma	V.P.O. Thakri Teh Anandpur Sahib Distt. Ropar.	BHMS	2004	BFUHS	24.03.2006	3009	
48664	Sharma, Sonia	D/o Sh. G.C. Sharma	H.No. 10124, St. No. 32, Jania Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	12.8.1999	2111	
48665	Sharma, Sonia	D/o Sh. Vinod Kumar Sharma	H.No. 255, Housing Board Colony, Sangrur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	20.12.2000	2402	
48666	Sharma, Srishty	Sh. Col. Liaq Ram Sharma	H.No. 3483, Sec-71, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	27.03.2003	2617	
48667	Sharma, Suman	D/O Sh. Harbans Lal Sharma	14- Subhash Colony Tapa, Teh. Bamala Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	24/11/1986	951	
48668	Sharma, Suman	Sh. B.R. Sharma	H.No. 1211, Gali No. 3 Jagdambey Colony, Majitha Road, Amritsar	DHMS	Jan-98	MADHYA PRADESH	18.08.2006	3038	
48669	Sharma, Sunil Kumar	Sh. Om Parkash Sharma	C/O J.B. Memorial Homoeo Clinic, Pheuman Chowk, Kotkura, Distt. Faridkot (Pb.)	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	07.07.2005	2888	
48670	Sharma, Sunila	D/o Sh. Satpal Sharma	B-XX, H. No. 2684, Gurdiev Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	18.9.1998	1960	
48671	Sharma, Suresh Kant	Sh. Behari Lal Sharma	Kothi No. 680 Phase 10 S.A.S. Nagar Mohali Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	30/09/1986	929	
48672	Sharma, Sushil Kumar	Sh. Ram Kishan Sharma	Preet Nagar, PO Dera Bassi, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	14.11.2000	2394	
48673	Sharma, Uma	D/o Sh. Sada Nand Sharma	V.P.O. Brahmputri, TEH. Anandpur Sahib, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	19.8.1999	2119	
48674	Sharma, Vikas	Sh. Bharat Bhushan	H.No. 557, Mohalia Count Alamgir, Jai Road Field (Ganj. Ludhiana)(Pb.)	BHMS	May - June 2006	BFUHS	12.09.2007	3152	
48675	Sharma, Vininder Kumar	Sh. Sukhdav Kumar Sharma	Sirki Bazar Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	26/09/1988	1083	

48676	Sharma, Vivek	D/O Sh. Murali Lal Sharma	H. No. 1731, Rajpura Township 1404701, Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	14/07/1993	1352	
48677	Sharma, Vivek Kumar	Sh. Narinder Mohan	Sohana Village, Near Dera Sahib Gurdwara, TEH: Kharar (Ropar) Pb.	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	29.6.1998	1863	
48678	Sharma, Yogita	Sh. Bal Krishan Sharma	H. No. 102, W. No. 6, Near Deep Cinema, Sangrur Road, Dhuri, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1737	
48679	Shastri Chetan Harish Chandra	Sh. Harish Chandra Shastri	182/B Sector 3 Hiran Magari City- Udaipur, Distt. Udaipur,	BHMS	Jan. 2006	JRNPAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4874	
48680	Shekhar Chander	Sukhdev	Po. Samrala Tehsil, Sarkaghat (H.P)	DHMS	Apr-79	Council of Homoeo. System of Med Punjab	Haryana	23.02.83	3498. A	
48681	Shekhawat Brijendra Singh	Sh. Mohan Singh Shakhawat	2) # 2564 Sector-40-C Chandigarh	BHMS	May, 2004	Raj. University, Jaipur.	Rajasthan	28.03.2007	4826	
48682	Shelja	D/O Sh. Prem Bhushan	5 Arnic Path, Chandra Nagar EXT. Govind Pura Kalwar Road, City- Jaipur, Distt. Jaipur.	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	11/9/1995	1534	
48683	Shemona	Sh. Raj Kumar Dhand	35-A, Model House, Ludhiana (Pb)	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	07.04.2003	2624	
48684	Shingari, Rajni	D/O Sh. N.S. Shingari	H. No. 261 30-1 S. A.S. Nagar, Teh. Kharar, Distt. Ropar (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	24/08/1992	1315	
48685	Shivalika Kaushal	Sh. Sumnder Kumar	S.P. Distt. Jali, Sangrur	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.03.2001	2467	
48686	Shiwach, Grima	Sh. Udharn Singh Shiwach	H.No. 1329, Sector -23-B, Chandigarh	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	05.04.2005	2853	
48687	Singam Bamon (L)	M.L. Dkhar	Sutnga Jantai Hills	DHMS	Sep-06	Assam Board Of Homoeopathic Medicine	Meghalaya	1.9.2006	264	
48688	Shrimali Sandeep	Sh. Prem Shanker Shrimali	Vill. Shrimaliyo Ki Madri City- The Gogunda Distt. Udaipur	BHMS	Jan. 2007	JRNRPV, Deemed University, Udaipur	Rajasthan	15.07.2008	5038	
48689	Shrivastava Rajiv Ranjan	Lt. Sh. Gaya Prasad	C/o-Lal Babu Shrivastava, Shakuntla Niketan, Dahiyawa Tola, Chapra-841301, Bihar	D.H.M.S.	1992	Bihar University	Bihar Board	05.06.92	24566	CCH :2575
48690	Shuhai Alam	Shri Kitab Ali Ahmed	a)H NO 8 Sunderban Nagar Lachil Boraphukan Path South Notboma, Hatigaon, Guwahati-38, Assam	BHMS	21.09.2006	Dibrugarh University	Arunachal Pradesh	29.01.2008	77	
48691	Shukla Ashutosh	Sh. Ram Kumar Shukla	b)Homoeopathic Health Clinic Opp. Sewali Path, Hatigaon Main Road, Ghy-38, Assam	BHMS	Jul-05	Vikram University Ujjain	Rajasthan	10.10.2008	5124	
			52. Vanshail Marg, Ram Nagar Colony, Opp Sindhi Camp, City- Jaipur Distt. Jaipur							

48692	Shukla Seema	SH. Hairamb Raj Shukla	Ojha Ghati, Ramsar, Nasirabad City, Ajmer Dist. Ajmer	BHMS	July, 2006	Vikram University Ujjain	Rajasthan	20.03.2008	5009	
48693	Shukla Shive Charan Lal	Sh. Sunhari Lal Shukla	9/120, Krishna Puri Railway Road Raya City, Raya Dist. Mathura	BHMS	Aug, 2003	Raj. University, Jaipur	Rajasthan	28.03.2007	4827	
48694	Shukla, Madhu	D/O Sh. Bal Raj Krishan Shukla	H.No. 1814 Sector 7-C Chandigarh	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	29/9/1986	925	
48695	Shukla, Sapna	Sh. Ranjha Eam Shukla	K.No. 936, Phase-VII, Mohali	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	21.01.2004	2657	
48696	Sidana, Kamla Rani	Sh. Ramesh Chander Sidana	H.No. 20945 Gali No. 13 Ajit Nagar Bathinda	BHMS	May-June 2003	BFHS	Punjab	22.07.2005	2902	
48697	Siddique Abubakkar		Vill-Saleguni P.O.-Dhing out post Saleguni 782123 Dist-Nagaon Assam	D.H.M.S.	Feb-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	24.06.08	1086	
48698	Siddiqui Siraj Ahmed	Sh. I.A. Siddiqui	C/o Dr. Virendra Chauhan A-26, Sumer Nagar, EXT	BHMS	May, 2007	Raj. University Jaipur	Rajasthan	26.11.2008	5148	
48699	Sidhu, Harkirat Singh	Sh. Jagtar Singh Sidhu	H.No. 1200, St. No. 12, Guru Nanak Nagar, Patiala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	2.11.2000	2385	
48700	Sidhu, Jatinder	Sh. Jagir Singh	V.P.O. & Teh. Khadoor Sahib Dist-Amritsar (Pb)	BHMS	2003	BFHS	Punjab	16.03.2005	2833	
48701	Sidhu, Karwaldeep Singh	Sh. Natha Singh Sidhu	Atkari Road Chahal Dist. Tarn Taran, (Pb)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	05.12.2001	2569	
48702	Sidhu, Pritpal Singh	Sh. Gurcharan Singh Sidhu	Opp. Shiv Mandir, Shive Colony, Barnala, Road, Bhatinda(Pb)	DHMS	Jun-87	BIHAR UNIV MUZAFFARPUR	Punjab	31.05.2004	2704	
48703	Simsi	Sh. Mukesh Chander	H.No. 1628, Phase-V, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	07.04.2004	2626	
48704	Singh Anuj Pratap	Sh. Bhanu Pratap Singh	E-7, University Quarters, Opp. Maya Mishran, Ashok Nagar, City, Udaipur Dist. Udaipur	BHMS	Jan, 2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5089	
48705	Singh Chaman Lal	Sh. Laxmi Narayan Singh	Kismat Bhawan, Raunagar, Azamgarh, U.P. 276122	B.H.M.S.	2000	University of Calcutta	U.P. Board Lucknow	1.3.2001	25182	CCH-2816
48706	Singh Gurmeet Singh	Sh. Harphool Singh	Vill. Takhat hazara Sikhon The. Sadushahar, City - Sri Ganganagar Dist. Sri Ganganagar	BHMS	2006	BFU, of HC, Faridkot	Rajasthan	28.08.2008	5075	
48707	Singh Kabal	Sh. Kishan Singh	V.P.O. Kotli Khas Teh. Dasuya Dist. Hoshiarpur (Pb)	DHMS	1982	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	9/4/1986	886	
48708	Singh Niranjana	Sh. Har Vansh Singh	Vill. & Post Bhunna Jatan City- Bulandshahar Dist- Bulandshahar	BHMS	June, 1993	Raj. Homoeo Board, Jaipur	Rajasthan	27.04.2007	4833	

48709	Singh Prasad Kumar	Dr. Parashams Singh	1) Kalyanpur Barhalgani, Gorakhpur U.P. - 273402 2) Homoeopathic Chikitsalaya, Barhalgani, Gorakhpur, (U.P.)	B.H.M.S.	2007	Barkatullah University, Bhopal	U.P. Board Lucknow	17.07	28225	COH-2618
48710	Singh Ravi Kumar	Sh. N.S. Madhawat	V/58 - Mahi Colony, City-Banswara Dist.-Banswara	BHMS	Jan-2007	Vikram University, Ujjain	Rajasthan	23.09.2008	5077	
48711	Singh Athishhek	Sh. Ranjit Singh	246, Mahaveer Nagar, II, Maharani Farm, City - Jaipur Dist.-Jaipur	BHMS	Jul-06	University of Raj, Jaipur,	Rajasthan	15.12.2008	5164	
48712	Singh Anongshangbam		Vill-Koimou Tangkha P.O.-Numbat (Bishnupur) 795134 Manipur	B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	16.03.07	1001	
48713	Singh Aman Deep	Sukhdhev Singh	VPO - Sant Nagar, Dist:- Sirsa	BHMS	Apr-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	23.05.08	5828- A	
48714	Singh Amit	Sh. Udayveer Singh	M.I.G. A-20-Shashinipuram City-Agra Dist-Agra	BHMS	July-2006	Raj University	Rajasthan	15.04.2008	5015	
48715	Singh Arjun	Sh. Jabar Singh	Nagar Palika Road, 17-Bapu sabji Mandi City-Sumerpur Dist-Pali	BHMS	Jan-2007	JNRNV Deemed University, Udaipur	Rajasthan	15.07.2008	5040	
48716	Singh Arvind	Sh. Deep Singh	Near F.C.I. Godown, Indra Colony, City-Bikaner Dist-Bikaner	BHMS	May-2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5115	
48717	Singh Asim Joy		C/O-S.J.N. College Panjabani, Guwahati-37	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.02.04	882	
48718	Singh Atobam Atombabu		New Chedoni P.O.+Dist Imphal Manipur	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.11.07	1015	
48719	Singh Avtar	Sh. Mehar Chand	Vill. Jourbar, P.O. Bathu Tippi, Dehra, Kangra	BHMS	2005	Saba Fard Univ. of H. Sc. Faridkot (PB)	H.P.	04.09.06	165- A	
48720	Singh Baltej	Sh. Guljar Singh	Vill. Salpura, Hanumangarh Jh. Teh. & Dist. Sri Ganga Nagar (Rajasthan)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	7/3/1986	876	
48721	Singh Balvinder	Hari Singh	Near Babra Chowk Maia Darwaja Road Rohtak - 124001	DHMS	1980	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	7.08.08	5835- A	
48722	Singh Birender	Bal Raj	VPO:- Kullana Dist:- Rohtak	BHMS	Jul-06	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	23.05.08	5829- A	
48723	Singh Brokumar Thangam		Thoambal Kiyam Sipai P.O. Thoubal Dist-Imphal Manipur	D.H.M.S	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.01.2002	495	

48724	Singh Chheta Pal	Sh. Hari Singh	Vill. Kanoura, Post Todiagarh, City- Vill. Kanoura, Dist- Aligarh	BHMS	Jan-2000	Raj. University, Jaipur.	Rajasthan	28.03.2007	4828	
48725	Singh Dalbir	Pritam Singh	Vill. Bhagwanpur PO, Barwala Dist. Panchkula	DHMS	Sep-82	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	23.02.83	3585- A	
48726	Singh Dharambir E.	Late Edwin Singh	Singh Vill. 231/12 Krishna Colony Gurgaon	DHMS	1974	Bihar State Board Of Homoeo. Med. Patna.	Haryana	26.30.09	5857- A	
48727	Singh Disha	Dr. Maheep Singh	B- 473, Behind Dana Pani Restaurant, Malviya Nagar, City-Jaipur Dist- Jaipur(Raj.)	BHMS	June, 2007	JRN RV, University Udaipur	Rajasthan	7.11.2008	5130	
48728	Singh Doyananda		Vill+P.O.-Simulgun Dist- Sivasagar, Assam	B.H.M.S	Oct-06	Dibrugarh University	Assam	12.06.08	1082	
48729	Singh Elangbam Premkumar		S.J.N. Homoeo College Khannapara, Guwahati-22	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.06.98	703	
48730	Singh Gajraj	Siri Ram	VPO : Mohmadpur Ahir Tehsil : Nuh Distt- Gurgaon	DHMS	Sep-87	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur	Haryana	14.11.94	5604- A	
48731	Singh Gian	Nar Singh Dass	1) # 240 Sector -13, Kamal 2) 500 Avalar Colony, Kunipura Road, Kamal	DHMS	Mar-85	Council of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	23.08.85	5339- A	
48732	Singh Gurvinder	Sh. Gurdip Singh	Solan Homoeopathic Medical College, Chambaghat, Solan.	BHMS	2002	Punjab Homoeo council	H.P.	05.10.05	156- A	
48733	Singh Harjit	Sadhu Singh	Vill. Ramgarh, PO Babyal Distt- Ambala	DHMS	Jun-79	University of Bihar Muzaffarpur	Haryana	23.02.98	5667- A	
48734	Singh Inungbom Ibrochreba		J.K.S. Homoeo College Jorhat, Club Road P.O.+ Dist-Jorhat-8, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.98	569	
48735	Singh Jag deep	Sh. Bhim Singh	VPO. Nerwa, Teh. Chopal, Distt. Shimla	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur (Raj)	H.P.	5.11.08	213- A	
48736	Singh Jaswinder Singh	Jagdish Singh	# 169 - E Block Sirsa	BHMS	Nov-03	Baba Fard University of Health Science Faridkot	Haryana	7.07.2005	5734- A	
48737	Singh Kuldeep	Sukhpal Singh	54-C Bharat Colony MT Rohtak	DHMS	Sep-87	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur	Haryana	12.08.88	5452- A	

48738	Singh Lakshman Prasad	Sh. Brendra Nath Singh	1) Al. Gopinath pur Colliery P.O., Nirsha, Dist-Dhanbad, Jharkhand-828205 2) Vill-Kheurbadia P.O., Purandarpur, Dist-Bankura W.B.	B.H.M.S.	2001	B.B.A. Bihar University	W.B. Council Bihar Board	17.09.2002 10.07.2002	-A-24485 26955	CCU-2573
48739	Singh Lal	Sh. Sadara Ram	Vill. & Post Hansasar City, Jhunjhunu Dist-Jhunjhunu	BHMS	May, 2004	Raj University	Rajasthan	31.03.2008	5014	
48740	Singh Lal		Vill-Saikhowa Ghat P.O., Saikhowa Ghat Dist-Tinsukia, Assam	D.H.M.S.	Jul-80	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.09.92	513	
48741	Singh Mahendra Pal	Sh. B.S. Songra	C/o Shri Kalyan Singh Chandrawat, 2, City-Jhalawar Dist. Jhalawar (Raj)	BHMS	May, 2007	Barkullah University, Bhopal (MP)	Rajasthan	5.2.2009	5190	
48742	Singh Mandhir	Sat Pal Singh	V. Pratap Nagar, P.O. Amritsar Kalan Distt.:- Sirsa -125102	BHMS	Jan-07	JRN RV Deemed Uni Udaipur	Haryana	27.11.08	5845-A	
48743	Singh Manoj Kumar	Sh. Baidnath Pd Singh	1. Al-P.O.-Nerpati Nagar, Thana Sakri, Dist-Madhubani, Bihar-847239 2. C/o-Dr. Sunil Kumar Sharma, Computerised Homoeo Clinic, Hospital Road, Naka NO-6, Laharia Sarai Darbhanga, Bihar-846001	B.H.M.S.	2002	B.B.A. Bihar University	Bihar Board	02.07.2002	26947	CCH-2581
48744	Singh Matteda Digvijay Singh Hari	Sh. Hari Singh Matteda	Hiran Magri, City- Udaipur Dist. Udaipur.	BHMS	Jan, 2006	JRN RAJ D University Udaipur	Rajasthan	25.07.2007	4873	
48745	Singh N. Jayanta		S.J.N. Homoeo College Panjabon Guwahati-37	D.H.M.S.	May-91	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	13.07.98	518	
48746	Singh N. Tarun Kumar		J.K.S. Homoeo College Jorhat, Club Road P.O. + Dist-Jorhat-8 Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.05.98	566	
48747	Singh Narendar Pal	Kulwant Rai Gupta	Punni Cottage, Vishnu Colony Kurukshetra	DHMS	1983	Council of Homoeo System of Med. Punjab	Haryana	14.11.94	5601-A	
48748	Singh Narendra	Sh. Salya Dev Singh	12-A-8, Near Beema Hospital, City-Bapu Nagar Dist-Bhiwara	BHMS	Jan, 2007	JRN RV, University Udaipur	Rajasthan	26.07.2008	5055	
48749	Singh Naresh Prasad	Sh. Bindeshwar Singh	Solan Homoeopathic Medical College, Kumartalli, Solan.	BHMS	1999	BRA, Univ. Muzaffarpur (Bihar)	H.P.	06.05.08	191-A	

48750	Singh Nongthobam Blendrajit	J.K.S. Homoeo College Jorhat, Club Road P.O. + Dist-Jorhat-8, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.98	574	
48751	Singh Okram Hemanta	P.O.-Singjamai 785008 Dist-Imphal West, Manipur	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.98	645	
48752	Singh Omkar Nath	1) 89/95, Bangur Park 3rd lane, Rishra- Hooghly (W.B) Pin Code-712248 2) Vill. Adasar, Post, Adasar, Dist. Chandavli (U.P.)	D.H.M.S.	2001	W.B. Council Calcutta	W.B. Council Calcutta	4.4.2001	23654	CCH-2597
48753	Singh Pardhan Sh. Med Singh	Vill. Kiani, P.O. Jubbai, Shimla	BHMS	2006	University of Calcutta (W.B)	H.P.	04.04.07	175- A	
48754	Singh Partap	Vill. Hawani, P.O. Talyana Teh. Ghumarwin, Bilsapur	BHMS	2005	Punjab University	H.P.	14.03.07	173- A	
48755	Singh Priti Pal	Plot No 44, Sector NO- 9 / 1 Near Vinay Vastika City- Hanuman Garh Dist- Haridwar Garh.	DHMS	Dec.1988	CHSM, Punjab.	Rajasthan	2.07.2007	4844	
48756	Singh Pushpendra	486 - Krishna Nagar City- Bharatpur Dist- Bharatpur.	BHMS	Aug, 2006	Jwaji University Gwalior	Rajasthan	7.01.2008	4981	
48757	Singh Raj Kumar Parashmoni	S.J.N. Homoeo College Panjabari Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.03.98	634	
48758	Singh Randeep	447, Sector - 13, UE Kamal	DHMS	Dec-92	Council of Homoeo Punjab	Haryana	27.09.94	5593- A	
48759	Singh Ranvir Gahlawal	VPO : Farnana Distt: - Sonapat	DHMS	Sep-86	Raj. Board of Homoeo Medi. Jaipur	Haryana	22.09.87	5424- A	
48760	Singh Rao Vikas Chand Kamlesh	460 -B, N. Andhiyari Bag, P.O. GorakhiNath Dist, Gorakhpur - 273015, (U.P)	BHMS	2005	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council, Mumbai	22.12.05	40348	CCH-2861
48761	Singh Ravinder	238-E Block Bhai Randhir Singh Nagar Ludhiana (Pb)	GHMS	1982	Kanpur University,	Punjab	9/4/1986	885	
48762	Singh Ravindra	Vill. & Post- Bahaj City- Teh. Deeg Dist- Bharatpur.	BHMS	July, 2006	Rajasthan University,	Rajasthan	10.12.2007	4874	
48763	Singh S. Bheem	J.K.S. Homoeo College Jorhat, Club Road P.O. + Dist-Jorhat-8, Assam	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	14.06.98	564	
48764	Singh Sarabjit	VPO Hindatwala, Tehsil Tohana Dt. Fatehabad	BHMS	Dec-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	23.04.08	5819- A	

48766	Singh Suraj	Sriya Singh	446/2 Adarsh Nagar, New Rly Road, Near Saraswati Complex, Gurgaon	BHMS	Apr-90	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	30.10.98	5670-A	
48766	Singh Surender	Ram Kumar	VPO: Badshapur Distt. - Gurgaon	DHMS	Mar-88	Raj. Board of Homoeo. Med. Jaipur	Haryana	20.07.90	5538-A	
48767	Singh Tejraj	Sh. Guab Singh	Aou Gate, Near Lal Kothi, City- Deeg Distt. Bharatpur.	BHMS	May-2007	Raj. University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5110	
48768	Singh Thunaojam Gunesfor		S.J.N. Homoeo College Panjabani Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	29.06.98	629	
48769	Singh Unmed	Sh. Ram Chandra	Tehsil Jaisal City- Nagaur Distt. Nagaur	BHMS	Feb. 2004	J.R.N. Raj Vidyapeeth	Rajasthan	28.02.2008	5000	
48770	Singh Uttam	Sh. Kalyan Singh	D-441, Malviya Nagar, City Jaipur Distt. Jaipur	BHMS	Jan. 2007	GGSI University Delhi	Rajasthan	15.01.2009	5176	
48771	Singh Vatsala	Sh. Pushpendra Singh	18 - Saraswati Nagar, Near Mali Colony, City- Udaipur Distt. Udaipur	BHMS	Jan. 2007	JRN RV University Udaipur	Rajasthan	20.08.2008	5065	
48772	Singh Vijai	Sh. Randhir Singh	49 Gurudham Colony, Varanasi -221010, U.P.	M.F. (Hom)	1998	Faculty of Homoeo, London	Andhra Board	27.03.06	6248	CCH-2718
48773	Singh Vijay	Gallar	Vill. Kushak PO:- Tappa Palwal Distt.- Faridabad	DHMS	Aug-87	Raj. Board of Homoeo. Med. Jaipur	Haryana	9.08.89	5513-A	
48774	Singh Vikas	Sh. Onkar Chandel	D.F.O. City-Dungarpur Distt. Dungarpur	BHMS	Jan. 2006	J.R.N.R. Deemed University	Rajasthan	28.02.2008	5004	
48775	Singh Vikas	Sh. Onkar Chandel	VPO. Guwardu, Distt. Hamirpur	BHMS	2007	JRN Raj Vidyapeeth Udaipur	H.P.	22.02.08	183-A	
48776	Singh Yogita	Sh. Rameshwar Singh	H.No. - 175, A- Rudhi - Sidhi Nagar, City Kunhad Distt. Kota	BHMS	Jan. 2006	JRNPAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	26.07.2007	4889	
48777	Singh Yunam Santi Kumar		S.J.N. Homoeo College Panjabani Guwahati-37	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.05.98	697	
48778	Singh, (Ms.) Puspaa	Sh. Radhe Shayam Singh	a) Ms B.T. Enterprise 'A' Sector, Naharlagun Opp. To Hotel Tosum, Nig. b) Ms B.T. Enterprise 'A' Sector, Naharlagun Opp. To Hotel Tosum, Nig. PH.9862194079 (M)	BHMS	27.06.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	13.08.2008	84	
48779	Singh, Ajay Pal	Sh. Harpal Singh	Vill. Jand, P.O. Chhangla, Hoshiarpur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	17.04.2006	3016	
48780	Singh, Ajinder	Sh. Sukdev Singh	C/O Mangat Medical Hall Main Bazar Mandi Gobind Garh.	BHMS	1985	PUNJAB	Punjab	10.08.2005	2906	
48781	Singh, Alamjit	Sh. Harbans Singh	H No. 432, Phase III-B-I, Mohali(Pb).	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	02.01.2003	2607	

48782	Singh, Amandeep	Sh. Ragbir Singh	H.No. 35, Lower Mall, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.8.1998	1930	
48783	Singh, Amandeep	Sh. Mohinder Singh	V.P.O. Khuddan Maha Singh, TEH. Lambi, Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	17.10.2000	2373	
48784	Singh, Amandeep	Sh. Karam Singh	Vill & P.O. Sanour Teh & Distt: Patiala (Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	27.03.2008	3180	
48785	Singh, Amar	Sh. Sadhu Ram	New Suraj Nagar, Abohar, Distt. Ferozepur (Pb)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	12.2.1999	2017	
48786	Singh, Amarbir	Sh. Harbhajan Singh	58, Arjun Nagar, Chetwind Canal, Tam Taran Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.12.2000	2400	
48787	Singh, Amarinder	Sh. Harminder Singh	36/3, Opp. T.B. Hospital P.O. Sheran Wala Gate, Patiala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	3.7.2000	2275	
48788	Singh, Amarjit	Sh. Dalip Singh	266 Nanak Puri, Miller Ganj, Ludhiana(Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	6/5/1993	1350	
48789	Singh, Amarjit	Sh. Nidhan Singh	No. 100/46, Inder Singh Gill Nagar, Moga (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	24.1.2001	2429	
48790	Singh, Amarjit	Sh. Aman Singh	V.P.O. Acharwal, Teh: Raikot, Distt: Ludhiana(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	07.04.2008	3194	
48791	Singh, Amrdeep	Sh. Ravinder Singh	A-320, Ranjit Avenue, Amritsar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2813	
48792	Singh, Amrinder	Sh. Ranjit Singh	Vill. Waryan, P.O. Hazrat Nagar, Distt Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.9.2000	2350	
48793	Singh, Amrit	Sh. Harpreet Singh	H.No. 250, Model Gram, Ludhiana(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	24.04.2008	3211	
48794	Singh, Amrit Pal	Sh. Amar Singh	H. No. 3, Neta Ji Park, Jalandhar (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	6/3/1995	1437	
48795	Singh, Amrit Pal	Sh. Ajit Singh	Vill. Umarpur, P.O. Mithu Majra, Teh Maerikota, Distt. Sangrur	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	09.04.2008	3200	
48796	Singh, Amritleen	Sh. Jaswant Singh Chamaik	H.No. 992/A, Durga Puri Link Road Habowal Kalan, Ludhiana (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	28/09/1995	1545	
48797	Singh, Anoop	S/O Mohan Singh	Near G.G. High School Sultanpur Lodhi Distt Kapurthala (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	22/02/1988	1053	
48798	Singh, Anoop	Sh. Harmaik Singh	139, Sewak Colony, Patiala	DHMS	1989	BIHAR UNI.	Punjab	27.06.2003	2638	
48799	Singh, Anoop	Sh. Joginder Singh	H.No. 116, New Model Town Colony, Hoshiarpur(Pb)	DHMS	1984	CHSM Punjab	Punjab	15.09.2008	3273	
48800	Singh, Anireev	Sh. Tejinder Singh	B-7/427 Mohalla Mulana Shakoor Ludhiana (Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	12/12/1995	1567	
48801	Singh, Arashbir	Sh. Ranbir Singh	V.P.O. Fatehpur Rajputan Teh. & Distt: Amritsar(Pb)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	30.08.2007	3148	
48802	Singh, Arvinder	Sh. Kalyan Singh	210, Phase 3A, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	3.7.2000	2271	
48803	Singh, Ashwa	D/o Sh. Ram Singh	H.NO 3445, Sec. 71, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	11.8.1999	2109	

48804	Singh, Atokpam Khikaniba	Sh. Atokpam Tomba Singh	a) Wangkhei Yonglan Leirak, Imphal East, Manipur b) C/o Principal, NEHMC & Hospital, Vivek Vihar, Itanagar, A.P. Ph. 9856085748 (M)	BHMS	9.02.2009	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	9.03.2009	112	
48805	Singh, Avtar	Sh. Jagdish Singh	Ward No. 5 V & P.O. Barur-140610 Teh. Rajpura Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	20.04.1987	978	
48806	Singh, Avtar	Sh. Gurcharan Singh	H.No. 14820, Street No. Perhat Nagar Ludhiana (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	14.02.1989	1112	
48807	Singh, Avtar	Sh. Mehar Chand	H.No. 688, Block Bhai Randhir Singh Nagar Ludhiana (Pb)	BHMS	May - June 2005	BFUHS	19.06.2007	3131	
48808	Singh, Bahadur	Sh. Teja Singh	V.P.O. Baghana, Tej. Phagwara, Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	9.2.1998	1790	
48809	Singh, Balihar	Sh. Gurbakhs Singh	Vill. Kanja P.O. Morinda Distt. Roopar (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	14/10/1986	930	
48810	Singh, Balihar	Sh. Parkash Chand	Vill. Mahadpur, P.O. Budhabari, Teh. Mukerian, Distt. Hoshiarpur (Pb)	BHMS	May - June 2006	BFUHS	26.12.2007	3156	
48811	Singh, Baljit	S/O Sh. Babu Singh	H.No. 2226 Fouji Mohalla, Miller Ganj Ludhiana (Pb)	DHMS	1983	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	16/05/1986	897	
48812	Singh, Baljit	S/O Sh. Gurnam Singh	H.No. 208 Nirankari Kucha No. 2 Miller Ganj Ludhiana (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	4/11/1987	1018	
48813	Singh, Baljit	Sh. Harbans Singh	H.No. 8/186 Cheema Street, Taran-Tarn, Distt. Amritsar (Pb)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	27/05/1992	1294	
48814	Singh, Baljit	Sh. Surat Singh	V.P.O. Chabbal, TEH. Tarn Taran Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	6.10.1999	2144	
48815	Singh, Bhupinder	Sh. Jeet Singh	H.No. 1044-A Sector-41-B, Chandigarh	BHMS	2005	BFUHS	22.09.2006	3056	
48816	Singh, Bhupinder	D/O Sh. Joginder Singh	H.NO. 539/2, Patti, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	5.9.2000	2345	
48817	Singh, Bhupinder	Sh. Balwant Singh	Public Poly Clinic Giddar Baha 152101 Teh. Muktsar Distt. Faridkot (Pb)	DHMS	1983	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	03/03/1987	974	
48818	Singh, Bhupinder	Sh. Pritam Singh	H.No. 300, Himmatana Teh. Malerkotla Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	14/02/1989	1114	
48819	Singh, Bhupinder	Sh. Major Singh	V.P.O. Bhagta Bhaika Tehs. Rampura Phul Bhalinda	DHMS	2000	PUNJAB	26.04.2002	2596	
48820	Singh, Bhupinder	Sh. Jagdish Singh Sodhi	H.No. 1821 Sector-32, Chandigarh Road, Ludhiana (Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	07.04.2008	3193	

48821	Singh, Bhupinder	Sh. Pavitter Singh	Kalayan Homoeopathic Medical College & Hospital, Jandiiala Road Tam Taran Distt. Amritsar (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	24.03.2008	3171
48822	Singh, Bhushan Pal	Sh. Jas Kaur Singh	C/O Dashmesh Medical Hall, Lalpat Rai Road Jagraon Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	10/7/1986	911
48823	Singh, Bhushan Pal	Sh. Jaskaur Singh	Dashmesh Medical Hall, College Road, Jagraon, Distt. Ludhiana	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	28.04.2003	2630
48824	Singh, Bikanraj	Sh. Jodh Singh	V.P.O. Kotli Khas Teh. Dasuya Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1985	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	10.7.1986	910
48825	Singh, Bikanraj	Sh. Sukhdev Singh	Laudia Clinic, Nundi Bazar, Tam Taran	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	08.04.2008	3197
48826	Singh, Bindu	D/O Sh. Harjinder Singh	H. No. 67, W.R. Basti, Sheikh, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1983	PUNJAB	Punjab	16/03/1995	1453
48827	Singh, Budh	Sh. Gurnail Singh	V.P.O. Khemoana Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	2/9/1996	1645
48828	Singh, Charnajit	Sh. Jang Singh	H.No. 36, Phase IV, SAS NAGAR, Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	D.H.M.S.	1986-1989	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	6.1.1997	1766
48829	Singh, Daljit	Sh. Nachhattar Singh	H.No. 2874, Phase VII, Mohali (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2415
48830	Singh, Daljit	Sh. Joginder Singh	V.P.O. Baba Bakala, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	09.10.2001	2555
48831	Singh, Darshan	Sh. Maghar Singh	Vill. Balaharvirji, P.O. Goniama Mandi, Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1985	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	11/10/1991	1265
48832	Singh, Darshan	Sh. Nanjjan Singh	240, Ajit Nagar, Patiala (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	19.8.1997	1719
48833	Singh, Darshan	Sh. Naranjan Singh	V.P.O. Kotli Khas, TEH., Mukeran, Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	27.3.1998	1817
48834	Singh, Darshan	Sh. Bula Singh	H.No. 14342, Bhatti Road, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	24.1.2001	2431
48835	Singh, Davinder	Sh. Karamjit Singh	V.P.O. Dhakha, TEH. & Distt. Ludhiana. (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	13.10.1998	1979
48836	Singh, Davinder Deep	Sh. Harchand Singh	H. No. 2, Ward No 12, Ahemdgarh Teh. Malerkotla Distt Sangrur (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	16/08/1994	1381
48837	Singh, Deepinder	Sh. Jaswant Singh	421-L, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	12/6/1991	1298
48838	Singh, Deshdeep	Sh. Sadhu Singh	B-IV - 8, Waryam Nagar, Abohar, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	21.7.2000	2307
48839	Singh, Devidar	Sh. Parmjeet Singh	Shop No.1 Jawahar Nagar Camp Ludhiana.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2927
48840	Singh, Devinder	S/O Sh. Kartar Singh	V.P.O. Bhari Teh. Samrala Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	28/12/1988	1103
48841	Singh, Devinder	Tejwant Singh	Sidhu Homoeo. Clinic - Purana Bazar Morinda Distt. Ropar.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2935

48842	Singh, Devinder Pal	Sh. Ranjit Singh	Vill Chahlan P.O. Ladhian Teh. Samrala Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	30/07/1991	1260	
48843	Singh, Dhanwant	Sh. Anup Singh	H. No. 1643/Phase-362 Mohali, Distt. Rojar (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	25/06/1992	1302	
48844	Singh, Didar	Sh. Mohinder Singh	Vill Rangian P.O. Morinda Distt. Rojar (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	10/11/1994	1417	
48845	Singh, Didar	Sh. Dhian Singh	V.P.O. Mahalam, TEH. & Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	16.5.2000	2262	
48846	Singh, Didar	Sh. Gurcharan Singh	V.P.O. Ramrui Mauwal Santa Wala, Distt. Tarn Taran	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	27.07.2001	2534	
48847	Singh, Dilbagh	Sh. Harsa Singh	645/64, J-Block, Goidwad Road, Tarn Taran, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	14.7.1998	1869	
48848	Singh, Doyananda	Mr. Rambachan Singh	a) C/o R. Singh Town Simaluguri Distt. Sivasagar (Assam) P.O. Simaluguri b) C/o Dr. Nibho Boran 'C' Sector Naharlagun	BHMS	11.12.2007	Dibrugarh University	Arunachal Pradesh	4.02.2008	78	
48849	Singh, Gagan Swam	Sh. Gurswaran Singh	H. No. 1019, Sec. 71 Mohali, TEH. Kharar, Distt. Rojar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	7.1.1999	2006	
48850	Singh, Gagandeep	Sh. Balwinder Singh	H. No. 2233 Dhuri Road Raikot Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	13/08/1996	1620	
48851	Singh, Gagandeep	Sh. Makhan Singh	Near N.C.C. Office, Nanak Nagri, Mega (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	9.2.2001	2447	
48852	Singh, Gagandeep	Pritpal Singh	H. No. 2287, Sec. 27-C Chandigarh	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	2999	
48853	Singh, Gobind	Sh. Bishan Singh	Vill. Kolhe Agwar, Khwaja Bajji, P.O. Nanaksar, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	08.10.2003	2645	
48854	Singh, Gurbachan	Sh. Karam Singh	Avtar Cloth House Amrit Bazar Kapurthala (Pb.)	DHMS	1987	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	Punjab	9/3/1989	1140	
48855	Singh, Gurbinder	Sh. Teja Singh	Ward No 12, Near Power House, Gidderbaha, Distt. Muktsar (Pb.)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	26.08.2008	3258	
48856	Singh, Gurinder	Sh. Gurdip Singh	H. No. 135 Phase 7 Mohali Teh. Kharar Distt. Rojar (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	22/11/1995	1553	
48857	Singh, Gurinder Pal	Sh. Harpal Singh	Subash Nagar, Gali No. 2, Phagwara Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	4/5/1987	979	
48858	Singh, Gurjeant	Sh. Hari Singh	V.P.O. Tellewal, Distt. Barnala	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.02.2001 18.05.2005	2452	BHMS Gr. Deg 2003 Baba Farid Uni. Of Health Sciences, Punjab

48859	Singh, Gurjeet	Sh. Jarnail Singh	I.T.I. Bhatinda (Pb)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFARPUR	Punjab	29/10/1990	1214	
48860	Singh, Gurjinder	Sh. Ratna Singh Brar	Vill. Khelwail, P.O. Lumbi TEH. Makout, Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	6.3.2000	2234	
48861	Singh, Gurmeet	Sh. Mehar Singh	C/O Dr. H.S. Minhass, Minhas Clinic Main Road Aur Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	16/02/1989	1118	
48862	Singh, Gurmeet	Sh. Gurbachan Singh	H. No. 33 Harbans Nagar, Jalandhar (Pb)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	27/05/1992	1293	
48863	Singh, Gurmej	S/O Sh. Joginder Singh	V.P.O. Lakhon Ke Padda Teh., & Distt. Kapurthakra (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	29/10/1987	1012	
48864	Singh, Gurpiar	Sh. Jagdev Singh	V.P.O. Mandi Kalan, TEH., Rampura Phul, Distt. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	4.1.2000	2403	
48865	Singh, Gurpreet	Surender Singh	Vill. & P.O. Baghthala, Distt. Kurukshetra	DHMS	1999	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab Chandigarh	Haryana	3.03.2006	5750- A	
48866	Singh, Gurpreet	Sh. Angrez Singh	H. No. 12-A Street No 3, P.O. Khanna Nagar, Krishana Nagar, Amritsar (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	15/05/1990	1200	
48867	Singh, Gurpreet	Sh. Kartar Singh	VPO Poothla, Teh. Nathana Distt. Bhatinda (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	6/11/1990	1217	
48868	Singh, Gurpreet	Sh. Karam Singh	V.P.O. Talwandi Rai, Teh. Raikot Distt. Ludhiana	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	27/02/1996	1579	
48869	Singh, Gurpreet	Sh. Bawaant Singh	Jain Market, Zera, Distt. Ferozpur (Pb.)	DHMS	1985-1987	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	22.4.1997	1705	
48870	Singh, Gurpreet	Sh. Anarjit Singh	176, New Model Town Ludhiana	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	03.07.2001	2522	
48871	Singh, Gurpreet	Sh. Kuljeet Singh	H.No. 843, Sec-11, Garden Colony Kharar, Distt. Mohali	BHMS	2005	Punjab University Chd.	Punjab	05.09.2006	3039	
48872	Singh, Gurpreet	Sh. Pritpal Singh	H.No. 174, Sector 14, G.T.B. Opp. Bus Stand Kharar, Distt. Mohali(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	02.04.2008	3185	
48873	Singh, Gursharanjit	S/O Sh. Sucha Singh	V.P.O. Haibowal Kalan Teh. & Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	9/5/1989	1161	
48874	Singh, Gurtaik	Sh. Harmaik Singh	139, Sewak Colony, Patiala	DHMS	1989	BIHAR UNI.	Punjab	27.06.2003	2639	
48875	Singh, Gurtej	Sh. Gurnam Singh	Vill. Chakertan, P.O. Kot- Lalu, Teh. & Distt. Mansa (Pb)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY MUZAFARPUR	Punjab	15/7/1991	1258	
48876	Singh, Gurvinder	Sh. Kewal Singh	H.No. 1552, St. No.2 Chander Nagar Ludhiana	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	30.05.2001	2513	
48877	Singh, Gurvinder	Sh. Gurdeep Singh	H.No. 3582, Sec-69, Mohali	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	19.11.2003	2653	
48878	Singh, Gurvinder	Sh. Harbans Singh	Sanahwal, Kohara Road Distt. Ludhiana	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	07.11.2001	2585	
48879	Singh, Gyanendra	Sh. Mahavir Singh	208/A Beharipur, Civil Lines, Bareilly (Up)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	14/05/1987	980	

48880	Singh, Hakam	Sh. Vehmam Singh	V.P.O. Badali Alla Singh, Sirhind Distt. Patiala	DHMS	May-87	BIHAR UNIV. MUZAFFARPUR	Punjab	13.08.2001	2540	
48881	Singh, Harbans	Sh. Niranjan Singh	V.P.O. Longowal, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	17/08/1994	1397	
48882	Singh, Harbhajan	Sh. Gurdev Singh	10, Lajpat Rai Market Near Clock Tower Ludhiana	DHMS	1986	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	15/11/1995	1552	
48883	Singh, Harbhajan	Sh. Pritam Singh	Basant Nagar, Khanna, Distt. Ludhiana (Pb.)	D.H.M.S.	1987-89	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	20.8.1997	1721	
48884	Singh, Harcharan	S/O Sh. Piara Singh Goraya	Vill. Dalowal P.O. Dagan Teh. Dasuya Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	10/1/1990	1182	
48885	Singh, Hardeep	Sh. Naib Singh	Khanna Road, Samrala Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	15/07/1991	1259	
48886	Singh, Hardeep	Sh. Gurnam Singh	V.P.O. Fatehpur, Rajpootan, TEH. & Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	12.8.1999	2112	BHMS Gr. Deg. Nov - Dec 2005 BFUHS
48887	Singh, Hardeep	Sh. Baldev Singh	B-3, H.No. 460, Dehlon Road Nandpur Sahawal Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	22.01.2002 27.08.2008	2580	
48888	Singh, Hardev	Sh. Gurbax Singh	V.P.O. Mehna Sarja Teh. & Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	8/5/1986	890	
48889	Singh, Hardev	Sh. Darshan Singh	Vill. Kila Jwan Singh, P.O. Khan Kot, Tehs. & Distt. Amritsar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	18.05.2001	2508	
48890	Singh, Harinder Pal	Sh. Gurucham Singh	H. No. 94-K Sharaba Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	1/10/1993	1357	
48891	Singh, Harinderjit	S/O Sh. Avtar Singh	Vill. Sakkanwari, P.O. Muktsar, Distt. Ferozkot (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	4/8/1988	1072	
48892	Singh, Harinderjit	Sh. Sadhu Singh	V.P.O. Ayali Kalan Distt. Ludhiana (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	07.04.2008	3195	
48893	Singh, Harjeet	Sh. Sewa Singh	Mohalla, Dev Puri, Khara Road, Teh. Phagwara Distt. Kapurthala	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	8/8/1996	1614	
48894	Singh, Harjinder	Sh. Balwant Singh	Giani Jain Singh Market, Bagha Purana, Distt. Moga (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2157	
48895	Singh, Harjinder	Sh. Raghuvir Singh	V.P.O. Bains Distt. Nawanshahar (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	28.03.2008	3182	
48896	Singh, Harjinder Pal	Sh. Sukhdev Singh	Vill. Bhaini Nathu P.O. Kum Kalan Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	3/4/1986	882	
48897	Singh, Harjit	Sh. Mohan Singh	Hira Clinic, Desri Road, Ludhiana	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	05.12.1985	851	
48898	Singh, Harkawaljeet	Sh. Gurdeep Singh	H.No. 302 Kiarai Nagar Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2828	
48899	Singh, Harkiran	Sh. Mohinder Singh Chugh	70-71, Chhoti Baradan, Patiala (Pb.)	D.H.M.S.	1981-87	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	5.2.1998	1789	
48900	Singh, Harmandeep	Sh. Jagdeep Singh	102-A Madhuban Enclave Barewal Road, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2946	
48901	Singh, Harmandeep	Sh. Narinder Singh	B-XX 409/1 Krishna Nagar, Ludhiana	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	02.03.2001	2451	

48902	Singh, Harinder	Sh. Gurdev Singh D/O Sh. Nand Lal Ram Pal	V.P.O. Bangi Kalan Via Raman Teh. Talwandi Saboo, Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1988	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	Punjab	9/3/1989	1137	
48903	Singh, Harinder	Sh. Surinder Singh	V.P.O. Jalandhri, Teh. Raikot Distt. Ludhiana	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	31.01.2006	2985	
48904	Singh, Harpal	Sh. Sarwan Singh	V.P.O. Pakhnowal Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	10/11/1986	950	
48905	Singh, Harpal	Sh. Swarnjit Singh	V.P.O. Gharuan Teh. Khara Distt. Mohali (Pb.)	BHMS	May-June 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3128	
48906	Singh, Harpreet	Sh. Chanan Singh	Vill. Bir Khurd, P.O. Bhikhi, TEH. & Distt. Mansa (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	27.1.1998	1783	
48907	Singh, Harpreet	Sh. Baldev Singh	125, New Pantap Nagar, Amritsar (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	6.8.1999	2108	
48908	Singh, Harpreet	Sh. Balwant Singh	H.No. 13, St. No. 9, Malhotra Colony, Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	24.4.2000	2254	
48909	Singh, Harpreet	Sh. Ram Dass Singh	H.No.-78 Gali No. 3 New Shaheed Udhham Singh Nagar Amritsar	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	05.10.2001	2552	
48910	Singh, Harpreet	Sh. Darshan Singh	Vill. Daudpur P.O. Didipura, Teh. Patit Distt. Tarn Taran (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	26.03.2008	3174	
48911	Singh, Harsharan Pal	Sh. Daljit Singh	H. No. 169/B, Model Gram, Near Kochhar Market, Ludhiana	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	14.11.1985	848	
48912	Singh, Harsharan	Sh. Kanwaljit Singh	18-Anand Nagar-B, St No.2, Patiala	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3070	
48913	Singh, Harvinder	S/O Sh. Sukhdev Singh	H.No. BIV 245 Near Rama Ice Factory, Barnala Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	Sep-88	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	Punjab	13/10/1989	1171	
48914	Singh, Harwinder	Sh. Ajmer Singh	VPO Shepur, Teh. Malerkotla Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	6/9/1994	1403	
48915	Singh, Heer Sukbir Kaur Mohan	Sh. Heer Mohan Singh	Kangani Wala, P.O. Hazar, Jalandhar (Pb.)	BHMS	1985	KARNATKA UNI	Punjab	05.10.2001	2553	
48916	Singh, Inder Mohan	Sh. Amarjot Singh	136-A, Model Town Extn - II, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1887	
48917	Singh, Inder Pal	S/O Sh. Gurdial Singh	Vill. Oind P.O. Samana Kalan Teh. Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	27/11/1987	1029	
48918	Singh, Inderbir	Sh. Gurinder Singh	Giani Zail Singh Nagar Teh. & Distt Ropar (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	8/8/1996	1613	
48919	Singh, Inderjit	Sh. Manchar Singh	H.No. 19286, St. No. 4, G.T.B. Nagar, Bhowala Road, BHATINDA (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	10.3.2000	2241	
48920	Singh, Iqbal	Sh. Jagdish Singh	Vill. Phallar, P.O. Sekhu Tehs. Talwandi Sabo, Distt. Bhatinda	BHMS	May-June 2007	BFUHS	Punjab	15.10.2008	3283*	
48921	Singh, Jagjit	Balwinder Singh	H.No. 7516 Bohri Wala Bazar, Tarn Taran	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.05.2007	3103	
48922	Singh, Jagmohan	Sh. Gaj Singh Brar	C/o Dr. J.N. Sharma, Gali No. 5, Chowk No. 1, Abohar (Ferozepur) Pb.	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	22.9.1999	2137	

48923	Singh, Jagraj	Sh. Nikka Singh	C.O.E.R. J.S. Mangat, 306-C Bhai Randhir Singh Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	22/12/1988	1100
48924	Singh, Jagtar	Sh. Gurdev Singh D/O Sh. Nand Lal Ram Pal	Near F.C.I. Bhuchio Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	23/02/1989	1128
48925	Singh, Jagtar	Sh. Piara Singh	V.P.O. Phullgudawal, TEH. Nakodar, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	7.1.1988	1776
48926	Singh, Jagtar	Sh. Resham Singh	Vill. Rehman P.O. Poonian, Teh. Shakot Distt. Jalandhar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2912
48927	Singh, Jagteshwar	Sh. Narinder Singh	10-Ajit Nagar, Sultanwind road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	3.9.1988	1936
48928	Singh, Jasbir	Sh. Kandhara Singh	V.P.O. Jagmalera Teh. & Distt. Sirsa (Haryana)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	17/04/1986	888
48929	Singh, Jasbir	Sh. Harshajan Singh	H.No. 3483, Sector 71, Mohali	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	06.06.2001	2518
48930	Singh, Jasjit	Sh. Ranjit Singh	208-R, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	31/7/1992	1310
48931	Singh, Jaspal	Sh. Kirpal Singh	Opp. New Sabzi Mandi, Ambah Road, Tarvanpuri Nagar, Khanna, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	2.2.2000	2203
48932	Singh, Jaspreet	Sh. Swaran Singh	Gurdware Bazaar, Morinda Distt. Ropar	DHMS	May-86	BIHAR UNIV. MUZAFFARPUR	Punjab	16.08.2001	2539
48933	Singh, Jasvinder	Sh. Bhagwant Singh	H.No. 74/ Phase-3b2 S.A.S. Nagar Mohali, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	2/6/1992	1296
48934	Singh, Jaswant	Sh. Lachhman Singh	V.P.O. Bhandal-Himmat, Teh. Phillaur Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	20/04/1989	1155
48935	Singh, Jaswant	Sh. Sarwan Singh	Lajpat Rai Road Jagraon Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	4/11/1991	1267
48936	Singh, Jaswinder	Sh. Ajala Singh	139-E, Kichlu Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	25.8.1998	1920
48937	Singh, Jaswinder Pal	Sh. Iqbal Singh	26 Link Colony Model Town Nakodar Road, Jalandhar City (P.B.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	19/06/1992	1301
48938	Singh, Jaswinder Paul	Sh. Gopal Singh	Near Gurdwara, Sethra Sahib, Sultanpur Lodhi, Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	2.3.1998	1800
48939	Singh, Jatinder	Sh. Sukhpal Singh	H.No. 54/3, Satguru Nagar Opp. Milk Plant, Ludhiana (Pb.)	DHMS	2001	CHSM, Punjab	Punjab	04.10.2004	2776
48940	Singh, Jatinder	Sh. Buland Lal Singh	H.No. 399, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	23.08.2005	2907
48941	Singh, Jatinder	Sh. Sardar Singh	456 Park Lane, Kundanpur Civil Line Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2933
48942	Singh, Jatinder	Sh. Darshan Singh	V.P.O. Chahal Teh & Distt. Taran Taran	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	26.09.2006	3062
48943	Singh, Jatinder Pal	Sh. Gopal Singh	V.P.O. Khichian Teh. Baba Bakala, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	Feb-89	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	Punjab	15/06/1990	1208

48944	Singh, Kamaljit	Sh. Ram Lubhaya	K. No. 442, Phase-6 S.A.S. Nagar Mohali Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1980	PUNJAB	Punjab	14/02/1991	1238	
48945	Singh, Kamaljit	Sh. Gurmali Singh	H. No. 539, Phase-VI, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	8.1.1999	2007	
48946	Singh, Kamaljit	Sh. Harbhajan Singh	116, Passi Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	11.11.1999	2168	
48947	Singh, Kamaljit	Sh. Harbhajan Singh	96, Charan Bagh, Patiala (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	16.5.2000	2263	
48948	Singh, Kamaljit	Sh. Hardip Singh	V.P.O. Talawal, TEH. Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	21.4.1999	2027	
48949	Singh, Kamaljit	Sh. Tirath Singh	Jandiala Road, Taran-Taran Amritsar (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	27/05/1992	1292	
48950	Singh, Kamaljit	Sh. Santokh Singh	582, Mota Singh Nagar, Jalandhar	DHMS	1986	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	21.04.1997	1700	
48951	Singh, Kamaljit	Sh. Balkar Singh	V.P.O. Tur, TEH. Khadur Sahib, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	22.10.1998	1980	
48952	Singh, Kamaljit	Sh. Jamail Singh	Patli Nallowal, Vill. Bilgan, TEH. Phillaur, Distt. Jalandhar (Pb.)	-DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	26.8.1999	2127	
48953	Singh, Kamaljit	Sh. Karwaljit Singh	H. No. 61-R Model Town Hoshiarpur	BHMS	May - June 2006	BFUHS	Punjab	30.08.2007	3146	
48954	Singh, Kamaljit	Sh. Harbans Singh	H. No. B-34/4897, Halibowal Kadian Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	04.01.2007	3074	
48955	Singh, Kamaljit	Sh. Janak Singh	Near Bansal Hospital Dhonauda Distt. Barnala	DHMS	2003	CHSV - Punjab	Punjab	05.04.2005	2880	
48956	Singh, Kamaljit	Sh. Gurbax Singh	H.J.-537 Bhair Randhir Singh Nagar Ludhiana	BMS	April - May 1970	UP BOARD	Punjab	22.07.2005	2904	
48957	Singh, Kamaljit	Late Dr. Sajjan Singh	Ranu Homoeopathic Hospital, Near Telephone Exchange, Raikot Ludhiana (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	26.11.1999	2173	
48958	Singh, Kamaljit	Sh. Bakhtawar Singh	Vill. Mahmedpur P.O. Adampur, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	Dec-78	CHSM Punjab	Punjab	15.08.2008	3274	
48959	Singh, Kamaljit	Sh. Jagdev Singh	H. No. 7863 St No 4 Dashmesh Nagar Muktsar Distt. Faridkot (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	4/12/1986	956	
48960	Singh, Kamaljit	Sh. Manohar Singh	Guru Angad Dawa Khana Kucha No. 5 310-B XIII Field Garj Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	7/12/1988	1096	
48961	Singh, Kamaljit	Sh. Rattan Singh	V.P.O. Daudpur, Via-Dehlan, Teh. Smarala, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	10/11/1994	1418	
48962	Singh, Kamaljit	Sh. Baldev Singh	9/5, Hardyal Road, Near Radha Sowami Satsang Bhawan, Jalandhar Cantt. (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	18.9.1987	1722	
48963	Singh, Kamaljit	Sh. Agyakar Singh	330/100, J. Block, B.R.S. Nagar Ludhiana (Pb.)	DHMS	Jan - 1991	BIHAR MUZAFFARPUR	Punjab	3.7.1997	1714	
48964	Singh, Kamaljit	Sh. Sukhraj Singh	Bindra Colony, Tripuri Road, PO Tripuri, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	11.12.1997	1749	

48965	Singh, Kulwant	Sh. Ram Singh	Mandi Mullampur, 1/283, Ferozepur Road, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.3.1998	1806
48966	Singh, Kulwinder	Sh. Hansa Singh	Vill. Kalanaur Teh. & Distt. Gurdaspur	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	8/12/1993	1556
48967	Singh, Lakwinder	Sh. Balwant Singh	Vill. Harsian, P.O. Dialgarh, Tehs. Batala, Distt. Gurdaspur	DHMS	Dec.-1983	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	26.08.1985	821
48968	Singh, Lily	Sh. Pithpal Singh	No. 2967/4-C, St. No. 9, New Janta Nagar Ludhiana (Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	22.04.2008	3206
48969	Singh, Maiklat	S/O Sh. Darshan Singh	Vill. Hayatpur, P.O. Koli Khas, Teh. Dasuya Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	29/04/1988	1063
48970	Singh, Maiklat	S/O Sh. Asa Singh	V.P.O. Mand Teh. & Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	10/1/1990	1183
48971	Singh, Maiklat	Sh. Mukhtiar Singh	V.P.O. Lehra Muhabbal, Distt. Bhatinda (Pb.)	DHMS	Jun-87	BHAR UNIVERSITY	Punjab	7/1/1992	1268
48972	Singh, Maiklat	Sh. Labh Singh	Bibiwala Road, Gali No. 4, Guru Teg Bahadur Nagar, Bhatinda (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	21/06/1995	1501
48973	Singh, Manddeep	S/O Sh. Teja Singh	Railway Road, Sullianpur Lodhi Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	21/12/1987	1037
48974	Singh, Manddeep	Sh. Harjinder Singh	Old Ward No. 4, Patti, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	16.7.1999	2079
48975	Singh, Manddeep	Sh. Mohinderpal Singh	H.No. 3769, Kartar Nagar, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	25.10.1999	2164
48976	Singh, Mangal Deep	Sh. Satnam Singh	C-917, Urban Estate Phase II, Focal Point Ludhiana.	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2929
48977	Singh, Maninder	Sh. Sukhdev Singh Dhalwal	H.No. 8-A/46 Katarwal Road Dhuri, Distt. Sangrur	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	05.03.2001	2461
48978	Singh, Maninderpal	Sh. Amarjit Singh	H.No. G-401, Shaheed Bhagat Singh Nagar, Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	17.04.2006	3019
48979	Singh, Manjit	Sh. Jagjit Singh	Vill. Jalalabad East Teh. Zira Distt. Ferozepur	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	2/4/1996	1591
48980	Singh, Manjit	Sh. Sarwan Singh	Vill. Kaki Pind, P.O. Rama Mandi, Teh. & Distt. Jalandhar (Pb.)	BMS	1984	AGRA UNI.	Punjab	6.11.1998	1990
48981	Singh, Manjit	Sh. Onkar Singh	Vill. Keharwali, Near Church, Tehs. Dasuya, Distt. Hoshiarpur	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3098
48982	Singh, Manpreet	Sh. Sandhu Singh	H.No. 1614, Phase VII, Mohali, Teh. Kharar, Distt. Rupar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	1.7.1999	2055
48983	Singh, Manwant	Sh. Kulwant Singh	National Homoeo Clinic, Gali Soodan Wali, Noordi Bazar, Tam Taran, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	6.10.1999	2145
48984	Singh, Meharwant	Sh. Bhupinder Singh	Plot No. 111, G.S. Nagar, College Road, Mullampur, Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	25.9.2000	2367

48985	Singh, Mohinder	Sh. Gurdev Singh	454-R, Paras Ram Nagar, Distt. Bhatinda (Pb)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	16/08/1994	1388
48986	Singh, Mukesh	Sh. Ram Parkash	New Ever Green Agency, Abohar Distt. Ferozepur(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	17.07.2008	3246
48987	Singh, Mukinder	Sh. Parnhan Singh	C/O S. Malik Singh, H.No. 646, B-XII P.O. Field Ganj, Teh. & Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	23/08/1995	1525
48988	Singh, Murali Dhar	Sh. Vindhyachal Singh	New Kartar Nagar, St. No. 6, Dhun Lines, PO Miller Ganj, Distt. Ludhiana	DHMS	1980-84	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	3.2.1988	1786
48989	Singh, Naginder	Sh. Kewal Singh	VPO. Bagga (Sahkot) Teh. Nakodar, Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	17/08/1984	1398
48990	Singh, Namdar	Sh. Kishan Singh	Moh. 4472, Kot Bhagat Singh S.W.R Amritsar	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	29.08.1985	827
48991	Singh, Navinder Pal	Sh. Jaswant Singh	V.P.O. Nihal Wal Teh Jalandhar (Pb)	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	13.09.2002	2603
48992	Singh, Navdeep	Sh. Balbir Singh	Azad Nagar, Tapa, Distt. Barnala(Pb)	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	26.09.2006	3059
48993	Singh, Navintol	Sh. Ajmer Singh	V.P.O. Megritiana Distt. Hoshiarpur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2938
48994	Singh, Navtej	Sh. Pritam Singh	VPO. Jhabbawal Bhaba Bakala Distt. Amritsar	D.H.M.S.	2000	PUNJAB	Punjab	22.08.2001 24.03.2006	2543 BHMS Gr. Deg. May - June 2004 BFUHS
48995	Singh, Navinder	Sh. Kapalmeet Singh	C/O Baldev Singh 7-A Shanti Pura Jalandhar (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	20/07/1993	1356
48996	Singh, Nirmal	Sh. Gurdial Singh	Vill. Sadhraur P.O. Dhumma Teh. Rajpura Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	26/12/1986	965
48997	Singh, Nirmal	Sh. Joginder Singh	Vill. Cheema Khurd, P.O. Asul Aulhar, TEH. Patti, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	23.12.1997	1761
48998	Singh, Paramjit	Sh. Gurcharan Singh	Near Guru Nanak Timber Store Jawahar Ke Road Mansa Distt. Bhatinda (Pb)	DHMS	1985	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	29/08/1986	923
48999	Singh, Parbhjot	Sh. Devinder Pal Singh	K.No. 258, Phase-7, Mohali	BHMS	2001	CHSM, Punjab	Punjab	14.05.2004	2691
49000	Singh, Pardeep	Sh. Baldev Singh	H.No. 329, Wased No. 1, Patran Distt. Patiala(Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	24.04.2008	3210
49001	Singh, Pargat	Sh. Harjab Singh	H.No. 238-A, Sarabha Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana(Pb)	BHMS	May - June 2006	BFUHS	Punjab	19.12.2007	3154
49002	Singh, Parminder	Sh. Harcharan Singh	H.No. 349, Mohalla Gurdeep Nagar Jagroan Distt. Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	31.01.2006	2986
49003	Singh, Parminderdeep	Sh. Gurdip Singh	1046, Punjab Mala Nagar, Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	8.12.1998	1998

49004	Singh, Parvinder	Sh. Gurmukh Singh	Q. No. 29/5, Canal Colony, Gidderbhana, TEH. & Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	21.7.2000	2301	
49005	Singh, Parvinder	Sh. Balbir Singh	New Basti Abohar Road, Muktsar Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	21/08/1991	1251	
49006	Singh, Pavnvir Pal	Sh. Ram Singh	17-E, Sarabha Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	7/12/1993	1368	
49007	Singh, Poonam	Sh. Jai Raj Singh	H. No. B-34/4694, Durgapuri, Haibowal Kalan, Ludhiana (Pb.)	BHMS	2003	SFUHS	Punjab	25.10.2004	2793	
49008	Singh, Prabdeep	Sh. Nirmal Singh	H. No. 12140, Allal Nagar, Ludhiana	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2854	
49009	Singh, Prabjot	Sh. Sant Singh	Bazar Saraffan Zira Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	14/01/1991	1232	
49010	Singh, Preet Kamaljit	Sh. Sarjit Singh	H. No. 954, Phase 3-B2, Mohali, TEH. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	6.2.2001	2446	
49011	Singh, Preet Mohinder	Sh. Pritam Singh	308/2 Bagachi Mangal Dass Dharampura Bazar, Patiala	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	31.01.2006	2979	
49012	Singh, Preetvinder	Sh. Shamsher Singh	H. No. 7 New Punjab Mata Nagar Paknowal Road, Ludhiana	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	19.2.1998	1795	
49013	Singh, Fritpal	Sh. Himmat Singh	324, Deeco Nagar, Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	17/08/1994	1386	
49014	Singh, Rachpal	Sh. Gurdev Singh	Talwandi Bhai, Opp. New Bus Stand, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	28.7.1999	2094	
49015	Singh, Rachpal	Sh. Ujagar Singh	H. No. 15/10 Guri Nanak Puri, Jagraon, Distt. Ludhiana	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	28.04.2003	2529	
49016	Singh, Rachna	Dr. Sh. Harbhajan Singh	134, New Model Town, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	4.10.1999	2142	
49017	Singh, Rachpal	Sh. Ujagar Singh	H. No. 15/10 Guri Nanak Puri, Jagraon (142026) Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	22/12/1986	960	
49018	Singh, Ragbir	Sh. Hans Raj	Vill Khabra P. O. Molavahidpur, Teh. Garhsenker, Distt. Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1985 1991	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	16/08/1994	1389	
49019	Singh, Rajbir	Sh. Harbhajan Singh	H. No. 166, Near Girls College, Mandi Gobindgarh, Distt. Fatehgarh Sahib (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	16/08/1994	1382	
49020	Singh, Rajdevinder	Sh. Jagjit Singh	Kila Jiwa Singh, P. O. Khankot, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	29/12/1994	1424	
49021	Singh, Rajinder	Sh. Jai Dev Singh	V. P. O. Kotli Khass, Tehs. Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Punjab)	DHMS	May 1983	Bihar University, Muzaffarpur	Punjab	11.04.1985	792	
49022	Singh, Rajpal	Harbhaj Singh	Bharat Homoeo Centre, Near Guri Nanak Senior Secondary School, Rishi Nagar, Hissar	BHMS	Dec. 1993	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur	Haryana	28.10.1996	5637-A	
49023	Singh, Ramandeep	Sh. Gurbachan Singh	Khanuwan Road Gobind Nagar Batala Distt. Gurdaspur	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	11.04.2001	2497	

49024	Singh, Randeep	Sh. Harpal Singh	C/O Daya Nand Sheokand, Behind Chug Store, Vill Naya Graon, P.O. Nada, Teh. Kharar Distt Ropar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	28/09/1992	1323	
49025	Singh, Randeep	Sh. Jaswant Singh	Vill. Dhamoli, Near Railway Gate No. 3, Rajpura, Distt. Patiala (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2423	
49026	Singh, Ranjeet	Sh. Balbir Singh	V.P.O. Fatehgarh Panjtoor, Teh & Distt Moga (Pb)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	24.03.2008	3170	
49027	Singh, Ranjit	Sh. Arjan Singh	Moh. Pakhiwala Sultanpur Lodhi Distt Kapurthala	DHMS	1983	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR-	Punjab	26/12/1986	963	
49028	Singh, Ranjit	S/O Sh. Hardev Singh	Vill & P.O. Kuthala Teh. Malerkotla Distt Sangrur (Pb)	DHMS	Jun-87	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR-	Punjab	26/02/1990	1193	
49029	Singh, Ranjit	Sh. Mehar Singh	H. No. 771 BXII St No 4, Nirankari Mohalla, Miller Ganj, Ludhiana (Pb)	-DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	8/1/1996	1573	
49030	Singh, Ranveer	Sh. Baldev Singh	H. No. 198, Dashmesh Colony Zrakpur, Distt Mohali (Pb)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	18.06.2000	2516	
49031	Singh, Ravinder	Sh. Dina Nath	Vill Kort P.O. Patial Teh. & Distt Hoshiarpur (Pb)	DHMS	Mar-90	RAJASTHAN BOARD JAIPUR	Punjab	2/4/1992	1275	
49032	Singh, Ravinder	Sh. Krishan Chand	B-6, 934 Sodal Nagar, Jalandhar City (Pb)	DHMS	1980	PUNJAB	Punjab	2/6/1992	1297	
49033	Singh, Ravinder	Sh. Dhani Singh	Cingma Road Mansa-151505(Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	17/08/1994	1395	
49034	Singh, Ravinder	Sh. Manohar Singh	341, Guru Amar Dass Nagar, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	16.8.2000	2327	
49035	Singh, Ravinder	Sh. Gurbachan Singh	C/O Madan Nursing Home Ghandi Nagar, Jalandhar (W) Distt. Ferozepur(Pb).	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	30.06.2006	2606	
49036	Singh, Ravinder	Sh. Gurdial Singh	H. No. 695, Phase-1, Mohali(Pb)	BHMS	April-May 2005	BFUHS	Punjab	29.06.2007	3135	
49037	Singh, Ravinder Pal	Sh. Harcharan Singh	H. No. 407b 36 Punjab Mala Nagar P O Model Town Ludhiana (Pb).	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	7/6/1996	1597	
49038	Singh, Resham	Sh. Jaswant Singh	V.P.O. Bargari Teh. & Distt. Fardkot (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	28/12/1988	1104	
49039	Singh, Resham	Sh. Swaran Singh	V.P.O. Rupewali, Teh. Shahkot, Distt. Jalandhar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	05.11.2005	2955	
49040	Singh, Rupinder	Sh. Karam Singh	H.No. B-141, Jandiala Guru Distt. Amritsar (Pb)	DHMS	1983	PUNJAB	Punjab	25/08/1986	906	
49041	Singh, Sajjaniv Pal	Sh. Karamjit Singh	H.No.46, Mann Nagar, Jalandhar	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	23.02.2007	3085	
49042	Singh, Sandeep	Sh. Mohinder Singh	H. No. 1486, Durga Pun. Haibowal Kalan, Distt Ludhiana (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	22/11/1993	1365	
49043	Singh, Sandeep	Sh. Bachan Singh Bedi	H.No. 504/1, Bhal Randhir Singh Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.1.2001	2425	

49044	Singh, Santokh Sh. Jagtar Singh	V.P.O. Hambran Teh. & Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	7/12/1988	1098
49045	Singh, Sarabjit Sh. Gurcharan Singh	Vill. Bapla, P.O. Macki, Teh. Malerkkotla, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	25.9.1998	1964
49046	Singh, Sarabjeet Sh. Avtar Singh	Harbawal Kalan, Pavitar Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	16.7.1999	2078
49047	Singh, Sarabjeet Sh. Jarnail Singh	V.P.O. Nawana Pind Distt. Amritsar	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	22.01.2002	2581
49048	Singh, Sarbjit Sh. Vakil Das	H.No. B/X 779 Near Civil Hospital Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	16/02/1989	1126
49049	Singh, Sarbjit Sh. Dhanna Singh	Civil Hospital Barnala, Distt. Sangrur (Pb.)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	13/3/1995	1445
49050	Singh, Sarbjit Sh. Gurdev Singh	H.No. 725, Nai Abadi, V.P.O. Kot Khalsa, Teh. & Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	3.8.1999	2100
49051	Singh, Sardool Sh. Partap Singh	V.P.O. Mehna Sawal Distt. Teh. & Bhatinda (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	17/04/1986	887
49052	Singh, Sarmukh Sh. Kundan Singh	V.P.O. Khadur Sahib, Tam Taran	DHMS	Aug /Sept 1983	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	16.10.1985	846
49053	Singh, Sarnam Sh. Resham Singh	V.P.O. Khudda, Tehs. Dasuya, Distt. Hoshiarpur	DHMS	Aug /Sept 1983	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	08.10.1985	842
49054	Singh, Sarnam S/O Sh. Surjit Singh	V.P.O. Bhanohar Teh. & Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	6/6/1989	1165
49055	Singh, Sarnam Sh. Gurcharan Singh	215 Charan B Agn Lehal Patiala (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	29/11/1990	1220
49056	Singh, Sarnam Sh. Harbans Singh	Vill. Jagat Pura P.O. Dhandgarh, Teh. Kharar, Distt. Roopar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	2/2/1993	1332
49057	Singh, Sarnam Sh. Lakha Ram	Vill. Peer Mehmed, P.O. Anir Khas Jalalabad (West) Distt. Ferozepur	DHMS	1987	BIHAR UNIV MUZAFFARPUR	Punjab	14.02.2001	2493
49058	Singh, Sarnam Sh. Jaspal Singh	V.P.O. Markhar Tehs. Zira, Distt. Ferozepur	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	19.05.2008	3223
49059	Singh, Shalinder Jit	V.P.O. Nawana Pind, Tehs. & Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	14.01.2002	2576
49060	Singh, Shayam Pal	Incharge, RCHD Rathiwas (Tauri) Distt. Gurgaon	DHMS	August, 1986	Rajasthan Board of Homoeo Medicine, Jaipur,	Haryana	20.03.1989	5491-A
49061	Singh, Shiv Sharan	H.No. 1283, Sector-33-C, Chandigarh	BHMS	2006	Punjab University Chd.	Punjab	11.09.2008	3271
49062	Singh, Suhird Sh. Gurnal Singh	H.No. 1862, Near Octoari, No. 5, Mohalla Agwar Gujran Teh. Jagroon Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	24/10/1991	1266
49063	Singh, Sukhbir S/O Sh. Sadhu Singh	V.P.O. Dhiwan Kalan Via Kottakpura Distt. Faridkot (Pb.)	DHMS	JAN - 1985	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	2/5/1989	1159
49064	Singh, Sukhdeep Sh. Tarlok Singh	Vill. Nag, P.O. Nag Kalan, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.9.2000	2353

49065	Singh, Sukhdeep	Sh. Malket Singh	C/O Sh. Tarak Singh, Nambardar, V.P.O. Kalsian, Teh. Raikot, Distt. Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3046
49066	Singh, Sukhjinder	Sh. Harbhajan Singh	Vill Daya Kalan, P.O. Kishanpura, Distt. Moga	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3041
49067	Singh, Sukhjitt	S/O Sh. Lakh Singh	Balwal Road Bhawanigarh Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1983	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	12/6/1986	904
49068	Singh, Sukhjitt	S/O Sh. Gurdial Singh	V.P.O. Barundi Teh. & Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	Jun-87	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	12/5/1989	1162
49069	Singh, Sukhman Pal	Sh. Harinder Pal Singh	H.No.43, Modi Enclave, Barewal Road, Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	18.08.2006	3036
49070	Singh, Sukhinderpal	Sh. Karnail Singh	V.P.O. Kangra, TEH. Nakodar, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	8.1.1988	1777
49071	Singh, Sukhpal	Sh. Kaur Singh	VPO Khokhar Teh. Mukatsar Distt. Faridkot (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	17/04/1991	1239
49072	Singh, Sukhpal	Sh. Joginder Singh Viraj	H.No. 4023/46-D, Chandigarh	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	8.10.1996	1659
49073	Singh, Sukhpreet	Sh. Bhura Singh	St. No. 2 Power House Road Balthinada	BHMS	May-June 2003	BFUHS	Punjab	05.04.2005	2858
49074	Singh, Sukhraj	Sh. Nachhattar Singh	V.P.O. Balluana, Distt. Bhalinda (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	10/2/1994	1375
49075	Singh, Sukhraj	Sh. Sulakhan Singh	Vill Tirathpur P.O. Fatehpur Rajputana, Distt. Amritsar	DHMS	2001	PUNJAB	Punjab	18.04.2002	2585
49076	Singh, Sukhwant	Sh. Baldev Singh	230, Purnawal Nivran, PO Ghuman, Police Station Banga, Distt. Nawanshahr (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1741
49077	Singh, Sukhwinder	Sh. Dalvir Singh	3-Namdev Nagar, Muktsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1912
49078	Singh, Surendra	Sh. Lakshman Singh	V.P.O. Phulu Khara, TEH. Malout, Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2153
49079	Singh, Surinder	Sh. Gurbax Singh	V.P.O. Dhamot, Tehs. Payal, Distt. Ludhiana	DHMS	Aug. /Sept. 1983	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	09.08.1985	814
49080	Singh, Surinder	Sh. Karam Singh	Vill. Hayatpur, P.O. Kotli Khas, Teh. Dasuya Distt. Hoshiarpur (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	15/2/1988	1047
49081	Singh, Surinder	S/O Sh. Joginder Singh	Alamala Road Fateh Garh Churian Teh. Batala Distt. Gurdaspur (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	21/02/1990	1192
49082	Singh, Surinder Pal	Sh. Anup Singh	V.P.O. Kotli Khas Teh. Dasuya Distt. Hoshiarpur (Pb)	DHMS	May-83	BIHAR MUZAFFARPUR	Punjab	5/2/1986	873
49083	Singh, Surinder Pal	Sh. Kulbir Singh	Vill. Sheikhenwala, p.O. Mianwal Arian, TEH. Shaikot, Distt. Jalandhar	DHMS	Jan. 1991	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	12.2.1989	2018
49084	Singh, Surjit	S/O Sh. Kahmir Singh	Moh. Chahbarain Zira Distt. Ferozepur (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	4/11/1987	1019
49085	Singh, Swarnjit	Sh. Balwant Singh	H.No. 116, Industrial Area (A) Ludhiana (Pb)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	31/05/1990	1202

49086	Singh, Kapoor Singh, Harmit Singh (Pb.)	77-C, Raghe Majra, Pattala (Pb.)	BHMS	2002	CHISM, Punjab	Punjab	11.06.2004	2710
49087	Singh, P. Singh D/O Sh. Baswant Singh (Pb.)	Bedi Hospital Opp. Post Office Patti Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	14.02.1989	1115
49088	Singh, Tarvinder Singh, Harmohinder Singh (Pb.)	H.No. 23-C, Gurdev Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	24.8.1998	1916
49089	Singh, Tehal Singh, Kartar Singh (Pb.)	V.P.O. Shikar Machian Teh. Batala Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1985	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	18/8/1989	916
49090	Singh, Tejinder Singh, Jaswant Singh (Pb.)	Mohalla Fatech Chuck H.No. A-173, Tam Taran	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	26.07.2001	2533
49091	Singh, Tejinder Singh, Jaswant Singh (Pb.)	W.P. 245, Basti Sheikh, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	12/5/1995	1478
49092	Singh, Thana Singh, Sardara Singh (Pb.)	H.No. 11/39 Abadi Hazoor Singh Fazilka Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	9/1/1986	858
49093	Singh, Varinder Singh, Gurdial Singh (Pb.)	Jaimal Nagar, Ravidas School Road, PO Chogitree, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	22.9.1999	2135
49094	Singh, Varinderjit Singh, Joinder Singh (Pb.)	Amari College Central Town Phagwara Distt. Kapurthala	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	26.07.2001	2531
49095	Singh, Varinder Pal Singh, Jagan Singh (Pb.)	VPO Kishanpura Kalan Teh. Zira, Distt. Ferozepur (Pb.)	DHMS	1989	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	10/7/1991	1255
49096	Singh, Varinder Paul Singh, Pritam Singh (Pb.)	Vill. Pona P.O. Algam Teh. Jagraon Distt. Ludhiana (Pb.)	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	28/02/1989	1132
49097	Singh, Vijay Pal Singh, Harpal Singh (Pb.)	H.No. 62, Neela Hospital, Dua Road Anjala, Distt. Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	27.7.1998	1903
49098	Singh, Vikramjit Singh, Joginder Singh (Pb.)	H.No. 533 Azad Nagar Sultanwind Road, Amritsar	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	12.03.2001	2466
49099	Singh, Vinod Singh, Sukhdev Singh (Pb.)	Vill. Rangian P.O. Delheon Teh. Ludhiana (Pb.)	DHMS	Jun-87	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	Punjab	8/5/1991	1249
49100	Singh, Vishavpreet Singh, Amarjit Singh (Pb.)	B-VII/303, Chander Lok Colony, Sangatpura Road, Mandi Gobindgarh, Distt. Falehgarhi Sabid (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	9.2.2001	2448
49101	Singh, Waheguru Pal Singh, Gurcharan Singh (Pb.)	H.No. W-IV-178, V.P.O. Bhadaur, Distt. Barnala	BHMS	2004	Punjab University	Punjab	17.04.2006	3021
49102	Singha Ritesh Singh, Yashvir Singh (Pb.)	Near Marketing Board Lower Khali, Shimla-2	BHMS	2008	Punjab University	H.P.	06.05.08	190-A
49103	Singha Suman Singh, D.P. Singha (Pb.)	Vill. Bakhan P.O. Bhutti, Distt. Shimla	DHMS	1981	Punjab Homoeo Council	H.P.	25.07.87	48-A
49104	Singhal Shweta Singh, Vinod Kumar Singh (Pb.)	A-340/2, Shastri Nagar, Near P & T Colony, City Jodhpur Distt. Jodhpur	BHMS	Jan-07	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	15.01.2009	5172

49105	Singhal, Ruchi	D/o Sh. Parmod Kumar Singhal	Orbit Tower, Kailash Chowk, Civil Lines, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	22.1.2001	2421	
49106	Singhal, Vikas	Sh. S.P. Singhal	H.No. 1156, Sec. 23-B Chandigarh H.No. 437, Urban Estate Phase 1, Jalandhar.	BHMS	May - June 2004	Punjab	24.10.2005	2914	
49107	Singla, Abhishek	Sh. Ashok Singla	B-34/4661, St. No. 9, Durgapuri, Haibowal, Ludhiana	BHMS	2005	Punjab	03.01.2007	3082	
49108	Singla, Anita	D/o Sh. Mukhtar Chand	Dr. K.K. Singla, Laxmi Clinic, Giddarbaha, Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	9.8.2000	2315	
49109	Singla, Anita	W/o Anoop Singla	a) H.No. 1496, Sector-13 Urban Estate, Kurukshetra b) SCF-45, Sector-13, Kurukshetra	BHMS (G.D.C.)	2002	Haryana	19.04.2006	5756-A	
49110	Singla, Anshul	Sh. Rakesh Chander Singla	H.No. 156, Dream Lane Haibowal Kalan, Ludhiana (Pb.)	BHMS	2006	Punjab	19.05.2008	3226	
49111	Singla, Aprajita	D/o Sh. Surinder Kumar Singla	Old Mandi, PO Kot Kapura, Distt. Ferozkot (Pb.)	DHMS	2000	PUNJAB	22.1.2001	2409	
49112	Singla, Ashish	Sh. Bimal Kumar Singla	H. No. 3108 Neem Wala Chowk, Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1983	Punjab	19/01/1995	1426	
49113	Singla, Ashok Kumar	Sh. Mangat Rai Singla	M/S Harbans Karyana Store 33-b, Inner Nagar Opp. Milk Plant Ludhiana (Pb.)	DHMS	1995	PUNJAB	1.1.1997	1679	
49114	Singla, Daya Jindal (Married Name) Smt. Daya	D/O Sh. Charan Dass W/O Sh. Nareish Kumar Singla	B-146, Ashoka Enclave Peeragarhi Delhi-4	DHMS	1987	BIHAR UNIVERSITY MUZAFFARPUR	21/04/1989	1154	
49115	Singla, Deepika	Sh. Adarsh Kumar Singla	H.No. 111, New Officer Colony Patiala (Pb.)	BHMS	Apr-06	Punjab University Chd.	11.09.2007	3149	
49116	Singla, Des Raj	Sh. Amar Nath	V.P.O. Raman Mandi, TEH. Talwandi Sabo, Distt. BHATINDA (Pb.)	DHMS	1990	Punjab	18.5.2000	2268	
49117	Singla, Dimple	Sh. Hukam Chand Singla	Ghesha Basti H.No. 284-A Gali No. 2, A, Bathinda	DHMS	2000	PUNJAB	01.02.2002	2584	
49118	Singla, Harinder Pal	Sh. Sarwan Singh Grewal	H.No. 208 Sector 9-C Chandigarh	DHMS	1985	PUNJAB	4/12/1986	955	
49119	Singla, Ishia	D/o Sh. Rajinder Paul Singla	Dhari Building, Near Clock Tower, Hoshiarpur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	22.12.2001	2407	
49120	Singla, Mirakshi	Sh. Onkar Singla	Subhani Building, H.No. B-XII-136, Shahpur Road, Fieldganj, Ludhiana	DHMS	1996	PUNJAB	6.3.1998	1807	
49121	Singla, Navita	Sh. Surinder Kumar Singla	H.No. 1023/2, Sec-39-B Chandigarh	BHMS	2004	BFUHS	10.03.2006	2996	
49122	Singla, Neetu Rani	Sh. Vishnu Sawrup	H.No. 1470, Phase-III-B-II, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar	DHMS	1996	PUNJAB	4.9.1998	1945	

49123	Singla, Rashmi	Sh. Som Nath, Singla	Manjeet Medical Hall Opp. Canara Bank Teh Mall Road Bhalinada	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	23.07.2005	2901	
49124	Singla, Sandeep	Sh. Tarsem Chand Singla	Gugga Mari Road Sunam Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	27/08/1996	1639	
49125	Singla, Sharda	Sh. Sewa Ram Singla	H.No. 1601, Phase V, SAS Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1745	
49126	Singla, Sumit	Sh. Varinder Singha	H.No. 16949, Aggarwal Colony Bathinda (Pb)	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	31.01.2002	2583	
49127	Singla, Veenu	D/o Sh. Piara Lal Singla	H. No. 345, St. No. 3, Guru Nanak Nagar, Patiala (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	15.9.1998	1956	
49128	Singla, Vinod Kumar	Sh. Darshan Kumar Singla	H. No. 7071/5 Tatalpura Gurbux Colony Patiala (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	26/11/1986	953	
49129	Sinha Birendra		Vill-Hathkala (Bamgaon) P.O.-Chariali Dist-Sonpur, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.08.88	311	
49130	Sinha Hari Mohan		Sixmile, Khanapara P.O.-Guwahati-02 Dist-Kamrup Assam	D.H.M.S.	Oct-89	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	14.09.04	908	
49131	Sinha M. Basana		Vill-Singband P.O.-Singband 788103 Dist-Cachar, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.05.88	295	
49132	Sinha Narotham		C/O-Nepal Chandra Sinha P.O.-Khanpara, Guwahati 22	D.H.M.S.	Nov-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	09.05.2000	378	
49133	Sinha Sandip Kumar		SANCHAYAN Banisadan Road, Dibrugarh, Assam	D.M.S.	Jun-85	West Bengal Council	Assam	06.04.91	356	
49134	Sinha Sanjoy Kumar		Gouripur, Kalibari P.O.-Gouripur 783331 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Feb-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.02.99	720	
49135	Sinha Shruti	Sh. S.K. Sinha	II-E, 266 Jai Narayan Vyas Colony, City Bikaner Dist-Bikaner	DHMS	Dec.1998	State Council, MP	Rajasthan	27.05.2008	5021	
49136	Sinha Sourabh Kumar	Sh. Sujit Kumar Sinha	Adarsh Colony, (Behind Ashok Cinema Hall), P.O. Marar, Dist. Hazaribagh Jharkhand-829117	B.H.M.S.	2008	University of Calcutta	W.B. Council Calcutta	29.2.08	26944	CCH -2600
49137	Sinha Sudarshan		Buddhist Temple, Pandu P.O.-Guwahati-12 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Oct-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	05.09.01	438	

49138	Sinha Sukumar		Homoeo Chamber Hengrabari Guwahati-6 Dist. Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	22.05.98	351	
49139	Sinha Susanta Kumar		Vill-Parugaon P.O.-Tinokhai Dist-Karimgang, Assam	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.07.98	342	
49140	Sinha Tapasi		C/O- Mr. Dilip Sinha Barsapara R.G.B.S. Road House No- 30 P.O.-Ulubari 781367, Guwahati-18	D.H.M.S.	Mar-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	17.08.2005	916	
49141	Sinha Tombi		Vill-Gouchara Basti P.O.- Gulagharia Dist-Nagaon, Assam	D.H.M.S.	Sep-88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	04.05.88	294	
49142	Sinhi Vala Jyendra Dharmendra Singhi	Sh. Vala Dharendra Singhi	C/O Sona Suryavanshi, 67, New Keshar Nagar, City- Udaipur Dist- Udaipur,	BHMS	Jan, 2006	JRNRAJ, D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4863	
49143	Sisodia Nisha	Sh. H.S. Sisodia	98 - Chand Bihari Nagar, Khatipura City-Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5089	
49144	Smriti Parmar	Sh. Ram Singh	Vill. Jajoli, P.O. Jajoli, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur.	BHMS	2008	Baba Farid Univ. of H. Sc. Faridkot (PB)	H.P.	22.04.08	186- A	
49145	Smt. Manjit Kaur (Maiden Name) Mrs. Manjit Kaur Thind (Married Name)	D/O Sh. Balbir Singh W/O Sh. Jaswinder Singh Thind	V.P.O. Malsian Teh. Nakodar Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	22/01/1990	1185	
49146	Sodha Gopal Singh	Sh. Urmmed Singh Sodha	Near Roadway's Bus Stand Bhawanipura, Pokaran City- Jaisalmer Dist- Jaisalmer	BHMS	Jan, 2007	JRNRV, Deemed University, Udaipur	Rajasthan	15.07.2008	5036	
49147	Sodhi Harjit Singh	Sh. Moninder Singh Sodhi	W- J. 8, Basti Gujan, Jalandhar City	DHMS	April /May 1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	19.08.1985	819	
49148	Sodhi Sahib	S/O Sh. Dharam Singh	Guru Nanak Mohalla Banga Teh. Nmwawan Sahar Distt Jalandhar (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	12/12/1988	1102	
49149	Sodhi, Harpreet Singh	Sh. Gurdip Singh Sodhi	H.No. 628, Phase - 10, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	3.7.2000	2281	
49150	Sodhi, Tina	D/O Sh. Narjit Singh sodhi	Sodhi Eye & Gen. Clinic, Main Bazar, Mandi Gobindgarh, Distt. Fatehgarh.	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.8.2000	2320	
49151	Sohan Lal	Sh. Harphool Singh	H.No. 20, W.No. 6, Rana Mandi Teh. Talwandi Sabo, Distt., Bhatinda (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	26/4/1993	1349	

49152	Soni, Arandeep Singh	Sh. G.S. Soni	Kotli No. -1074 Phase 1, Mohali	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	16.08.2001	2542	
49153	Soni, Arandeep Singh	Sh. Dalbara Singh Soni	H No. 252 Ward No. 6, Sugar Mill Road Morinda Distt. Ropar.	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	2508	
49154	Solanki, Rajendra Singh	Sh. Bheek Singh Solanki	1) Shri ram Bhawan, Gudamalni Tehsil, Dist. Barmer, Rajasthan -344031 2) Health Care Hospital, Gudamalni Tehsil, Gudamalni, Dist. Barmer, (Rajasthan) -344031.	BHMS	2003	North Gujarat University, Patan	Rajasthan Board, Jaipur.	17.03.04	4415	CCH -2676
49155	Solanki, Anjum	Sh. Shokat Ali	3- N- 9, Talwandi, City-Kota Dist-Kota.	BHMS	Jan. 2007	JRNRV, University, Udaipur	Rajasthan	26.07.2008	5051	
49156	Solanki, Rajeev	Sh. N.S. Solanki	H. No. 652, Phase-1, Mohali(Pb)	DHMS	1994	PUNJAB	Punjab	12/7/1995	1508	
49157	Songara, Kuldeep	Sh. Prabhu Dayal Songara	11-A-1, A- Sedor, Bapu Nagar City-Bhilwara, Dist-Bhilwara	BHMS	July 2006	Raj University	Rajasthan	31.03.2008	5013	
49158	Soni Anju Priya	Sh. Suresh Kumar Soni	Vill. Jandera, P.O. Rajpura, Teh., Palampur, Distt. Kangra.	BHMS	2008	JRN Raj Vidyapeeth (Deemed) Un. Udaipur (Raj)	H.P.	06.08.08	198- A	
49159	Soni Pankaj	Sh. K.L. Soni	VPO. Lathiani, Teh.Bangana, Distt. Una.	BHMS	2006	Baba Farid Univ. of H. Sc. Fardkot (PB)	H.P.	04.04.07	176- A	
49160	Soni, Anita	D/O Sh. Sham Sarup Soni	H No. H-375/Phase-1 S.A.S. Nagar Mohali Teh. Kharar Distt Ropar(Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	30/04/1992	1280	
49161	Soni, Anju	D/O Sh. Charanjeet Soni	Adarash Nagar, Sella Mohalla, Malout, Distt. Muktsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	12.11.1999	2170	
49162	Soni, Arpna	Sh. Harbans Lal Soni	C/O Sh. Sushil Kumar Verma St Master Mool Chand Verma Fazlika Distt. Ferozpur	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	21.10.1999	2156	
49163	Soni, Lovelash	Sh. Avinash Chander Soni	B-II-246, Hindi Bazar, Ludhiana (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	13/3/1995	1443	
49164	Soni, Sumit	W/O Sh. Harinder Singh Soni	H.No. 408, Phase-1 - S.A.S. Mohali, Teh. Kharar Distt. Ropar (Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	8/12/1995	1555	
49165	Sonia	Sh. Parsholam Singhia	Opp. Kali Mata Mandir Pukhray Colony, Bathinda	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	19.10.2001	2561	
49166	Sonia	Sh. Joginder Singh	H.No. 1772 Phase-VII, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	06.05.2003	2632	
49167	Sonia	Sh. Abhiraj Singh	Vill Bari, P.O. Bounghla, Teh. Dehra, Distt. Kangra.	BHMS	2002	Dr. BSA Univ. Aurangabad (Mah)	H.P.	03.04.08	184- A	
49168	Sonia Paul	D/O Sh. Subhash Chander	683-A, Phase-XI, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	3.7.2000	2280	
49169	Sonika	D/O Sh. Mohinder Paul	H. No. 5635, Pujan Wala, Bhatinda(Pb)	DHMS	1991	PUNJAB	Punjab	3/9/1992	1316	
49170	Sonika Batheja	D/O Sh. Ramesh Chander	H.No. 101-102, Neta Ji Nagar, Ludhiana (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	8/5/1995	1465	

49171	Sonjit Polong	Mr. Joynath Polong	a) Village Charia Pather Mischna Gaon Melamathi, Jorhat Assam - 795632 b) Titabar Jorhat Assam	BHMS	01.01.2007	Dibrugarh University	Arunachal Pradesh	29.01.2008	76		
49172	Sonkusare Nutan Purushottam	Sh. Sonkusare Purushottam Pandurang	11, MIRE-LAY- OUT, Nandanwan Road, Nagpur-09	B.H.M.S.	2005	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council, Mumbai	21.02.06	40719		CCH -2584
49173	Sonowal Amulya		Vill-Garimagaon P.O.- Chamarajan Dist-Laxmipur Assam	D.H.M.S.	Jan-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	26.12.86	223		
49174	Sonyeela, Hermant	D/o Sh. Sukhminder Singh	C/o 3812/2, Sati Samadan Road Patla (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	6.7.1999	2062		
49175	Sood Poonam	Sh. M.L. Sood	4, Anithol College, Ram Bazar, Shimla	DHMS	1996	Punjab Homoeo council	H.P.	16.01.3	132- A		
49176	Sood Suruchi	D/o Ved Prakash Sood	1657 sector -4 Panchkula	BHMS	Dec-06	Punjab University Chandigarh	Haryana	09.03.09	5854- A		
49177	Sood Suruchi	Sh. Ved Prakash Sood	HIG-46, Housing Board Colony, Saproon, Solan.	BHMS	2006	Punjab University	H.P.	06.08.08	199- A		
49178	Sood Umang	Sh. S.K. Sood	VPO, Bankhandi, Teh., Dehra, Distt. Kangra.	BHMS	2008	Punjab University	H.P.	9.9.08	212- A		
49179	Sood, Alka	Sh. Sudesh Pal Sood	HM-418, Phase-VII, Mohali, TEH. Kharar Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	17.7.1998	1871		
49180	Sood, Anurag	Sh. Sukhdev Kumar	St. No. 21 Jain Colony New Janta Nagar Weheguni Road, Ludhiana (Pb)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	05.12.2001	2570		
49181	Sood, Geetajali	Sh. Joginder Pal Sood	H.No. 49/5, Harpal Nagar Ludhiana (Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	20.05.2008	3234		
49182	Sood, Rajiv	Sh. Sushil Kumar Sood	B-10, H. No. 869, Iqbal Gani Ludhiana (Punjab)	DHMS	Mar. 1982	Bihar University	Punjab	11.04.1985	793		
49183	Sood, Shaman	Sh. Ravish Kumar Sood	H.No. B-X/167, Neem Chowk Near Subhani Building, Ludhiana	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	19.05.2008	3228		
49184	Sood, Shivali	Sh. Suresh Sood	H.No. 149, Ward No. 4 Railway Road, Doraha Teh. Payal, Distt. Ludhiana	BHMS	2003	BFUHS	Punjab	19.05.2005	2876		
49185	Sood, Sundandan	Sh. Sudarshan Kumar	H.No. B-II/409, St. Radha Swami Ram Nagar, Khalsapur Road, Tarn Taran (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	16.7.1999	2068		
49186	Sood, Sunil	S/O Sh. Raj Kumar Sood	S.C.F. No. 1, Sector 9-D Chandigarh	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	5/10/1987	1009		
49187	Sood, Tarun	Sh. Jatinder Nath Sood	114-New Lalpat Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	14/03/1995	1448		
49188	Sood, Vikesh	Sh. Surinder Kumar Sood	H No 542 Madhopuri 11, Ludhiana (Pb)-141008	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	30/01/1996	1582		
49189	Srivastava Lokesh	Sh. R.P. Srivastava	982 / 1, New Shastri Nagar, VPO- Garha, City- Jabalpur Dist. Jabalpur	BHMS	July 2005	Vikram University Ujjain	Rajasthan	3.12.2008	5153		

49190	Srivastava (Ms.) Karishma Kaushal	Sh. K.P. Srivastava	a) C/o Shri G.S. Srivastava, 527/673, Tarbagn Sulem Sarar, Allahabad, Uttar Pradesh b) RCC-2/01, H-Sector, KVIC, Complex, P.O. R.K. Mission Itanagar	BHMS	27.06.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	14.08.2008	91	
49191	Srivastava, (Ms.) Neha	Sh. Vinod Kumar Srivastava	a) Vii. Kakarson, P.O. Bithra Road, Dist. Ballia, Uttar Pradesh b) C/o V.K. Srivastava Senior Teacher, Govt. Hr. Sec. School, Pangin, Distt. East Siang, A.P.	BHMS	3.07.2008	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	14.08.2008	90	
49192	Subhash Chand	Suraj Bhan	1) C-5 Pancham Nagar, Sonapat 2) TM Samalkha And Pancham Nagar, Sonapat	DHMS	Mar-90	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	27.08.98	5668-A	
49193	Suchet	Sh. Bhupinder Singh	Maroke Homoeopathic Hospital, Lohian Road, Malshian, Teh: Shahdol, Distt. Jalaundhar	BHMS	2008	BFUHS	Punjab	19.05.2008	3230	
49194	Suchintan	Sh. Sukdev Singh	H. No. 200, Green Park, Jalandhar 14400(Pb)	DHMS	1981	PUNJAB	Punjab	12/2/1993	1345	
49195	Sudeshan Kumar	Rameshwar Datt	VPO Kalawar, Distt. Yamunanagar	DMS	May-77	Council of Homoe. System of Med. W.B.	Haryana	28.04.94	5583-A	
49196	Sudesh Pal	Virender Kumar	Vill. Chhajpur (Khurd) Opp. Petrol Pump Distt. Patlipat 2/356 St. NO. -7 Shanker Garden Bahadurgam - 124507	BHMS	Aug-03	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	15.10.07	5811-A	
49197	Sudhir Kumar	Azad Singh	H. No. 1877, Phase V, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	BHMS	Jan-07	JNRV Deemed Uni. Udaipur	Haryana	27.11.08	5848-A	
49198	Sugandha	D/o Sh. Devendra Singh	1) Chameeli, A-3 Tirupati Park, Phase-III, Guru Sehni Nagar, N-4, Cidg- Aurangabad-431003 Maharashtra 2) Surya Homoeo Clinic, 47, Ajay Deep Complex, N- 3, Cidg, Near Saint Meera School, Aurangabad- 431003 (Mah.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	22.2.2000	2228	
49199	Sukadeo Gile Suryakant	Sh. Gile Sukadeo Totaram		B.H.M.S.	1996	Dr. B.A. Merathweda University Aurangabad	Maharashtra Council, Mumbai	05.09.96	24430	M.D. (Hom) Repertory 2001 CCH-2577
49200	Sukdeb Sutradhar		C/O Late Gopal Sutradhar Vill. Makhangan P.O.- Borpani Dist-Nagaoan, Assam	D.H.M.S.	April 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	02.08.2001	809	

49201	Sukhdev Raj	Sh. Hans Raj Sharma	V.P.O. Ghansaur Teh. Rajpura Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1983	PUNJAB	Punjab	28/01/1986	859	
49202	Sukwan - I- Daka Wann	Shri. T.M. Sulam	Shangpung Moosylem Jaintia Meghalaya	BHMS	Oct-08	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	21.11.2008	278	
49203	Sulemani Auzaz Aziz	Dr. Aziz Ahamed Sulemani	I.D. 95, J.N.U. Colony, Bikaner, Rajasthan 2) SPAM Health Line, Behind B.P. Pump Sector-I, Dwarka, New Delhi,	B.H.M.S.	2004	Baba Farid University H. Sciences, Fardikot, Punjab	Rajasthan Board, Jaipur.	10.2.05	4477	CCH - 2606
49204	Sultana Najlma		C/O-Nur Mohammad Vill- Kathbari P.O.-Bagribari 783348 Dist-Dhubri, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	25.07.2002	851	
49205	Sumi Visheto		C/O-Luvishu Sumi U.D.A.- C.S. Office Zumbaboto Vill- Surumi P.O.-Zumbaboto 798620 Dist-Zumbaboto, Nagaland	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	19.01.07	995	
49206	Sumra, Hasanji Singh	Sh. Paramjit Singh Sumra	Sumra Hospital V.P.O. Bhurori, Tehs. Jagraon, Distt. Ludhiana	BHMS	May - June 2007	BFUHS	Punjab	15.10.2008	3282	
49207	Sunil Datt	Narain Datt	Inside Barsi Gate Opp: Panchayat Dharamshala Hansi	DHMS	2000	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	31.01.05	5725- A	
49208	Sunil Kumar	Kesho Lal	9 Subhash Nagar Yamuna Nagar, (Haryana)	DHMS	1960	Council of Homoeo System of Med. Punjab	Haryana	27.09.94	5596- A	
49209	Sunita	W/o. Prem Chhabra	Chhabra Homoeo. Clinic Near Post Office Mandi Dabwali Distt. Sirsa	DHMS	1985	CHSM Punjab	Haryana	16.12.1988	5468- A	
49210	Sunita Rani	D/o Sh. Harbans Lal	B-14, H.No. 110, Field Gang, Prem Nagar, Ludhiana (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	25.10.1999	2162	
49211	Surender Kumar	S.N. Sidhartha	Sidhartha Hospital Kosi Distt.- Rewari	DHMS	Mar, 1987	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur.	Haryana	15.02.90	5530- A	
49212	Surender Mohan	Banarsi Dass	Banarsi Dass Building, Railway Road, Ambala	D.M.S.	Jun-54	State Faculty of Homoeo. Medicine Calcutta	Haryana	29.12.1975	1- A	
49213	Suresh Pal	Vir Sain Punia	HLRDC Colony Barwala Road Hissar	DHMS	Aug-87	Raj. Board of Homoeo. Medi. Jaipur	Haryana	7.07.88	5448- A	
49214	Suresh Paul	Sh. Han Chand	Vill. Alluna P.O. Basantpura Teh. Rajpura Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	29/03/1989	1146	
49215	Suri, Prabheen Kaur	Sh. Narinder Oal Singh Suri	125-A, Sant Nagar, Patiala(Pb)	BHMS	Nov - Dec 2006	BFUHS	Punjab	26.08.2008	3260	
49216	Surla, Monika	Sh. Harbajan Singh Surla	H.No. 134, Golden Avenue Phase-I, Garchia Road, Jalandhar	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.03.2006	3002	

49217	Surinder Pal	Sh. Shiv Dayal Goyal	H.No. 1402, W.No. 5 Gidderbaha, Distt Mukalsar (Pb.)	DHMS	1985-87	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	9.5.1997	1707	
49218	Suruchi	Sh. Ramesh Chander	H.No. 556/15, Basti Pura Singh, Old Talwandi Road, Zira, Distt. Ferozepur(Pb.)	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	28.04.2008	3213	
49219	Sunayanshi Sona	Sh. Ram Chandra Suwalta	67, New Keshav Nagar Near Roop Sagar Pall city- Udaipur, Distt- Udaipur.	BHMS	Jan, 2008	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	24.07.2007	4856	
49220	Surya	Mohd. Jameel	H.No. 240, Moh. Hazanawal Near Jarg Road, Malekolla Distt- Sangrur(Pb)	BHMS	2008	BFUHS	Punjab	09.05.2008	3215	
49221	Sushil Kumar	Ram Bhagat	1) 985 - P. Sector - 15, Sonapat 2) Shop No-21 Sector 14 Sonapat	BHMS	Apr-99	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	15.04.02	5688- A	
49222	Sushila Rani	Sh. Ram Lal	1st Floor, Behind Sharma Bakery, Sanjauli, Shimla.	DHMS	1994	Punjab Homoeo Council	H.P.	24.09.02	131- A	
49223	Sushma Rani	Sh. Mohan Lal Bansal	C/O Sh. Mohan Lal Kala Ram Commission Agent, Tapa Mandi, Distt Sangrur.	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	02.05.2001	2507	
49224	Susil Chandra Das		Vill-Kochgaon P.O.-Charali Distt-Sonitpur, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	06.12.88	172	
49225	Suthar Ashok Kumar	Sh. Laxmikant Suthar	Sukh Sadan, Near Kami Marble, Nohra Road, City- Gangashahar Distt- Bikaner (Raj.)	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5114	
49226	Suthar Yogesh Kumar	Sh. Mool Chand Suthar	Outside Beedasar Bari, Gali No- 2, City- Bikaner Distt- Bikaner	BHMS	May, 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	15.01.2009	5170	
49227	Swami Yogesh	Sh. Bhajan Lal Swami	H.No. - 1 F-12, Mahaveer Nagar, EXT, City- Kota Distt Kota	BHMS	Mar, May- 2002	DAU, Indore	Rajasthan	17.11.2008	5138	
49228	Swati Valecha	Sh. Ritesh Kumar Sethi	MB-187, Gali No. 5, Opposite Madhuban Shakkarpur, Delhi-92	BHMS	2001	Bharti Vidyapeeth Deemed University, Pune.	Maharashtra Council, Mumbai	7.4.05	39116	CCH-2690
49229	Syal, Geela	D/o Sh. H V Syal	H.No. HM 107, Phase IV, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	13.1.2000	2186	
49230	Talwar Pritam Raj	Sh. Nand Kishore Tailor	Vill - Garda, The - Aklera, City- Jhalawar Distt- Jhalawar.	BHMS	May-07	Raj University, Jaipur.	Rajasthan	10.10.2008	5094	
49231	Tajinder Singh	Sh. Balbir Singh Dhanwal	Shaheed Udhram Singh Nagar, Sultanwind Road, Amritsar (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	16.7.1999	2081	
49232	Takkar, Sandeep Kumar	Sh. Balbir Singh	V.P.O Dhatt Via. Mullandpur Mandi Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1995	PUNJAB	Punjab	14.02.1997	1688	

49233	Takyar, Shaily	D/o Sh. G.D. Takyar	C/o Dr. S.M. Takyar, Post Office Road, Sirhind, Distt. Fatehgarh Sahib (Pb.)	D.H.M.S.	1998	PUNJAB	Punjab	16.07.1999	2070		
49234	Talukdar, Anupam		C/O-Prof Keshab Talukdar Bidyapur, P.O.-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Mar-93	Board of Homoeopathic Medicine, Assam	Assam	10.07.98	662		
49235	Talukdar Champak Kumar		C/O-Keshab Ch. Talukdar Vill-Thokuchi P.O.-Garuah Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Aug-99	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.12.2000	778		
49236	Talukdar Chanakaya		Vill-Khetuwa p.o.-Helachia Dist-Nalbari, Assam	D.H.M.S.	Nov - 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.12.2001	828		
49237	Talukdar Juri		Gandhibasti, Silpukhuri Guwahati-03 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Sep-98	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	07.09.99	736		
49238	Talukdar Kusthal Kumar		Vill-Bahari Charra P.O.Bahari Hat Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S.	Dec-90	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.03.98	469		
49239	Talukdar Manoranjan		Vill-Sanupeta P.O.-Sanupeta Dist-Borpeta Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	15.09.87	269		
49240	Talukdar Mira Kumar		Bhaskar Nagar Binova Nagar, Guwahati-18	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	19.06.98	582		
49241	Talukdar Neeja		C/O-Hareswar Talukdat Nilmani Phukan Path R.G. Banuah Road P.O.-Dispur Guwahati-5 Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	14.11.2002	863		
49242	Talukdar Prasanna Kumar		Pub Sarania, Bye Lane-1 Guwahati-3	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.04.85	138		
49243	Talukdar Satyajit		C/o - Kunod Ch. Talukdar Near Pvt. Bus Stand Rangia Bhutam Road P.O.-Rangia 781354 Dist-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Nov-00	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	12.05.2004	914		
49244	Talwar, Navpreet Kaur	D/o Sh. Mohinderpal Talwar	H.NO. 215, Lane No. 2, New Sainam Pura, Phagwara, Distt. Kapurthala (Pb.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	11.11.1999	2167		

49262	Tewari, Rahul	Sh. V N Tewari	1614, Phase VII, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	27.6.2000	2269	
49263	Thakkar, Ranju	Sh. Roshan Lal Thakkar	74, Harbars Nagar, Basti Guzan, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	26.3.1998	1814	
49264	Thakkar, Vijay Kumar	Sh. Sohan Lal Thakkar	Shakti Nagar, Near Hanuman Mandir, Fazilka	DHMS	Jun-85	Bihar University Muzaffarpur	Punjab	06.11.2008	3284	
49265	Thakur, Rashmi	Sh. Kulbir Singh	H.No. 1264, Thapar Street, Darest Road, Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3051	CCH -2748
49266	Thakur, Rajinder Singh	Sh. T. S. Thakur	VPO. Dighai, Teh. Salooni, Distt. Chamba	BHMS	2004	Rajiv Gandhi Univ. of H. Sc. Karnatka	H.P.	01.03.06	161- A	
49267	Thakur Shio Sankar		Vill-Jabarkhola P.O.-Madartola Via Doboka Distt. Nagaon, Assam	D.H.M.S	Apr-81	Bihar University	Assam	04.07.88	110	
49268	Thakuria Dino		Kumarpara P.O.-Basimalaguri Distt-Nalbari, Assam	D.H.M.S	Mar-96	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	3.04.98	586	
49269	Thakuria Ramen Chandra		C/O-Mr. K.R. Thakuria Vill-Khanamukh P.O.-Dharapur 781133 Distt-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Nov 2000	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.12.2001	829	
49270	Thaman, Sangeeta	D/O Sh. Prem Chand Thaman	Kulhi No 18, Jagdish Ashram, Patiala (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	4/12/1986	957	
49271	Thapa Rebeca	Sh. Bikram Thapa	RZF -170, Jeet Bhawan, Gali No. -38, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045.	BHMS	2008	Vinayaka Mission's University Salem	Tamil Nadu H.M. Council, Chennai	2.5.08	2438	CCH -2065
49272	Thapa Gopal Chandra		Santinagar, Kahilpara Guwahati-19 Distt-Kamrup, Assam	D.H.M.S.	Sep-86	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	30.08.88	308	
49273	Thapar Monsa	Sh. Ashok Kumar Thapar	B-1, 980/4 Opp Police Lines, Ludhiana (Pb)	DHMS	1992	PUNJAB	Punjab	6/10/1995	1546	
49274	Thatal, Shaila	D/O Sh. Madan Mohan Thatal	Dashmesh Nagar, Near Om Ashram, Jalabad (W), Distt. Ferozpur (Pb.)	BHMS	1999	PUNJAB	Punjab	31.1.2001	2443	
49275	Thatal, Vishal	Sh. Madan Mohan Thatal	Dashmesh Nagar, Jalabad (W), Distt. Ferozpur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	29.8.2000	2340	
49276	Theophilus Ajay Noble	C.B. Theophilus	965, Kunjura Road, Karnal	DHMS	Oct-83	Board of Homoe. System of Med Delhi	Haryana	4.07.94	5591- A	
49277	Thind Sandeep kaur	Sh. S. Malkiat Singh Thind	H.No.85, Ward No.-3 D.T. Office, Purani Abadi, City Sriganga Nagar, Distt. Sriganga Nagar	BHMS	Dec.2005	Baba Farid University	Rajasthan	28.02.2008	5002	

49278	Thingnok, Kumsong	Sh. Ranghang Thingnok	a) C/o SAI (SAG) Centre Rakap Colony, A. Sector, Nahaialeguri, A.P. b) C/o Nahaialeguri Homoeo. B- Sector, Nahaialeguri Ph. 9612183114	BHMS	20.11.2008	Rajiv Gandhi University, Anuradhapur, Pradesh	Anuradhapur Pradesh	19.12.08	101	
49279	Thomas Sunil	Sh. Thoman Ninan	Solan Homoeopathic Medical College & Hospital, Kumharhatti, Solan.	BHMS	2003	Univ. of Rajasthan, Jaipur.	H.P.	29.12.08	219-A	
49280	Throgiam Rakesh		S.J.N. Homoeo College Panjabon Guwahati-37	D.H.M.S.	Jan-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	20.05.98	560	
49281	Thukral, Rekesh	Sh. Mohinder Lal Thukral	942/9 Jat Pura, Kapurthala (Pb.)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	29/09/1994	1413	
49282	Tiwari Binod Kumar	Sh. Rama Shankar Tiwari	1) Keshav Murra Bhata Road, Hemu Nagar, Old Power House, Torwa, Bilaspur (C.G.) 2) C/ Chouksey H.M. College, Bilaspur (C.G.)	DHMS	1989	M.P. Council Bhopal	M.P. Council Bhopal	13.8.01	13484	CCH-2701
49283	Tiwari Monika Mahi Prakash	Dr. M.P. Tiwari	Dr. M.P. Tiwari Rajendra Nagar Ward, Anupama Chock, Jagdalpur, Basti, Chhattisgarh-494001	B.H.M.S.	2004	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra Council, Mumbai	19.05.05	39401	CCH-2566
49284	Tiwari Rajstree	Sh. V.K. Tiwari	72-73 Eakta Bihar Shokh Road, City-Bharatpur Distt. Bharatpur	BHMS	Aug. 2006	Jiwaji University, Gwalior.	Rajasthan	27.05.2008	5020	
49285	Tokhi, Anuradha	Sh. Om Prakash Tokhi	H.No. 1188, Phase II, Urban Estate, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	24.8.1998	1915	
49286	Tokhi, Rupali	Sh. Mohan Lal Tokhi	H.No. 40, Professor Colony, Khurfa Kingra Road, Wadala Chowk, Jalandhar (Pb.)	BHMS	2005	Punjab University Chd.	Punjab	22.04.2008	3207	
49287	Toki Monika	D/o Iqbal Singh	161 Mahesh Nagar Ambala Cantt.	DHMS	1994	CHSM Punjab	Haryana	14.06.98	5633-A	
49288	Toor, Ajmer Singh	Sh. Jagdeep Singh Toor	105, Charan Bagh Patiala (Pb.)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	27/05/1992	1295	
49289	Trigotra Ramesh Kr.	Jhagra Ram Trigotra	1) # 873, Sector- 9 Panchkula 2) Booth No-29 Sector - 8 Panchkula	DHMS	Mar-80	Council of Homoeo System of Med Punjab	Haryana	30.10.98	5671-A	
49290	Trigotra, Parveen	Sh. Des Raj Trigotra	136, Anandpur Pathankot, Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1997	B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur	Punjab	7.9.2000	2355	
49291	Trigotra, Parvesh	Sh. Des Raj Trigotra	136-A, Anandpur Pathankot, Distt. Gurdaspur (Pb.)	DHMS	1997	B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur	Punjab	7.9.2000	2354	
49292	Trigotra, Rajiv	Sh. R.C. Trigotra	136-A Anandpur, Pathankot Distt Gurdaspur	DHMS	1998	B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur	Punjab	19.10.2001	2562	

49293	Trigotra, Ritu	Sh. Ramesh Kumar Tripathi	H.No. 2159 Sector 22-C Chandigarh	BHMS	Nov - Dec 2003	BFUHS	Punjab	07.07.2005	2883	
49294	Tripathi, Poonam	Sh. Ashok Kumar Tripathi	H.No. 298-C, Bhai Randhir Singh Nagar Ludhiana(Pb)	BHMS	2006	BFUHS	Punjab	19.05.2008	3227	
49295	Tripathi, Vipul	S/O Sh. Chander Tripathi	Street No 12, Abohar, 152116, Distt. Ferozepur(Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	4/9/1987	987	
49296	Tripathi Chand	Raghu Nath Sharma	VPO, Baghola Distt - Faridabad	DHMS	May-86	Raj. Board of Homoec. Medi. Jaipur	Haryana	7.10.86	5382- A	
49297	Tripathi Chandra	Pyare Lal	1)3109 New Housing Board Sector -13 Bhiwani -127021 2) Jagat Colony PWD Rest House Road Bhiwani	DHMS	Sep-81	Raj. Board of Homoec. Medi. Jaipur	Haryana	25.11.08	5843- A	
49298	Tripathi Akhilash	Sh. Sabhakar Tripathi	Vill. Kachhola, Post Patwara, Nagod, Distt. Satna (M.P.) Pin-485446	B.H.M.S.	2006	Vikram University, Ujjain	M.P. Council Bhopal	30.3.07	15040	CCH -2811
49299	Tripathi Alok Kumar	Late Sh. V.K. Tripathi	H.No. 9, Khairana, Jola Bazar, Jachairana, Distt. Elawah (U.P) 206001	BHMS	2005	Jiwaji University Gwalior	U.P. Board Lucknow	24.8.07	28136	CCH -2645
49300	Tripathi Manisha	Sh. Prem Kumar Sharma	292, A.W.H.O. Colony, Gate No- 3, Ambabani, City- Jaipur Distt- Jaipur.	BHMS	Jan, 2005	Rajasthan University, Jaipur.	Rajasthan	2.03.2007	4820	
49301	Tripathi Manisha	Sh. Bhakt Vatsal Tripathi	210 - A, Vakil Colony, Sector -II, City- Udaipur Distt- Udaipur (Raj.)	BHMS	Jan 2007	JNRV University Udaipur	Rajasthan	5.2.2009	5189	
49302	Tyagi, Naju	Sh. Naresh Tyagi	Dat Oswal Cancer Treatment & Research Foundation, G.T. Road, Bye Pass Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	23.04.2007	3093	
49303	Tyagi, Ravinder Kumar	Sh. Anup Singh Tyagi	College Road, Abohar (Pb.)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	12.11.1999	2369	
49304	Tyagi, Vinod Kumar	Parma Nand Tyagi	1) H.NO. 474, Sector-22, HB Colony, Faridabad 2) D/97, NIT, Faridabad	BHMS	Dec 1993	Rajasthan Board of Hometec. Medicine, Jaipur.	Haryana	18.01.2000	5673- A	
49305	Tyagi, Virender	Sh. A.S. Tyagi	Railway Road, Abohar, Tehs. Fazilka, Distt. Ferozepur	DHMS	Dec.-1984	CHSM Punjab Chandigarh.	Punjab	26.12.1985	809	
49306	Ubhee, Gurwant Singh	Sh. Gurbax Singh Ubhee	10, Guru Nanak Nagar, P.O. Model Town, Jalandhar (Pb.)	DMS	1976	W. Bangal	Punjab	16.7.1999	2076	
49307	Uddin Hanif		Vill-Nagaian P.O.- Kharupetia 784115 Distt- Darrang Assam	D.H.M.S.	Aug-92	Board of Hometopathic System of Medicine, Assam	Assam	03.07.98	618	

49308	Urdin Khaya Baha	C/O-Matur Rahman Vill-Kummul Para P.O.-Garamari Dist-Borpeta, Assam	D.H.M.S	Mar 88	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	23.07.98	335	
49309	Upadhyay Jaya	Sh. Narottam Sharma	BHMS	Jan. 2007	JRNRV University, Udaipur	Rajasthan	5.03.2009	5197	
49310	Upadhyay Jai	Sh. Narottam Sharma	BHMS	Jan. 2006	Bharati vidyapeeth, Uni Pune	Rajasthan	2.07.2007	4845	
49311	Uppal Jagot Singh	Sh. Updesh Singh Uppal	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	5.12.1997	1742	
49312	Uppal, Neeru	Sh. Jagdish Lal Uppal	DHMS	Dec. 1984	CHSM Punjab Chandigarh	Punjab	13.09.1985	835	
49313	Uppal, Vishal	Sh. Mugharmal Uppal	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1874	BHMS Gr. Deg. May - June 2003 BFUHS
49314	Uppma	Sh. B.L. Narang	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	05.03.2001 12.03.2003	2462	
49315	Usha Rani	W/o Sh. Rakesh Kapoor	D.H.M.S	1979	Punjab	Punjab	7.10.2000	2365	
49316	V. Rekha	Sh. V. Bijaya Kumar Patro	B.H.M.S.	2006	Utkal University	Orissa Board	28.7.06	IN0&3374	CCH -2591
49317	Vaid, Samir	Sr. Balram Vaid	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	24.8.2000	2329	
49318	Vaide, Dilip	Sh. R.K. Vaide	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	15/02/1988	1048	
49319	Vaishnav Satya Narayan	Sh. Laxmi Narayan Vashnav	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University, Udaipur	Rajasthan	26.07.2007	4881	
49320	Vandana	Sh. S.P. Gupta	DHMS	1997	Punjab Homoeo council	H.P.	16.02.05	148-A	
49321	Vandana	Sh. Dharm Pal	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	23.6.1998	1859	
49322	Vandana	Sr. Kailash Chand	BHMS	May. 2007	BAU - Agra	Rajasthan	26.08.2008	5073	
49323	Vanita	D/o Sh. Prithvi Raj	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	9.12.1998	1990	
49324	Vaniachuangra		B.H.M.S	Aug-05	Dibrugarh University	Assam	21.11.06	982	
49325	Varsha Rani	Sh. Kashmini Lal	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	25/11/1986	952	
49326	Varshney Kunal	Dr. Suresh Chandra Varshney	BHMS	2006	Jiwaji University Gwalior	U.P. Board Lucknow	28.3.07	27849	CCH -2639

49327	Vasdev Mohit	C. K. Vasdev	1029 Sector - 10 Faridabad	BHMS	Jan-96	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	15.10.07	5812- A	
49328	Vashisht, Ranjana	Sh. Brijraj Krishan Vashisht	Jagatpura, Teh. Phillaur, Distt. Jalandhar (Ph.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	28.8.1998	1931	
49329	Vashisht, Seema	D/O Sh. Pritam Singh	V.P.O. Sohana Teh. Kharar Distt. Ropar (Ph)	DHMS	1988	PUNJAB	Punjab	29/12/1989	1180	
49330	Vashishta Sat Prakash	Hari Ram	VPO: Baghola Distt:- Faridabad	DHMS	Apr-86	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	12.08.88	5455- A	
49331	Vashishta, Sugandha	Sh. B.M. Vashishta	C/o Sh. Pirey Lal Vashishta V.P.O. Mulandpur, TEH. Kharar, Distt. Ropar	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	20.7.1998	1889	
49332	Vashun, Reisingmi	Sh. Vireyio Vashun	a) C/o Vashum Cottage, Nagaram Sid. Road, Block -C, P.O. Lamlong, Manipur. b) C/o Principal, NEHMC & Hospital, Vivek Vihar, Itanagar, A.P. Ph- 9862900434 (M), 03852422755	BHMS	11.02.2009	Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	9.03.2008	1113	
49333	Vasudev, Mohit	Sh. Sushil Vasudev	1098-A Opp. Geeta Bhawan Gurdaspur	D.H.M.S.	2000	PUNJAB	Punjab	13.07.2001 14.09.2005	2528	BHMS Gr. Deg. May - June 2004 BFUHS
49334	Vasudha Vats	D/o Sh. Shyam Sunder Sharma	Public Homoeo Clinic, Near Durga Mandir, Giddarbaha, Distt. Muktsar (Ph.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	9.8.2000	2314	
49335	Vats Sanjeev Kumar	Ashwani Kumar Vats	# 593 Housing Board Jind	DHMS	Aug-86	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	16.10.92	5560- A	
49336	Vats, Surender Kumar	Ram Niwas Sharma	Surender Homoeopathic Clinic, Sahawas Road Rly. Station, Kosli, Distt. Rewari	DHMS	August, 1987	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	02.02.1989	5476- A	
49337	Vats, Vasudha	W/o Dr. Brij Pal	338/6 Bala ji Homoeo.Clinic Bell Nagar Gharaunda Distt. Karnal	BHMS (G.D.C)	Dec.2002	Baba Farid University Faridkot	Haryana	19.04.2006	5757 - - A	
49338	Veena	Sh. Sham Lal	V.P.O. Takhtgarh, Teh. Anandpur Sahib Distt: Roper	BHMS	Nov-Dec 2006	BFUHS	Punjab	02.04.2008	3189	
49339	Veena Rani	D/o Sh. Som Nath	H.No. 221, Sector 32, Near Samrala Chowk, Ludhiana (Ph.)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	17.12.1999	2178	
49340	Veena Rani	D/o Sh. Lekh Raj	Nai Abadi, St. No. 3, Sultanpur Fazilka, Distt. Ferozepur (Ph.)	DHMS	1998	PUNJAB	Punjab	24.4.2000	2250	
49341	Veenu	Sh. B.D. Bagai	2-C-18, Takwandi, City-Kota Distt. Kota	BHMS	May/ Jun-2002	BFU of HS, Faridkot.	Rajasthan	13.1.2008	5188	
49342	Venkata Bamidi Balajee Nandan	Mr. Mamidi Venkata Rao	1) N/134/1, Plaza Telco Colony, Jamshepur - 831004	BHMS	1997	Nagpur University, Nagpur	Maharashtra Council, Mumbai	16.12.87	25925	CCH -2715

49343	Verma Ashmita	Sh. Sudhir Verma	House No. 1562, Sector 7, C, Chandigarh	B.H.M.S.	2005	Punjab University of Chandigarh	Council of H.S. OF Medicine, U.I. Chandigarh	3.11.06	121- A	CCH-2601
49344	Verma Mousmi	Sh. Nand Kumar Verma	House No-3, Krishna Ward, Betul Bazar, Betul (Dist.) M.P.-463004	BHMS	2007	Barkaulah University, Bhopal	M.P. Council Bhopal	6.12.07	15490	CCH-2677
49345	Verma Ajay	Sh. R.R. Verma	Verma Building, Tulkandi, Chaura Maidan, Shimla-4	BHMS	2008	Baba "and Univ of H. Sc. Fardkot (PB)	H.P.	23.05.08	193- A	
49346	Verma Ankur	Sh. Ram Kishan Verma	C/o Dr. Vishal Kumar, Dr. MPK Homoeo. Med. College, Station Road, City- Jaipur Dist- Jaipur	BHMS	Jan.2007	GGSI University Delhi.	Rajasthan	15.01.2009	5179	
49347	Verma Gita	W/o Jeetendra Kumar	# 453 Sector - 9, Panchkula H.No-420, Rajendra Nagar, Karnar Road, ORAI, Jaleun, (U.P.)- 285001	DHMS	1995	CHSM Punjab	Haryana	13.01.97	5641- A	
49348	Verma Pankaj	Sh. Panna Lal Verma	New Vikas Colony, rangpur Road, Machines Factory, Near, Durga Kirana City- Kota -JN-2 Dist -Kota JN-2.	B.H.M.S.	2007	Vikram University, Ujjain	M.P. Council Bhopal	10.03.08	15613	CCH-2587
49349	Verma Pradeep Kumar	Sh. Devki Nandan Verma	Verma Homoeo Clinic P.O., Akhthanguri via Jura 782124 Dist-Dhemaji Assam	BHMS	July, 2005	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	3.12.2008	5150	
49350	Verma Rakesh Kumar		31 / 478, Pratap Nagar, City- Sangner Dist- Jaipur	D.H.M.S.	May-86	University of Bihar	Assam	07.09.99	739	
49351	Verma Rinku	Sh. Satya Prakash Verma	1) 564 Mohan Nagar Near Industrial Area Sonepat 2) Gud Mandi Rohlak Road Sonepat	BHMS	July, 2006	Rajasthan University	Rajasthan	10.12.2007	4975	
49352	Verma Ruchita	W/o Rajeev Kumar	H.No -III - B- 16, Mallstones Flats, Gandhi Nagar, City-Jaipur, Dist- Jaipur.	BHMS	Jan-06	JRNRV Deemed Uni, Udaipur	Haryana	6.10.08	5842- A	
49353	Verma Ruchita	Sh. Han Ram Verma	Village & Post Karwad, Teh. Pipalda City Kota, Dist-Kota	BHMS	Jan, 2006	JRNRV, D. University, Udaipur	Rajasthan	27.07.2007	4890	
49354	Verma Suresh Kumar	Sh. Mool Chand	C/o Standard Cables #112 VPO - Dhulkot Behind Kingfisher Ambala City	BHMS	May, 2004	Raj University	Rajasthan	16.02.2008	4994	
49355	Verma Vaishali	W/o Naveen Sobti	C/o Dr. R.S. Verma, () Block CM&HO General Hospital, City Simakwara, Dist- Dungarpur, (Raj.)	BHMS	Jun-04	Baba Fardd University of Health Sciences, Fardkot	Haryana	25.07.06	5768- A	
49356	Verma Vijay	Sh. R.S. Verma	C/o Dr. R.S. Verma, () Block CM&HO General Hospital, City Simakwara, Dist- Dungarpur, (Raj.)	BHMS	Jan.2007	JRNRV University Udaipur	Rajasthan	28.1.2009	5188	
49357	Verma, Aarti	D/o Sh. Prem Parkash Verma	29, Adarash Nagar, Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	7.7.2000	2291	
49358	Verma, Anu Radha	D/o Sh. Bakwant Singh (Pb.)	Soffi Mohila, Railway Road, Nakodar, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	6.3.2000	2235	

49359	Verma, Chanchal	D/O Sh. Shanti Prakash Verma	H.No. 415 Kucha Partap Jkhanna Distt Ludhiana (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	22/04/1991	1243	
49360	Verma, Geeta	Sh. D.K. Verma	H.No. 140, Kidwai Nagar, Ludhiana (Pb.)	D.H.M.S	1995	PUNJAB	Punjab	04.11.1996	1670	
49361	Verma, Manie	D/o Sh. Lal Chand Verma	H.No. 463/2, Adalat Bazar, Opp. Shiv Mandir, Patiala (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	23.1.2001	2428	
49362	Verma, Manish	Karwal Krishan Verma	Karwal Kurj, H.No. 60, Shanker Nagar, Opp. E.S.I Hospital, Yamuna Nagar Road, Jagadhari.	BHMS	June, 2004	Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot.	Haryana	12.01.2006	5744-A	
49363	Verma, Manju	D/O Sh. Ram Krishan Verma	H.No. 1249, Rajpura Town, Distt. Patiala (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	18/4/1988	1060	
49364	Verma, Nancy	Sh. J.P. Verma	H.No. 1823, Phase-VII, Mohali	BHMS	2001	PUNJAB	Punjab	07.04.2003	2625	
49365	Verma, Neeru	Sh. Prem Verma	H.No. 220, Prem Nagar Bhadsan Road Patiala(Pb)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3116	
49366	Verma, Ramesh	Sh. Jaswant Rai	H.No. 561, VPO: Jandou Singh, Teh. & Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1990	PUNJAB	Punjab	9/12/1992	1327	
49367	Verma, Ravinder	B.K Verma	H.No.3,Faculty Houses,, Govt. College Camp Sector 1, Panchkula.	BHMS (D.D.C)	June, 2004	Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot.	Haryana	30.03.2006	5753-A	
49368	Verma, Sanjiv	Sh. Ram Lal Verma	V.P.O. Kalsian Distt. Ludhiana.	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	08.02.2002	2587	
49369	Verma, Saurabha	Sh. Harsh Verma	B-XI-963-A Fateh Ganj Near Baha Than Singh Chowk, Ludhiana	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	30.05.2007	3113	
49370	Verma, Shaalni	Sh. K.K. Verma	B-6/225, Court Road, Nawanshahar, Distt. Jalandhar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	16.12.1997	1750	
49371	Verma, Sherry	D/O Sh. Salish Verma	H.No. 32 Dhillon Marg Patiala-147001 (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	29/9/1986	924	
49372	Verma, Sudha	D/O Sh. Shanti Prakash Verma	H.No. 415, W.No. 4, Kucha Partap Khanna- 141401 Distt. Ludhiana (Pb)	DHMS	1989	PUNJAB	Punjab	20/04/1992	1283	
49373	Verma, Sudha	D/o Sh. Sushil Kumar Verma	SI Master Mool Chand Verma, Fazilka (PB)	DHMS	1997	PUNJAB	Punjab	22.1.1999	2011	
49374	Verma, Sudhir	Sh. Krishan Lal Verma	H.No. 3238, Purani Mandi, Gidderbaha, Distt. Mukatsar (Pb.)	DHMS	1985-87	BIHAR UNIVERSITY	Punjab	22.4.1997	1706	
49375	Verma, Sumiana	Sh. Suninder Pal Verma	H.No. 2828 Near Imli Wala Mandir, Jani Street Khara, Distt. Mohali(Pb)	BHMS	May - June 2005	BFUHS	Punjab	19.06.2007	3120	
49376	Verma, Tarsen Lal	Sh. Shiv Charan Dass Verma	(H.No. 317-XI/Ahmedgarh Teh. Maer Kotla Distt. Sangrur (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	28/01/1986	861	
49377	Verma, Upasana	D/o Sh. Jaswant Singh	Old Suraj Nagri, Abohar, Distt. Ferozpur (Pb.)	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	10.11.2000	2391	
49378	Vibharvi	Sh. Raj Kumar	Hira Bagh Jagron, Distt Ludhiana	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	28.03.2001	2492	


49379	Vidya Bihir Kumar	Sh. Bhupendra Kumar Koshav Lal Vaidya	182-B, Sec-3 Hiran Magri, City-Udaipur, Dist- Udaipur.	BHMS	Jan. 2006	JRNRAJ D. University Udaipur	Rajasthan	26.07.2007	4885
49380	Vig. Indar Mohan	Sh. Joginder Kumar Vig	95, Shahpur Road, Teh Pathankot, Distt Gurdaspur (Pb)	DHMS	1993	PUNJAB	Punjab	24/07/1995	1520
49381	Vij. Ritu	D/o Sh. Roshan Lal Vij	H.No.372, Phase-V, Mohali, TEH. Kharar, Distt. Ropar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	30.9.1998	1975
49382	Vij. Vikas	Sh. S.K. Vij	167, Dashmesh Nagar, Ferozepur City	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	05.03.2001	2454
49383	Vijay Ekta	Sh. Harish Vijay	2-J-11-12, Talwandi City Kota Distt-Kota	BHMS	May-2007	Raj. University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5120
49384	Vijay Kumar	Rameshwar Lal	Ramesh Nursing Home Mohna Road Bahadurgarh Distt- Fardabad	DHMS	Sep-89	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	20.07.90	5537- A
49385	Vijayvargiya Himani	Sh. O.P. Vihayvargiya	D-40, Roop Vihar, New Sangar Road, City-Jaipur Distt- Jaipur	BHMS	2003	Barkatulla University	Rajasthan	21.04.2008	5017
49386	Vikram	Sh. Sat Dev	Moh. Kalitran, P.O. 7 TEH Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Pb)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	8.1.1999	2008
49387	Vikrant Kumar	Jagdish Chander	Viji Jharli PO:- Chhithrol Distt:- Mohindergarh (Haryana)	BHMS	Oct-06	Desh Aniya University Indore (M.P)	Haryana	24.02.09	5853- A
49388	Vimal	Sh. Omkar Nath	H No. 39/3586 St No 1 Dugrapuri Habiowlal Kalan Ludhiana	D.H.M.S	1994	PUNJAB	Punjab	6/10/1995 28.06.2000	1547 BHMS GR DEG. 1999 Punjab
49389	Vinod Kumar	Sh. Sagar Mal Sharma	Vill. & Post - Thawali City- Teh. - Fatpur Dist- Sikar	BHMS	July-2006	Rajasthan University,	Rajasthan	10.12.2007	4977
49390	Vinod Kumar	Phool Chand	C/o S.K. Sharma Hanuman Street Ch Dadri Distt. - Bhiwani	DHMS	May-86	University of Bihar Muzaffarpur	Haryana	18.12.87	5434- A
49391	Vinod Kumar	Harpal Singh	16 Patel Nagar Opp:- Huda Office Bhiwani	DHMS	Sep-87	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	12.08.88	5456- A
49392	Vinu Bhatia	Sh. Vivek Bhatia	13, Adarash Colony, Nakodar, Distt. Jalandhar (Pb)	DHMS	1996	Punjab	Punjab	25.8.2000	2333
49393	Vinya Kumar	Teja Singh	Vinay Clinic Shastr Market Near Fawaran Chowk Naraingarh Distt:- Ambala	DHMS	Mar-88	Raj. Board of Homoe. Medi. Jaipur	Haryana	25.06.90	5534- A
49394	Virdi, Navtashica	Sh. Varinder Singh Virdi	H.No. 1339 Canal Down Road, Gill Road Ludhiana (Pb)	BHMS	Nov - Dec 2006	BFUHS	Punjab	18.09.2008	3276
49395	Virdi, Sonu	D/o Sh. Lachman Singh	H. No. B-314, Guru Angad Nagar, Chandigarh Road, Nawanshahar (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	22.03.1999	2020
49396	Virk, Sukhvinder Kaur	W/O Sh. Gurddeep Singh Virk	H.No. 63, Sewak Colony Patiala (Pb)	DHMS	1984	PUNJAB	Punjab	11/8/1986	915

49397	Vishwa Nath	S/O Sh. Padam Nath	Mind Charitable Hospital, Shri Krishan Mandir Shastri Nagar, Model Town Ludhiana (Pb)	DHMS	1986	PUNJAB	Punjab	6/7/1988	1071	
49398	Vivek Lalit	Sh. Om Parkash	H.No. 2615 Phase-7, Mohali	DHMS	2000	PUNJAB	Punjab	09.08.2001	2537	
49399	Vyas Luv	Sh. K.C. Vyas	71, Swami Nagar, Tekri Madri Road, City- Udaipur Dist- Udaipur	BHMS	Jan. 2007	JNRV, Deemed University, Udaipur	Rajasthan	28.06.2008	5034	
49400	Vyawahare Prabhakar Prasad	Dr. Prabhakar Narayan Vyawahare	1/56, A.G. Colony, Katol Road, Near R. M.S. Colony, Nagpur -440013 2/3, Manork Society, Near Varinda- Van Colony, Katol Road, Nagpur-13	DHMS	1996	Maharashtra Council, Mumbai	MCH, Mumbai,	17.3.98	26551	CCH - 2686
49401	Wadehra, Meenakshi	D/O Sh./Om Parkash Wadehra	148-L, Model Town, Ludhiana (Pb)	DHMS	1982	PUNJAB	Punjab	25/10/1984	1415	
49402	Wadhwa Indrajeet	Sant Lal Wadhwa	Ward No. -4, Barwala Distt:- Hissar	DHMS	Feb. 1989	Raj. Board of Homeo. Medi. Jaipur	Haryana	4.01.95	5619- A	
49403	Wadhwa Shivani	Sh. Naresh Wadhwa	3 - B - 47, Jawahar Nagar, City- Sri Ganganagar, Dist- Sri Ganganagar	BHMS	2003	Baba Farid University, Pb.	Rajasthan	24.04.2007	4832	
49404	Wadhwa, Indu	Sh. Ramesh Lal Wadhwa	H.No. 388, North Estate, Bhainda(Pb)	BHMS	Nov - Dec 2005	BFUHS	Punjab	13.08.2007	3143	
49405	Wadhwa, Ruchi	Sh. M.L. Wadhwa	Street No.277, New Suraj Nagari Abohar, Dist. Ferozepur	BHMS	2004	BFUHS	Punjab	24.10.2005	2944	
49406	Wadhwa, Seema Wahi, Geeta	D/O Sh. Mohan Singh Wadhwa	H.No. 1859, Nivi Gali, Amritsar (Pb)	DHMS	1987	PUNJAB	Punjab	14/09/1988	1077	
49407	Wadhwa Alias Nidhi	D/O Sh. O.P. Pathwa W/O Sh. H.K. Wahi	H.No. 179-R, Model Town, Ludhiana	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	19.05.2003	2636	
49408	Walia Mamta	Sh. Yogesh Walia	1). 777, F. Type, Timarpur, Delhi-54 2). H.No.211, I-Block, B.R.S. Nagar, Ludhiana	D.H.M.S.	2000	Punjab Council	Punjab Council	11.04.2001	2499	CCH -2569
49409	Walia, Gurpreet Kaur	Sh. Sarbjit Singh Walia	H.No. 22454, St. No. 10, Bhagh Road, Main Post Office, Court Road, Civil Lines, Bhindar(Pb)	BHMS	May June 2006	BFUHS	Punjab	19.12.2007	3155	
49410	Walia, Mandeep	Sh. Sukhdev Singh Walia	H.No. 2612, Phase XI, Mohali, Dist. Rojar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	17.11.1997	1733	
49411	Walia, Pooja	Sh. V.S. Ahluwalia	H.No. 124/2, Tarapuri Enclave, Officers Colony, Sangur Road, Patiala	BHMS	2002	PUNJAB	Punjab	19.11.2003	2648	
49412	Walia, Purnima	Sh. Subash Walia	HIG 690, Phase-9, Mohali	DHMS	1999	PUNJAB	Punjab	15.02.2001	2453	

49413	Walia, Ravinderjit Kaur	Sh. Harinder Singh Walla	Chandigarh Homoeo Clinic, Chuni Kalan, TEH. & Dist. FaTEH garh Sahib	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	24.4.1998	1821	
49414	Walammbha Suthren	P. G. S. Chalam	Mission Compound, Jowai	BHMS	Dec-03	Calcutta University	Meghalaya	2.12.2003	266	
49415	Walammbha Langtor Chyne	Dr. Heton Singh Lyngdoh	Mawai Nongmail Shillong	BHMS	Nov-08	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Kamataka Bangalore	Meghalaya	19.11.2008	276	
49416	Wangshu, Tangam	Sh. Thaknai Wangshu	a) C/o Thaknai Wangshu, P.O. Longding, Tirap Dist. A.P. - 786631 b) C/o Tazen Pansang, 1st App BN, Chimpu, Itanagar, A.P. Ph-9436227961	BHMS	9.12.2008	Dibrugarh University	Assam	5.02.2009	106	
49417	Yadav Sulochana	Sh. Ami Chand Yadav	698, Road No. 6, Devi Nagar New Sangar Road, City, Jaipur, Dist. Jaipur	BHMS	July 2006	Raj University	Rajasthan	16.02.2008	4995	
49418	Yadav Mahatam	Sh. Ram Daur Yadav	19, Ravindra Sarani, P.O. Liluah, Dist. Hawrah, 711204	D.H.M.S.	1999	W.B. Council Calcutta	W.B. Council Calcutta	15.11.99	A-22642	CCH-2605
49419	Yadav Manoj	Sh. Ram Niwas Yadav	Lecturer, Bhartiya Homoeo. Medical College, B- Narayan Gate, City, Bharatpur, Dist. Bharatpur	BHMS	April, 1999	Rajasthan University	Rajasthan	22.11.2007	4953	
49420	Yadav Ved Prakash	Dharam Pal Yadav	Vill. Parkotampur P.O. Jatusana Distt. - Rewari	DHMS	Apr-83	Raj. Board of Homoeo. Med. Jaipur	Haryana	27.10.86	5384-A	
49421	Yadav Anita	Sh. Pooran Chand Yadav	1/428, Makhiya Nagar, City Jaipur Dist. Jaipur	BHMS	May 2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	8.10.2008	5082	
49422	Yadav Anvind	Sh. Nand Lal Yadav	Nand Bhawan, H.No. -132 B, Shrinu Tpuram, City Kota Dist. Kota	BHMS	Jan.2007	JRNRV, University Udaipur	Rajasthan	26.07.2008	5056	
49423	Yadav Gopal Lal	Sh. Cheelar Mai Yadav	C/o Shri Rameswar Dagar, Vill. Hastera, V/A Govind Garn.	BHMS	Jan.2007	JRNRV, Deemed University Udaipur	Rajasthan	15.07.2008	5039	
49424	Yadav Kashi Ram	Hari Singh Yadav	VPO - Masari Distt. - Rewari	DHMS	1987	Raj. Board of Homoeo. Med. Jaipur	Haryana	14.11.94	5603-A	
49425	Yadav Lokendra Singh	Sh. Mahendra Singh Yadav	23 Mahaveer Colony, Bedla Road, Badgaon, City Udaipur Dist. Udaipur	BHMS	Jan.2006	JRNRV, D. University Udaipur	Rajasthan	31.07.2007	4896	
49426	Yadav Mahi Pal Singh	Nisha Singh Yadav	Chandrawati Homoeo. Clinic Bus Stand Hansanka Distt. Rewari	DHMS	Aug-82	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	2.03.89	5496-A	
49427	Yadav Manoj Kumar	Sh. Jalsingh Yadav	221, - Devi Nagar, New Sangar Road City Jaipur, Dist. Jaipur	BHMS	July, 2006	Rajasthan University	Rajasthan	4.02.2008	4996	

49428	Yadav Nilu	W/o Rama Nand Yadav	1) # 807 / A Qutubpur Rewari 2) Holistic Healing Sector - 3, Rewari	BHMS	2002	Council Of Homoeo. System of Med. Punjab	Haryana	3.03.06	5749- A	
49429	Yadav Shiv Kumar	Surat Singh	VPO: Musepur Distt. Rewari	DHMS	Aug-82	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	2.05.89	5494- A	
49430	Yadav Subhash Chand	Hari Singh Yadav	VPO: Musepur Distt. Rewari	DHMS	Apr-84	Raj. Board of Homoeo. Med. Jaipur	Haryana	1.05.86	5369- A	
49431	Yadav Sughma	W/o Yadvender Singh	Rty Road Koali Distt.- Rewari (Haryana)	BHMS	Apr-94	University of Rajasthan, Jaipur	Haryana	30.11.99	5672- A	
49432	Yadav, Dharamvir	Om Prakash Yadav	1) Shop No. 1-210, Shivam Chowk, Model Town Rewari 2) Jain Hospital, Jainpuri Rewari.	BHMS	2000	Nagpur University, Nagpur	Haryana	30.05.2002	5692- A	
49433	Yadav, Manoj	Krishan Yadav	Vill- Nongoli Godha Distt.- Rewari	DHMS	1994	Council of Homoeopathic System of Medicine, Punjab Chandigarh	Haryana	5.05.2006	5758- A	
49434	Yadav, Prem Kumar	Kham Chand Yadav	1) Behind Old Truck Union, H.No. A-215, Gandhi Nagar Rewari. 2) Hapsi Nagar Rewari	DHMS	1977	State Homoeopathic Council M.P.	Haryana	24.09.2002	5696- A	
49435	Yadav, Yashvir	Balbir Yadav	1) 136, Sector-1, (NMT) Rewari. 2) Tauru Road, Rajaudi, Gurgaon.	DHMS	Sept. 1986	Rajasthan Board of Homoeo. Medicine, Jaipur.	Haryana	11.04.1991	5541- A	
49436	Yadwinder	Sh. Amrit Lal	H. O. 86, New Ten Sijpura, Near Railway Line, Amritsar (Pb)	DHMS	1985	PUNJAB	Punjab	28/08/1996	1641	
49437	Yamnam Ralimanjari		Vill-Khurai Lamlong P.O.- Porompat 785005 Distt- Imphal East, Manipur	D.H.M.S	Aug-92	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	01.06.98	632	
49438	Yogeeta	Sh. Hans Raj	Kaira Sher Singh Hall Bazar, Amritsar (Pb.)	DHMS	1996	PUNJAB	Punjab	6.4.1998	1829	
49439	Yongyachingm ak		C/O-Saowongto Chang Vill- Yangpi B.P.O.-Longkhim P.O.-Distt-Tueingang, 7986122, Nagaland	B.H.M.S	Aug-06	Dibrugarh University	Assam	22.11.06	983	
49440	Yuvika	Pardeep Sharma	#136, Green Park, Civil Lines, Ludhiana	BHMS	2005	BFUHS	Punjab	18.09.2006	3048	
49441	Zini Khan	Sh. Abdul Rahim Khan	241 - Kharajpur (North) City - Udaipur Distt- Udaipur	BHMS	June, 2007	JNRV, University Udaipur	Rajasthan	15.01.2009	5174	

49442	Zmamm Anesuj	Borholla, Jorhat P.O. + Dist. Jorhat, Assam	D.H.M.S.	Apr-84	Board of Homoeopathic System of Medicine, Assam	Assam	21.09.85	167	
49443	Zohannawia H.T.	C/O-Dr. H.T. Zohannawia Aljwa P.O. - Tungvel 796161 Dist-Fiediveng Tungvel, Mizoram	B.H.M.S.	Oct-04	Dibrugarh University	Assam	21.11.06	981	
49444	Zunnun Ali	H.No. - 4 Jha 14, Vigyan Nagar, City-Kota Dist- Kota	BHMS	May-2007	Raj University, Jaipur	Rajasthan	10.10.2008	5108	CCH - 2733
49445	Yadav Baiju lai	Vill - Repura Rampur Bishnath P.O. - Jaintpur Estate, Dist Muzaffarpur (Bihar) Pcode - 843123	BHMS	Dec-98	Babasaheb Bhim Rao Ambedkar Bihar university Muzaffarpur	Atunachal Pradesh	16.08.2007	74	
49446	Wei Yang hu Dhar	Mawthar Main Road, Shillong	DMS	Jun-75	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Meghalaya	15.10.1984	1	
49447	Subhaji Roy	Akhongin Tura	DHMS	Jun-97	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Meghalaya	31.03.2000	256	
49448	Prima C Nartiang	"Rose Villa" Nongrum Hills Shillong	DHMS	Apr-03	Council of Homoeopathic Medicine West Bengal	Meghalaya	30.07.2004	257	
49449	i Bakor S. Dikhar	Trep Basuk " Lawsohtun, Block - III, Shillong - 4	BHMS	Jul-08	Rajiv Gandhi University Itanagar	Meghalaya	9.07.2008	272	
49450	Pynkhrakupar Marwein	Upper Lanson Lane, Jalaw, Dhillong - 2	BHMS	Aug-08	Rajiv Gandhi University Itanagar	Meghalaya	14.08.2008	274	



LALIT VERMA
Registrar
Central Council Homoeopathy

**CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY
NEW DELHI**

Dated

No. 13-32/2010 CCH/ CRH – VIII The Central Council of Homoeopathy in pursuance of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 21 and Section 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) maintains a Register known as the Central Register of Homoeopathy. Part – II of said Register is being published in the Gazette of India for general information.

From S.No 1 to 31737, from 31738 to 46117, from 46118 to 59120, from 59121 to 60494, and 60495 to 60552 have been included in the Part – II of Central Register of Homoeopathy published in the Gazette of India, No.I, Part – III, Section IV dated January 2, 1993, January 6, 1996, April 26, 2003, October 9, 2004 and November 15, 2008 respectively.



Dr. LALIT VERMA
Registrar
Central Council of Homoeopathy

S.No	Name	Father's/ Husband's Name	Address a) Residential b) Professional	State in which Registered and the authority granting the State registrations	Date of registration in State Register	Registration number given the State register	Date and reason(s) for Remarks removal from the Central Register, if any
1	2	3	4	5	6	7	8
60553	Abrol, Yash Pal	Sh.P.D.Abröl	V&P.O.Khaliyar, Mandid	Himachal Pradesh	22.09.85	827-B	9
60554	Acherjee Sachindra Kumar		Vill-Pub Dhani Ram Pathar P.O.-Hojai Dist- Nagaon, Assam	Assam	12.11.75	1618	
60555	Aditya Satya Rani		Vill-Bara Bari P.O.- Chaitannya Nagar Dist- Karimgang Assam	Assam	01.05.70	1131	
60556	Ahmed Foizuddin		Vill-Panpara P.O.- Senglamari 781318 Dist- Borpeta, Assam	Assam	01.07.74	1438	
60557	Ahmed Haji Molla Ibrahim Ali		Vill-Rawarkuti P.O.- Dimakuri Dist-Goalpara Assam	Assam	20.08.76	1769	
60558	Ali Sahar		Howly Bazar P.O.-Howly Dist-Borpeta Assam	Assam	31.03.76	1701	
60559	Ali Sowab		Vill-Panighat P.O.- Panighat 788716 Dist- Karimgang Assam	Assam	20.09.71	1151	
60560	Badhan, Chaman Lal	Sh.R.R.Badhen	V&P.O.Badsali, Una	Himachal Pradesh	14.03.84	35-B	
60561	Banerjee Kalidas		A.T. Road ,Athgaon Guwahati-1	Assam	14.06.61	165	
60562	Barma Ram Kumar		Panigaon A.T. Road P.O.+Dist-Nagaon Assam	Assam	01.08.67	985	
60563	Barman Tukeswar		Gunemani Homoeo Hall Vill-Boalkamari P.O.- Aminkata Dist-Kokrajhar, Assam	Assam	28.07.75	1571	
60564	Baruah Dilip Kumar		Forest Colony, Budhist Colony Road P.O.-Shilong Assam 793501 Meghalaya		01.05.74	1359	

60565	Baruah Ruhit		Raidingia P.O.-Ai Bheti Dist-Nagaon Assam	Assam	01.05.74	1344	
60566	Baruah Sanat Ranjan		Station Road Rangia P.O.- Rangia Dist-Kamrup Assam	Assam	31.03.76	1706	
60567	Bhagwati Nabin Chandra		Vill-Nartom Gaon P.O.- Nagaon Dist-Nagaon Assam	Assam	20.09.71	1144	
60568	Bhattacharjee Dilip Bhushan		Royal Apartment Harbala Road, Ulubari Guwahati-7	Assam	08.06.62	662	
60569	Bhattacharjee Ramendra Kumar		H.Q.I.G.A.R. Shilong P.O.- Shilong 11 Meghalay	Assam	20.08.76	1812	
60570	Bhattacharjee Tarun		Moran Road P.O.- Naharkati 786610 Dist- Dibrugarh Assam	Assam	28.07.75	1567	
60571	Bhowmik Tapan Ranjan		Vill+P.O.-Chaparmukh Dist-Nagaon Assam	Assam	01.05.74	1720	
60572	Bhuyan Abdul Musabbir		Charitable Homoeo Hali Ferighat Charang P.O.- Katigarh Dist-Cachar Assam	Assam	10.04.74	1482	
60573	Bora Ambu Ram		Bora Homoeo Hali P.O.- Lakhi Pathar Via Dhemaji Dist-Dhemaji Assam	Assam	12.11.75	1619	
60574	Bora Daya Ram		Vill-Adarsha Nagar, Milonpur P.O.-Nagaon 782001 Dist-Nagaon Assam	Assam	10.09.71	1099	
60575	Borbhuyan Asraf Ali		Ajjea Pharmacy Krishnapur Bazar P.O.- Rongpur South Dist- Hailakandhi Assam	Assam	27.03.62	597	

60576	Borbhuyan Jatindra Mohan Nath	Vill-Bhitar Ganga Pur P.O.+Jarai Tala Bazar Dist Assam Cachar, Assam	04.06.62	620
60577	Brahma Manomoth Ranjan	Vill-Bordoloi Colony Hojai Town P.O.-Hojai 782425 Assam Dist-Nagaon Assam	21.11.73	1279
60578	Chackraborty Beni Madhab	T.R. Phukan Road P.O.- Bongaigaon 783380 Dist- Bongaigaon Assam	01.05.74	1379
60579	Chackraborty Ramapada	Vill+P.O.-Bhalukmari Dist- Nagaon Assam	10.10.74	1484
60580	Chackraborty Ranjit Kumar	Vill-Nelli P.O.-Nelli Dist- Morigaon Assam	01.05.74	1334
60581	Chackraborty Sitangsu	Vill+P.O.-Rupahi Dist- Nagaon, Assam	12.11.75	1607
60582	Chackraborty Dilip Kumar	Homoeo Seva Sadan Main Road P.O.- Bongaigaon Dist- Bongaigaon, Assam	17.07.61	470
60583	Chackraborty Rajendra Kumar	Vill-Nelli P.O.-Nelli 782410 Dist-Morigaon Assam	10.09.71	1098
60584	Chandel, Mohan Singh	Vill.Gulanwala, P.O.Baroon a, Nalagarh, Solan Distt Himachal Pradesh	22.02.85	71-B
60585	Chatterjee Dina Bandhu	Nunia Patty A.M.C. Road P.O.-Dhubri Dist-Dhubri Assam	12.11.75	1634
60586	Chowdhury Anirudha Sinha	R.K. Mission Road P.O.- Bidyapara Dist-Dhubri Assam	28.07.75	1572
60587	Das Biswa Bihari	Vill-Bhogeswari Para P.O.- Bongaigaon 783380 Dist- Bongaigaon Assam	20.08.76	1771

60588	Das Debendra Nath	Hahnemann Remedy 2 No. Mathgharia Noon Mati, Guwahati-20	Assam	30.03.77	1778	
60589	Das Debendra Chandra	Howli Bazar Ward No-1 P.O.-Howli 781316 Dist-Borpeta Assam	Assam	20.11.66	915	
60590	Das Girindra Kumar	VIII-Udaiguri P.O.-Udaiguri 784509 Dist-Darrang Assam	Assam	31.03.76	1658	
60591	Das gupta Sujit Kumar	VIII-Bogapani P.O.-Bogapani 786171 Dist-Tinsukia Assam	Assam	08.03.75	1550	
60592	Das Maniklal	Lumding Town P.O.-Lumding Dist-Nagaon, Assam	Assam	12.11.75	1631	
60593	Das Nagendra Kumar	VIII-Uttar Borbill P.O.-Uttar Borbill Dist-Karbainglong Assam	Assam	31.03.76	1709	
60594	Das Narayan Chandra	VIII-P.O.-Kumarikata Dist-Nalbari Assam	Assam	06.06.62	638	
60595	Das Purna Chandra	VIII-Napani, Anjukpani P.O.-Anjukpani Dist-Nagaon, Assam	Assam	10.07.61	393	
60596	Dasgupta Pulin Bihari	Lower Market, Margharita P.O.-Margharita Dist-Tinsukia, Assam	Assam	26.06.61	286	
60597	Deb Abhinash Chandra	Archan Homoeo. Pharmacy Dullejan P.O. Dullejan 786602 Distt. - Dibrugarh Assam	Assam	21.11.73	1312	
60598	Deb Roy Nirmal Kanti	Station Road P.O.-Karimganj Dist-Karimganj Assam	Assam	31.03.76	1733	

60599	Deb Susil Kumar	Sadhana Homoeo Clinic Railway Colony Dist- Dimapur, Nagaland	Assam	26.06.61	226	
60600	Debnath Anil Kumar	Hojai Town, Krishna Nagar P.O.-Hojai Dist- Nagaon, Assam	Assam	10.10.74	1487	
60601	Debnath Narendra Chandra	Vill-Thilkadar Basti P.O.- Jogijan 782429 Dist- Nagaon Assam	Assam	21.11.73	1283	
60602	Debnath Nimai Chandra	Vill-Shubasini Road, Tinsukia Dist-Tinsukia Assam	Assam	18.03.75	1552	
60603	Debnath Ranjit Kumar	Vill-P.O.-Borpeta Road Dist-Borpeta, Assam	Assam	31.03.76	1717	
60604	Deka Nagen	Morigaon Town P.O.-Dist- Morigaon Assam	Assam	10.09.71	1094	
60605	Deka Narendra Nath	Paschim Beltola Kailash Nagar Guwahati-28	Assam	10.09.71	1060	
60606	Dey Babul Chandra	Vill-Najirajan P.O.-Chota Haibor Dist-Nagaon Assam	Assam	31.03.76	1710	
60607	Dey Sovia	Rehabari Guwahati-8	Assam	20.08.76	1776	
60608	Dey Syamal Kumar	Thana Road Kokrajhar P.O.-Kokrajhar 783370 Dist-Kokrajhar, Assam	Assam	31.03.76	1689	
60609	Dihingia Manoj Kumar	Vill-Amlokhi Tea Estate P.O.-Salna Dist-Nagaon Assam	Assam	01.05.74	1387	
60610	Dutta Asutosh	Vill-Sollong P.O.-Borghuli Dist-Nagaon Assam	Assam	07.12.76	1843	
60611	Dutta Chowdhury Tapan Kumar	Vill-Gouripur P.O.- Gouripur Dist-Dhubri, Assam	Assam	10.08.72	1206	

60612	Dutta Durgeswar		Assam Home Research Golaghat Town P.O.+Dist- Golaghat, Assam	Assam	01.08.67	1002	
60613	Ghosh Bimal Chandra		Gangtala Bazar P.O.- Simulguri Dist- Bangalgaon	Assam	01.05.74	1381	
60614	Gogoi Jogendra Nath		VIII-Kachari Hat Kakati Gaon P.O.-Kachari Hat Dist-Sibsagar Assam	Assam	01.05.74	1391	
60615	Gupta, Sat Pal	Sh.K.R. Gupta	161-R, Model Town, Ludhiana (Punjab)	Himachal Pradesh	22.04.85	217-B	
60616	Halder Tara Prasad		Hospital Road P.O.- Tezpur 784001 Dist- Sonitpur Assam	Assam	21.11.73	1310	
60617	Haque Abdul		VIII-Hari Nagar P.O.-Raja Tittar Dist-Cachar Assam	Assam	20.08.76	1760	
60618	Hye Abdul		VIII+P.O.-moulrabari Dist- Morigaon, Assam	Assam	10.10.74	1501	
60619	Jakharia Takshapati		VIII-North Haiborgaon P.O.-Haiborgaon-2 Dist- Nagaon Assam	Assam	20.09.71	1146	
60620	Kalachand Adhikay		Ward No-5 Dhekiajuli P.O. Dhekiajuli Dist-Sonitpur Assam	Assam	12.11.75	1605	
60621	Kalita Golak Chandra		Ananda Homoeo Pharmacy P.O.-Rangia Dist-Kamrup, Assam	Assam	20.08.76	1779	
60622	Kamongo Bisnupria Deb		VIII-Thaligram P.O.- Thaligram Dist-Cachar Assam	Assam	31.03.76	1654	
60623	Kar Harikrishna		VIII-Kanti Ram P.O.- Rangabari Dist-Hailakandi Assam	Assam	01.05.74	1453	
60624	Kar Rabindra		VIII-Sarisha P.O.-Silchar Road Dist-Karimgang Assam	Assam	06.05.67	978	

60625	Karmarkar Manoranjan	Bash Bari (Rajabat) P.O.- Jorhat-14 Dist-Jorhat, Assam	Assam	21.11.73	1273
60626	Kohli, P.N.	Sh.H.L. Kohli E-135, Narain Vihar, N. Delhi -28	Himachal Pradesh	28.06.85	521-B
60627	Kumar, Ramesh	Sh.Bulita Ram V.P.O.Batta Mandi, Pounta, Sirmour	Himachal Pradesh	15.06.85	489-B
60628	Laskar Abdul Latif	Vill-Boalipara Bazar P.O.- Boalipara Bazar Dist- Haikhandi Assam	Assam	10.08.72	1213
60629	Laskar Abdurnur	Vill-Chipur Songon Part-3 P.O.-Dist-Hailakandi Assam	Assam	10.09.71	1040
60630	Mahanta Premkanta	Mahanta Homoeo Pharmacy Samaguri, Dist- Nagaon Assam	Assam	20.08.76	1808
60631	Majumdar Bimal Krishna	Homoeo Pharmacy, Lanka P.O.-Lanka Dist- Nagaon Assam	Assam	07.12.76	1856
60632	Majumdar Debabrata	Jisukalyan Homoeo Hall Agartala Tripura	Assam	08.03.75	1549
60633	Majumdar Pauchu	Vill-Inathpur P.O.- Amborkhana 788712 Dist- Karingang Assam	Assam	10.07.71	1079
60634	Malik Dr.	Hanemann Homoeo Hall P.O.-Lumding Dist- Nagaon, Assam	Assam	17.06.64	811
60635	Malik Khitish Ranjan	Malik Clinic Borpeta Road 781415 Dist-Borpeta Assam	Assam	10.10.74	1454
60636	Malik, R.M.	Sh.F.H. Malik Staff Calony, Village Baru, P.O. Mohin, Dist. Hamir Pur Waring Address	Himachal Pradesh	22.5.85	388-B

60637	Mallick Janardhan		Vill-Paschim Amarkanda P.O.-Garajan Bazar Dist- Nagaon, Assam	Assam	31.03.76	1729	
60638	Mast Ram	Sh. Parma Nand	Vill.Naulakha, P.O. Kalaid, Sunder nager, Mandi.	Himachal Pradesh	16.12.85	953-B	
60639	Medhi Dmbeswar		Vill-Bamphor P.O.- Topatali Dist-Kamrup Assam	Assam	10.09.71	1093	
60640	Mitra Jiban		Karuna Bari P.O.-Laluk Dist-North Lakhimpur, Assam	Assam	12.11.75	1614	
60641	Nadi Sibn Kumar		Drug House P.O.-Lanka 782446 Dist-Nagaon Assam	Assam	31.03.76	1741	
60642	Nandi Madhusudhan		Railway Quarter No-109 Bamunimaidan Guwahati- 22	Assam	20.08.76	1781	
60643	Nandi Sukkendu Bikash		Jnakalyan Seva Sadan Netajee Road P.O.- Lumding Dist-Nagaon Assam	Assam	01.05.74	1382	
60644	Nath Khagendra Kumar		Vill-Panch noi P.O.- Hugrajali Dist-Sonitpur, Assam	Assam	08.03.75	1548	
60645	Nath Monilal		Vill-Batalya P.O.- Mullaganj Dist-Karimganj, Assam	Assam	01.05.74	1374	
60646	Nath Narendra Charan		Santimoy Homoeo Clinic Near Signal or Office Badarpur P.O.-Badarpur Dist-Karimgang 788806, Assam	Assam	22.06.61	245	
60647	Neog Anil Chandra		Chaya Homoeo Hall B.N. Bose Road P.O.-Dist- Dhubri, Assam	Assam	28.12.67	981	
60648	Pandit Arun Chandra		Vill-Haiborgaon Railway Station Road P.O.- Haiborgaon-2 Dist- Nagaon Assam	Assam	08.03.75	1509	

60649	Paul Asim Kumar	A.D.P. Road Nagaon P.O.- Nagaon-1 Dist-Nagaon, Assam	31.03.76	1712	
60650	Paul Dilip Narayan	P.O.-Lumding Dist- Nagaon, Assam	12.11.75	1632	
60651	Paul Kumud Ranjan	Vill-Kaligang Bazar P.O.- Kaligang Bazar 788720 Dist-Karimgang Assam	29.11.66	863	
60652	Paul Mun Rudra	Thana Road Ward No.8 P.O.-North Lakhimpur Dist-Lakhimpur Assam	12.11.75	1621	
60653	Paul Sailen Krishna	Jorhat-1 Dist-Jorhat Assam	10.07.61	372	
60654	Phanindra Narayan	Vill-Neogipara P.O.- Salkocha Dist-Dhubri Assam	31.07.74	1424	
60655	Prasad Kamakhya	Dhekiajuli Ward No.1 P.O.- Dhekiajuli Dist-Dhekiajuli Assam	01.05.75	1351	
60656	Prasad Ramsurat	Homoeo Santiniketan P.O.-Hojai Dist-Nagaon, Assam	03.02.63	750	
60657	Purkayastha Rathis Ranjan Kar	4-Sonali Complex S.Dhar Lane Ambika Patty Silchar 788004 Dist- Cachar Assam	10.09.71	1128	
60658	Rahaman Lutfur	Vill-Nilbagan Bazar P.O.- Nilbagan Dist-Nagaon Assam	08.03.75	1521	
60659	Rahaman Salman	Khatoon Pharmacy Moniram Dewan Road P.O.-Dist-Nagaon, Assam	10.10.74	1485	
60660	Roy Dayal Chandra	Vill-Ghungor P.O.-Silchar Medical College Dist- Cachar, Assam	18.01.67	881	

60661	Roy Debatosh Hom	Roy Homoeo Hall L.I.C. Road Digboi Dist-Dibrugarh Assam	Assam	31.03.76	1649	
60662	Roy Mukunda Bihari	VIII+P.O.-Chatazalanga Bazar Dist-Cachar, Assam	Assam	10.08.72	1212	
60663	Roy Nalini Kanta	Station Road P.O.-Durlav Chera 788736 Dist-Karimgang Assam	Assam	29.11.66	918	
60664	Roy Nirmal Chandra	VIII-Majbat P.O.-Majbat Dist-Darrang Assam	Assam	01.05.74	1349	
60665	Roy Sattya Gopal	VIII+P.O.-Tulsibari 781376 Dist-Kamrup, Assam	Assam	20.06.61	223	
60666	Roy Subhas	Bilashi Para Town P.O.-Bilashi Para Dist-Dhubri Assam	Assam	12.11.75	1612	
60667	Saha Amarnath	VIII-Amribari P.O.-Amribari via Balipara 724101 Dist-Sonitpaur Assam	Assam	07.12.76	1842	
60668	Saha Nani Gopal	Goalpara Town P.O.-Goalpara 783101 Dist-Goalpara Assam	Assam	01.05.74	1380	
60669	Saha Sudhir Kumar	Milon Nagar, Lakhimpur P.O.-Lakhimpur 783129 Dist-Goalpara Assam	Assam	31.03.76	1684	
60670	Saikia Dipen	VIII-Sidha Bari P.O.-Ahatguri Dist-Morigaon Assam	Assam	31.03.76	1744	
60671	Saikia Pravat Kumar	VIII-Panigaon Chaya Ali P.O.-Panigaon Dist-Nagaon Assam	Assam	01.05.74	1342	

60672	Samsuddin Ahmed	Vill-Lanka Bazar P.O.- Lanka 782446 Dist- Nagaon Assam	Assam	10.09.71	1141
60673	Sarkar Gouranga	Jagdish Homoeo Clinic North Bhumoraguri P.O.- Ambagan Dist-Nagaon Assam	Assam	07.12.76	1844
60674	Sarkar Sagir Ali	Vill-Balkamari P.O.- Tulsibil Dist-Kokrajhar Assam	Assam	08.03.75	1538
60675	Sarma Anil Krishna	Joydurga Homoeo Hall N.S. Road Dharma Nagar, Tripura	Assam	20.08.76	1819
60676	Sarma Bordoloi Toseswar	Vill-Mahariati P.O.-Bebejia Dist-Nagaon Assam	Assam	21.11.73	1274
60677	Sarma Dimbeswar	Vill-Bebejia P.O.-Bebejia Dist-Nagaon, Assam	Assam	10.08.72	1191
60678	Sarma Jagamohan	Vill-Puranigudam P.O.- Puranigudam Dist- Nagaon Assam	Assam	10.09.71	1136
60679	Sarma Joydeb	Vill-P.O.-Duni Dist- Darrang, Assam	Assam	05.07.61	335
60680	Sarma Kanak Chandra	Fatasil Guwahati-9	Assam	01.05.74	1331
60681	Sarma Laxmi Nath	Rup Nagar, Guwahati Guwahati-32	Assam	28.07.75	1564
60682	Sarma Nalini Kanta	Vill-Ita Chali T.D. Road P.O.-Dist-Nagaon Assam	Assam	20.09.71	1145
60683	Sarma Nareswar	Vill-Bongalikuchi P.O.- Rangia Dist-Kamrup Assam	Assam	31.03.76	1735
60684	Sarma Prafulla Kumar	Japarkuchi Nalbari P.O.- Terechla via Nalbari Dist- Nalbari Assam	Assam	20.09.71	1158
60685	Sarma Prafulla Kumar	Vill-Bornadi Dist-Nalbari, Assam	Assam	31.03.76	1694

60686	Sarma Ramesh Chandra	Vill-Bhogpur P.O.- Bhologuri 781318 Dist- Borpeta Assam	Assam	06.12.62	645	
60687	Sarma Rameswar	Homeswar Homoeo Hall Chalk Bazar P.O.- Mugkuchi Dist-Nailbari Assam	Assam	07.12.76	1870	
60688	Sarma Shankar Dhar	Homoeo Medical Hall K.B. Road P.O.-N.Lakhimpur Dist-Lakhimpur Assam	Assam	12.11.75	1617	
60689	Sarma Susil Chandra	Kathal Mura P.O.- Jalukhana Via Tihu Dist- Nailbari, Assam	Assam	31.03.76	1693	
60690	Sengupta Chira Ranjan	Anandaa Bazar, A.T. Road P.O.-Makum 786170 Dist- Tinsukia Assam	Assam	26.06.61	287	
60691	Sharma, Anju	Sharma Clinic, The Mall solan	Himachal Pradesh	29.04.85	301-B	
60692	Sharma, Prem Chand	H.NO 20, Durga Calony, Nangal, Una, National Highway, Una	Himachal Pradesh	07.03.85	161-B	
60693	Sharma, Sukhdev	V&P.O.Lambloo, Distt Hamir Pur	Himachal Pradesh	14.05.85	376-B	
60694	Sikka Birendra Kumar	D- 58 Jahangirpuri	Rajasthan	5.08.72	2204	
60695	Singh Ramagya	VIII-Dharamtul P.O.- Dharamtul Dist-Nagaon Assam	Assam	01.07.74	1403	
60696	Singh, Santokh	V&P.O.Santokhgarh, Una.	Himachal Pradesh	25.10.85	910-B	
60697	Singh, Sawan	VIII. Jawaharpur, P.O. Derabassi, Patiala (Punjab)	Himachal Pradesh	16.08.85	666-B	
60698	Singh, Shamsheer	VIII.Sangti, P.O. Summer Hill, Shimla-5	Himachal Pradesh	19.09.85	692-B	
60699	Smt Leelawati	V&P.O. Haripur, Kullu.	Himachal Pradesh	25.10.85	913-B	

60700	Srivastav Harendra Kumar	Dispur Guwahati-5 Assam	20.08.76	1788
60701	Swami Saktipada	P.O.-Latu Dist-Karimgang Assam	29.11.66	871
60702	Talukdar Susanta Ranjan	Vill+P.O.-Laharighat Dist- Morigaon Assam	08.03.75	1507
60703	Thakur, Mohan Singh	Mohalla Dhalpur, Kullu Himachal Pradesh	16.12.85	958-B
60704	Thangalangian Lal S.L.	Jain Medical Store P.O.- Aizwal Dist-Aizwal Mizoram	20.01.82	795
60705	Thonga C.Lal Himing	Vill-Kawrtheta P.O.- Kawrtheta Mizoram Hills Assam	26.12.66	969
60706	Uddin Basir	Sri Gauri Bajar P.O.-Gauri Bajar Dist-Karimganj Assam	20.08.76	1828
60707	Verma, Desh Raj Sh.K.C. Verma	322, Set No.7, Jujhar Nagar, Patiala (PB) Himachal Pradesh	14.05.85	377-B
60708	Wahob Abdul	Abdul Homoeo Hall Vill- Herapatty P.O.-Soumari Dist-Nagaon Assam	20.08.76	1803

LALIT VERMA
Registrar
Central Council Homoeopathy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010